

हैं। जिस ढंग से वह लिखा गया है, स्कूल-कालेज के छात्रों के लिए वह बड़ा अनुकूल है।

अशुद्धियाँ कुछ अधिक हो गई हैं, इसका मुख्य कारण यह है कि तामसकरजी ने पुस्तक बहुत जल्दी में और पेंसिल से लिखकर भेजी थी। इसीलिए, विशिष्ट अशुद्धियों का शुद्धि-पत्र अन्त में दे दिया गया है। ध्याशा है, पाठक उन्हें शुद्ध कर लेंगे।

प्रकाशक

---

## भारत-निवेदन

महाराष्ट्र के इतिहास से मेरा परिचय हुए करीब पच्चीस साल हो गये। सन् १९०५ में हृदय में अनेक प्रेरणायें उठीं, उन्हींमें से एक ने महाराष्ट्र के इतिहास के पठन और मगन की रुचि पैदा की। उस समय विलासपुर में इस इतिहास की जो पुरतकें मिल सकीं, उन्हें मैंने उसी समय पढ़ डाला था। तदनन्तर इसी प्रकारकी दूसरी उमंग सन् १९१४ में पैदा हुई—और, उसीके कारण, 'शिवाजी की योग्यता' में सङ्कलित लेख "भर्यादा" में मैंने प्रकाशित किये। फिर सन् १९१८ में इन्दौर के एक सज्जन ने महाराष्ट्र का एक छोटा-सा इतिहास लिखने के लिए कहा। तदनुसार मैंने कुछ सामग्री जुटाना आरम्भ किया, पर कई कारणों से उस समय की तैयारी ज्यों की त्यों रह गई। सन् १९२९ की जुलाई में आर्थिक कठिनाइयों के कारण अनेक प्रकाशक महाशयों को मैंने सहायता के लिए पत्र लिखे, उनमें मैंने अपने मित्र श्री हरिभाऊ उपाध्याय को भी लिखा था। आपने ही इस पुस्तक को लिखने की सूचना की। अन्त में तबखबर तक सब शर्तें तय हो गईं और फिर मैं इस पुस्तक को लिखने की तैयारी में लगा। अब मैं सहर्ष इसे उपस्थित करता हूँ।

इस पुस्तक में मेरा निजी वर्णन या दिवेचन बहुत कम है। इस इतिहास की सामग्री मराठी भाषा में इतनी अधिक है कि उस सबको केवल पढ़ने में किसी भी दीर्घायुषी पुरुष वा जीवन समाप्त हो सकता है। श्री राजवाड़े, साने, खरे, पारसनीस, रानडे आदि महाशयों के श्रम से महाराष्ट्र के इतिहास की ढेरों सामग्री इकट्ठा हो गई है। इन सबको बटोर कर और मन्थन कर केवल ५-६ सौ पृष्ठों के लिए आवश्यक सामग्री

तैयार करना बड़ा ही कठिन और खर्चीला काम है। इसलिए मुझे अधिकतर श्री सरदेसाई, रानडे, किंकेड, पारसनीस, द० वि० आपटे, मोड़क, साने, केलकर, सुरेन्द्रनाथ सेन, दिवेकर आदि लेखकों की मौलिक रचनाओं पर ही अवलंबित रहना पड़ा है। यह काम भी कोई छोटा न था। ऐसी मौलिक पुस्तकें भी सैकड़ों तैयार हो गई हैं। उन सबका भी उपयोग करना मेरे लिए शक्य न हो सका। इसलिए मुझे उनमें से भी कुछ चुनी हुई पुस्तकों पर ही अधिकतर जोर देना पड़ा। जिन-जिन पुस्तकों का मैंने उपयोग किया है, उनमें से मुख्य ये हैं:—

- ( १ ) सर देसाई : मराठी रियासत ( पूर्वार्ध ) ।
- ( २ ) " : मराठी रियासत—मध्य-विभाग १-४ ।
- ( ३ ) " : ननासाहेब पेशवे ।
- ( ४ ) न० चि० केलकर : मराठे आणि इंग्रज ।
- ( ५ ) किंकेड और पारसनीस : History of the Marathas, Vols I-III.
- ( ६ ) वि० का० राजवाड़े : ऐतिहासिक प्रस्तावना ।
- ( ७ ) द० वि० आपटे : महाराष्ट्र-इतिहास-मंजरी ।
- ( ८ ) चिटणीस : श्री शिवछत्रपती महाराज ।
- ( ९ ) कृ० वि० सोहनी : पेशव्यांची बखर ( सम्पादक—रा० व० का० ना० साने ) ।
- ( १० ) वा० वा० खरे : मराठी राज्याचा उत्तरार्ध ।
- ( ११ ) भाऊसाहेबची बखर ( सम्पादक—रा० व० का० ना० साने )
- ( १२ ) शिवचरित्र साहित्य ( सम्पादक—कृ० वा० पुरन्दरे )
- ( १३ ) शिवचरित्र प्रदीप ( सम्पादक—द० वि० आपटे, स० म० दिवेकर )
- ( १४ ) परमानन्द कवि : शिवभारत ( सम्पादक—स० म० दिवेकर )
- ( १५ ) यदुनाथ सरकार : Shivaji and his times,





अप्रकाशित निबन्ध की टाइप की हुई प्रति भेजकर मुझे बहुत अनुगृहीत किया है। इस पुस्तक में जो चित्र दिये हैं, उन्हें श्री काले महाशय ने श्री एस० डी० बोकिल से प्राप्त कर दिये हैं। अतः उक्त दोनों महाशय धन्यवाद के पात्र हैं।

इस पुस्तक की आधारान्मक पुस्तकों में से बहुत-सी पुस्तकों के नाम स्पेन्स ट्रेनिंग कॉलेज के अध्यापक श्री गङ्गाधर गोविन्द कानेटकर जी ने सुझाये। अतः मैं उनको भी इस सहायता के लिए धन्यवाद देता हूँ।

अन्त में मैं इस पुस्तक के प्रकाशक अजमेर के सस्ता-साहित्य-मण्डल के अधिकारियों को अनेक धन्यवाद देता हूँ। इन्हींकी प्रेरणा और सहायता से मैं यह पुस्तक हिन्दी-संसार को समर्पित कर सका हूँ।

स्पेन्स ट्रेनिंग कॉलेज, }  
जबलपुर ।

विनीत  
गोपाल दामोदर तामसकर

# विषय-सूची

## अध्याय

१. महाराष्ट्र के इतिहास का महत्व
२. महाराष्ट्र-परिचय ... ..
३. पूर्व-इतिहास और हिन्दू-काल ...
४. मुसलमान-काल ... ..
५. भोंसलों का अभ्युदय ...
६. शिवाजी का उदय ... ..
७. स्वराज्य-स्थापना की कल्पना ...
८. उपयुक्त परिस्थिति ... ..
९. स्वराज्य-स्थापना का प्रारम्भ ...
- ✓ १०. मुगलों से प्रथम युद्ध ...
११. कैद, मुक्ति और स्वराज्य की मान्यता
१२. औरंगजेब और आदिलशाह में युद्ध
१३. राज्याभिषेक और अन्त ...
१४. मराठों का जंगी वेड़ा ...
१५. शिवाजी की शासन-व्यवस्था
१६. शिवाजी का शील, स्वभाव तथा योग्यता
१७. महाराष्ट्र

	अध्याय	पृष्ठ
२०.	“मूले कुठारः” की नीति ... ..	२४९
२१.	मराठा-राज्य का मुख्य शासक पेशवा ... ..	२७८
२२.	उत्कर्ष की सीमा ... ..	२९५
२३.	पानीपत की भयंकर लड़ाई ... ..	३१५
२४.	मराठा जहाजी वेड़े का विनाश ... ..	३३०
२५.	माधवराव पेशवा ... ..	३३९
२६.	वारहभाई की खेती ... ..	३६२
२७.	सवाई माधवराव ... ..	३८३
२८.	पेशवा द्वितीय बाजीराव और मराठाशाही का अन्त ... ..	४०४
२९.	सन् १८१८ के बाद ... ..	४२७
३०.	पेशवा की शासन-व्यवस्था ... ..	४३७
३१.	मराठों की सामाजिक व्यवस्था, स्थिति और रीति-भाँति ... ..	४७६
३२.	कला-कौशल्य और साहित्य ... ..	५०६
३३.	मराठी सत्ता का विनाश ... ..	५७३

### परिशिष्ट

१. वंशावलियाँ
२. शिवाजी की वास्तविक जन्म-तिथि
३. घटनावलियाँ
४. अशुद्धि-संशोधन



परायण का उद्धार माय प्रभु



छत्रपति शिवाजी

मराठों का

उत्थान और पतन





## महाराष्ट्र के इतिहास का महत्व

इतिहास से अनेक लाभ हैं। उनमें सबसे भारी लाभ जो दीख पड़ता है, वह प्राकृतिक शास्त्रों के लाभों से मिलता-जुलता इतिहास और प्राकृतिक शास्त्रों की तुलना ही है। प्राकृतिक शास्त्रों में हम देखते हैं कि किसी विशिष्ट परिस्थिति में, विशिष्ट कारणों के, विशिष्ट ही परिणाम होते हैं। हमें मालूम है कि लोहा गरम होने पर सदैव फैला करता है। इससे हम यह जान सकते हैं कि किसी विशेष अवस्था में लोहा यदि गरम हुआ तो वह अवश्य फैलेगा और इस विकार से होने वाले परिणाम अवश्य होंगे। इतिहास के द्वारा हम भविष्य की बात का जो अनुमान कर सकते हैं, वह उपरिलिखित नियम के अनुसार ही होता है। यह सब जानते ही हैं कि इस रीति का उपयोग सब मनुष्य सदैव किया करते हैं। कोई मनुष्य विशिष्ट परिस्थिति में कैसा वर्तव करेगा, यह हम उसके विषय के अपने ज्ञान से यानी उसके जीवन के इतिहास से जाना करते हैं। इस प्रकार के कार्य-कारण-सम्बन्ध



का विचार करके, इतिहास के आधार पर, हम कितने ही भविष्य रचा करते हैं। इतिहास में हम केवल घटनाओं का ही वर्णन नहीं किन्तु उनकी परिस्थिति और परिणाम भी पढ़ा करते हैं। और उपरिलिखित नियम के अनुसार हम देखते हैं कि जब कभी वैसी ही परिस्थिति उत्पन्न हुई, और, उस समय घटना के कारण वे ही रहे, तो परिणाम भी वे ही हुए हैं। इसीके आधार पर हम यह भविष्य कह सकते हैं कि जब कभी वही परिस्थिति उत्पन्न होगी और वे ही कारण उस समय होंगे, तब परिणाम भी वही होगा।

परिणामों को पहले से ही जान लेना कुछ कम लाभदायक नहीं है। जिस प्रकार प्राकृतिक शास्त्रों के अनुसार भारी परिणाम इतिहास के ज्ञान का भविष्य पहले से ही ज्ञात होने से हमें उचित कार्य कार्यों के लिए उपयोग करने का अवसर मिलता है, हम अपने कार्यों को ऐसा रच सकते हैं कि उनके विशिष्ट परिणाम हों, उसी प्रकार इतिहास के ज्ञान से भी लाभ होता है।

नित्य जीवन के अनुभव के आधार पर यदि हम अपने कार्यों की प्रणाली रच सकते हैं, तो सैकड़ों वर्षों के सामाजिक और वैयक्तिक अनुभव के आधार पर हम अपने कार्यों को क्यों नहीं रच सकेंगे? ठोकर खाकर ज्ञान सीखने की अपेक्षा दूसरों के ज्ञान यानी अनुभवों का उपयोग करना उपयुक्त भी है। उससे समय, श्रम और हानि तीनों की बचत होती है। इतिहास अनुभवों का भण्डार है। उसमें मनुष्य-जीवन के नाना प्रकार के सैकड़ों अनुभव भरे पड़े हैं। जीवन के अनुभव की पाठशाला एक तो स्वयं जीवन है, दूसरी है इतिहास। जीवन की पाठशाला में अनुभव प्राप्त करने बैठने से श्रम और समय व्यर्थ खोने पड़ते हैं और बहुत

हानि उठानो पड़ती है। हमारा जीवन इतना बड़ा नहीं है कि पहले हम अनुभव प्राप्त कर लें और फिर अपनी कार्य-प्रणाली निश्चित करें। पहले ही सोच-समझ कर काम करना होता है। इसलिए दूसरी पाठशाला में अनुभव का ज्ञान प्राप्त करना सब तरह से लाभकारी है। सारांश, इतिहास के ज्ञान से हमारा श्रम और समय बच सकता है और हानि होने का डर कम हो जाता है। अतएव जिस प्रकार किसी व्यक्ति के हेतु किये जानेवाले कार्यों के लिए उस व्यक्ति का इतिहास जानना आवश्यक है, उसी प्रकार किसी समाज के लिए किये जानेवाले कार्यों के लिए उस समाज का इतिहास जानना आवश्यक है। अन्यथा सैकड़ों भूलें हो सकती हैं। हमारे कार्यों के अनपेक्षित परिणाम होते हैं और सबको अनेक प्रकार की हानि उठानी पड़ती है।

हमारा यह कहना नहीं है कि इतिहास और प्राकृतिक शास्त्रों के कार्य-कारणों की तुलना पूरी-पूरी हो सकती है। इतिहास में और इतिहास आलोचनात्मक प्राकृतिक शास्त्रों में एक बड़ा भारी अन्तर शास्त्र है तो स्पष्ट ही है। प्राकृतिक शास्त्रों में पदार्थ-विज्ञान, रसायनशास्त्र इत्यादि बहुत-कुछ और वनस्पति-शास्त्र, जीवन-शास्त्र इत्यादि थोड़े-बहुत अंशों में प्रयोगात्मक शास्त्र हैं। उनका प्रयोग कर सकते हैं और परिणाम भी बहुत-कुछ प्रत्यक्ष देख सकते हैं। पर इतिहास में यह बात नहीं है। इतिहास में प्रयोग के अनुभव नहीं देख सकते। मनुष्य-जीवन में स्वाभाविक तौर पर जो अनुभव मिलते हैं, उनका इतिहास में संग्रह रहता है और हमें उन्हींका उपयोग करना होता है। इतिहास में मनुष्य-जीवन के प्रयोग नहीं किये जा सकते, जहाँ कहीं ऐसे कृत्रिम

## मराठों का उत्थान और पतन

अनुभव करने का प्रयत्न हुआ वहीं लोग सफल नहीं हुए। सारांश, प्राकृतिक शास्त्रों के सिद्धान्तों की सत्यता कई बार प्रयोग करके जान सकते हैं, पर इतिहास में उसमें संग्रहीत अनुभवों पर ही निर्भर रहना होता है। हम उन अनुभवों की आलोचना करके सिद्धान्त निकाला करते हैं। प्राकृतिक शास्त्र प्रयोगात्मक है, इतिहास आलोचनात्मक है। इससे निकलनेवाला एक भेद इन दोनों में और है। जिन शास्त्रों में प्रयोग की सम्भावना अधिक है उनमें प्रयोगों की परिस्थिति का नियन्त्रण हम कर सकते हैं; यानी जितनी चाहिए उतनी गरमी दे सकते हैं, उचित परिमाण में वस्तुयें ले सकते हैं और उन्ही यंत्रों का उपयोग हम बार-बार कर सकते हैं। इस प्रकार परिस्थिति को हम प्रयोग के उपयुक्त बना सकते हैं। पर आलोचनात्मक शास्त्रों में परिस्थिति बदला करती है। निर्जीव पदार्थों पर जहाँ प्रयोग होता है वहाँ परिस्थिति क़रीब-क़रीब एकसी रहती है, उसका हम इच्छानुसार उचित नियंत्रण कर सकते हैं। वनस्पतिशास्त्र में परिस्थिति का नियंत्रण भरपूर नहीं हो सकता और इसलिए उसमें प्रयोग के लिए स्थान भी कुछ कम रहता है। जीवशास्त्र में परिस्थिति के नियंत्रण और प्रयोग की संभावना और भी कम हो जाती है और मनुष्य के वैयक्तिक जीवन में उससे भी कम। सामाजिक जीवन में तो इसके लिए स्थान प्रायः नहीं के बराबर है। जो कुछ अनुभव दीख पड़ें उनमें बहुत समान कौन से हैं, कब-कब क़रीब-क़रीब समान परिस्थिति रही, क़रीब-क़रीब समान कारण कौन रहे, और क़रीब-क़रीब समान परिणाम कौन हुए, यह देखकर हमें अपने सिद्धान्त स्थिर करने पड़ते हैं।

विलकुल एक-सी परिस्थिति इतिहास में दो बार मिलना प्रायः असम्भव है। ऐतिहासिक परिस्थितियों में थोड़ी-बहुत समानता हो सकती है, पर पूरी एकता कभी नहीं। इस कारण हमारे ऐतिहासिक सिद्धान्त प्रयोगात्मक शास्त्रों की भाँति अटल नहीं हो सकते, उनमें थोड़ा-बहुत परिवर्तन हो सकता है। कभी-कभी परिस्थिति, कारण और परिणाम का ज्ञान भी इतिहास में पूर्णतया ठीक नहीं रहता। इस कारण सिद्धान्तों की सत्यता थोड़ी और कम हो जाती है। पर इतने दोष रहने पर भी इतिहास का लाभ बड़ा भारी है। इसके सिवाय जब कोई दूसरी अनुभव-शाला है नहीं, तब इसका उत्तम उपयोग कर लेना अत्यन्त आवश्यक है।

ऊपर बताये लाभ से मिलता-जुलता एक लाभ और है। कार्यों से जिस प्रकार किसी की मनःप्रवृत्ति मालूम हो जाती है इतिहास से समाज की और इसके लिए जिस प्रकार उसके मनःप्रवृत्ति का ज्ञान कार्यों की आलोचना करनी पड़ती है, होता है उसी प्रकार समाज की मनःप्रवृत्ति जानने के लिए समाज के कार्यों की आलोचना करनी पड़ती है। कोई कार्य होने के पहले मन में उसकी भावनायें उठती हैं, फिर तदनुसार कार्य होता है। हमारे कार्य हमारी भावनाओं के वहिःपरिणाम हैं। इस प्रकार कार्यों से भावनाओं का ज्ञान होता है। इसी प्रकार किसी के मन को हम जानते हैं। यही बात राष्ट्र के मन के विषय में चरितार्थ होती है। एक दृष्टि से देखा जाय तो इतिहास मनःप्रवृत्तियों का वहिःस्वरूप ही

मराओं का उत्थान और पतन

है। उसमें समाज और व्यक्ति का मन बहुत-कुछ पड़ा जा सकता है। और यह ज्ञान हमें अपने कार्यों को निश्चित करने के लिए सहायक होता है।

इतिहास से यह भी बात मात्तूम होती है कि किसी बात को बनने के लिए बहुत काल चाहिए। सुधार धीरे-धीरे ही होता है। कोई भी बात एक दिन में नहीं बन जाती। अंग्रेजी में कहावत है कि “रोम धीरे-धीरे हो सकता है एक दिन में नहीं बना।” इस कहावत में शनैःशनैः सुधार का तत्त्व भरा हुआ है। इस कारण सच्चा इतिहासज्ञ कार्य और विचार में उतावला नहीं होता। वह किसी भी सुधार का ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करता है और इसके लिए वह उचित समय भी देता है। उतावलेपन से काम बनने की अपेक्षा विगड़ने की सम्भावना अधिक रहती है। विशेष कर समाज पर कोई भी सुधार एकदम लाद देना अनुपयुक्त होता है। मनुष्य की परिस्थिति और कार्यों में भूत, वर्तमान और भविष्य नितान्त जकड़े रहते हैं। आज की बात वर्तमान में है, कल के लिए वह भविष्य में थी, और आज का दिन बीत जाने पर भूत-काल में चली जायगी। मनुष्य-समाज में ऐसी अवस्था बहुधा कम आती है कि जब भूत से वर्तमान का या वर्तमान से भविष्य का सम्बन्ध पूर्णतया टूट जाता है। परिवर्तन धीरे ही धीरे होता है। सुधार के लिए जबतक समाज तैयार न होगा, तबतक जबरदस्ती या उतावलेपन से कोई लाभ नहीं।

इतिहास के जो उपर्युक्त तीन उपयोग हमने बताये हैं वे परस्पर बहुत सम्बद्ध हैं और इतिहास के पठन-पाठन के महत्व

को स्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं ।

इतिहास के ज्ञान की  
आवश्यकता

सारांश यह है कि जिस किसी समाज से जिस किसी का किसी भी दृष्टि से

सम्बन्ध पड़ता है उस समाज का पूर्ण चरित्र यानी इतिहास उस व्यक्ति को अपने कार्यों के लिए जान लेना अत्यन्त आवश्यक है ।

परन्तु इतिहास के लाभ इतने में ही परिमित नहीं होते । उससे ये व्यावहारिक लाभ तो हैं ही, पर कुछ नैतिक और मानसिक

लाभ भी हैं । इतिहास से एक बड़ा भारी

इतिहास से स्वदेशाभि-  
मान की जागृति

नैतिक लाभ यह है कि उससे स्वदेशाभि-  
मान की जागृति होती है । अपने पूर्वजों

के सम्बन्ध के ज्ञान से उनके विषय में अपना पूज्य भाव बढ़ता है और उनके वंशज होने का, उन्हींके देश में पैदा होने का,

हमें अभिमान होता है । हिन्दुस्थानियों को तो यह बात और भी अधिक लागू होती है । गत कुछ काल से हिन्दुस्थान के

इतिहास के अन्वेषण, लेखन और मनन की मात्रा बहुत कुछ बढ़ गई है, वह बहुतांश में इसी प्रवृत्ति का परिणाम है । स्वदेशा-

भिमान का परिणाम कार्य के रूप में होता है । मनुष्य अनुकरण-शील प्राणी है और दूसरों की अपेक्षा अपने ही लोगों का अनु-

करण अधिक करता है । इस तरह पूर्वजों के उदाहरणों से हम-में कार्य-शक्ति का सञ्चार हुआ करता है और उनसे भी बढ़ कर

कार्य कर दिखाने की इच्छा हममें पैदा होती है । साथ ही सबे इतिहास के ज्ञान से अन्ध-अभिमान दूर हो जाता है । उचित

मराठों का उत्थान और पतन

ज्ञान होने से, पूर्वजों के दोष और गुण जानने से, और अनेक समान उदाहरण देखने से हम यह जान सकते हैं कि हमारे अभिमान का आधार युक्तियुक्त है या नहीं। इस प्रकार बृथा अभिमान दूर हो जाता है। परन्तु जो कुछ अभिमान रहता है वह पक्का रहता है और उसीसे ऊपर निर्दिष्ट की हुई कार्य-शक्ति उत्पन्न होती है।

इतिहास से एक नैतिक लाभ और है। इतिहास के अन्वेषण, पठन और मनन से सत्य बातें जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। यह इच्छा इतनी बढ़ जा सकती है

इतिहास से सत्य-प्रेम  
बढ़ता है

कि फिर सत्य से प्रेम हो जाता है और असत्य से घृणा मालूम होती है। हाँ,

केवल पठन और मनन से यह लाभ होने की सम्भावना कम रहती है। उसके साथ अन्वेषण की भी प्रवृत्ति होनी चाहिए। सत्य बातों की खोज करते-करते सत्य से प्रेम हो जाता है, फिर सत्य ढूँढ निकालने में चाहे जैसे कष्ट उठाये जा सकते हैं।

इतिहास पढ़ते-पढ़ते मन की प्रवृत्ति ही इतिहासात्मक बन जाती है। सब बातों को हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखने लगते

हैं। किसी भी बात पर विचार करने के इतिहास के ज्ञान से ऐतिहासिक दृष्टि की उत्पत्ति पहले उसके इतिहास को जानना चाहते हैं और उस दृष्टि से उसके सम्बन्ध के

निर्णय हम स्थिर करते हैं। आगे चल कर यह लाभ होता है कि मन उदार हो जाता है। अनेक अनुभवों के ज्ञान से मन संकुचित नहीं रह जाता। हमें मालूम रहता है कि ऐसी बातें इतिहास में हुई हैं, मनुष्य के अमुक विचार स्वाभाविक हैं, अमुक-

अमुक कार्य मनुष्य-स्वभाव के विरुद्ध नहीं हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि इतिहास से मनुष्य-स्वभाव का ज्ञान होता है। यह ज्ञान होने पर यह सम्भव नहीं कि हमारा मन पहले-जैसा ही संकुचित बना रहे। वह अवश्य उदार होगा।

इतिहास से एक छोटा-सा लाभ यह भी होता है कि उससे हमारे कुतूहल की पूर्ति होती है। मनुष्य-स्वभाव कुतूहल-पूर्ण है।

इतिहास से मनोरंजन मनुष्य के विषय की बातें जानने की इच्छा हमें होना स्वाभाविक है। इति-

हास के पढ़ने से यह कुतूहल पूर्ण होकर हमें आनन्द प्राप्त होता है। कैसा भी रुखा मनुष्य क्यों न हो, उसे भी इतिहास की दो-चार बातें जानने की इच्छा होती ही है। बालकों में कहानी सुनने की जो स्वाभाविक इच्छा होती है, वह इसी अन्तःप्रवृत्ति का मूल स्वरूप है। ऐसा मानसिक आनन्द जिस विषय से प्राप्त होता है, उसका इस दृष्टि से भी कुछ महत्व है। शिक्षा के अनेक उद्देश्यों में से एक यह भी है कि हम अपना खाली समय उचित रीति से श्रेष्ठ आनन्द का लाभ प्राप्त करते हुए बिता सकें। इतिहास से इस उद्देश्य की भी पूर्ति होती है।

अब प्रश्न यह है कि क्या महाराष्ट्र के इतिहास से उपर्युक्त सब लाभ प्राप्त हो सकते हैं? हमारा मत है कि महाराष्ट्र के इतिहास से ऊपर बताये सब प्रकार के लाभ हमें हो सकते हैं। आज यदि महाराष्ट्र में और उत्तर-हिन्दुस्थान में तुलनात्मक

महाराष्ट्र के इतिहास  
से लाभ

दृष्टि से यह देखा जाय कि जागृति की मात्रा कहाँ अधिक है, वह कब से है, कहाँ हिन्दुस्थानियों के आचार-विचार पुरानी रीति



के अधिक अनुकूल हैं, तो उसके उत्तर में महाराष्ट्र ही का नाम लेना होगा; और यदि इस जागृति का कारण ढूँढा जाय, तो महाराष्ट्र के इतिहास की ओर ही अंगुली दिखलानी होगी। इतने पर भी यदि किसी को इस बात का अधिक प्रमाण चाहिए, तो वह महाराष्ट्र का इतिहास ही पढ़कर देखा जा सकता है। हिन्दुस्थान का साधारण इतिहास भी जाननेवाले इस बात से परिचित हैं कि औरंगजेब की सेना ने महाराष्ट्र पर बार-बार आक्रमण किये, पर मराठों ने हमेशा उसे वापस भगा दिया। अन्त में औरंगजेब ने जब देखा कि मेरे सेनापतियों के हाथ मराठे नहीं आते, तब वह स्वयं अपनी तमाम शाही फौज लेकर दक्षिण में आ पहुँचा और एक-एक करके सब किले लेने लगा। धीरे-धीरे महाराष्ट्र का बहुत-सा भाग उसने जीत लिया। पर मराठे तब भी काबू में न आये। सम्भाजी पकड़ा गया और औरंगजेब ने बड़ी क्रूरता से उसका वध किया। शाहू उसके पास कैद था, सारे महाराष्ट्रीय देश भ्रष्ट हो गये थे, द्रव्य मिलना असम्भव हो गया था, और मराठी सेना अव्यवस्थित हो इधर-उधर भटकने लगी थी। ऐसे समय में भी मराठे विलकुल न दबे। उलटे, जब कभी यह मालूम होता कि अब सर्वनाश हो गया तभी वे फौलाद की 'स्प्रिंग' की तरह दूने वेग से उठते और शाही सेना को मार भगाते थे। अन्त में राजाराम अपने मंत्रियों सहित जिंजी के किले में जा रहा और वहाँ से महाराष्ट्र का राज्य करने लगा। मराठों का राजा देश छोड़ कर अन्यत्र रहने लग गया, पर उसने परतंत्रता स्वीकार न की। उस समय जिन-जिन चीरों ने आश्चर्य-जनक काम किये, उनमें से कई शिवाजी के

साथी थे। शिवाजी का असर ही कुछ ऐसा था कि उससे जो कोई मिलता वह शिवाजी ही हो जाता था। उसकी मृत्यु के बाद उसका स्मरण-मात्र पर्याप्त था। केवल स्मरण से ही प्रत्येक महाराष्ट्रीय के शरीर में ऐसी विलक्षण शक्ति का संचार हो जाता था कि जीते जी उससे जीतना किसी की शक्ति में नहीं था। इस घटना के समाप्त होने तक शिवाजी के साथ के कई वीर मर चुके थे, पर शिवाजी का उत्पन्न किया हुआ जोश जबतक महाराष्ट्र में मौजूद था तबतक शिवाजी अथवा उनके साथी रहे अथवा मरे तो भी कोई अन्तर नहीं होता था। स्वदेशाभिमान क्या कर सकता है, इसका यह ज्वलन्त उदाहरण है। इसी प्रकार के परिणाम थोड़े-बहुत अंश में इसके बाद भी देख पड़ते हैं। वीरवर बाजीराव ने जिस जोर से महाराष्ट्र का राज्य उत्तर की ओर बढ़ाया, उसमें यही अभिमान प्रेरणा के रूप में देख पड़ता है। पानीपत के मैदान में लाखों मराठे मारे जाने पर भी थोड़े ही वर्षों के बाद वे अपना वर्चस्व दक्षिण और उत्तर में प्रस्थापित कर सके। जान तो ऐसा पड़ता था कि पानीपत की हार से मराठों की सत्ता विलकुल नष्ट हो जायगी। पर थोड़े ही वर्षों के भीतर उत्तर में महादजी शिंदे ने और दक्षिण में माधोराव पेशवा ने पराक्रम के जो कार्य किये, वे आश्चर्यजनक जान पड़ते हैं। इसी प्रकार नारायणराव पेशवा का खून होने पर महाराष्ट्र की बागडोर रघुनाथराव ने स्वार्थ-सिद्धि के लिए अंग्रेजों के हाथ में देनी चाही, परन्तु महाराष्ट्रीयों ने जिस शूरता से उनके दाँत खट्टे किये, वह इतिहास-प्रसिद्ध बात है। परन्तु इतनी दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं शिवाजी जब औरंगजेब के कपटा-

मराठों का उत्थान और पतन

चरण के कारण <sup>धमका</sup> दिल्ली में क्लैद हो गया और बारह महीने तक महाराष्ट्र में न आ सका तब भी वहाँ का शासन ऐसा चलता रहा, मानों शिवाजी स्वयं वहाँ उपस्थित हों। क्या इन सब घटनाओं में स्वदेशाभिमान की स्फूर्ति और शक्ति नहीं दीख पड़ती ?

इसका यह मतलब नहीं है कि महाराष्ट्र का इतिहास कुछ पुरुषों का जीवन-चरित्र ही है। महाराष्ट्र

महाराष्ट्र का इतिहास  
पुरुषों का जीवन-  
चरित्र नहीं है

के इतिहास में केवल शिवाजी या राजाराम, बालाजी विश्वनाथ या बाजीराव, बालाजी बाजीराव अथवा माधोराव,

नाना फड़नवीस अथवा महादजी शिन्दे ही कार्य-कर्ता पुरुष नहीं हैं। वास्तव में यह इतिहास एक राष्ट्र के अभ्युदय का इतिहास है। और उसका मूल बहुत गहरा दीख पड़ता है। इस अभ्युदय के मूल में केवल राजकीय जागृति ही नहीं है, उसका कारण सर्वाङ्गीन राष्ट्रीय जागृति है। जैसा आगे चलकर देखेंगे, केवल कुछ लोकनायक ही नहीं, केवल साधारण लोग ही नहीं, किन्तु साधु-सन्त भी इस काम में योग देने लगे थे। वास्तविक बात तो यह है कि इस राष्ट्रीय जागृति के मूल में धार्मिक जागृति थी। इस धार्मिक जागृति के बिना राष्ट्रीय जागृति न हो सकती। धार्मिक जागृति ने लोगों के सुप्त विचारों को जगा दिया। इसका यह अर्थ अवश्य है कि लोगों के मन में राष्ट्रीय जागृति के कुछ विचार बीज-रूप से पहले से ही बने थे। यह बात इसीसे स्पष्ट है कि महाराष्ट्रीय लोग पूर्ण रूप से जित-राष्ट्र नहीं बन गये थे। इनका देश ही कुछ ऐसा है कि उस काल में मुसलमानों को उन्हें पूरी तौर से जीत लेना सम्भव न था।

महाराष्ट्र के इतिहास को विदेशी इतिहास-लेखक इस ढंग से लिखते हैं, मानों वह कुछ पुरुषों का जीवन-चरित्र ही हो। इसी कारण वह नीरस, शिनाहोन और थोड़ा-बहुत निराशाजनक जान पड़ता है। उसमें उन्हें राष्ट्र के उत्थान और पतन की सामान्य धारा नहीं दीख पड़ती। जिस राष्ट्र ने औरंगजेब सरीखे मुगल बादशाह का सामना किया और तमाम शाही फौज के नाकों दम कर दिया, जिस राष्ट्र ने अन्त को स्वराज्य की सनद प्राप्त कर ही ली और अपना राज्य केवल महाराष्ट्र में नहीं किन्तु उत्तर भारत में भी बढ़ाया, जिस राष्ट्र ने सुव्यवस्थित अंग्रेजी सेना को बड़गाँव में शस्त्र रख देने को बाध्य किया, वह किसी सामान्य उद्देश्य से अवश्य प्रेरित होना चाहिए। इतिहास कुछ लोगों का जीवन-चरित्र नहीं है, परन्तु प्रकृति और मनुष्य की क्रिया और प्रतिक्रिया का वहिःस्वरूप है। इसी दृष्टि से सारे महाराष्ट्र का विचार होना आवश्यक है और तभी वह सब दृष्टि से लाभकारी हो सकता है, अन्यथा नहीं।

गत कुछ वर्षों से हिन्दुस्थानियों, खासकर महाराष्ट्र की दृष्टि इस इतिहास की ओर विशेष जाने लगी है; और इसका

परिणाम बहुत ही संतोषप्रद हुआ है।

महाराष्ट्र के इतिहास की  
ओर परिवर्तित प्रवृत्ति

साधारणतः आज तक दो प्रकार के इतिहास-लेखक होते थे। एक तो विदेशियों

का ऐसा वर्ग था कि जिन्हें हिन्दुस्थान के इतिहास में कुछ भी भली बात न दीख पड़ती थी और इसलिए जो भारतवर्ष के इतिहास के हिन्दू-काल, मुसलमान-काल और ब्रिटिश-काल नामक तीन विभाग करके हमारे देश के इतिहास का वर्णन किया करते

थे । दूसरा वर्ग हिन्दुस्थानियों का ऐसा था कि जो प्रत्येक मन-गढ़न्त बात को भी ऐतिहासिक समझता था । अब धीरे-धीरे विदेशी लोग भी हमारी दृष्टि से हमारे देश के इतिहास को देखने लगे हैं और सत्य की कसौटी पर कसे हुए सब प्रमाणां को मानने लगे हैं । साथ ही, सत्य के अन्वेषण के कारण, सत्य की कसौटी पर न ठहरनेवाली बातों को ऐतिहासिक कहना छोड़ दिया गया है; और ऐतिहासिक बातों के लिए ऐतिहासिक प्रमाण देना आवश्यक समझा जाने लगा है । इसका परिणाम यह हुआ है कि इतिहास के लेखन और शिक्षण की प्रणाली सत्य की ओर अग्रसर हो रही है और इस प्रकार ऐतिहासिक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है । महाराष्ट्र के इतिहास के कर्ता छत्रपति शिवाजी की मूर्ति की स्थापना की नींव भारत के भावी सम्राट् ( प्रिंस ऑफ वेल्स ) के हाथों डाली जाना ऊपर लिखी बात का प्रमाण है और इतिहास-लेखकों के लिए यह बड़ी भारी ऐतिहासिक घटना है ।

अन्त में हम यह कहना चाहते हैं कि भारतवर्ष के इतिहास में महाराष्ट्र के इतिहास से अधिक मनोरञ्जक भाग हमें अन्य

महाराष्ट्र का इतिहास  
बहुत मनोरञ्जक है

कोई नहीं दीख पड़ता । किस प्रकार एक  
भामूली जागीरदार के लड़के ने अपनी  
किशोरावस्था में अदिलशाही की राजधानी

में कुछ ही दूर पर धीरे-धीरे राज्य-स्थापना शुरू की, किस प्रकार धीरे-धीरे महाराष्ट्र के अजेय दुर्ग अपने हाथ में कर लिये, किस प्रकार उसने अक़बलख़ाँ-सरीखे शूरवीर को केवल अपने बल से इस लोक से दूर कर दिया, किस प्रकार औरङ्गजेब के शाइस्ता-

खाँ-सरोखे सेनापति को पूने से विना लड़ाई लड़े खदेड़ बाहर किया, किस प्रकार औरङ्गजेब-सरोखे कुटिल नीति के परिपूर्ण आचार्य की भी आँखों में धूल भोंक कर वह स्वदेश को सुरक्षित लौट आया, किस प्रकार फिर सारा महाराष्ट्र औरङ्गजेब के हाथ जाने पर भी महाराष्ट्रीय लोग इस कदर शत्रु की भारी सेना से लड़ते ही रहे और किस प्रकार फिर स्वराज्य प्राप्त कर ही लिया, किस प्रकार आगे वाजीराव ने शाखाओं को छोड़कर मूल पर ही कुठार लगाने का प्रयत्न किया और अन्त में किस प्रकार वारह भाई की खेती नाना फड़नवीस के नेतृत्व में सफल हुई—ये सब बातें यदि विस्तार में पढ़ी जायँ तो इतनी मनोरञ्जक हैं कि अच्छे से अच्छे उपन्यास भी इनके सामने फीके जान पड़ेंगे।

इस सब विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि हिन्दुस्थान के इतिहास में महाराष्ट्र के इतिहास को एक अलग स्वतन्त्र स्थान


महाराष्ट्र के इतिहास का स्वतंत्र स्थान मिलना चाहिए। हिन्दुस्थान के इतिहास के एक दर्जे के जो तीन भेद किये जाते हैं वे दोषपूर्ण और अन्यायपूर्ण हैं। जो कोई सर-

सरी तौर से भी देखेगा वह यह जान जायगा कि १७०७ के बाद भारतवर्ष के इतिहास को मुसलमान-काल का इतिहास कहना सब-की आँखों में धूल भोंकने के समान है। हम पृच्छना चाहते हैं कि अंग्रेजों ने हिन्दुस्थान को त्वास्तव में किससे जीता ? माना कि बंगाल और विहार <sup>सिराजुद्दौला</sup> और मीरक़ासिम से मिले, पर यदि मराठे अंग्रेजों के साथ की अपनी दूसरी लड़ाई में सफल हुए होते तो क्या अंग्रेजों का साम्राज्य हिन्दुस्थान में स्थापित हो सकता ? स्वयं अंग्रेज लेखकों ने लिखा है कि इस लड़ाई के

## मराठों का उन्थान और पतन

पहले हिन्दुस्थान में अंग्रेजों का भी एक राज्य था, परन्तु इस लड़ाई के परिणामों के बाद हिन्दुस्थान में अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हो गया। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र के इतिहास को हिन्दुस्थान के इतिहास में स्वतन्त्र स्थान न देना क्या उचित है ?

---



महाराष्ट्र

शिवाजी का स्वारज्य

महाराष्ट्र

केशवनागरी नगर

शिवाजी नगर

शिवाजी का स्वारज्य

शिवाजी पार्क

महाराष्ट्र

लंका

म.

म.







## महाराष्ट्र-परिचय .

महाराष्ट्र शब्द से आजकल सिन्ध और गुजरात को छोड़  
शेष बम्बई-प्रान्त का बोध होता है । स्वयं महाराष्ट्र में भी इस  
शब्द का उपयोग इसी अर्थ में किया जाता  
महाराष्ट्र की व्याप्ति और व्युत्पत्ति है । परन्तु जब विशेष ठीक अर्थ करना  
होता है, तब इस शब्द के अर्थ में  
केवल उपरिलिखित भाग ही नहीं, प्रत्युत् सम्पूर्ण वरार और  
नागपुर कमिश्नरी का बहुत-सा हिस्सा शामिल कर लिया जाता  
है । अर्थात्, जहाँ-जहाँ अधिकांश लोगों की बोली मराठी भाषा  
है, वे सब भाग महाराष्ट्र में आते हैं । मोटे तौर से महाराष्ट्र की  
सीमा उत्तर में नर्मदा नदी से, पश्चिम में अरब-समुद्र से, ईशान  
में नागपुर से और नैऋत्य में कारवार शहर से मानी जाती है ।  
इसका यह मतलब नहीं कि महाराष्ट्र शब्द का यही अर्थ इतिहास  
में सदैव होता रहा । वास्तविक बात यह है कि इस शब्द का  
अर्थ समय-समय बदलता रहा है । महाराष्ट्र शब्द का प्रथम  
उपयोग ईस्वी सन् के प्रारम्भ में दीख पड़ता है । इसके पहले

आजकल के महाराष्ट्र को दक्षिणापथ, दण्डकारण्य आदि भिन्न-भिन्न नाम दिये जाते थे। उस काल के इतिहास की प्रवृत्ति से यही जान पड़ता है कि लोक-समूह के नाम से उसके वसे हुए भाग को भी नाम दिया जाता था। तथापि इतिहास-संशोधक श्री राजवाड़े ने इस शब्द की व्युत्पत्ति यह दी है—“किसी राजा का राज जिस भाग पर चलता है, वह राष्ट्र कहलाता है। ऐसे देश में पीढ़ी-दर-पीढ़ी भक्ति-पूर्वक रहनेवाले लोग राष्ट्रीय कहलाते हैं। राष्ट्र पर जो अधिकार चलाता है, वह राष्ट्रिक कहलाता है। अशोक के शिलालेख में जो रास्तिक अथवा रास्तिक शब्द आया है, वह राष्ट्रिक शब्द का अपभ्रंश ही है। आर्य जब दण्डकारण्य में वस गये, तब उस देश में अधिकार चलानेवाले राष्ट्रिक कहलाये; और जिन्होंने बहुत भारी अधिकार चलाया वे महाराष्ट्रिक कहलाये। इसी प्रकार सामन्त से महासामन्त और भोज से महाभोज शब्द बने हैं। महाराष्ट्रिकों का देश महाराष्ट्र कहलाया। अशोक के शिलालेख में यह लिखा है कि धर्म-प्रसार के लिए उसके दूत राष्ट्रिक, पैठिनिक, अपरान्तक आदि लोगों की ओर गये थे। राष्ट्रिक यानी रट्टे अथवा महाराष्ट्र के लोग, पैठिनिक यानी पैठण के लोग, और अपरान्तक यानी उत्तर कोंकण के लोग। रट्टे ही मराठों के पूर्वज हैं। उन्हींकी एक शाखा आगे चलकर राष्ट्रकूट नाम से प्रसिद्ध हुई। अशोक के तेरहवें अनुशासन में राष्ट्रिकों के साथ भोजों का भी उल्लेख है। इन भोजों का शासन बहुत दिन तक विदर्भ में चलता रहा। कई शिलालेखों में भोजों ने अपनेको महाभोज कहा है। इसी प्रकार राष्ट्रिक या रट्टे नाम के बदले महाराष्ट्रिक या महारट्टे नाम का उल्लेख

हुआ है। डाक्टर ग्रियरसन का मत है कि महाराष्ट्र शब्द का देश के अर्थ में उपयोग पहले-पहल वराहमिहिर के ग्रन्थों में दीख पड़ता है, परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि एक प्राकृत भाषा को महाराष्ट्री नाम ईस्वी सन् के प्रारम्भ से ही दिया जाने लगा था। इसलिए कदाचित् देश के नाम के अर्थ में इस शब्द का उपयोग उस समय प्रचलित हो गया था। भाजे और कारले नामक स्थानों के लेख ईस्वी सन् की दूसरी शताब्दी के हैं। उनमें कई दानों का वर्णन है। उन लेखों में, उनके दाताओं को पुरुष होने पर महारट्टी और स्त्री होने पर महारठिनी कहा है। रट्टी और महारट्टी शब्द अन्य कई शिलालेखों में आये हैं, तथापि यह मानना ही होगा कि वराहमिहिर ने ही पहलेपहल देश के अर्थ में महाराष्ट्र शब्द का उपयोग किया।”

महाराष्ट्र को आजकल की सीमा हम ऊपर बता ही चुके हैं। परन्तु यह भी बता चुके हैं कि इस शब्द से ध्वनित होने वाला देश-भाग समय-समय पर भिन्न-भिन्न भौगोलिक भाग की परिवर्तनशीलता भिन्न रहा है। शिवाजी के कार्य के प्रारम्भकाल में “महाराष्ट्र” में आजकल का समस्त महाराष्ट्र शामिल नहीं होता था। और इसके पहले का अर्थ तो स्पष्ट भिन्न था, यह बात इसीसे सिद्ध है कि “महाराष्ट्र” के साथ अपरान्तक आदि अन्य देशार्थक शब्द उपयोग में आये हैं। सम्भवतः शिवाजी के समय का महाराष्ट्र उसके राज्य-विस्तार के क़रीब-क़रीब बराबर ही था।

उस महाराष्ट्र में भी तीन स्वाभाविक भाग स्पष्ट दीख पड़ते

हैं—एक कोंकण, दूसरा घाटमाथा और तीसरा देश। अरब-महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति और उसका वहाँ के लोगों के जीवन पर परिणाम सागर और सह्याद्रि-पर्वत का तटवर्ती भाग कोंकण कहलाता था और आज भी कहलाता है। सह्याद्रि पर्वत का पहाड़ी भाग घाटमाथा कहलाता था; और इसके पूर्व की ओर जो ऊबड़-खाबड़ भूमि-भाग दीख पड़ता है, उसका जो हिस्सा महाराष्ट्र में शामिल था, वह देश कहलाता था। हिन्दुस्थान का थोड़ा भी भूगोल जाननेवाला यह जानता है कि महाराष्ट्र का बहुतेरा भाग पहाड़ी और ऊबड़-खाबड़ है। इस बात का परिणाम वहाँ के लोगों के जीवन पर बड़ा भारी हुआ है। इतिहास-वेत्ता लोग यह जानते हैं कि पहाड़ी देश के लोग बहुधा स्वातंत्र्य-प्रिय होते हैं। यही बात महाराष्ट्र लोगों के इतिहास और जीवन में दीख पड़ती है। मुसलमानों ने सैनिक शक्ति से और धार्मिक बल के जोर पर महाराष्ट्र के छोटे-छोटे राजाओं को जीत तो लिया, पर महाराष्ट्र के लोगों को वे पूरी तौर पर न जीत सके। इसका कारण उन लोगों का स्वातंत्र्य-प्रेम ही था। जो लोग कभी भी पूरी तरह जीते नहीं गये थे, उन लोगों को अपना स्वातंत्र्य वापस पा लेना कोई कठिन बात न थी। उस देश के जल-वायु का भी वहाँ के लोगों पर यथेष्ट परिणाम हुआ था। महाराष्ट्र का बहुतेरा भाग न तो अधिक ठण्डा ही है, और न अधिक गर्म। ऐसी दशा में मनुष्य यथेष्ट परिश्रमी हो सकते हैं। वर्षा की दृष्टि से महाराष्ट्र के दो भाग होते हैं। कोंकण में और सह्याद्रि के पश्चिमी ढाल पर काफी वर्षा होती है, पर इस पर्वत के पूर्वी ढाल पर तथा “देश” में वर्षा का प्रमाण सामान्य ही है।

इस कारण दूसरे की अपेक्षा पहला भाग बहुत अधिक उपजाऊ है। परन्तु इस बात का वहाँ के लोगों के स्वभाव पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ सका। इसका कारण यह है कि “देश” के समान कोंकण भी ऊँचा-नीचा है और इस कारण भूमि उपजाऊ होने पर भी लोगों को वहाँ खेती में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए यह परिश्रमशीलता सारे महाराष्ट्र में एक सामान्य बात है। “देश” में यदि कम वर्षा के कारण परिश्रम करना पड़ता है, तो कोंकण में थोड़ी-बहुत सम-भूमि का अधिकतम उपयोग करने में श्रम की दरकार है। इस प्रकार जल-वायु का परिणाम सारे महाराष्ट्र में एकसा दीख पड़ता है। उसका स्वास्थ्यप्रद होना और साथ ही परिश्रम करने के लिए उत्तेजक होना इतिहास में महत्वपूर्ण बात रही है। उसके स्वास्थ्यप्रद होने के कारण लोग परिश्रम से कभी पीछे नहीं हटते थे, और परिश्रम की आवश्यकता शरीर-रक्षण के लिए होने के कारण वे परिश्रमशील भी थे। इन दो बातों का परिणाम महाराष्ट्र के अगले इतिहास में समय-समय दीख पड़ता है। जहाँ थोड़े परिश्रम से शरीर-रक्षण हो सकता है, वहाँ लोग बहुधा आलसी हुआ करते हैं अथवा जहाँ के लोग सदैव रोगों से पीड़ित रहते हैं; वे भाग्य के भरोसे जीवन बिताते हैं।

उपर्युक्त भौगोलिक कारणों के सिवाय वहाँ के लोगों के “जातीय” स्वभाव का परिणाम भी दीख पड़ता है। जैसे तो समस्त

आर्यों और अनार्यों के सम्मिश्रण का परिणाम

हिन्दू अपने को आर्य कहते हैं, परन्तु

प्रत्येक इतिहासज्ञ यह जानता है कि

आर्यों के आने के पहले इस देश में कई

द्रविड़ जातियाँ रहती थीं। ज्यों-ज्यों आर्यों ने धीरे-धीरे हिन्दुस्थान

के भिन्न-भिन्न भागों में अपनी वस्तियाँ स्थापित कीं, त्यों-त्यों द्रविड़ लोग थोड़े-बहुत उत्तर से दक्षिण की ओर हटने लगे। वैसे तो सारे भारतवर्ष में ही प्रारम्भिक इतिहास-काल में आर्यों ने यहाँ के अनायों से अनेक प्रकार की सेवारें लीं और उनसे थोड़े-बहुत विवाह-सम्बन्ध भी किये, पर ये बातें दक्षिण में अधिक हुईं; इस कारण उत्तर और दक्षिण के लोगों के स्वभाव में थोड़ा-बहुत अन्तर हो गया। इस सम्मिश्रण का प्रभाव केवल आचार और विचार में ही नहीं, किन्तु भाषा और सामाजिक रीति-भाँतियों में भी दीख पड़ता है। उनमें से अन्तिम परिणाम महत्वपूर्ण है। उत्तर के समान दक्षिण में भी हिन्दुओं में अनेक जातियाँ उत्पन्न हुईं, पर उत्तर के धार्मिक पंथों में और जाति-भेदों में जो कट्टरता दीख पड़ती है वह दक्षिण में आर्य और अनायों की आर्य-सभ्यता को स्वीकृत करने के कारण कभी न दीख पड़ी, और न आज ही दीख पड़ती है। हम पहले बतला ही चुके हैं कि इन सब लोगों की एक भाषा थी और उस भाषा में धीरे-धीरे अनेक साहित्य-ग्रन्थ लिखे जाने लगे। इस साहित्य का लोगों के मन पर राष्ट्रीय भावों के रूप में जो परिणाम हुआ, उसका विवेचन यथास्थान आगे आयेंगा ही। ❀ यहाँ पर इतना कहना काफी होगा कि एक राष्ट्र बनाने में उस सामान्य साहित्य ने बड़ा भारी काम किया है। इसलिए हम अब अपना कार्य इस देश के प्राचीन इतिहास से प्रारम्भ करेंगे।



## पूर्व-इतिहास और हिन्दू-काल

“महाराष्ट्र” शब्द का प्रयोग ईस्वी सन् के आरम्भ-काल से होने लगा था, यह हम बता हो चुके हैं । उससे पहले महाराष्ट्र में आन्ध्र-वंश “महाराष्ट्र” में कौन राजा राज्य करते थे, इसका पता हमें नहीं लगता । अशोक का शासन खास महाराष्ट्र में था या नहीं, यह भी हम नहीं कह सकते । अपरान्तक यानी उत्तर-कोंकण में सोपारा उर्फ शूपारिक नामक स्थान में अशोक के शिला-लेख मिले हैं; परन्तु इतिहास-लेखकों का मत है कि जहाँ-जहाँ उसके शिला-लेख मिले हैं वहाँ-वहाँ उसका शासन था ही, ऐसा निश्चित तौर पर नहीं कह सकते । अशोक के बाद करीब ४०० वर्ष तक आन्ध्रवंशी राजाओं का राज्य महाराष्ट्र में था । आन्ध्र लोग वर्तमान काल के तेलगू लोगों के पूर्वज हैं । वे कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टों के बीच रहते थे । अब भी वह भाग आन्ध्र कहलाता है । चन्द्रगुप्त मौर्य के समय वे बड़े शूरवीर समझे जाते थे । उनकी राजधानी कृष्णा नदी के किनारे श्रीकाकुल नामक स्थान में थी । यहाँ के राजा ने अशोक का सार्वभौमत्व



स्वीकार किया था, परन्तु अशोक के बाद यहाँ का राजा सिन्धुक स्वतन्त्र बन बैठा। सिन्धुक के बाद के राजा कृष्ण ने अपना राज्य नाशिक तक फैलाया। आन्ध्र राजाओं का वर्णन पुराणों में दीख पड़ता है, परन्तु उनका शृंखलापूर्ण वृत्तान्त अबतक नहीं मिला है।

शातवाहन नाम की आन्ध्रों की एक शाखा महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान उर्फ पैठन स्थान में स्थापित हुई थी। ये अपनेको पहले आन्ध्र-भृत्य यानी आन्ध्रों के सेवक कहते थे। इन्हींका एक नाम शातकर्णी भी दीख

### शालिवाहन-वंश

पड़ता है। शातवाहन शब्द का अपभ्रंश शालिवाहन हुआ। महाराष्ट्र के कई स्थानों में मिले हुए लेखों से ऐसा जान पड़ता है कि शालिवाहन-वंश के राजा आरम्भ में महाराष्ट्र में राज्य करते थे। उनमें से कई बड़े पराक्रमी हुए। महाराष्ट्र में इन राजाओं का शासन करीब ३०० वर्ष तक यानी ईसा-पूर्व ७३ वर्ष से ईस्वी सन् २१८ वर्ष तक चलता रहा। इस बीच कोई पच्चीस-तीस बड़े-बड़े राजा हुए। उन्होंने अच्छे-अच्छे धर्म-कार्य किये हैं। उनमें से पुलमायी, यज्ञश्री, चतुष्पर्ण, माधुरीपुत्र आदि नाम शिलालेखों में प्रसिद्ध हैं।

इन तीससौ वर्षों के दम्याँन करीब ५० वर्ष तक शालिवाहन राजाओं का शासन नष्ट हो गया था। इस अवधि में शक नाम के यवन राजा यहाँ राज्य करते थे। इन्हीं शक और शालिवाहन शक राजाओं ने वर्ष-गणना के लिए जो संवत्सर स्थापित किया, वह वैसा ही आगे चलता रहा। शकों के चत्रप नहपाण को गौतमी-पुत्र पुलमायी ने हरा दिया और इस प्रकार शालिवाहनों का राज्य फिर से स्थापित किया। ऐसा जान

पड़ता है कि नहपाण सन् ४६ ईस्वी में था और इसीके छः-सात साल बाद शकों की हार हुई। इससे यह मालूम पड़ता है कि ईस्वी सन् के प्रारम्भिक काल में करीब ५० वर्ष तक शकों का शासन महाराष्ट्र में था। सर्व-साधारण का खयाल है कि शालिवाहन राजा ने शक संवत् शुरू किया। परन्तु यह बात ठीक नहीं है। आरम्भ में शक संवत् को शक-नृप-काल अथवा शक-काल ही कहते थे। शक लोगों का पराभव होने पर वे यहाँ से चले गये, परन्तु उनकी वर्ष-गणना यहाँ कायम रही। कदाचित् उस समय इस बात की आवश्यकता जान पड़ी कि इस वर्ष-गणना के साथ किसी राजा का नाम होना चाहिए, इस कारण शालिवाहन नाम शक संवत् के साथ जोड़ा जाने लगा और वह “शालिवाहन शक” कहलाने लगा।

शालिवाहन राजाओं के समय में अनेक बातों की उन्नति हुई। ऐसी कथा है कि पुलमायी नामक शालिवाहन राजा के प्रधान-शास्त्रियों के समय में गुणाढ्य ने वृहत् कथा-सागर नामक ग्रन्थ महाराष्ट्र की स्थिति पैशाची नामक प्राकृत भाषा में लिखा था। इन्हीं शालिवाहनों में से एक के दरवार में सर्ववर्मा नामक एक गृहस्थ रहता था, जिसने “कातन्त्र” नामक व्याकरण लिखा। हाल नामक शालिवाहन राजा का महाराष्ट्रीय भाषा में लिखा हुआ “शप्तशती” नामक ग्रन्थ प्रसिद्ध ही है। इन बातों से यह जान पड़ता है कि शालिवाहन राजाओं के समय में भाषा और साहित्य की यथेष्ट उन्नति हुई। इन राजाओं के समय में महाराष्ट्र में बौद्ध-धर्म प्रचलित था, शकों ने कदाचित् ब्राह्मण-धर्म स्वीकार कर लिया था। इन राजाओं के समय व्यापार में भी अच्छी उन्नति हुई थी।



राजाओं के नाम आये हैं। इनके सिवाय भोज, रट्टे, राष्ट्रिक आदि नामों के क्षत्रियवंश शालिवाहनों के बाद स्थान-स्थान पर प्रबल हो गये थे। उत्तर महाराष्ट्र में रट्टे लोगों ने अपनेको महारट्टे कहलाना शुरू किया। परन्तु दक्षिण की ओर उनका नाम रट्टी अथवा रट्टे ही प्रचलित रहा। रट्टों के कई कुटुम्बों ने एक “कूट” यानी संघ बनाया और वे अपने को रट्टुकूट अथवा रट्टुकूड़ कहलाने लगे। इसीका संस्कृत-रूप “राष्ट्रकूट” हुआ। ऐसा जान पड़ता है कि इसी शब्द का अपभ्रंश आगे चलकर राठौड़ हुआ। अभीर और राष्ट्रकूट दोनों का उदय लगभग एक ही समय यानी ईस्वी सन् की तीसरी शताब्दी के अन्त में हुआ, और करीब ढाई सौ वर्ष तक यानी छठवीं सदी के प्रारम्भ तक उनका कम-अधिक राज्य महाराष्ट्र में चलता रहा। इसी समय दक्षिण की ओर आजकल के उत्तर कनारा जिले में कदम्ब लोगों का एक प्रबल राज्य था। इनके देश को वनवासी कहते थे। इसीका दूसरा नाम वैजयंती था। आजकल के हानगल शहर के नैऋत्य की ओर १६ मील पर यह शहर था। छठवीं शताब्दी में उत्तर से चालुक्य लोग दक्षिण में आये और उन्होंने महाराष्ट्र को अपने अधीन कर लिया।

चालुक्य लोगों से महाराष्ट्र का शृंगलावद्ध इतिहास मिलता है। ये लोग आरम्भ में अयोध्या में राज्य करते थे। हारित और मानव्य नामक योद्धाओं से चालुक्य-वंश की उत्पत्ति हुई। उनका कुलदेव कार्तिकेय था, और उनके भण्डे पर वराह का चिन्ह था। वे अपनेको सूर्यवंशी कहलाते थे। उन्हीं चालुक्यों की एक शाखा

वादासी का  
चालुक्य-वंश

दक्षिण में आई। इस शाखा का मुखिया जयसिंह नामक पुरुष था। उसने राष्ट्रकूट राजा कृष्ण के पुत्र इन्द्र को हराकर दक्षिण में अपना राज्य स्थापित किया, और फिर आसपास के राजाओं को जीतकर उसे बढ़ाया। इस वंश ने करीब दो सौ वर्ष तक राज्य किया। इनकी राजधानी वातापिपुर अथवा आजकल के वादासी में थी। इस वंश में अनेक पराक्रमी राजा हो गये हैं। उनमें से द्वितीय पुलकेशी विशेष प्रसिद्ध है। उसने सत्याश्रय—श्री पृथ्वी-वल्लभ महाराज नामक पदवी धारण की थी। कदम्बों को हराकर वनवासी शहर अपने अधीन कर लिया। इसी प्रकार कोंकण, लाटमालव और गुर्जर देशों के राजाओं को हराकर अपने मांडलिक बना लिया। इस समय उतर-हिन्दुस्थान में हर्षवर्धन शिलादित्य नामक पराक्रमी राजा कन्नौज में राज्य करता था। उसने दक्षिण पर चढ़ाई की। परन्तु पुलकेशी ने उसे हरा दिया। कलिंग और कौशल देश के राजा भी उसकी शरण में आये; और चोल, पाण्ड्य तथा केरल के राजाओं ने उससे मित्रता कर ली।

पुलकेशी की कीर्ति हिन्दुस्थान के बाहर भी फैली थी। उसने अपने दूत ईरान के राजा द्वितीय खुसरू के यहाँ ईस्वी सन् ६२५-

राजा पुलकेशी

६२६ में भेजे थे, इसलिए खुसरू ने भी अपने दूत पुलकेशी के दरबार में भेजे। सम्पूर्ण महा-

राष्ट्र पुलकेशी के अधिकार में था, और कई वर्ष तक बड़ी शांति के साथ उसने यहाँ राज्य किया। प्रसिद्ध चीनी प्रवासी ह्युनत्सांग जब हिन्दुस्थान में आया तब वह पुलकेशी से भी मिला था। उस समय पुलकेशी नाशिक में रहता था। ह्युनत्सांग ने लिखा है कि पुलकेशी उदार और प्रजा-पालन में दक्ष राजा है और प्रजा

उसपर बहुत प्रेम करती है। आगे वह लिखता है—“पुलकेशी के राज्य की परिधि १२०० मील है। महाराष्ट्र की भूमि उपजाऊ है और उसमें अनाज खूब पैदा होता है। वायु उष्ण है। लोगों की रहन-सहन सादी है। यहाँ के लोग ऊँचे मानी और हठी हैं। उनपर यदि किसीने उपकार किया तो वे उसका अच्छी तरह स्मरण रखते हैं; परन्तु यदि उनके विरुद्ध कुछ किया तो उनसे वचना मुश्किल है। किसीको कठिनाई में देखकर वे स्वयं अपने जीवन की पर्वाह न करके उसकी सहायता करते हैं। शत्रु को पहले सूचना देकर फिर वे उससे लड़ते हैं। लड़ाई में वे शत्रु का पीछा करते हैं, परन्तु शरणागतों को मारते नहीं। उनके सरदार लड़ाई में हार जायें तो स्त्रियों के कपड़े पहना कर उनका अपमान किया जाता है। युद्ध में जाने से पहले वे शराव पीते हैं। फिर उनके सामने खड़े होने की किसीकी छाती नहीं होती। उनके दिल के दिल शत्रु पर टूट पड़ते हैं। ऐसे लोग पास रहने के कारण उनके राजा को किसीकी चिन्ता नहीं मालूम होती।”

इस बात का पता नहीं लगता कि पुलकेशी की मृत्यु कब हुई। सन् ६०९ ईस्वी से काँची के पल्लव राजा के साथ थोड़ा बहुत युद्ध चला था। सन् ६४२ में इस युद्ध में पुलकेशी विफल हुआ। पल्लव राजा नरसिंह वर्मा ने वातापी शहर जीतकर लूट डाला, और कदाचित् पुलकेशी को भी पकड़ कर मार डाला। इसके बाद तेरह वर्ष तक चालुक्यों का अधिकार बहुत कम चल सका, और उनके राज्य का दक्षिणी भाग पल्लवों ने अपने अधीन कर लिया।

पुलकेशी के बाद उसका दूसरा लड़का प्रियतनम-विक्रमा-

मराठों का उत्थान और पतन


दित्य सन् ६५५ में वादामी का राजा हुआ। यह बड़ा पराक्रमी था। इसने कांची के पल्लव राजा को हरा दिया और सन् ६८० तक राज्य किया। सन् ७५३ में राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों को हरा दिया और अपना राज्य स्थापित किया, परन्तु इसके बाद भी चालुक्य-वंश के कुछ राजा महाराष्ट्र में भिन्न-भिन्न स्थानों में राज्य करते थे। इन्हींमें से एक शाखा करीब २०० वर्ष के बाद फिर से प्रवल हुई।

चालुक्य लोगों के समय जैन-धर्म का महाराष्ट्र में विशेष प्रभाव था। तथापि जगह-जगह पौराणिक और वैदिक धर्म का भी प्रचार था। इन्हींके समय में पहाड़ों को खोद कर बौद्धों के विहारों के समान मंदिर बनाने की प्रथा तथा हिन्दू देवताओं की मूर्ति-प्रथा पहले-पहल शुरू हुई। वादामी में उस समय का एक बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है। बौद्ध-धर्म को प्रत्यक्ष राजाश्रय तो नहीं था, परन्तु उसका प्रचार अच्छा था। तथापि इस समय वह गिरती दशा पर ही था। चालुक्य राजा सब धर्मों पर एकसा प्रेम रखते थे। इन्हीं राजाओं के समय पारसी लोग ईरान के खुरासान भाग से पहले-पहल हिन्दुस्थान में आये।

राष्ट्रकूट नाम की उत्पत्ति हम पहले बतला चुके हैं। इस वंश का सम्पूर्ण वृत्तान्त अबतक नहीं मिला है। इस वंश में गोविन्द

मान्यखेट का राष्ट्रकूट-वंश नामका पहला पराक्रमी राजा हुआ। उसके पुत्र कर्क की प्रवृत्ति वैदिक धर्म की ओर विशेष थी। उसके समय में ब्राह्मणों ने यज्ञादि बहुत

# प्राचीन महाराष्ट्र ।







किये । कर्क के पुत्र इंद्रराज ने चालुक्य-वंश की एक लड़की से विवाह कर लिया । इस प्रकार सूर्य-वंश और चालुक्य-वंश का मेल हो गया । इनका पुत्र दन्तिदुर्ग बड़ा योद्धा था । उसने कर्नाटक के राजा को हरा दिया और अन्तिम चालुक्य राजा कीर्त्तिवर्मा को जीत लिया । राष्ट्रकूट राजाओं में दन्तिदुर्ग ने ही पहले-पहल सम्पूर्ण महाराष्ट्र पर राज्य किया ।

दन्तिदुर्ग के बाद उसका चाचा कृष्णराज गद्दी पर बैठा । उसने “शुभतुंग” पदवी धारण की और चालुक्यों का अधिकार पूर्णतया नष्ट कर डाला । एलोरा के प्रसिद्ध कैलास-मन्दिर पत्थरों में खोदकर इसीने बनवाये । इस प्रकार का और इतना सुन्दर प्रचण्ड काम पृथ्वी पर अन्यत्र कहीं नहीं देख पड़ता । कृष्ण का लड़का ध्रुव विशेष पराक्रमी राजा हुआ । उसने दक्षिण और उत्तर के कई राजाओं को पराजित किया । उसका लड़का गोविन्द राष्ट्रकूट-वंश में तीसरा सबसे पराक्रमी राजा हुआ । उसने उत्तर और दक्षिण के भागों पर अनेक चढ़ाईयाँ कीं और शत्रुओं को हराया । मालवा से लगाकर कांचीपुर तक सारा भाग उसके अधिकार में था । गोविन्द के पुत्र “शर्व” उर्फ अमोघवर्ष ने, नासिक को छोड़कर, अपनी राजधानी मान्यखेट में स्थापित की । आज-कल निजाम हैदराबाद में बाड़ी जंकशन के पास मालखेड़ नाम का जो स्थान है, सम्भवतः वही मान्यखेट था । अमोघवर्ष ने ६२ वर्ष तक राज्य किया । बाद के राजाओं के समय महाराष्ट्र में अनेक युद्ध हुए । जैन और हिन्दू लोग भगड़ने लगे । कभी-कभी उनके भगड़े बड़े भयंकर हो जाते थे । मगर हिन्दू-धर्म की प्रगति बरा-

सराओं का उत्थान और पतन

चर जारी रही। अन्तिम राष्ट्रकूट राजा ककुत्स के समय तैलप चालुक्य ने उनका राज्य नष्ट कर डाला।

राष्ट्रकूट राजा बड़े प्रबल तथा भाग्यशाली थे। एलोरा में पत्थर में खोदे हुए मन्दिरों से उनके ऐश्वर्य का पता चलता

है। इनके समय में बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहार बनना बन्द हो गया और हिन्दू देवताओं के अनेक मन्दिर बने।

शंकर और विष्णु का महत्त्व इन्हींके समय शुरू हुआ और वह धीरे-धीरे इतना बढ़ा कि उनके कई पंथ बन गये। नवीं सदी के आरम्भ में शंकराचार्य ने नवीन नींव पर सनातन धर्म की स्थापना की। इस कारण तथा जैन परिदंतों के उद्योग के कारण बौद्ध-धर्म बहुत ही गिर गया। तथापि कहीं-कहीं उसके उपासक बने ही थे। चालुक्यों के समय जैन-धर्म का जो महत्त्व शुरू हुआ, वह राष्ट्रकूटों के समय बढ़ता ही गया। कई माण्डलिक राजा तथा वैश्य गृहस्थ जैन-धर्म के दिगम्बर पंथ के कट्टर भक्त थे। राष्ट्रकूट राजाओं के आश्रय में अनेक संस्कृत ग्रंथ लिखे गये तथा संस्कृत विद्या की बहुत उन्नति हुई। ✓

पूर्व चालुक्य-वंश के अन्तिम राजा कीर्तिवर्मा का राज्य नष्ट तो हुआ, परन्तु इस वंश के लोग थोड़ा-बहुत अधिकार यहाँ-वहाँ चलाते ही रहे। जिस तैलप-चालुक्य ने राष्ट्रकूटों का राज्य नष्ट किया, वह कल्याण का चालुक्य-वंश सम्भवतः इन्हीं शाखाओं में से कोई

रहा होगा। उत्तर चालुक्य-वंश में भी अनेक पराक्रमी राजा हुए। इनमें सोमेश्वर विशेष प्रसिद्ध है। इसने आहवमल्ल और त्रैलोक्य-

मल्ल नामक पदवियाँ धारण कीं, कन्नौज और कांची के राजाओं को हराया, और वर्तमान काल के गोवा तक कोंकण का भाग जीत लिया था। इसने कल्याण नामक शहर बसा कर वहीं अपनी राजधानी स्थापित की। यह शहर आजकल के निजाम हैदराबाद में वेदर से ४० मील पश्चिम की ओर था। सोमेश्वर के समान विक्रमादित्य नामक एक बड़ा पराक्रमी पुरुष सन् १०७६ में राजा बन बैठा। उसने पचास वर्ष तक बड़ी चतुरता और शांति के साथ राज्य किया। काश्मीर का विद्वान पंडित विल्हण कवि राजा-श्रय की खोज में घूमते-घूमते विक्रमादित्य के पास आया। इसने सम्मान-पूर्वक उसे अपने यहाँ रख लिया। इस कवि ने विक्रमादित्य-चरित्र नामक जो काव्य लिखा है, वह इसी राजा के विषय में है। धर्मशास्त्र पर मितान्नरा नामक प्रसिद्ध टीका लिखनेवाला विज्ञानेश्वर भी इसी राजा के दरवार में था।

इसके बाद के राजा दुर्बल हुए। कलचूरी-वंश का विज्जल नामक पुरुष द्वितीय तैलव राजा के समय दण्डनायक था। उसने अपने स्वामी की सत्ता अपने हस्तगत कर ली। तब राजा तैलव कल्याण शहर छोड़ कर धारवाड़ के पास अण्णगेरी नामक स्थान में राज्य करने लगा। विज्जल ने इस शहर को भी जीत लिया। तब तैलव बनवासी हो भाग गया। परन्तु विज्जल राज्य की व्यवस्था अच्छी तरह न कर सका। इसके समय लिंगायत-पंथ शुरू होगया था और उसने बहुत अशांति पैदा की। स्वयं विज्जल शीघ्र ही मारा गया। तब द्वितीय तैलव के पुत्र सोमेश्वर ने अपने वंश का बहुत-सा राज्य फिर से प्राप्त किया। परन्तु इसका ऐश्वर्य बहुत दिन तक न टिक सका। दक्षिण और उत्तर के दो यादव

घरानों ने उसका नाश कर डाला । सन् ११८९ के बाद चालुक्य राजाओं का पता नहीं लगता ।

इस प्रकार उत्तर चालुक्यों का राज्य बारहवीं सदी में हुआ । उनके समय में पुरानी रीतियों और व्यवस्थाओं के बदले नवीन रीतियाँ और व्यवस्थायें शुरू हुईं । जो कुछ उत्तर चालुक्यों में सामाजिक प्रगति वौद्ध-धर्म अत्रंतक वचा था, वह भी अब नाम-शेष हो गया । जैन-धर्म की भी अवनति होने लगी और इसके बदले लिंगायत-पंथ शुरू हुआ । इसका प्रचार वैश्य लोगों में ही विशेष है । क्योंकि ये ही लोग पहले जैन-धर्म के उपासक थे । इसी समय पुराणों की भी रचना हो रही थी और नवीन प्रकार का हिन्दू-धर्म प्रचलित हुआ । इस समय बहुत-से ब्राह्मण परिडित उत्पन्न हुए और हिन्दू-धर्म-शास्त्र पर अनेक नये ग्रंथ बने । सारांश यह है कि हिन्दू-धर्म और समाज का अर्वा-चीन स्वरूप इसी समय शुरू हुआ । इसलिए यह कह सकते हैं कि हिन्दुस्थान के इतिहास का अर्वाचीन काल उत्तर चालुक्यों से ही शुरू होता है ।

जिन यादवों ने उत्तर चालुक्य-वंश के राज्य को नष्ट किया, वे वास्तव में मथुरा के रहनेवाले थे । वे किसी प्राचीन काल में गुजरात और महाराष्ट्र में आये थे । यादव-वंश का इतिहास महाराष्ट्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है । यादवों के दो वंश प्रसिद्ध हैं । उनमें से एक नासिक के पास चंद्रादित्यपुर उर्फ चांदवड़ में राज्य करता था, और दूसरा देवगिरी उर्फ दौलताबाद में । इस वंश में प्रथम प्रसिद्ध पुरुष सेउणचन्द्र हुआ । इसीने सेउणपुर शहर बसाया और देश

चंद्रादित्यपुर का  
यादव-वंश

को भी सेउणदेश नाम दिया। यही मुसलमानों के समय में खान-देश नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस वंश में २२ राजा हुए। उन्होंने सन् ७९५ से सन् ११९१ तक राज्य किया।

यादवों की एक शाखा द्वार-समुद्र में राज्य करती थी। यह प्राचीन शहर आजकल के मैसूर राज्य के हलेवीड़ नामक स्थान में था। वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मन्दिर बना हुआ है। यादवों की इस शाखा को होयसल यादव कहते हैं। इनका पहला राजा वित्तिदेव उर्फ वित्तिग हुआ। इसीने द्वार-समुद्र शहर बसाया और वहाँ पर उसने ११११ से ११४१ तक राज्य किया। आरम्भ में राजा ने जैन-धर्म को आश्रय दिया था और उसके प्रधान गंगराज ने बहुत-से जैन-मन्दिर बनाये; परन्तु रामानुज ने जब भक्ति-मार्ग शुरू किया तब, उससे प्रभावित होकर, वह वैष्णव-धर्म का उपासक बन गया। इसके बाद उसने विष्णु के अच्छे-अच्छे मन्दिर द्वार-समुद्र तथा अन्य स्थानों में बनवाये और अपना नाम विष्णुवर्धन रख लिया। विष्णुवर्धन और उसके अनुयाइयों ने होयसल यादवों का अधिकार बहुत बढ़ाया। उसका नाती वीर वल्लाल बड़ा पराक्रमी था। उसने अपना राज्य उत्तर की ओर देवगिरी तक बढ़ाया, चालुक्यवंशी चतुर्थ सोमेश्वर के सेनापति ब्रह्मा को उसने कैद कर लिया और सोमेश्वर का बहुत-सा राज्य अपने राज्य में मिला लिया। परन्तु आगे चल कर सेउणदेश के यादव-वंश के भिल्लम ने वीर वल्लाल यादव और सोमेश्वर चालुक्य दोनों को हरा दिया और अपने वंश का नवीन राज्य देवगिरी नामक नया शहर बसा कर शुरू किया। इसी भिल्लम का यादव-वंश महाराष्ट्र में बहुत प्रताप-

## मराठों का उत्थान और पतन

शाली हुआ। होयसल यादवों का शासन कृष्णा नदी के दक्षिण में बहुत दिनों तक रहा। सन् १३१० में मलिक कफूर और अन्य मुसलमान सेनापतियों की चढ़ाइयाँ हुईं और अन्त में १३२६ या १३२७ में यह राज्य नष्ट हुआ। भिह्लम का पुत्र जैत्रपाल पिता के समान ही पराक्रमी था। वह बड़ा भारी विद्वान् भी था। उसके दरवार में प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्य का पुत्र लक्ष्मीधर तथा आदि-मराठी कवि मुकुन्दराज जैसे पुरुष थे। जैत्रपाल के पुत्र सिंहराज उर्फ सिंघन के समय यादवों की सत्ता बहुत ही बढ़ी। उसने कुन्तल देश को अपने अधिकार में कर लिया और मालवा, गुजरात, छत्तीसगढ़ आदि भागों के राजाओं को हरा दिया। पद्मनाल उर्फ पन्हाला के शिलाहारवंशी भोज राजा को हरा कर उसका राज्य अपने राज्य में जोड़ लिया। इसके बाद कृष्णदेव, महादेव और रामदेव नामक तीन राजा हुए। महाराष्ट्र का अन्तिम वैभवशाली राजा रामदेव ही था, इसीके समय में पहले-पहल अलाउद्दीन के सेनापतित्व में दक्षिण में चढ़ाई हुई। रामदेव के समय में देवगिरी का राज्य बहुत ही सम्पत्तिशाली हो गया था, और उसकी इस बात की कीर्त्ति ने कड़ा के सूबेदार अलाउद्दीन को देवगिरी पर चढ़ाई करने के लिए आकर्षित किया। ग्यारहवीं सदी के आरम्भ से मुसलमानों की हिन्दुस्थान पर चढ़ाइयाँ शुरू हो गई थीं और बारहवीं सदी के अन्त तक मुसलमानों का राज्य उत्तर-हिन्दुस्थान में स्थापित हो चुका था। १२०६ से १२९० तक दिल्ली में गुलाम सुलतानों ने राज्य किया, उसके बाद दिल्ली की सल्तनत जलालुद्दीन खिलजी के हाथ में आई। अलाउद्दीन इसी जलालुद्दीन का भतीजा तथा दामाद था। वह पका छली था और उसने

जलालुद्दीन को किसी प्रकार खुश कर लिया था। कड़ा का सूबेदार होने पर भी उसकी दृष्टि दिल्ली की राजगद्दी पर गई। इसके लिए उसे धन की आवश्यकता जान पड़ी और देवगिरी के धन की कीर्त्ति सुनकर उसीपर चढ़ाई करने का उसने निश्चय किया। रामदेव को उसने किस प्रकार हराया, इसकी कहानी काफी लंबी-चौड़ी है और उसके छल-कपट की बातों से भरपूर भरी हुई है। यह स्पष्ट है कि देवगिरी में अपार धन होने पर भी आवश्यक सैन्य-प्रबन्ध नहीं था, इसी कारण अल्लाउद्दीन अनेक छल-कपट करके उसे ले सका। रामदेव ने उसे बहुत अधिक धन तथा अपने राज्य का उत्तरी भाग देकर किसी प्रकार अपना वचाव किया।

रामदेव के समय में भाषा और साहित्य में महाराष्ट्र में बहुत उन्नति हुई। इसका बहुत-सा श्रेय उसके मुख्य प्रधान हेमाद्रि उर्फ

हेमाद्रि और सामाजिक व्यवस्था

हेमाद्रिपत को दिया जाता है। यह पुरुष शूर, राजनीति-निपुण और धार्मिक था।


इसने चतुर्वर्ग-चिन्तामणि नामक बड़ा

भारी ग्रन्थ लिखा। इसके सिवाय इसने कई अन्य ग्रन्थ लिखे। वोपदेव नाम का एक विद्वान् पुरुष इसका साथी था। उसने प्राकृत भाषा का मुग्धबोध नामक व्याकरण संस्कृत में लिखा है। इसके सिवाय उसने कई प्रसिद्ध वैदिक ग्रन्थ भी लिखे हैं। हेमाद्रि का भाषा तथा साहित्य के विषय का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर चालुक्यों के समय में धार्मिक तथा सामाजिक व्यवस्था का जो कार्य शुरू हुआ, उसे हेमाद्रि ने बहुत-कुछ पूरा किया। सारांश में कह सकते हैं कि समाज और व्यक्ति के जीवन के बहुत-से नियम उसने बनाये। महाराष्ट्र की प्रसिद्ध मोड़ी लिपि उसीने शुरू की। परन्तु खेद की



वात है कि इतना विद्वान् पुरुष देवगिरि की सैनिक व्यवस्था अच्छी तरह न कर सका और पक्के सैनिक आधार के अभाव के कारण ऐश्वर्य-शिखर पर चढ़े हुए देवगिरि के राज्य को केवल ८००० सैनिकों के बल से अलाउद्दीन ने हिला कर गिरा दिया !

अलाउद्दीन जब देवगिरी के घन के बल से दिल्ली का सुलतान बन बैठा, तब उसने अपने प्रिय सेनापति मलिक कफूर को देवगिरी पर फिर से चढ़ाई करने को भेजा । इस बार भी रामदेव को मुसलमानों की शरण जानना पड़ा । उसे अलाउद्दीन का माण्डलिक राजा बनकर दिल्ली में उसके सामने उपस्थित होना पड़ा । इस प्रकार देवगिरी का स्वातंत्र्य सन् १३०८ में नष्ट हो गया । उसकी मृत्यु के बाद उसके दामाद हरपाल ने सन् १३१८ में मुसलमानों का अधिकार दूर करने का प्रयत्न किया, परन्तु उस समय के सुलतान मुबारिक खिलजी के सेनापति मलिक खुसरू ने उसपर चढ़ाई की और उसे कैद कर लिया । फिर जीते जी उसकी चमड़ी खिंचवा कर बड़ी क्रूरता के साथ उसे मार डाला गया । इस प्रकार सन् १३१८ में देवगिरी का राज्य सदैव के लिए मुसलमानों के हाथ चला गया, और दक्षिण में उनकी सत्ता स्थापित हो गई ।



### मुसलमान-काल

खिलजी-घराने के बाद दिल्ली की सल्तनत गयासुद्दीन तुगलक के हाथ में गई। उसने अपने लड़के उल्घख़ाँ को वारंगल के राजा पर चढ़ाई करने के लिए भेजा, गयासुद्दीन तुगलक क्योंकि इस राजा ने कर देना बन्द कर दिया था। उल्घख़ाँ की पहली चढ़ाई विफल हुई, परन्तु सन् १३२३ में उसने वारंगल पर फिर से चढ़ाई की और इस बार वहाँ के राजा प्रतापरुद्रदेव को कैद कर लिया। इस प्रकार वारंगल का तैलंगन राज्य दिल्ली के राज्य में शामिल हो गया।

गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसका लड़का मुहम्मद तुगलक दिल्ली का सुलतान बना। दक्षिण में हमेशा बलबे हुआ करते हैं, मुहम्मद तुगलक यह देखकर उसने सोचा कि यदि राजधानी ही दक्षिण में रहे तो ये बलबे न होंगे। अतएव उसने देवगिरी को ही अपनी राजधानी बनाना चाहा। इसका उसने दौलताबाद नाम रक्खा और वहाँ पहाड़ी पर बड़ा मजबूत किला बनवाया। इसके बाद उसने दिल्ली के लोगों

को देवगिरी जाने का हुक्म दिया । लोगों से इस हुक्म का अमल कैसे कराया गया, इसकी कहानी मशहूर ही है । पर कुछ ही सालों के बाद उसे अपनी राजधानी देवगिरी से वापस दिल्ली ले जानी पड़ी । उसके विचित्र और क्रूर कार्यों के कारण राज्य के अन्य भागों के समान दक्षिण में भी अनेक बलबे हुए, परन्तु वह उन्हें दवाने में सफल न हो सका । एक जगह का बलबा दवाता तो दूसरी जगह बलबा उठ खड़ा होता था । इसी कार्य में उसकी ज्यादातर जिन्दगी बीती, और इसीमें सिन्ध में उसकी मृत्यु भी हुई ।

ऐसी गड़बड़ के समय दक्षिण में दो नये राज्य स्थापित हुए । हसन कांगू वहमनी नामक सेनापति ने देवगिरी में वह राज्य दक्षिण में दो नये राज्य स्थापित किया, जो वहमनी राज्य के नाम से प्रसिद्ध है । शीघ्र ही इसने अपनी राजधानी देवगिरी के बदले गुलबर्गा में स्थापित की । यह स्थान भीमा नदी से २० मील उत्तर की ओर था । दूसरा जो राज्य दक्षिण में स्थापित हुआ, वह विजयनगर के नाम से प्रसिद्ध है । यह वहमनी राज्य के बारह वर्ष पहले यानी सन् १३३५ में स्थापित हुआ । इसके स्थापन-कर्त्ता हरिहर अथवा हुक्का और बुक्का नामक दो भाई थे । ये दोनों तुंगभद्रा के उत्तरी किनारे के अनेगुंडी नामक स्थान के राजा के नौकर थे । मुहम्मद तुगलक ने इस राजा पर चढ़ाई की और उसे मार डाला; परन्तु जब मुसलमान लोग वहाँ का राज्य न चला सके तो मुहम्मद तुगलक ने हरिहर को ही वहाँ का शासन-कार्य सौंप दिया । हरिहर ने धीरे-धीरे तुंगभद्रा के दक्षिणी किनारे पर एक नया शहर बसाया । किले आदि बना कर उसने इसकी बड़ी सुव्यवस्था की और इसे


सुरक्षित कर दिया। धीरे-धीरे यह बड़ा सुन्दर और समृद्ध नगर हो गया और दक्षिण के व्यापार का बड़ा भारी केन्द्र भी बन गया। इसका नाम विजयनगर रखा गया और हरिहर यहाँ राज्य करने लगा।

इस प्रकार दक्षिण में जो दो बड़े राज्य स्थापित हुए, उनमें से पहला डेढ़सौ वर्ष तक और दूसरा करीब २३० वर्ष तक चलता रहा। परन्तु इन दोनों में कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच के रायचूर दो-आब के लिए सदा झगड़े चलते रहे।

इस दोआब में रायचूर और मुदकल नाम के दो किल्ले थे। इन किल्लों के आस-पास उपर्युक्त दोनों राज्यों की सेनाओं की न-जाने कितनी लड़ाइयाँ हुईं। हसनकांगू ने भीमा से लगाकर तुंगभद्रा तक और पश्चिम में चौल से लगाकर पूर्व में वेदर तक सारा प्रदेश कब्जे में कर लिया। परन्तु वह बहुत दिनों तक राज्य न कर सका, क्योंकि १३५८ में ही उसकी मृत्यु होगई। उसके लड़के मुहम्मद के समय वारंगल और विजयनगर के राजाओं में लड़ाई शुरू हुई। वारंगल का राजा हार गया और उसने गोलकुण्डा मुहम्मद को दे दिया। विजयनगर से जो लड़ाई हुई, उसमें पहले-पहल वहाँ के राजा बुक्काराय ने कुछ विजय पाई; परन्तु अन्त में उसे भी मुहम्मद से हारना पड़ा और संधि करनी पड़ी। फ़िरिश्ता नामक इतिहास-लेखक ने लिखा है कि १७ साल के भीतर कम-से-कम ५ लाख हिन्दू मार डाले गये। मुहम्मद के लड़के मुजाहिदशाह के समय में ऊपर बताये रायचूर दोआब के कुछ स्थानों के सम्वन्ध में कुछ झगड़े उठ खड़े हुए, और फिर

से दोनों राज्यों के बीच लड़ाई छिड़ गई। इसमें मुजाहिद का विजय तो हुई, परन्तु उससे कोई लाभ न हुआ; उसको उसका चाचा दाऊदशाह ने शीघ्र ही मार डाला। इसके बाद उसका भाई महमूदशाह गद्दी पर बैठा। यह विद्वान् पुरुष था और विद्वानों को चाहता था। इसके समय में शान्ति बनी रही। इसके बाद इसका लड़का गयासुद्दीन सुलतान हुआ। यह बहुत दुराचारी राजा था। लालचीन नामक एक गुलाम ने इसी कारण इसे अन्धा कर डाला। इसके बाद दाऊदशाह का लड़का फीरोजशाह सुलतान हुआ। यह बड़ा भारी विद्वान् था और अनेक प्रकार की विद्यायें जानता था। कहते हैं कि इसने हिन्दुओं पर चौबीस चढ़ाइयाँ कीं। उनमें से दस महत्वपूर्ण हैं। इसके समय भी विजयनगर के राजा से लड़ाई हुई। विजयनगर का राजपुत्र धोखे से मारे जाने के कारण वहाँ की सेना में गड़बड़ उत्पन्न हो गई, इससे अन्त में वहाँ के राजा को बहुतस धन देकर फीरोजशाह से सन्धि करनी पड़ी। परन्तु यह सन्धि बहुत दिन तक न टिकी। निहाल नामक सुनार जाति की एक सुन्दर कन्या के कारण दोनों में फिर से झगड़ा उठ खड़ा हुआ, और इसमें भी विजयनगर की हार हुई। अन्त में देवराजा ने फीरोजशाह को अपनी कन्या और वंकापुर का किला देकर सन्धि कर ली। इसके बाद उसका भाई अहमदशाह वहमनी राज्य का सुलतान हुआ। इसके समय में भी वारंगल तथा विजयनगर के राजा में लड़ाई हुई। परन्तु इस बार भी वहाँ के राजा देवराय ने हार जाने के कारण द्रव्य देकर सन्धि कर ली। इसके बाद देवराय ने वारंगल को जीत लिया और तैलंगल को अपने राज्य में जोड़ लिया। अन्य सुलतानों के समान इसके समय भी वि

# बाहमनी राज्य के पाँच भाग





से लड़ाई हुई और परिणाम भी वही हुआ। इसके बाद हुमायूँशाह जालिम गद्दी पर बैठा। अपने जुल्मों के कारण वह शीघ्र ही मार डाला गया। इसके बाद निजामशाह नामक उसका लड़का सुलतान हुआ, परन्तु वह शीघ्र ही मर गया।

निजामशाह के बाद उसका छोटा भाई मुहम्मदशाह गद्दी पर बैठा। इसने २० वर्ष राज्य किया। वहमनी राज्य ने इसीके समय से अधिक उन्नति की, और इसीके वहमनी राज्य के टुकड़े समय से उसके टुकड़े होना शुरू हुआ। उसकी उन्नति का कारण वहाँ का प्रधान मंत्री ख्वाजा महमूदगवाँ था। वह ईरानी था और अलाउद्दीन सुलतान ने उसके गुणों पर मुग्ध होकर उसे अपने दरबार का सरदार बना दिया था। हुमायूँशाह के समय वह प्रधान मंत्री हो गया। तबसे वह मारे जाने तक प्रधान मंत्री बना रहा। उसने अपनी योग्यता से वहमनी राज्य को बहुत ही उन्नत दशा पर पहुँचाया। परन्तु उसकी उन्नति देख अन्य सरदार उससे द्वेष रखते थे। इन लोगों ने उसके विरुद्ध एक षडयंत्र रचा, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह सुलतान के हुक्म से मार डाला गया। उसकी मृत्यु होते ही राज्य की अवनति बहुत शीघ्रता से शुरू हो गई। राज्य के जो तर्फ यानी सूबे थे, उनके अधिकारी धीरे-धीरे स्वतंत्र होने लगे। बीजापुर में शृसुफ आदिलशाह सन् १४८९ में स्वतन्त्र बन बैठा, और उससे बीजापुर की आदिलशाही का राज्य शुरू हो गया। बेदर में इसी प्रकार कासिमवरोद सन् १४९२ में स्वतन्त्र हो गया और उससे बेदर की वरीदशाही शुरू होगई। वरार में १४८४ में फतेउल्लाह ईसादशाह पहले ही स्वतन्त्र बन बैठा था, इसीसे ईसादशाही



## मराठों का उत्थान और पतन

वराने की नींव पड़ी। जिस समय यूसुफ आदिलशाह स्वतन्त्र हुआ उसी समय अहमदनगर में अहमद निजामशाह स्वतन्त्र हो गया, इससे निजामशाही वराना शुरू हुआ। इसी पुरुष ने अहमदनगर को बसाया था। और अन्त में गोलकुण्डा के अधिकारी कुत्वउल्-मुल्क ने वहाँ स्वतन्त्र होकर कुत्वशाही वराना शुरू किया। इस प्रकार वहमनी राज्य के थोड़े ही वर्षों के भीतर पाँच स्वतन्त्र राज्य हो गये। परन्तु इनमें से दो तो १०० वर्ष के भीतर ही नष्ट हो गये। वेदर का बहुतेरा राज्य बीजापुर के राजाओं ने जीत लिया। अन्त में केवल वेदर और उसके आस-पास का थोड़ासा देश स्वतन्त्र बच रहा था। इसे सन् १६५६ में औरंगजेब ने नष्ट कर डाला। वरार की ईमादशाही अहमदनगर की निजामशाही के कारण सन् १५७२ में नष्ट हुई। इस प्रकार १६ वीं सदी के अन्त में वहमनी राज के पाँच टुकड़ों में से केवल बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुण्डा के तीन राज्य रह गये थे। परन्तु ये भी बहुधा आपस में झगड़ा करते थे। बीजापुर और अहमदनगर के बीच के झगड़े तो विलकुल प्रारम्भ से होते चले आ रहे थे। बीजापुर के आदिलशाहों ने अहमदनगर के साथ लड़ने में कई बार विजयनगर के राजा की सहायता ली थी।

इधर विजयनगर के राजवंश में भी वहमनी राज्य के टुकड़े होने के समय परिवर्तन हो चुका था। सन् १४८७ में नरसिंहराय

विजयनगर राज्य  
का विनाश

नामक एक पुरुष ने प्रथम वंश के अंतिम राजा विरुपातराय के दुर्बल और दुराचारी होने के कारण राज्य-सिंहासन अपने

हाथ में कर लिया। इस वंश में कृष्णदेवराय विशेष प्रसिद्ध है।

इसने बीजापुर के राजा को हराकर रायचूर और मुदकल के किले अपने हाथ में ले लिये, और विजय के गर्व में अदिलशाह का बहुत अपमान किया। इस अपमान का आगे चलकर बुरा परिणाम हुआ। कृष्णदेवराय का उत्तराधिकारी अच्युतराय डरपोक निकम्मा और दुष्ट पुरुष था। उसे अपने प्रधान मंत्री रंगराय पर बहुत अधिक अवलम्बित रहना पड़ा। इस कारण प्रधान मंत्री ही सर्वाधिकारी हो गया। प्रधान मंत्री के रामराय, तिरुमल और व्यंकटाद्रि नामक तीन लड़के थे। पिता के बाद इन तीनों ने राज्य के सूत्र अपने हाथ में कर लिये। रामराय बड़ा धूर्त पुरुष था, और नाम को छोड़कर बाकी सब बातों में वही राजा बन बैठा था। यह धूर्त ही नहीं, बड़ा घमण्डी भी था और मुसलमानों के राज्यों पर चाहे जब हमले कर दिया करता था। इस कारण अन्त में मुसलमान राजा उससे बहुत चिढ़ गये और अदिलशाह, कुतुबशाह, वरीदशाह और निजामशाह चारों विजयनगर से लड़ने की तैयारी करने लगे। सन् १५६४ में इन लोगों ने अपनी बड़ी भारी फौज बीजापुर में एकत्र की। फिर अदिलशाह ने रामराय से मुदकल, रायचूर, वागलकोट आदि किले वापस माँगे। परन्तु रामराय तो गर्व में फूला हुआ था। उसने इनकी माँग की विलकुल परवाह न की और मुसलमानी दूत का अपमान करके उसे वापस भेज दिया। मुसलमान राजा यही तो चाहते थे। वस, उन्होंने विजयनगर से युद्ध छेड़ दिया। रामराय ने भी युद्ध की भारी तैयारी की। मुसलमानों के पास तोपें थीं, तब भी प्रारम्भ में विजयनगर की सेना ने कुछ विजय प्राप्त की। परन्तु अहमदनगर का निजामशाह रामराय से बहुत चिढ़ा हुआ था, क्योंकि

## मराठों का उत्थान और पतन

अदिलशाह की ओर से एकवार लड़ने पर रामराय ने उसका बहुत अपमान किया था, इसलिए निजामशाह प्राणों की कुछ पर्वाह न करके विजयनगर की सेना के बीचोंबीच घुस पड़ा और जहाँ रामराय अपने लोगों को उत्तेजना दे रहा था वहाँ आकर खड़ा हो गया। इसी समय दुर्भाग्य से निजामशाह का एक मस्त हाथी रामराय पर दौड़ पड़ा। वह घोड़े पर बैठ कर वहाँ से भागना चाहता था, ठीक उसी समय में मुसलमानों ने उसे क़ैद कर लिया और उसे निजामशाह के पास ले गये। निजामशाह ने तुरन्त उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और भाले की नोक पर रख कर उसे सारी सेना को ऊपर उठा कर दिखाया। रामराय के मरने की खबर पाते ही विजयनगर की सेना में गड़बड़ मच गई। तुरन्त विजयनगर की सेना भाग खड़ी हुई। फिर मुसलमानों ने उनका जो पीछा किया और जैसे उन्हें क़त्ल किया, उसकी कुछ न पूछिए। कहते हैं कि करीब एकलाख हिन्दू इस लड़ाई में मारे गये। इस युद्ध को मुसलमान इतिहास-लेखक तालीकोट की लड़ाई कहते हैं, परन्तु युद्ध का स्थान तालीकोट से नैऋत्य की ओर ३० मील पर था। पास ही रकसगी और तगड़गी नामक दो गाँव थे। इसलिए मराठी इतिहास-लेखक उसे राक्षस तागड़ी की लड़ाई कहते हैं; और यही नाम अन्वर्थक जान पड़ता है।

तीन दिन के भीतर ही मुसलमान सेना विजयनगर में पहुँची, और उसने पाँच महीने तक सारे नगर को लूटा। घरों में आग लगा दी और सैकड़ों इमारतें गिरा दीं। विजयनगर करीब २०० सालों से बसा हुआ था और बहुत ही समृद्धशाली नगर था।

इसलिए कह नहीं सकते कि कितनी सम्पत्ति मुसलमान लोग यहाँ से लूट ले गये। इस प्रकार शहर थोड़े ही दिनों के भीतर नष्ट होकर खंडहरों का ढेर बन गया। बीजापुर और गोलकुण्डा के भागों को इन राज्यों ने अपने राज्य में शामिल कर लिया। मैसूर के राजा ने भी अपना राज्य काफी बढ़ाया और तंजोर, वेलोर आदि स्थानों के अधिकारी स्वतंत्र बन बैठे। इस प्रकार विजयनगर का राज्य सदैव के लिए नष्ट हो गया।

राजसतागढ़ी की लड़ाई के बाद शीघ्र ही अहमदनगर और बीजापुर के भगड़े शुरू हुए, और वे अहमदनगर के राज्य के नष्ट होने तक जारी रहे। उधर उत्तर-निजामशाही का अन्त हिन्दुस्थान में अकबर ने अपना राज्य पकड़ा जमा लिया था और वह उसे चारों ओर बढ़ा रहा था। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर को उसने १५६२ में ही ले लिया था; परन्तु अहमदनगर राज्य की ओर बढ़ने में कुछ समय लगा। १५८९ के करीब अहमदनगर के राजा मीरुलहुसेन और उसके प्रधान मंत्री मिर्जाखाँ में भगड़े उठ खड़े हुए। अन्त में प्रधान मंत्री ने राजा को कैद में डाल दिया और इस्माइल नाम के १२ वर्ष के लड़के को राजा बनाना चाहा। उसके इस कार्य से लोग विगड़ उठे। इस प्रकार उस राज्य में गड़बड़ पैदा हो गई। इस गड़बड़ के समय मिर्जाखाँ ने मीरुलहुसेन को मार डाला। उसके पिता मुर्तिजा निजामशाह के समय कुछ भगड़े हुए थे और सुलतान का भाई बुरहान निजामशाह अकबर के पास भाग गया था। अहमदनगर की गड़बड़ को देखकर अपने लड़के इस्माइल को गद्दी से उतार स्वयं राजा बन बैठने के लिए अकबर ने बुरहानशाह

को सहायता देकर वहाँ भेजा। उसने केवल चार वर्ष ही राज्य किया। उसके बाद उसका लड़का इब्राहीम निजामशाह गद्दी पर बैठा। यह बहुत दुर्ब्यसनी था। इस कारण राज्य में झगड़े पैदा हुए और बीजापुर से युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में इब्राहीम मारा गया। उसके बाद अहमदशाह नामक एक लड़के को प्रधानमंत्री मियाँ मंजू ने गद्दी पर बैठाया। परन्तु यह झगड़ा उठ खड़ा हुआ कि यह लड़का निजामशाह के वंश का सच्चा वारिस है या नहीं। मियाँ मंजू ने अकबर के लड़के और गुजरात के सूबेदार मुराद से सहायता माँगी। मुराद सेना लेकर आया और उसने अहमदनगर को घेर लिया। इस प्रकार इस राज्य का अन्तकाल आ पहुँचा। परन्तु इस कठिन प्रसंग पर चाँदबीबी नामक एक शूर स्त्री ने इस राज्य की रक्षा करने में बड़ी वीरता और चतुरता दिखाई। यह हुसेन निजामशाह की लड़की थी और बीजापुर के सुलतान अली आदिलशाह से व्याही थी। पति के लड़ाई में मारे जाने पर बीजापुर के राज्य को सम्हालने में उसने पहले ही बहुत वीरता और चतुरता दिखाई थी। चाँदबीबी ने अहमद को सुलतान मानने से इन्कार किया और वहादुर नामक एक लड़के को गद्दी पर बिठला कर मुगलों को राज्य में घुसने से रोकना चाहा। इसी समय बीजापुर और गोलकुण्डा से मदद के लिए फौज आ पहुँची। शाहजादा मुराद ने सुरंग लगाकर किले की दीवाल गिराने का प्रयत्न किया और एक जगह छेद हो भी गया। परन्तु चाँदबीबी ने बड़ी तत्परता से मुगलों को पीछे हटा कर उस दीवाल की मरम्मत कर डाली। फिर बीजापुर से और मदद पहुँची। इस फौज ने मुराद को इतना तंग किया कि वरार लेकर

उसे चाँदबीबी से सन्धि कर लेना पड़ी। इस संधि के बाद चाँदबीबी ने बहादुरशाह को तख्तनशीन किया। मुहम्मदराह को प्रधान मंत्री बनाया और स्वयं सब कारवार देखने लगी। परन्तु इस प्रधान मंत्री ने सारा अधिकार अपने हाथ में कर लिया। इस कारण फिर भगड़े उठ खड़े हुए। चाँदबीबी ने इब्राहीम आदिलशाह की मदद माँगी। आदिलशाह की फौज ने अहमदनगर को घेर लिया। इसलिए मुहम्मदख़ाँ ने मुग़लों की मदद माँगी। सब सरदारों ने मिलकर मुहम्मदख़ाँ को क़ैद किया और चाँदबीबी को स्वाधीन कर दिया। परन्तु मुग़ल लोग वरार पाने पर भी शान्त नहीं हुए थे। वे धीरे-धीरे निजामशाही के हिस्से अपने अधिकार में करते चले आ रहे थे। मुग़लों का आना सुनकर चाँदबीबी ने गोलकुण्डा और बीजापुर से सहायता माँगी। दोनों पक्षों में दो दिन तक गोदावरी के किनारे सूपासोनपत नामक स्थान में घनघोर युद्ध हुआ और अन्त में मुग़लों की विजय हुई। मुग़लों का सेनापति खानखाना था और बीजापुर का सरदार सोहलख़ाँ था। अहमदनगर में चाँदबीबी और अन्य लोगों में भगड़े खड़े होने लगे। उधर शाहज़ादे मुराद की मृत्यु हो गई और इसलिए अकबर ने अपने दूसरे लड़के दानियाल को दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा। अहमदनगर के भगड़ों के कारण हमीरख़ाँ खोजा नामक एक पुरुष ने चाँदबीबी को मार डाला। इसके थोड़े ही दिनों बाद मुग़लों ने अहमदनगर का क़िला ले लिया और इस प्रकार निजामशाही का अन्त हो गया।

परन्तु इतना होने पर भी निजामशाही के कुछ सरदार

निराश नहीं हुए थे। उन्होंने अलीशाह के पुत्र मुर्तिजाशाह को परिण्डा नामक स्थान में निजामशाही का मलिक अम्बर और निजाम-शाही का पुनरुद्धार राजा घोषित किया और इन लोगों ने निजामशाही का बहुत-सा भाग फिर से जीत लिया। इन सरदारों में मियाँ राजू और मलिक अम्बर नामक सरदार मुख्य थे। शीघ्र ही उन दोनों में झगड़े होने लगे। यह झौंका देखकर मुगल सरदार खानखाना ने उनपर हमला कर दिया। मलिक अम्बर ने मुगल सेना को पहले तो हरा दिया, परन्तु पीछे स्वयं हार गया। इसके बाद मियाँ राजू से उसके झगड़े फिर शुरू हुए। इधर शाहजादा दानियाल मर गया। ऐसा झौंका देखकर मलिक अम्बर ने मियाँ राजू को कैद में डाल दिया और स्वयं निजामशाही के बचे हुए राज्य का कारवार चलाने लगा। इसने दौलताबाद से छः मील पर खड़की नामक स्थान में राजधानी स्थापित की। इसी शहर को आगे चलकर औरंगाबाद नाम दिया। सन् १६०५ में अकबर के मरने पर मुगलशाही के दक्षिणी राज्य में जो गड़बड़ पैदा हुई, उससे मलिक अम्बर ने काफ़ी लाभ उठाया। उसने फ़ौज जमा की, निजामशाही के खोये हुए भाग वापस लिये, फिर खानखाना को हरा कर अहमदनगर भी वापस ले लिया और इस मुगल सरदार को उसने बुरहानपुर तक पीछे हटा दिया। इसके बाद वह राज्य की स्थिति सुधारने में लगा और उसमें काफ़ी सफल हुआ। पर मलिक अम्बर मुश्किल से यह काम कर पाया था कि फिर से उसे मुगलों का सामना करना पड़ा। जहाँगीर ने अपना राज्य स्थिर करने पर, निजामशाही का राज्य लेने के लिए, सन् १६१६ में, फ़ौज भेजी। इसका

सेनापति जहाँगीर का लड़का खुर्रम, उर्फ़ शाहजहाँ था। उसने मलिक अम्वर को कई बार हराया और सन् १६२१ में अहमदनगर का किला ले लिया। परन्तु इसके बाद शीघ्र ही नूरजहाँ और शाहजहाँ के बीच झगड़े शुरू हुए, और अन्त में शाहजहाँ को अपने शत्रु मलिक अम्वर से सहायता माँगनी पड़ी। इसलिए अब जहाँगीर ने स्वयं शाही सेना लेकर दक्षिण पर चढ़ाई की। इसके सामने मलिक अम्वर और शाहजहाँ की कुछ भी न चली, और पुत्र को पिता से क्षमा माँगनी पड़ी। परन्तु फिर शीघ्र ही जहाँगीर स्वयं आपत्ति में पड़ गया, क्योंकि मुगल सेनापति महावतखाँ और नूरजहाँ के बीच झगड़े उठ खड़े हुए थे और कुछ दिन तक मुगल बादशाह को अपने सेनापति की कैद में जीवन बिताना पड़ा था। वह नूरजहाँ की होशियारी से इस कैद से मुक्त हुआ। इस कारण महावतखाँ को शाहजहाँ के पास भागना पड़ा। इधर शाहजहाँ ने पिता को खुश करने के लिए मलिक अम्वर से पहले ही झगड़े कर लिये थे। सन् १६२६ में मलिक अम्वर मर गया और इन सबके भाग्य से जहाँगीर सन् १६२७ में मर गया। जहाँगीर के मरने पर शाहजहाँ बादशाह बन बैठा।

मलिक अम्वर के मरने पर उसका लड़का फत्तेखाँ निजामशाही का कारवार देखने लगा। वह चाप के समान होशियार नहीं था, परन्तु निजामशाही को बचाने के लिए भरसक प्रयत्न करता था। कुछ लोगों के कहने पर निजामशाह ने उसे कैद में डाल दिया। इससे अन्य राजभक्त सरदारों में भय उत्पन्न



## मराठों का उत्थान और पतन

हो गया। लखूजी जाधवराव नाम का एक भारी मराठा सरदार वहाँ पर था। निजामशाह को शक हुआ कि वह मुगलों से मिला हुआ है, इसलिए शाह ने उसे पहले तो क्रैद में डाला और कुछ दिनों के बाद उसे तथा उसके लड़के को मार डाला। इस कारण निजामशाह के दरवार के सब लोग नाराज हो गये। लखूजी जाधवराव का दामाद और प्रसिद्ध शिवाजी का पिता शाहजी भोंसले निजामशाह और आदिलशाह के राज्यों के बीच के भाग पर अपना कब्जा जमा कर वहाँ का कारवार स्वतंत्र रूप से देखने लगा। इस प्रकार निजामशाही का वास्तव में अन्त होने का समय समीप पहुँचा। मुगल लोगों ने राजधानी तो लेली थी, परन्तु आसपास के भाग पर उनका कब्जा अच्छी तरह नहीं हुआ था। इसलिए निजामशाही के भिन्न-भिन्न अधिकारी अपने-अपने स्थानों में स्वतंत्र बन बैठे। जाधवराव की मृत्यु के बाद निजामशाही के मराठे कारवारी एकचित्त होकर काम करने लगे। उनमें शाहजी भोंसले प्रमुख था। शाहजी ने बीजापुर के राज्य का कुछ हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया था, इसलिए आदिलशाह ने मुरारराव नामक अपने एक सरदार को उसके विरुद्ध भेजा। उधर उत्तर-हिन्दुस्थान में ख़ाँजहाँ लोधी नामक एक सरदार ने शाहजहाँ के विरुद्ध बलवा किया। अंत में भागकर वह दक्षिण में आया। उसे शाहजी भोंसले और अन्य मराठे सरदारों ने सहायता दी। परन्तु शाहजहाँ फ़ौज लेकर जब उसपर चढ़ आया तो शाहजी ने उसका पक्ष छोड़कर शाहजहाँ की शरण ली। तब लोधी मुर्तिजा-शाह के पास गया। इसलिए मुगलों ने निजामशाह से युद्ध करके उसको हरा दिया। इसी समय यानी सन् १६२९ में अनावृष्टि के


कारण दक्षिण में भयंकर काल पड़ा। इसलिए कई लोग देश छोड़कर चले गये और सैकड़ों मर गये। दाना-चारा न मिलने से ढोरों का भी वही हाल हुआ। इसलिए सारा देश क़रीब-क़रीब उजाड़ हो गया। इसके बाद महामारी ने आकर लोगों का काम तमाम कर दिया। इसी समय उत्तर से और भी मुग़ल फ़ौज दक्षिण में पहुँची। अब कहीं मुर्तिजाशाह को अबल आई और उसने फ़त्तेख़ाँ को क़ैद से मुक्त किया। परन्तु उसने मुक्त होते ही शाह को तथा उसके पक्ष के अनेक सरदारों को क़ैद करके मार डाला और स्वयं सब निजामशाही पर अधिकार जमा कर मुग़लों की शरण गया। उसने मुर्तिजाशाह के हुसेन नामक एक लड़के को गद्दी पर बिठलाया था। इन सब बातों से शाहजी भोंसले को बड़ा बुरा लगा। उसने बीजापुर के राजा से मित्रता करके मुग़लों का दौलतावाद नामक क़िला फ़त्तेख़ाँ से लेने के लिए बीजापुर की फ़ौज मँगवाई। तब फ़त्तेख़ाँ ने मुग़लों से सहायता माँगी। इस युद्ध में बीजापुरवालों की हार हुई। तथापि वहाँ के राजा ने फ़त्तेख़ाँ को अपनी ओर मिलाकर मुग़लों से लड़ाई जारी रखी। इससे मुग़ल सेनापति महावतख़ाँ बहुत ही चिढ़ गया। उसने दौलतावाद पर ज़ोरों का हमला किया और २८ दिन के घनघोर युद्ध के बाद उसे ले लिया तथा फ़त्तेख़ाँ और वाल राजा हुसेन को क़ैद कर दिल्ली भेज दिया। इसके बाद उसने निजामशाही का सब राज्य अपने क़ब्जे में कर लिया। इस प्रकार अहमदनगर का निजामशाही राज्य सन् १६३३ में सदैव के लिए नष्ट हो गया।

इसके बाद शाहजी भोंसले ने निजामशाही को फिर से स्था-

सराओं का उत्थान और पतन

पित करने का जो व्यर्थ परिश्रम किया, उसका इतिहास निजाम-शाही के इतिहास की अपेक्षा भोंसले-घराने के अभ्युदय के इतिहास से अधिक सम्बन्ध रखता है। अतएव उसका वर्णन, आगामी अध्याय में, भोंसले-घराने के इतिहास के साथ किया जायगा।

---



## भोंसलों का अभ्युदय

निजामशाही, आदिलशाही और कुतुबशाही की अवनत अवस्था में जिन मराठे\* घरानों ने नाम कमाया और तत्कालीन राजनीति में भाग लिया, उनमें भोंसले-मालोजी भोंसले वंश भी एक है। इस वंश का ठीक-ठीक इतिहास अब तक नहीं मिला है। बहुत लोग यह मानते हैं कि इस वंश का सम्बन्ध उदयपुर के राजपूत घराने से है। ऐसा कहते हैं कि राणा लक्ष्मणसिंह का पोता मुजनसिंह चित्तौड़ छोड़कर सोंधवाड़ा में रहने लगा। वहाँ पर उसके वंशज चार पीढ़ी तक बने रहे। इनमें से देवराज नाम का एक पुरुष सन् १४१५ के करीब दक्षिण में आया। भोंसाजी नाम के एक पुरुष से ये लोग भोंसले कहलाने लगे थे। इस वंश

---

\* मराठा शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो इससे महाराष्ट्र में रहने वाले समस्त हिन्दुओं का बोध होता है; दूसरे, 'मराठा' नामक खास जाति का बोध होता है। कहीं कौनसा अर्थ ठीक होगा, यह प्रसंग से जाना जा सकता है। तथापि बहुधा पहले ही अर्थ का उपयोग इस पुस्तक में विशेष हुआ है।

का अधिक विश्वसनीय इतिहास शिवाजी के बाबा के बाबा सम्भाजी से शुरू होता है। सम्भाजी के लड़के बापजी भोंसले का जन्म सन् १५३३ में हुआ। बापजी के मालोजी और विठोजी नामक दो लड़के थे। उनका जन्म सन् १५५० और १५५३ में हुआ। आरम्भ में दोनों भाई लखूजी जाधवराव नामक एक सरदार के पास वारगीर † बनकर रहने लगे। मालोजी शरीर से बहुत ऊँचा-पूरा आदमी था। इस कारण उसके पास घोड़े टिकते न थे। अन्त में जाधवराव ने उसे अपने घर पर द्वारपाल की नौकरी दी। परन्तु वह महत्वाकांक्षी और कर्तृत्ववान पुरुष था। द्वारपाल की नौकरी छोड़कर वह फलटण के सरदार निम्बालकर के पास गया। वहाँ उसने बहुत नाम कमाया, जिससे जगपालराव निम्बालकर ने अपनी वहन दीपावाई का विवाह उससे कर दिया। मालोजी की होशियारी देखकर सन् १५७७ में जाधवराव ने निजामशाह से उसकी भेंट करवादी और सिफारिश करके सरकारी सेना में सिलेदारी ‡ दिलवा दी। इसके बाद वह अपनी निजी पागा † रख कर सरकारी नौकरी करने लगा। उसके भाई विठोजी के आठ लड़के हुए, मगर वह सन्तानहीन ही था। उसकी स्त्री दीपावाई ने अनेक मित्रतें कीं। उसीमें नगर नामक शहर के पीरशाह शरीफ मुसलमान साधु की यह मित्रत भी की कि मेरे लड़का होगा तो मैं इसको आपही का नाम दूँगी। इसके बाद सन् १५९४ में उसके पहला लड़का हुआ और

† यह एक प्रकार का फौजी सिपाही था।

‡ यह एक प्रकार का फौजी नायक होता था।

† एक सैनिक टुकड़ी।

उसका नाम उस पीर के नाम से शाहजी रक्खा गया। फिर सन् १५९७ में दूसरा लड़का हुआ, उसका नाम शर्फजी रक्खा गया।

शाहजी का विवाह जाधवराव की लड़की जीजाबाई से हुआ। इस बीच में मालोजी ने अपनी अच्छी उन्नति करली थी। वह पाँचहजारी मनसबदार हो गया था। राजा का खिताब पा चुका था और शिवनेर और चाकण के किले तथा पूना और सूपा के दो परगने जागीर में उसने प्राप्त कर लिये थे। निजामशाही में जब गड़वड़ शुरू हुई तब उसने और भी कई स्थान अपने कब्जे में कर लिये। वह इतने महत्व का हो गया कि मलिक अम्बर को उसकी सहायता की आवश्यकता जान पड़ी। उसकी बहुत-सी जागीर मुगलों के तथा आदिलशाही के राज्य में थी, परन्तु अपनी योग्यता से उसने अपनी सब जागीर का बचाव किया और अपने घराने को समृद्ध बनाया। सन् १६१९ में उसकी मृत्यु हुई।

मालोजी के बाद उसके पुत्र शाहजी ने भोंसले-वंश का नाम और भी बढ़ाया। बाप के मरने पर शीघ्र ही वह मनसबदार हो गया। मलिक अम्बर ने जब मुगलों को शाहजी भोंसले का प्रार-  
मिक जीवन हराया था, उसमें शाहजी का भी काफी भाग था। इस लड़ाई के समय जिस युद्ध में शाहजी ने विशेष नाम कमाया और पराक्रम दिखलाया, उसे भातवड़ी का युद्ध कहते हैं। यह सन् १६२४ में हुआ था। इस युद्ध के बाद, भाई-बन्धुओं तथा मालिक से न बनने के कारण, शाहजी बीजापुर-दरवार में चला आया, जहाँ उस समय इब्राहीम आदिलशाह राज्य करता था। वहाँ उसने अनेक पराक्रम करके खूब

## मराठों का उत्थान और पतन

नाम कमाया। इस समय बीजापुर और निजामशाही के बीच युद्ध चल रहा था। सम्भवतः शाहजी ने इस समय कर्नाटक तथा केरल पर चढ़ाई की थी। इब्राहीम के बाद उसका लड़का सुलतान महमूद तख्त पर बैठा। इस समय वहाँ बड़ी गड़बड़ मची और अनेक सरदारों का अपमान हुआ। इसी समय शाहजहाँ ने निजामशाही को जीतने के लिए फौज भेजी। सन् १६२६ में मलिक अम्वर की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद उसका लड़का फत्तेख़ाँ वज़ीर हुआ। परन्तु वज़ीर और शाह में न पटी। शाह ने फत्तेख़ाँ को कैद में डाल दिया। लखूजी जाधवराव पहले मुग़लों से जा मिला था। फत्तेख़ाँ के कैद होने पर वह निजामशाही में वापस आया। परन्तु शीघ्र ही मारा गया। यह बात सुनकर शाहजी पूना की ओर चला गया और वहाँ आदिलशाही के राज्य में गड़बड़ मचाने लगा। बीजापुर-दरवार ने मुरार जगदेव नामक सरदार को उससे लड़ने के लिए भेजा। तब वह एक स्थान से दूसरे स्थान को भागने लगा। इसी बीच शिवनेरी में उसने अपने लड़के सम्भाजी का विवाह किया और अपने समधी को सम्मति से अपनी गर्भवती स्त्री जीजा-वाई को शिवनेरी के किले में रख दिया। उसने देखा कि इधर आदिलशाही सेना मेरे पीछे पड़ी है और निजामशाही में रहना किसी प्रकार सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसने मुग़ल सेना-पति आजमख़ाँ के पास संदेश भेजा कि यदि मुझे मुग़ल-बादशाह का आश्रय मिले तो मैं आपके पास आना चाहता हूँ। शाहजहाँ ने तुरन्त ही उसे पाँच हजार का मनसबदार बना दिया। दर्याख़ाँ और ख़ाँजहाँ नामक दो मुग़ल सरदार इस समय बागी

वनकर निजामशाही में चले आये थे। दर्याखाँ का पीछा करने का काम शाहजी को करना पड़ा। इसी बीच जीजाबाई शिवनेरी में प्रसूत हुई और उसके लड़का हुआ, जिसका नाम शिवाजी रक्खा गया। दर्याखाँ के मारे जाने पर शाहजी शिवनेरी को वापस आया। इस समय तक शिवाजी का अन्नप्राशन-संस्कार भी हो चुका था।

इधर मुगलों का हमला दिनोंदिन बढ़ता देखकर निजामशाह ने फत्तेखाँ को कैद से मुक्त किया और फिर से वज़ीर बनाया।

निजामशाही का  
अन्त

परन्तु अब वज़ीर ने शाह को कैद में डालकर शीघ्र ही मरवा डाला। उसके बाद एक लड़के को गद्दी पर बिठलाया

और स्वयं मुगलों से दोस्ती करने की खटपट करने लगा। मुगलों का हमला देख कर आदिलशाह को अब अपनी सूझी, क्योंकि निजामशाही के नष्ट होने पर बीजापुर के राज्य पर उनका हमला होने का डर स्पष्ट दिख पड़ा। उधर शाहजी का मुगलों से मन-मुटाव हो गया और वह उन्हें छोड़ इधर चला आया। इस समय निजामशाही को बचाने का बहुतेरा प्रयत्न हुआ। उसने बीजापुर से मित्रता की संधि की, और मुगलों से लड़ने के लिए फौज एकत्र की। इसपर मुगलों की बड़ी भारी फौज दिल्ली से आई। शाहजी ने मुगल सेनापति महावतखाँ को बुरहानपुर तक खदेड़ दिया, परन्तु दक्षिण के मुसलमान सरदार एक हिन्दू सरदार का नेतृत्व मानने को तैयार न थे। इसी समय बीजापुर-दरवार में बड़ी गड़बड़ पैदा हुई, जिसके फलस्वरूप बीजापुर वाले मुगलों से मिल गये और अन्त में सन् १६३३ में निजामशाही का अन्त हो गया।



यह बतला ही चुके हैं कि मुगल लोग हुसेन निजामशाह तथा फ़तेख़ाँ को कैद करके दिल्ली ले गये ।


निजामशाही का अन्त होने पर भी शाहजी ने उसके पुनरुद्धार का प्रयत्न नहीं छोड़ा । निजामशाह-वंश के मुर्तिजा नामक एक लड़के को पेमगिरी में गद्दी पर विठलाकर शाहजी स्वयं कारवार देखने लगा । उसने कोंकण का बहुत-सा भाग जीत लिया । यह देखकर शाहजहाँ स्वयं दक्षिण में आया । इस समय शाहजी ने बीजापुर की सहायता प्राप्त कर ली थी । इसलिए शाहजहाँ ने आदिलशाह को सदेश भेजा कि शाहजी का पक्ष छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हें भी नष्ट कर डालेंगे । परन्तु आदिलशाह ने यह बात नहीं मानी । इसलिए अब मुगलों ने अपनी सेना के कई भाग किये और शाहजी का पीछा करना शुरू किया तथा बीजापुर के राज्य में घुस गये । आखिर, आदिलशाह ने मुगलों से संधि करली । ❀ शाहजी को यहाँसे वहाँ भागना और अन्त में, उपाय न देख, शाहजहाँ की

---

❀ बीजापुर और दिल्ली के बीच जो सन्धि हुई, उसकी मुख्य शर्तें ये थीं—( १ ) बीजापुर का आदिलशाह दिल्ली के बादशाह की अधीनता स्वीकार करे; ( २ ) निजामशाही राज्य को दोनों आपस में बाँट लें; ( ३ ) शाहजी ने निजामशाही-वंश के एक लड़के को गद्दी पर विठलाकर उसके नाम से निजामशाही का राज्य चलाने का प्रयत्न किया है । जबतक यह शाहजी जुन्नर, त्रिम्बक और अन्य किले शाहजहाँ बादशाह को न दे दे तब तक उसे बीजापुर अपनी नौकरी में न रखे । यदि वह शीघ्र शरण न आवे, तो उसे बीजापुर-राज्य में कहीं भी न रहने दिया जाय ।

शरण जाना पड़ा । पूना और सूपा नामक परगने शाहजी के हाथ में बने रहे और वह बीजापुर की नौकरी में चला गया । इस प्रकार निजामशाही के पुनरुद्धार का शाहजी का प्रयत्न नष्ट हुआ ।

---



## शिवाजी का उदय

विजयनगर के विनाश के बाद कर्नाटक में कई छोटे-छोटे राज्य उत्पन्न हो गये थे और वे सदैव आपस में लड़ा करते थे। वेदनूर में वीरभद्र नामक राजा राज्य करता था और वसवापट्टन में केंगहनुम नामक उसके माण्डलिक का राज्य था। जब केङ्ग नायक ने वीरभद्र के विरुद्ध बलवा किया, तब वीरभद्र ने उसे हराकर उसकी जागीर जप्त करली। इसपर केङ्ग नायक ने बीजापुर-दरवार से सहायता माँगी और बीजापुर-दरवार ने सहायता स्वीकार कर शाहजी और रणदुल्लाख़ाँ को कर्नाटक भेजा। इस प्रकार बीजापुर की नौकरी में आने पर शाहजी को शीघ्र ही कर्नाटक पर हमला करने के लिए जाना पड़ा। इस चढ़ाई में मलिक रेहान नामक एक सरदार अपने ४००० सवारों के साथ आया था। इन सब ने मिलकर वीरभद्र के वेदनूर क़िले को घेर लिया। अन्त में ३०

लाख होन † देने की शर्त पर उसने बीजापुरवालों से सन्धि कर ली। इसमें से १६ लाख उसने तुरन्त दे दिये, और शेष १४ लाख होन तीन किश्तों में देने का वादा किया। रणदुल्लाखाँ के जाने पर यह वाक्की देने में वीरभद्र टालमटोल करने लगा और उसने केंग नायक पर फिर से हमला कर दिया। इसलिए बीजापुर से सेना आई और उसने वीरभद्र का सारा राज्य ले लिया। रणदुल्लाखाँ की इस चढ़ाई में बीजापुर ने बंगलोर और शिरीन नाम के दो परगने ले लिये थे। इनकी देखरेख शाहजी को सौंपी गई।

इस चढ़ाई के बाद शाहजी को श्रीरंगपट्टन के कण्डीरवनरस नामक राजा पर चढ़ाई करनी पड़ी। इस चढ़ाई का परिणाम

शाहजी को कर्नाटक की जागीर यह हुआ कि कर्नाटक-वालाघाट नामक भाग बीजापुर के राज्य में मिले। इनमें से बंगलोर, होसकोटे, कोलार, दोड्ड, वालापुर और शिरीन जिस सूबे में शामिल थे, वह वालाघाट सूबा शाहजी को जागीर के रूप में दिया गया।

अवतक लोगों की यह समझ थी की एक बार जीजाबाई को शिवनेरी के किले में शिवाजी के जन्म के पहले छोड़ने के बाद शाहजी ने क्वचित ही उसे अपने शिवाजी पिता के पास पास रक्खा। इस बीच में शाहजी ने मोहने सरदार की लड़की तुकाबाई से शादी करली थी। इसलिए लोगों का मत है कि जीजाबाई पर शाहजी प्रेम नहीं करता था, और इसलिए उसे तथा शिवाजी को शिवनेरी में ही और फिर

† यह सोने का सिक्का होता था और इसका वजन साढ़े तीन माशे रहता था।

## मराठों का उत्थान और पतन

चाद को पूना में दादोजी कोंडदेव की देखरेख में रख दिया था। परन्तु यह कल्पना 'शिव भारत' नामक ग्रंथ से साफ मूठ मालूम पड़ती है। इस ग्रंथ से यह जान पड़ता है कि शाहजी जब उपर्युक्त चढ़ाई के समय कर्नाटक में गया, उस समय वह जीजावाई और शिवाजी को अपने साथ ले गया था; और ये दोनों शिवाजी के १२ वर्ष के होने तक शाहजी के पास ही रहे थे। शाहजी ने कर्नाटक की अपनी जागीर अपने बड़े लड़के सम्भाजी के नाम कर दी थी और पूना-सूपा की जागीर का थोड़ा-सा हिस्सा शिवाजी के नाम लिख दिया था। शिवाजी की उम्र १२ साल की होने पर शाहजी ने जीजावाई तथा कुछ अनुभवी नौकरों को साथ देकर उसे पूना भेज दिया। ऐसा करने में उसने शायद बहुत दूर की बात सोची थी। उसने अपने जीवन में यह देख लिया था कि शाह के नाराज होने पर किसी भी समय किसी भी सरदार पर आफत आ सकती है, इसलिए पहले से ही लड़कों का कुछ बन्दोवस्त कर रखना उसे आवश्यक जान पड़ा। सम्भवतः इसीलिए उसने जीजावाई और शिवाजी को पूना और सूपा की जागीर सम्हालने के लिए भेज दिया और सम्भाजी के साथ वह कर्नाटक में रहने लगा।

शिवाजी का बालपन इस प्रकार कुछ तो शिवनेरी में और कुछ कर्नाटक में बीता। शाहजी का बहुतेरा समय लड़ाई में बीता था, इसलिए जन्म से ही शिवाजी का परिचय लड़ाई की बातों और वस्तुओं से होने लगा था। हाथी-घोड़े पर बैठना, तलवार, धनुष, भाला, बरछी आदि शस्त्रों का उपयोग करना तथा निशाना मारना वह

### शिवाजी की शिक्षा

त्रचपन से ही धीरे-धीरे सीखने लगा था। परन्तु जब वह सात वर्ष का चानी "लिपि-ग्रहण-योग्य" हुआ तो शाहजी ने और लड़कों के साथ उसे भी गुरु के सुपुर्द कर दिया। ॥३॥

॥ कुछ लोगों का मत है कि शिवाजी निरक्षर था, परन्तु 'शिव-भारत' का वर्णन इसके विलकुल विरुद्ध है। 'शिवभारत' में साफ लिखा है कि 'शिवाजी जब सात वर्ष का हुआ तब शाहजी ने लिपि-ग्रहण-योग्य समझकर और लड़कों के साथ उसे भी गुरु के सुपुर्द किया था।' इसका स्पष्ट आशय यही है कि लिखना-पढ़ना सिखाने का प्रबन्ध शाहजी ने कर दिया। इसलिए यह बात निराधार जान पड़ती है कि शिवाजी लिखा-पढ़ा न था; उलटे, उसके ऐसा होने के ही पक्ष में अनेक बातें दीख पड़ती हैं। शिवाजी रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ अच्छी तरह जानता था। उसके यहाँ कई कवि रहते थे और वह उनका अच्छा आदर करता था। पढ़े-लिखे हुए बिना बहुधा कवियों का आदर राजा लोग नहीं कर सकते। परन्तु शिवाजी के विषय में यह स्पष्ट विधान है कि काव्यों में उसने गति प्राप्त कर ली थी। फिर यह भी सोचने की बात है कि जिसके पिता और भाई जयराम जैसे कवि को समस्या-पूर्ति के लिए समस्या दे सकते थे, जिसका लड़का सम्भाजी बुध-भूषण नामक संस्कृत-ग्रंथ लिख सका था, वह किस प्रकार निरक्षर रहा होगा! चौथी बात यह है कि जिसने राज्य कमाने पर "राज-च्यवहार-कोष" बनवाया और अपने अधिकारियों के पहले के फ़ारसी नाम संस्कृत में परिवर्तित कर दिये, वह क्या बिना पढ़े-लिखे ही ऐसा कर सका? बिना विद्या के उवलन्त स्वदेश-भाषा-भिमान पैदा होना भी सम्भव नहीं जान पड़ता। कई अन्वेषकों ने शब्दों की गिनती करके यह दिखला दिया है कि शिवाजी का राज्य होने पर फ़ारसी शब्दों के बदले मराठी शब्दों का उपयोग अधिक होने लगा था। इसमें शिवाजी का हाथ स्पष्ट दीख पड़ता है। यह सब शक बिना विद्या के नहीं हो सकता।



शाहजी को एक स्थान से दूसरे स्थान का खदेड़ा था तब राज्य-हीन होने का अनुभव उसने प्राप्त किया था। वह धर्म में भी विशेष श्रद्धा रखती थी और स्वयं शिवाजी को रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों की कथायें सुनाया करती थी। मालोजी के समय से यह विश्वास भोंसले-घराने में प्रचलित था कि इस वंश में कोई-न-कोई अवतारी पुरुष उत्पन्न होगा और वह गो, ब्राह्मण तथा स्वदेश को मुसलमानों के कष्टों से छुड़ावेगा। जीजाबाई के इस स्वभाव, आचरण तथा विश्वास का शिवाजी पर खूब प्रभाव पड़ा। वह भी महत्वाकांक्षी और मानोहो गया। ज्यों-ज्यों वह बड़ा हुआ, त्यों-त्यों उसे यह मालूम होने लगा कि मुसलमान राजाओं की दी हुई जायदाद से सन्तुष्ट होकर तथा उनका किया हुआ अपमान और अत्याचार सहकर जीवन विताना अनुचित है। माता की धार्मिकता को देखकर उसमें भी धार्मिक प्रवृत्ति पैदा हो गई। जहाँ कहीं भजन-कीर्तन होते, वहाँ वह यथासंभव अवश्य जाया करता था। उसने अपने जीवन में सब प्रसिद्ध मन्दिरों के दर्शनों को जाने का प्रयत्न किया। रामायण और महाभारत की कथाओं का उसके जीवन पर कई प्रकार का प्रभाव पड़ा। एक तो उनसे उसकी धार्मिक प्रवृत्ति का परिपोषण हुआ, दूसरे उनसे उसे सांसारिक और व्यावहारिक बातों का शिक्षण मिला, तीसरे उनमें के वीरों की कथाओं से उनका अनुकरण करने की स्फूर्ति उसमें अवश्य उत्पन्न हुई होगी। शिवाजी का जीजाबाई पर अनन्य प्रेम रहा और जीजाबाई ने भी उससे उसी प्रकार प्रेम किया। कोई भी कार्य करने के पहले शिवाजी अपनी माता से सलाह अवश्य लिया करता था और उसका





थे। यहाँ के देशमुख आपस में बहुत लड़ा करते थे। खून का बदला खून से लिया जाता था। इन सब देशमुखों को दादाजी ने बुला-बुला कर समझाया और उनके भगड़े अपने सामने बुलाकर आपस में निपटाने का प्रबन्ध किया। जिन्होंने सीधी रीति से न माना उनसे लड़ाई करके उन्हें नरम किया। इस प्रकार आपसी भगड़े निपटाने के काम की शिक्का शिवाजी को मिली। फिर दादाजी ने लगान का बन्दोबस्त किया। इसमें बहुत-कुछ मलिक अम्बर की पद्धति का अनुकरण किया गया। इस कारण लोग अधिकारियों के जुल्मों से बचे और लगान समय पर जमा होने लगा। जंगली जानवरों को मारनेवाले को इनाम देने की घोषणा की गई, इससे थोड़े ही वर्षों के भीतर बहुत-से जंगली जानवरों का नाश हो गया। स्थान-स्थान पर उसने चौकी-पहरे बिठला दिये और इस प्रकार चोरों का डर दूर कर दिया। पूना के पास उसने बगीचे लगवाये और उसे आबाद करवाया। इस प्रकार थोड़े ही वर्षों के भीतर शाहजी की जागीर को समृद्ध कर दिया। दादाजी कोण्डदेव के इन सारे कामों से शिवाजी

नदी है, भूमि पहाड़ी है और तब वहाँ जंगल बहुत था। वहाँ के रहने वाले मराठे लोग मावले कहलाते थे। पूना से शिरवल तक बारह मावल थे—अंदर मावल, नाणे मावल, पवन मावल, घोटण मावल, पौष्टखोरे, मोसे मावल, मुठे मावल, गुंजण मावल, वेलवण्ड मावल, भोर-खोरे, शिवतर खोरे, व हिरउस्त मावल। जुन्नर से चाकन तक केशरह मावल शिवनेर, जुन्नर, मोन्नर, घोड़नेर, भीमनेर, भामनेर, जामनेर, पिंपळनेर, पारनेर, सिन्नर, संगमनेर अकोलनेर थे। 'तराई' को मराठी में 'खोरे' कहते हैं। 'नीरा' से सम्भवतः 'नेर' बना है। इसका अर्थ नदी है।

ने राज्य-प्रबन्ध की अनेक बातें सीखीं और उसने अपने जीवन में उनका भरपूर उपयोग किया। दादाजी के काम से शाहजी तो खुश हुआ ही, परन्तु लोग भी उससे बहुत प्रसन्न हुए। इस पुरुष का निजी जीवन अनुकरणीय और प्रभावकारक था। यह बहुत ही ईमानदार, धार्मिक तथा लोक-हितकारी था। इसके आचरण के दोष ढूँढ निकालना मुश्किल है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि जो शिवाजी इसके साथ कई सालों तक रहा, उसपर जीजावाई के समान इसका भी अच्छा प्रभाव पड़ा।

सभासद नामक एक वखर-लेखक ने लिखा है कि 'शिवाजी महाराज ने बंगलोर से पूना आते ही वारहमावल कब्जे में कर लिये।' इसका अर्थ कई लोग यह करते

वारहमावल पर कब्जा


थे कि शिवाजी ने बंगलोर से आते ही

स्वराज्य-स्थापना का कार्य शुरू कर दिया। परन्तु इसका यह अर्थ उचित नहीं जान पड़ता। इसका उचित अर्थ यही है कि शिवाजी को साथ लेकर दादाजी कोणडदेव ने पूना के वारह मावल का ठीक-ठीक प्रबन्ध कर डाला, जिनका वर्णन हम ऊपर कर चुके हैं। तथापि यह कल्पना की जा सकती है कि इस प्रबन्ध के समय उसकी महत्वाकांक्षा ने जोर दिखलाया होगा और स्वराज्य-स्थापना की शक्यता उसे दीख पड़ी होगी।

शिवाजी ने अपना कार्य अपनी जागीर से ही प्रारम्भ किया और अपनी जागीर के ही लोगों का इस काम के लिए उपयोग किया। उसके प्रारम्भिक साथियों में दादाजी प्रारम्भिक साथी नरसप्रभु, कान्होजी नाईक, वाजी सरजेराव देशमुख, वाजी पासलकर आदि मुख्य हैं। वाजी नरसप्रभू

रोहिडखोरे नामक मावल का रहनेवाला था, और तरुण एवं साहसी पुरुष था। प्रारम्भ में जब शिवाजी तरुण लोगों का संगठन करके स्वतंत्र होने का विचार करने लगा, तब उसमें बाजी नरसप्रभू अग्रणी था और तरुण लोगों का संगठन करने में शिवाजी की मदद करता था। इसी कारण सन् १६४७ के अप्रैल में उसे बीजापुर से बड़े डाट की चिट्ठी मिली थी, जिसपर उसका पिता घबरा गया था। पर यह बात सुनकर शिवाजी ने दादाजी प्रभू को दिलासे की चिट्ठी लिखी और इस प्रकार उसे अपने पक्ष में बनाये रक्खा। शिवाजी जब जीजाबाई के साथ बंगलोर से पूना आया, उस समय उसके साथ जो लोग आये उनमें कान्होजी भी था। यह जेधे-वंशका था और बान्दल देशमुख नामक एक वारी देशमुख को नष्ट करने में इसने शिवाजी की सहायता की थी। इसके लड़के बाजी ने विशेष पराक्रम दिखलाया, इसलिए उसे शिवाजी ने सज्जेराव का खिताब दिया। इन दोनों पिता-पुत्रों ने हमेशा ईमानदारी के साथ शिवाजी की सेवा की। बाजी पासलकर मूसेखोरे नामक मावल का देशमुख था और वहाँ वह इज्जतदार आदमी समझा जाता था। इन पुरुषों को उसने शपथ खिलाकर अपने से बाँध लिया और उनकी सहायता से अन्य लोग जमाकर स्वराज्य-स्थापना के कार्य में लगा।

परन्तु शिवाजी के इस कार्य का वर्णन करने के पहले हमें यह देखना चाहिए कि शिवाजी ही इस कार्य में क्यों लगा और वह क्योंकर सफल हो सका ?



## स्वराज्य-स्थापना की कल्पना

सबसे पहले इस बात का विचार करना चाहिए कि स्वराज्य-स्थापना की कल्पना पहले-पहल किसे उठी ? वह केवल शिवाजी

स्वराज्य-स्थापना की  
कल्पना

की उपज थी, अथवा वास्तव में शाहजी की थी, या शाहजी तथा अन्य पूर्वजों से शिवाजी ने यह कल्पना पाई ? इसी-

के साथ इस बात का भी विचार करना होगा कि इस कल्पना या कार्य में दादाजी कोण्डदेव का क्या भाग था ? इस सम्बन्ध में अभी तक एकमत नहीं हो सका है। एक पक्ष का कहना है कि स्वराज्य की सारी कल्पना शिवाजी के ही मस्तिष्क की उपज थी, और उसने चुपचाप इस कार्य की तैयारी की। इस पक्ष के समर्थन में वे शिवाजी के सम्बन्ध में लिखे हुए कुछ उद्धरण पेश करते हैं। शिव-दिग्विजय में लिखा है कि “ब्राह्मणोच्छेद-गोवधादि दुष्ट कृत्यों का नाश हुआ, तभी समझना चाहिए कि हिन्दू-कुल

में जन्म सफल हुआ; अन्यथा जीवन दुस्सह होगा।” इसी प्रकार चिटनीस-बखर में शिवाजी के सम्बन्ध में लिखा है कि उसने निश्चय किया कि अपने प्राण भी देकर धर्म की रक्षा करेंगे और “अपने पराक्रम से जो नया राज्य पावेंगे उसीसे जीविका चलेगी; कुछ नई बात करेंगे तब ही जन्म सफल समझना चाहिए। दैव पंगु है, इसलिए दैव पर भार डाल कर पुरुष-प्रयत्न करना चाहिए। फिर दैव ज्यों-ज्यों सहायक हो, त्यों-त्यों अधिक करना चाहिए। सफलता दिलानेवाला परमेश्वर है।” इसी प्रकार दादाजी कौण्डदेव के सम्बन्ध में लिखा है कि शिवाजी ने उससे जब इस विषय में पूछा तो उसने उत्तर दिया, “आप जो कुछ कहते हैं, वह ठीक है; परन्तु इसकी सिद्धि होना अत्यन्त कठिन है। सारी पृथ्वी यवनों ने अपने क्लृप्ते में कर ली है। सब स्थानों और किलों में उनकी सेना भरी हुई है। इस काम (स्वराज्य-स्थापना) के लिए आपके पास अच्छे-अच्छे स्थान चाहिए और जगह-जगह हिन्दू राजा और हिन्दू सेना मददगार होनी चाहिए। साहस के साथ अत्यन्त श्रमपूर्वक बड़े-बड़े कार्य करें तब कहीं ईश्वर की अनुकूलता तथा सिद्ध पुरुषों का आशीर्वाद होने पर ये बातें हो सकेंगी। अतः आप जो बात मन में लाते हैं वह अत्यन्त कठिन है। आपके पिता ने यवनों की सेवा करके अपनी योग्यता से दौलत प्राप्त की। आपकी बात कहें तो यह योग विपरीत है, इसलिए दिनों-दिन धर्म क्षय होगा। इसलिए यह हो नहीं सकता। काल, देश, और वर्तमान—तीनों से आपकी यह बात मन को नहीं जँचती।”

इसके विपरीत इतिहास-संशोधक राजवाड़े का कहना है

कि मात्रल में स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहिए, ऐसा विचार शाहजी और स्वराज्य की कल्पना

शाहजी का दादाजी कोण्डदेव की सलाह से हुआ था। अक़बलख़ाँ, मालोजी

घोरपड़े वगैरा बीजापुरी सरदार द्वेष के

कारण शाहजी का पैर कर्नाटक में टिकने न देते थे। शायद इसलिए शाहजी ने विचार किया कि स्वदेश में अर्थात् सहायि से लगे हुए भाग में कहीं-न-कहीं स्वतंत्र सत्ता स्थापित करनी चाहिए, ताकि दशों दिशाओं में जन्म-भर एक स्थान से दूसरे स्थान को बार-बार

भटकने का मौक़ा न आवे। शिवाजी तथा दादाजी कोण्डदेव के सुपुर्द यह काम हुआ, इसका कारण कदाचित् यह था कि शाहजी ने सोचा कि यदि दादाजी कोण्डदेव इस कार्य में सफल न हुआ तो उस परिस्थिति में ~~उह~~<sup>यह</sup> बीजापुर दरवार में बने रहना ठीक

होगा। यह इसी बात से सिद्ध होता है कि सन् १६४१ की सर्दियों में पूना को वापस आने पर शिवाजी ने स्वतंत्र राज्याधिकार चलाना शुरू कर दिया। इसी विषय में प्रमाण-स्वरूप एक बात वह यह बतलाते हैं कि पूना की जागीर में जागीरदार

के नाते शाहजी के अधिकारी सूवेदार, काजी, मुजूमदार, हवलदार, मुक्कादम वगैरा तो थे ही, परन्तु नया राज्य स्थापित करने के काम में मेहनत करनेवाले मुजूमदार, सवनीस, डवीर, पेशवा वगैरा अधिकारी शिवाजी के अलग थे। उपर्युक्त कथन आपने

असली काराज-पत्रों के आधार पर किया है और लिखा है कि “शाहजी का मुख्य प्रधान या सूवेदार दादाजी कोण्डदेव था, पर शिवाजी का मुख्य प्रधान शामराव नीलकंठ था। शाहजी का मुजूमदार नारो सुन्दर था, पर शिवाजी के बालकृष्ण पंत

और नीलों सोनदेव थे। शाहजी का हवलदार यानी प्रान्त की सेना का अधिकारी गोमार्ज था, पर शिवाजी स्वयं अपनी सेना का अधिकारी था।” आगे आप यह भी कहते हैं कि ज़ाहिर में शाही सूवेदार दादाजी कोण्डदेव का शिवाजी की नवीन राज्य-व्यवस्था के कार्य से कोई सम्बन्ध न था, परन्तु अन्दर-अन्दर वास्तव में वही इस कार्य को करता रहा होगा। दादाजी तथा शाहजी को स्वराज्य की कल्पना का श्रेय देने के पक्ष में सन् १६२९ में शिवाजी के एक हुक्मनामे पर अंकित उनकी प्रसिद्ध मुद्रा का प्रमाण भी दिया जाता है। वह मुद्रा इस प्रकार है—

प्रतिपद्मं चन्द्रं रेखेव वर्धिष्णुर्विश्ववंदिता ॥

शाहसूनोः शिवस्यैषा मुद्रा भद्राय राजते ॥

इसका अर्थ यह है कि ‘प्रतिपदा के चन्द्र के समान बढ़नेवाली विश्व से पूज्य यह शाहजी के पुत्र शिवाजी की मुद्रा लोगों की भलाई के लिए शोभायमान है।’ इसपर टीका करते हुए यह कहा जा सकता है कि वर्धिष्णु और विश्ववंदिता नामक दो शब्द युद्ध विशेष अर्थ रखते हैं। शिवाजी इस समय तक केवल एक जागीरदार का लड़का था और कर्नाट मावल नामक छोटा सा भाग उसके नाम से शाहजी ने लिख दिया था। यदि शाहजी का



स्वतंत्र राज्य-स्थापना का विचार न होता तो प्रतिपदा के चन्द्रमा के समान वर्धिष्णु और फिर विश्ववंदिता कहने की कोई आवश्यकता न थी ।

इन दोनों के बीच एक तीसरा पक्ष दीख पड़ता है। इस पक्ष का कहना है कि स्वराज्य की कल्पना पहले-पहल शिवाजी के ऐतिहासिक दृष्टि मस्तिष्क से नहीं निकली, जैसा पहले बतला चुके हैं । शिवाजी के वंश में मालोजी के समय से यह विश्वास चला आता था कि भोंसले-वंश में कोई अवतारी पुरुष होगा और वह मुसलमानों से स्वदेश का उद्धार कर स्वतंत्र राज्य स्थापित करेगा । इस विचार का बहुत-कुछ परिपोषण शाहजी के चरित्र और जीवन से हुआ । मलिक अम्बर की मृत्यु के बाद निजामशाही के शासन-सूत्र बहुत समय तक शाहजी के हाथ में बने रहे और वह नाम को छोड़ कर पूर्णतया स्वतंत्र राजा के समान था । स्वतंत्र राज्याधिकार चलाने की आदत हो जाने पर कोई भी पुरुष यह नहीं चाहता कि वह उसे त्याग दे और पराधीन बने । यही बात शाहजी के विषय में भी चरितार्थ होती है । निजामशाही के पूर्णतया नष्ट हो जाने पर भी उसके पुनरुद्धार का प्रश्न शाहजी ने बहुत काल तक न छोड़ा और केवल लाचारी के कारण बीजापुर की नौकरी उसे स्वीकार करनी पड़ी । इस समय उसने जो संधि की थी, उसमें पूना और सूपा की जागीर अपने को देने की शर्त उसने लिखवा ही ली थी । शाहजी जैसे महत्वाकांक्षी, राजनैतिक और अनुभवी पुरुषों को अपने अधीन रखने में ही आदिलशाह ने अपना हित समझा और पूना और सूपा की उसकी पुश्तैनी जागीर उसे दे दी । इससे आदिलशाह का एक

चड़ा भारी डर दूर हो गया। कर्नाटक में भी जागीर देने का कारण यही जान पड़ता है। आदिलशाह चाहता रहा होगा कि शाहजी किसी प्रकार शांत बना रहे और बीजापुर-राज्य में गड़बड़ न करने पावे। परन्तु शाहजी की स्वतंत्र प्रवृत्ति अब भी नष्ट न हुई थी। कर्नाटक में उसने जब यह प्रवृत्ति दिखलाई तब आदिलशाह ने उसे कैद करवा कर बीजापुर में बुलवा लिया। इस प्रकार यह दीख पड़ता है कि स्वराज्य की कल्पना शिवाजीने अपने पिता और पितामह से पाई थी।

हमें यही अन्तिम पक्ष विशेष उचित जान पड़ता है। तथापि यह स्मरण रखना चाहिए कि स्वराज्य की कल्पना को कार्य के रूप में परिणत करने का श्रेय शिवाजी को ही दिया जा सकता है। यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि जिन लोगों ने अपना सारा जीवन दूसरों की नौकरी में बिताया, यदि कुछ स्वतंत्र राज्याधिकार का उपभोग किया भी तो तख्त की ओट से ही, वे स्वतंत्र राज्य की स्थापना के कार्य में योग देंगे। ऐसे लोगों से अधिकसे अधिक यही आशा की जा सकती है कि जबतक कोई आपत्ति न आय तबतक तरुणों के कार्यों पर वे विशेष ध्यान न दें और विशेष रोक-टोक न करें। शाहजी तथा दादाजी कोंडदेव के सम्बन्ध में भी यही बात ठीक दीख पड़ती है। यह तो सम्भव ही नहीं कि सदैव पास रहने पर भी शिवाजी के कार्यों का पता दादाजी कोंडदेव को न हो, पर उसने तरुण पुरुषों की उमंगें समझकर शिवाजी के कार्यों और विचारों पर अधिक ध्यान न दिया होगा और यह सोचा होगा कि जिम्मेदारी सिर पर आ पड़ने पर ये सब बातें जहाँ की तहाँ ठंडी हो जावेंगी।

इसी कारण कदाचित् शिवाजी के प्रारंभिक कार्यों को उसने नहीं रोका और इसलिए उसे स्वराज्य-स्थापना की पूर्व-तैयारी करने का मौका मिल गया ।

इसपर एक आक्षेप किया जा सकता है । ऊपर हमने शिवाजी की जो मुद्रा बतलाई है और उसका जो अर्थ बतलाया है, उसका सामंजस्य ऊपर बताये तीसरे पत्र एक आक्षेप और उसका उत्तर से किस प्रकार हो सकता है ? इसपर हमारा कथन यह है कि उस काल में जागीर-

दार लोग भी अपने को राजा से किसी प्रकार कम न समझते थे । इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि जिस शिवाजी के नाम शाहजी ने बालपन से अपनी जागीर का थोड़ा-सा हिस्सा लिख दिया था, उसके नाम से एक मुद्रा भी बना दी थी, और उसका उपयोग शिवाजी के नाम से भेजे हुए हुक्मनामों में होता था । यह हम बताही चुके हैं कि शाहजी ने सम्भाजी और शिवाजी का अलग-अलग प्रबन्ध कर दिया था, जिससे स्वयं आपत्ति में पड़ने पर भी लड़कों को कोई कष्ट न हो । इसलिए यह कह सकते हैं कि शाहजी शिवाजी को ही पूना-सूपा का जागीरदार समझता था और इसलिए उसने पुत्र के नाम से हुक्मनामों पर मुद्रा चालू कर दी थी । इस मुद्रा के वर्धिष्णु और विश्व-वंदिता के अर्थों पर जो विशेष टीका-टिप्पणी की जाती है, उसमें हमें कोई विशेष बल नहीं दीख पड़ता । बढ़ते हुए बालक के विषय में वर्धिष्णु शब्द का उपयोग एक सहज बात है; और जिस जागीर को मानने के लिए एक तरह से सभी लोग बाध्य थे उसके विषय में विश्व-वंदिता कहना अनुचित नहीं । राज्य-विज्ञान की दृष्टि से मनुष्य

का प्रत्येक अधिकार विश्व-वन्दित ही होता है । जबतक कोई विशेष प्रमाण नहीं मिलता तबतक स्वराज्य की कल्पना को कार्य के रूप में छिपे-छिपे परिणत करने का श्रेय शाहजी तथा दादाजी कोण्डदेव को देना अनुचित जान पड़ता है ।

दादाजी नरसप्रभु देशपांडे को बीजापुर से जब कड़ी डाट मिली तब शिवाजी ने उसे दिलासे की जो चिट्ठी लिखी उसमें ही कदाचित् पहले-पहल "हिन्दवी दूसरा आक्षेप और उसका उत्तर स्वराज्य" शब्द का उपयोग किया है ।

उसमें यह भी अवश्य लिखा है कि "दादाजी पंत की उपस्थित में बाबा का यानी दादाजी नरस प्रभु के पिता का, तुम्हारा और हमारा जो करार देव के सामने हुआ वह 'कायम वज्र-प्राय' है ।" इसी वाक्य से यह शंका की जा सकती है कि दादाजी कोण्डदेव भी शिवाजी के स्वराज्य-स्थापना के कार्य में योग देता था । परन्तु उपर्युक्त वाक्य का अर्थ हमें कुछ भिन्न जान पड़ता है । हम पहले बतला ही चुके हैं कि दादाजी कोण्डदेव ने शिवाजी के बंगलोर से आने पर पूना को जागीर में सब प्रकार का प्रबन्ध करना शुरू कर दिया था । इसमें सबसे पहले और सबसे कठिन जो कार्य था, वह मावल के लड़ाके देशमुखों को बगल में रखने का था । जैसा हम बतला चुके हैं, दादाजी ने देशमुखों को बुला-समझाकर और करार लिखवा कर देशमुखों का प्रबंध किया था । यह कार्य वह बहुधा शिवाजी की उपस्थिति में किया करता था । हम समझते हैं कि दादाजी ने इसी प्रकार का कोई वादा दादाजी नरसप्रभु तथा उसके पिता से किया होगा । इसीका उल्लेख कदाचित् शिवाजी के दादाजी नरस-

प्रभु को भेजे हुए उपर्युक्त पत्र में किया होगा। हाँ, इतना अवश्य इससे दीख पड़ता है कि दादाजी कोणडदेव के किये हुए इस प्रकार के वादों का उपयोग शिवाजी अपने कार्यों के लिए करता था। इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है। यह मनुष्य का स्वभाव ही है कि रात-दिन सिर पर रहनेवाले अधिकारी को दूर रहनेवाले अधिकारी की अपेक्षा वह अधिक मानता है और उसीका कहा अधिक सुनता है। इसी नियम के अनुसार कदाचित् शिवाजी का कहना मावल के लोगों ने माना हो। इसीके साथ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि इस पहाड़ी भाग पर आदिलशाह का कब्जा अच्छी तरह न जमा था और मावल के देशमुख लड़ाकू प्रवृत्ति के थे। शिवाजी ने उनके सामने जब स्वराज्य की कल्पना छिपे-छिपे रखी तो आश्चर्य नहीं कि वे उसकी सिद्धि के लिए तैयार हो गये और उस प्रकार कार्य भी करने लगे। क्योंकि अब उन्हें अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कार्य करने का मौका दीख पड़ा। सारांश, कार्य के रूप में स्वराज्य की कल्पना परिणत करने का श्रेय शिवाजी को ही दिया जा सकता है।

यदि इस कार्य में किसी नजदोकी मनुष्य का योग शिवाजी ने पाया ही होगा तो वह अपनी माता जीजावाई ही से पाया होगा। माता की सम्मति के बिना स्वराज्य की कल्पना और स्वराज्य-स्थापना का कोई कार्य शिवाजी जीजावाई ने न किया। इसलिए यही अनुमान करना पड़ता है कि इस कार्य की तैयारी में भी उसकी सलाह अवश्य ली होगी। यदि जीजावाई का मत उसके विरुद्ध होता तो उसने अपने प्राणाधार पुत्र को स्वराज्य-स्थापना के संकटमय


कार्य से अवश्य रोका होता, परन्तु इस प्रकार का कोई भी उल्लेख कहीं भी नहीं दीख पड़ता ।

परन्तु उपर्युक्त विवेचन से यह न समझना चाहिए कि स्वराज्य-स्थापना की कल्पना को कार्य के रूप में परिणत कर

स्वराज्य-स्थापना की कल्पना सकने का सारा श्रेय शिवाजी को ही  
की सिद्धि के लिए एक दिया जा सकता है । यदि लोगों के मन  
और आवश्यक बात की तथा देश की स्थिति अनुकूल न हुई

होती तो शिवाजी इस कार्य में न पड़ता और उसके विचार जहाँ  
के तहाँ विलीन हो जाते; और यदि वह पड़ता ही तो उसे सफलता न मिली होती । इसलिए स्वराज्य-स्थापना का इतिहास जानने के पहले उसके उपर्युक्त परिस्थिति का इतिहास जान लेना चाहिए ।





## उपयुक्त परिस्थिति

इतिहास की दृष्टि से पहला ही जो प्रश्न उपस्थित होता है, वह यह है—महाराष्ट्र में ही क्यों स्वतंत्रता की कल्पना उठी, हिन्दु-स्थान के अन्य मुसलमानी भागों में क्यों नहीं उठी ? गत अध्याय में इसका कुछ उत्तर आ गया है । हम कह चुके हैं कि और बातों की अनुकूलता न होती तो शिवाजी को इस कार्य में पड़ने की दृढ़ इच्छा न होती । वह जो इस कार्य में सब संकटों को देखते हुए भी पड़ा और सफलता प्राप्त की, वह कई प्रकार की अनुकूल स्थिति के कारण ही । इस अनुकूल स्थिति के स्वरूपों में मुख्य ये हैं—(१) लोगों के मन की दशा, (२) धार्मिक स्थिति, (३) राजकीय परिस्थिति और (४) हिन्दुओं का वर्चस्व ।

एक राष्ट्र का कब्जा दूसरे राष्ट्र पर तभी पक्का समझा जा सकता है कि जब विजेता लोग विजित लोगों के मनों को जीत लें । यह बहुधा दो प्रकार से सम्भव हो सकता है । एक तो अच्छा शासन करके, और दूसरे अपनी सभ्यता को उन्हें देकर अपने समाज में उन्हें पूरी तौर से शामिल कर लेने से । परन्तु यह याद

रखना चाहिए कि इन दोनों का सम्बन्ध एक-दूसरे से बहुत अधिक है। मुसलमानों का शासन हिन्दुओं के लिए क्वचित ही अच्छा रहा। मुसलमानों में मजहवी जोश बहुत था और बहुतेरे शासक तथा उनके अधिकारी अपने शासन और समस्त कार्यों में यह दिखलाया करते थे कि मुसलमानों का धर्म और उनके रस्म-रिवाज हिन्दुओं के धार्मिक विचार और आचार से इतने भिन्न हैं कि उन दोनों का सामाजिक मेल-जोल कभी सम्भव नहीं जान पड़ता; और जबतक मुसलमान शासक अपना शासन-कार्य अपने धार्मिक आचार-विचार के अनुसार करते रहे तबतक उनका राज्य हिन्दुओं की दृष्टि से कभी भी अच्छा न हो सका और इसलिए ऐसे शासक अपने कार्यों से प्रजा के मन को कभी भी न जीत सके।

मुसलमानों की सभ्यता भी ऐसी न रही की जिसका हिन्दुओं के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ सके। जहाँ कहीं मुसलमानों की संख्या अधिक रही और उनका जोर मुसलमानों की सभ्यता अच्छा चल सका, वहाँ उन्होंने लोगों पर अपने कुछ आचार-विचार बरबस लाद दिये। परन्तु जहाँ उनकी संख्या बहुत न रही और उनका जोर न चल सका, वहाँ वे यह काम न कर सके; उलटे उन्हें ही स्वयं हिन्दुओं की कई बातें माननी पड़ीं। उदाहरणार्थ उत्तर-हिन्दुस्थान में सरकारी भाषा फारसी रही, परन्तु दक्षिण-हिन्दुस्थान में लोगों की ही भाषा को सरकारी काम-काज में स्थान मिला। उत्तर-हिन्दुस्थान में बहुतेरे सरकारी कर्मचारी मुसलमान थे, पर दक्षिण में अधिकांश कर्मचारी हिन्दू ही रहे। इन दोनों बातों में यहाँ भी पहले-पहल मुसलमान शासकों ने उत्तर का अनुकरण करना चाहा, पर वे



मराठों का उत्थान और पतन

इसमें विफल हुए और उन्हें नवीन परिस्थिति के अनुकूल ही काम करना पड़ा।

मुसलमानों की विजय दक्षिण में पूरी न हो सकी। इसके बड़ा भारी कारण हम प्रारम्भ में बतला चुके हैं। दक्षिण के पहाड़ी मुसलमान दक्षिण के स्वरूप की ओर दृष्टि आकर्षित करके लोगों को कभी भी पूरी हम यह दिखा चुके हैं कि ऐसे लोगों का तौर से न जान सके पूरी तौर से सदैव के लिए स्वतंत्रता के भूल जाना सम्भव न था। यही कारण है कि पहाड़ी भागों में कभी भी मुसलमानी सत्ता अच्छी तरह न जमी और मुसलमान शासकों ने उन भागों में अपनी सत्ता पूरी तौर से स्थापित करने का विशेष प्रयत्न भी नहीं किया। इसी कारण जब दादाजी कोंड-देव और शिवाजी पूना में आये तब उन्हें मावलों में शान्ति स्थापित करनी पड़ी, और इस कार्य में बीजापुर का दरवार विशेष आक्षेप भी न कर सका। जब कभी शिवाजी के कार्यों की शिकायत बीजापुर को पहुँच जाती और शिवाजी से कैफियत तलव की जाती, तब वह यही उत्तर देता कि मैं केवल वागी लोगों का प्रबन्ध कर रहा हूँ। इस बहाने उसने पहाड़ी भागों में स्वराज्य-स्थापना के प्रारम्भिक कार्य किये।

महाराष्ट्रियों की स्वातंत्र्य-भावना को जागृत रखने का कार्य वहाँ के सन्त-मण्डल ने किया। ज्ञानेश्वर के समय से लगाकर शिवाजी के समय तक महाराष्ट्र में अनेक सन्त धार्मिक जागृति और स्वातंत्र्य-भावना हुए। रामानुज के समय से भक्ति-मार्ग का जोर धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा था। इसने दक्षिण में भी तेरहवीं सदी से जोर पकड़ा। इसके पहले

ईश-प्राप्ति के जो मार्ग प्रचलित थे, वे साधारण लोगों को आकर्षक नहीं जान पड़ते थे। ज्ञान-मार्ग सदैव थोड़े लोगों के लिए हो सकता है। सब ही उसका अनुसरण नहीं कर सकते। कर्मठ-मार्ग में कुछ बड़े भारी दोष हैं। पहले तो ऊँच-नीच का भाव उसमें बहुत ज्यादा है। बहुतेरे धार्मिक आचार उच्च वर्ग के लिए बताये हैं, नीच वर्गों को शास्त्रों ने उनसे वंचित कर दिया है। इसलिए यह मार्ग साधारण लोगों को कभी भी ठीक न जँचा। इसमें एक दोष यह भी है कि कुछ आवश्यक द्रव्य हुए बिना इस मार्ग का अनुसरण अच्छी तरह नहीं हो सकता। इन्हीं दो कारणों से बहुधा इसके विरुद्ध समय-समय पर आन्दोलन हुआ है। परन्तु उपर्युक्त दोनों मार्गों के दोष भक्ति-मार्ग में नहीं हैं। इसके लिए न तो विशेष ज्ञान की आवश्यकता है, और न विशेष द्रव्य की। भक्ति-मार्ग में न तो कोई ऊँचा है, और न कोई नीचा; सब समान हैं। इसीलिए समय-समय पर कर्मठों के विरुद्ध आन्दोलन हुआ। महाराष्ट्र में जो अनेक संत हुए, उनमें से कई ब्राह्मण न थे, और कुछ तो विलक्षण नीची जाति के थे। मुख्य संतों के नाम ये हैं—( १ ) पुंडलीक, ( २ ) मुकुन्दराज, ( ३ ) चाँगदेव, ( ४ ) निवृत्तिनाथ, ( ५ ) ज्ञानदेव, ( ६ ) सोपानदेव, ( ७ ) मुत्तगदास, ( ८ ) नामदेव, ( ९ ) गौरा, ( १० ) चोखामेला, ( ११ ) रोहिदास, ( १२ ) नरहरि, ( १३ ) कूर्मदास, ( १४ ) दामाजी पंत, ( १५ ) एकनाथ, ( १६ ) जनार्दन स्वामी, ( १७ ) मृत्युञ्जय, ( १८ ) सरस्वती गंगाधर, ( १९ ) मुधेश चांगा, ( २० ) महालिंगदास, ( २१ ) त्रिम्वक स्वामी, ( २२ ) दासो-पंत, ( २३ ) मुद्गल, ( २४ ) विष्णुदास नामा, ( २५ ) नामा-

पाठक केन्द्रकर, ( २६ ) रंगनाथ स्वामी मोगरेकर, ( २७ )  
 निरंजन पंढरपूरकर, ( २८ ) तुकाराम, ( २९ ) रामदास, ( ३० )  
 आकाशई, ( ३१ ) वेणुवाई, ( ३२ ) विठ्ठल कवि वीडकर ( ३३ )  
 उद्धव गोसाई, ( ३४ ) रंगनाथ स्वामी, ( ३५ ) केशव स्वामी,  
 ( ३६ ) आनन्दमूर्ति ब्रह्मनालकर, ( ३७ ) मुक्तेश्वर, ( ३८ )  
 शिवराम स्वामी, ( ३९ ) नागेश मिंगारकर, ( ४० ) देवदास  
 देवीदास, ( ४१ ) बोधले बाबा, ( ४२ ) संतोबा, ( ४३ )  
 शेख मुहम्मद, ( ४४ ) वामन पंडित, और ( ४५ ) अवचित-  
 सुत काशी। ये सिर्फ सत्रहवीं सदी के अन्त तक के नाम हैं। इनमें नाम-  
 देव दर्जी था, गोरा कुम्हार था, चोखामेला महार था, रोहिदास चमार  
 था, नरहरि सुनार था, शेख मुहम्मद मुसलमान था, तुकाराम मराठा  
 जत्रिय था और व्यापार-धन्धा करने के कारण बानी कहलाता था।  
 इनमें से कुछ ने जाति-भेद के विरुद्ध भी प्रयत्न किया है। तेरहवीं  
 सदी में जो मानभाव-पन्थ पैदा हुआ, वह जाति-भेद मानता ही न था।  
 वामन परिडत जैसे संस्कृत के बड़े भारी परिडत ने यह स्पष्ट लिख  
 रक्खा है कि वेद-मंत्र का अधिकार सबको है। ऊपर हमने जो  
 अब्राह्मण सन्त गिनाये हैं, उनमें कई के अनुयायी-वर्ग में ब्राह्मण  
 भी शामिल थे। इसलिए यह तो वेखटके कह सकते हैं कि इस  
 नवीन धर्म-मार्ग ने समाज में भिन्नता के स्थान में थोड़ी-बहुत एकता  
 अवश्य स्थापित की होगी। यह मार्ग ही ऐसा है कि इसमें उच्चता  
 या नीचता के भाव आ ही नहीं सकते। इसके सिवाय इस मार्ग  
 ने समाज में एकता स्थापित करने का और उसे जागृत करने का  
 अन्यरूप से भी कार्य किया है। उपर्युक्त संत-मालिका में से बहु-  
 तैरों ने उपदेश देकर या ग्रंथ लिखकर लोगों की धार्मिक निद्रा को

तोड़ने का प्रयत्न किया है। कार्यशील जागृति-काल के बाद सुपुप्तावस्था आ ही जाती है। यह मानव-सृष्टि का सामान्य नियम है। यही बात शंकराचार्य के बाद हिन्दुस्थान में कुछ सदियों तक दीख पड़ी। सारे भारतवर्ष में भक्ति-मार्ग की लहर फैली और इस मार्ग के कई उपदेशक तथा कवि जहाँ-तहाँ हुए। यही बात महाराष्ट्र में भी हुई, पर यहाँ वह बहुत अधिक परिमाण में हुई। इस कारण धार्मिक जागृति भी यहाँ बहुत अधिक रही। ज्यों-ज्यों धार्मिक जागृति हुई, त्यों-त्यों लोगों को यह जँचने लगा कि हम अपने धार्मिक कार्य स्वतंत्रता-पूर्वक नहीं कर सकते। इस अनुभव के साथ उन्होंने जैसे-जैसे मुसलमानी-शासन के खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी शुरू की, वैसे-वैसे स्वराज्य की आवश्यकता भी उन्हें प्रतीत होने लगी। महालिंगदास सोलहवीं सदी में हुआ। ग्लेच्छ-सेवा करने के विषय में उसने ब्राह्मणों का बड़ा धिक्कार किया है, और वर्णाश्रम-धर्म के पालन पर जोर देकर स्वदेश और स्वधर्म का अभिमान उसने व्यक्त किया है। त्रिम्बक स्वामी ने मराठी भाषा का बहुत अभिमान दिखलाया है। मुद्गल कवि ने जो रामायण लिखी है, उसका युद्ध-काण्ड इतना वरिष्ठी-पूर्ण है कि शिवाजी के प्रत्येक किले में वह पढ़ा जाता था। अवचित-सुत काशी ने अपने 'द्रौपदी-स्वयंवर' नामक ग्रंथ में उत्कट स्वदेश-अभिमान और स्वदेश-प्रेम दिखलाया है। ऐसी अवस्था में यह कहना किसी भी प्रकार उचित नहीं दीख पड़ता कि इन साधु-संतों ने लोक-जागृति का कुछ भी कार्य नहीं किया। उनके उपदेश, कीर्तन, भजन आदि के समय सैकड़ों लोग एकत्र हुआ करते थे। इस-लिम् उनकी बातों का लोगों के मन पर प्रभाव पड़े बिना न रहा

होगा। इस प्रभाव का एक प्रमाण यह है कि कर्मठ लोग भी थोड़े-बहुत जाग उठे, और उन्होंने नये-नये ग्रंथ बनाकर अथवा पुराने ग्रंथों पर टीका-टिप्पणी लिखकर अपने मार्ग के प्रचार का प्रयत्न किया। परन्तु भक्ति-मार्ग ने जो एक वार सिर उठाया, वह फिर कभी न दबा। उसकी सफलता के कुछ कारण ऊपर बता ही चुके हैं। परन्तु एक भारी कारण यह भी था कि उन्होंने जो कुछ लिखा और कहा, वह सब लोगों की बोली में। ज्ञान-मार्गों का बहुतेरा साहित्य और कर्म-मार्गों का बहुतेरा कर्म-साहित्य संस्कृत-भाषा में था। परन्तु भक्ति-मार्ग के बहुतेरे ग्रंथ और उपदेश लोगों की बोली में होने के कारण उनसे अधिक लोग लाभ उठा सके और इस कारण अधिक लोगों ने इस मार्ग का अनुसरण किया।

परन्तु इन संतों से बहुत अधिक कार्य अकेले रामदास स्वामी ने किया। इनका जन्म सन् १६०८ में हुआ था और इनका

रामदास स्वामी  
का कार्य

मृत्यु शिवाजी के दो वर्ष बाद हुई। यह आजन्म ब्रह्मचारी रहे। राम के परम-भक्त थे और स्थान-स्थान घूमा करते थे।

इन्होंने देश की स्थिति को अच्छी तरह जाँच-समझ लिया था और इस बात को बहुत अधिक अनुभव किया था कि स्वराज्य के सिवाय धर्माचरण ठीक रीति से नहीं हो सकता। इन्होंने स्थान-स्थान पर “महाराष्ट्र-धर्म” का उपदेश किया। इसमें कदाचित्त चार बातें सम्मिलित थीं। देवशास्त्राचार, देशाचार, कुलाचार और जात्याचार। इस महाराष्ट्र-धर्म का आचरण महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियों का राज्य हुए सिवा नहीं हो सकता था। इनके तमाम ग्रंथों से यही दीख पड़ता है कि इन्होंने लोगों के स्वधर्म

और स्वदेश के अभिमान को बहुत अधिक जागृत किया। इनके इस सम्बन्ध के उपदेशों का सार “मराठा तेवढा मिलवावा, महाराष्ट्र-धर्म वाढवावा” में भरा है। दासबोध ❀ आदि ग्रन्थों में इस बात की पुकार इन्होंने मचाई ही है। पर ऐसा जान पड़ता है कि समय-समय पर पर राज्य के विरुद्ध अपनी आवाज़ छोटी-छोटी स्वतंत्र रचनाओं में भी उठाई है। ‘परचक्र-निरूपण’ पर एक रचना और ‘आसमानी सुलतानी’ पर तीन रचनायें इनकी मिली हैं। उनका सार यह है कि सारे देश का धन-द्रव्य चला गया, अकाल पड़ने लगे, लूट-भार होने लगी, लोग मरने लगे और गाँव उजड़ गये; डकैती, चोरी और लड़ाई-भगड़े मन-साने होने लगे, पर-चक्र आया और हजारों जीव मारे गये; दुष्टों ने नाक-कान काटे, स्त्रियों को भ्रष्ट किया और लोगों को बाँधकर समुद्र में फेंक दिया; चोरों ने सौदागरों का नाश किया और काफिलों को लूटा; मुसलमानों ने गुर्जरिणियों और ब्राह्मणियों को पतित किया, कई स्त्रियों को जहाज़ पर ले गये, कई स्त्रियों को दूसरे देशों में गुलाम बनाकर बेच डाला और सैकड़ों स्त्रियाँ बड़ी बुरी तरह से मर गईं। इस प्रकार के उपदेश का लोगों के मन पर क्या परिणाम हुआ होगा, यह स्पष्ट ही है। तथापि यह स्मरण रखना चाहिए कि रामदास स्वामी का यह कार्य शिवाजी के कार्यारम्भ के बहुत पहले से स्वतंत्र रीति से हो रहा था। उस समय के एक उपलब्ध पत्रसे यह जान पड़ता है कि सन् १६५८ तक रामदास स्वामी और शिवाजी का परिचय न हुआ था।†

❀ इसका हिन्दी अनुवाद पूना के चित्रशाला-प्रेस से निकल चुका है।

† इस बात का अधिक विचार हमने एक परिशिष्ट में किया है।

मराठों का उत्थान और पतन

उनका परिचय सम्भवतः इसीके बाद हुआ होगा। रामदास स्वामी ने ही जो महाराष्ट्र में स्वराज्य और महाराष्ट्र-धर्म की अधिक पुकार मचाई, उसका कारण यही हो सकता है कि उनके समय में मुसलमानों के धार्मिक अत्याचार बहुत बढ़ गये थे। शिवाजी के विषय में यह कथा प्रचलित ही है कि एक कसाई को गाव मारते देखे वालपन में ही उसने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस समय मंदिरों को गिराना, स्त्रियों पर बलात्कार करना, पुरुषों और स्त्रियों को पकड़ कर जबरदस्ती मुसलमान बनाना और धार्मिक कार्यों में बाधा डालना मुसलमानों ने अधिक गुरु कर दिया था। इसलिए धर्म की पुकार मचना विलकुल स्वाभाविक था। अतः पर-राज्य में स्वधर्माचार की सम्भावना न देख मुसलमानी शासन के विरुद्ध आन्दोलन शुरू हो गया। रामदास स्वामी ने सात-आठसौ से भी ऊपर मठ स्थापित किये। इन मठों के द्वारा स्वधर्माचरण के लिए स्वराज्य की आवश्यकता का उपदेश लोगों में कितना फैला होगा, यह हम सरलता से जान सकते हैं। फिर यदि यह स्मरण रखें कि रामदास स्वामी हमेशा यहाँ-वहाँ घूमते और उपदेश देते रहे, तो हम उनके कार्य के विस्तार के कुछ कल्पना कर सकते हैं।

इतने पर भी यदि किसी को यह शंका हो कि शिवाजी के कार्य का आधार कोई सार्वजनिक कल्पना, विचार या आन्दोलन न था, तो उसे हम “जेधे करीना” के निम्नलिखित वाक्य पेश करते हैं—“आम्ही स्वामीच्या पायाशी ईमान धरून वतनास देखील पाणी सोडिले. आम्ही व आपले लोक देखील राजशी

स्वामी पुढे स्वस्त होवे ऐसा आमचा दृढ विचार आहे. तुमचा मुद्दा काय तो बोलणें. मुसलमान वैशमान आहे. कार्य जालिया वरीनस्ते निमित्त ठेऊन नाश करील. हे मन्हाष्ट राज्य आहे. अवधियानी हिम्मत धरून, जमाव घेऊन, राजश्री स्वामी संनिध राहोन एक-निष्टे ने सेवा करावी 'आणि' ऐशा हिम्मतीच्या गोष्टी सांगितल्या तेंव्हा अवधे देशमुख बोलले कि तुमचा विचार तोच आमचा विचार इमान पुरस्कर आहे।" ये वाक्य अफजलखाँ के आक्रमण के बाद कार्य-नीति की चर्चा के समय कहे गये हैं। इसमें महाराष्ट्र राज्य शब्द स्पष्टतया आये हैं। यदि स्वतंत्र राज्य की स्थापना की कल्पना अकेले शिवाजी की होती तो उस समय उपर्युक्त शब्दों का उपयोग न होता और न लोगों ने सर्व-त्याग की तैयारी ही दिखलाई होती। इसी भावना से इन शब्दों का उपयोग इसके बाद भी कई बार हुआ देख पड़ता है। अतएव यह मानना ही होगा कि महाराष्ट्र राज्य की कल्पना लोगों में सर्वत्र प्रचलित हो चुकी थी और जिस किसी ने थोड़ा-बहुत इतिहास पढ़ा है उसे यह कहना ही होगा कि बिना दीर्घ-कालीन आन्दोलन के ऐसी कल्पना का प्रचार लोगों में नहीं हो सकता। वास्तविक बात यह है कि मुसलमानी राज्य होने पर भी लोगों में स्वराज्य की कल्पना बनी ही रही; ज्यों-ज्यों मुसलमानों ने अधिकाधिक अत्याचार किये, त्यों-त्यों इस कल्पना ने अधिकाधिक जोर पकड़ा। अन्त में रामदास स्वामी के समय स्वराज्य और स्वधर्म की पुकार इतनी अधिक मच गई कि उस समय स्वधर्म के लिए स्वराज्य की स्थापना सम्भव हो सकी।

अतएव हमने स्वराज्य-स्थापना की अनुकूल स्थितियों की



मराठों का उत्थान और पतन

मुख्य-मुख्य बातों का विचार किया। परन्तु इनके सिवा कुछ और बातें भी इस कार्य के लिए अनुकूल रहीं। अन्य अनुकूल बातें हम बतला ही चुके हैं कि मुसलमानों राज्य में बहुतेरे कर्मचारी हिन्दू ही थे। प्रारम्भ में तो उन्हें ऊँचे पद न दिये जाते थे, परन्तु धीरे-धीरे उन्हें भी बड़े-बड़े अधिकार मिलने लगे और छोटी-बड़ी जागीरें भी वे पाने लगे। १६ वीं सदी के अन्त में मराठे सरदारों के कई घराने दक्षिण में महत्-पूर्ण हो गये। उनमें से कुछ के नाम ये हैं—शिरके, घाटगे, घोरपड़े, मोहिते, महाड़िक, मोरे, निम्बालकर, जाधव और भोंसले। इन घरानों ने अनेक युद्धों में भाग लिया था, बहुत-से पराक्रम के कार्य किये थे, कई राजाओं के उत्थान और पतन के ये कारण हुए थे और कई बार छोटे-बड़े मंत्रियों का भी काम किया था; इसलिए जो कुछ हम शाहजी के सम्बन्ध में कह चुके हैं, वह इन घरानों के लोगों पर भी लागू होता है। एक बार स्वतंत्र अधिकार चलाने का अनुभव पाने पर स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की इच्छा पैदा होना बिलकुल स्वाभाविक ही है। वहमनी-राज्य के पॉटुकड़ों में से शिवाजी के समय तक केवल दो ही बचे थे और इन दोनों के बहुतेरे शासन-सूत्र हिन्दू सरदारों के हाथ में चुके थे, मुरार जगदेव ने आदिलशाही में पच्चीस वर्ष तक मुख्य प्रधान का काम किया। इसी प्रकार मुराररा जगदेवराव, रायराव, कदमराव, मदन पंत आदि सरदारों कुतुबशाही में बड़े-बड़े काम किये थे। इसलिए एक दृष्टि कह सकते हैं कि हिन्दुओं का राज्य थोड़ा-बहुत इस स स्थापित हो ही चुका था। जहाँ स्वतंत्रता की भावना पहले

बनी हो, समय-समय पर उसका परिपोषण हुआ हो, और उसका कुछ दृश्य-रूप दीख पड़ा हो, वहाँ थोड़ा भी धार्मिक या राजकीय अत्याचार सहन होना सम्भव नहीं है। शिवाजी के जन्म-काल के समय मुसलमानों ने जो धार्मिक और राजकीय अत्याचार हिंदुओं पर किये, उसकी प्रतिक्रिया भी उस समय तुरन्त ही दीख पड़ी। इसका एक उदाहरण यह है कि बीजापुर ने जब कर्नाटक के हिन्दू राजाओं को नष्ट करके वहाँ मुसलमान-धर्म के प्रचार का विचार किया, तब शाहजी ने इन हिन्दू राजाओं को बचाने का भरकस प्रयत्न किया। सारांश यह है कि उस समय की राजकीय स्थिति भी स्वराज्य-स्थापना के अनुकूल थी।

इसपर प्रश्न हो सकता है कि फिर शिवाजी को किस बात का श्रेय दिया जाय ? यदि सारी परिस्थिति अनुकूल थी, तो

शिवाजी के कार्य की विशेषता


शिवाजी ने ऐसा कौन-सा बड़ा काम किया ? इसका उत्तर यह है कि शिवाजी अपने काल का प्रतिनिधि था, उस समय

की कल्पनाओं और भावनाओं से वह रँगा हुआ था। स्वधर्म, स्वदेश और स्वजन के लिए उसमें सप्रेम अभिमान था। कार्य के लिए किन-किन साधनों का किस-किस ढंग से उपयोग किया जाय, यह वह अच्छी तरह जानता था। साधारण लोगों में उसने अपने को शामिल कर लिया था। स्वदेश और स्वधर्म के लिए अपनी जान और अपना माल देने के लिए सदैव तैयार रहता था और सब प्राप्य सामग्री का उसने उचित उपयोग करके स्वराज्य की स्थापना कर दिखलाई। स्वराज-स्थापना की कल्पना कदाचित्त कुछ अन्य लोगों के मस्तिष्क में भी आई होगी, पर अकेले शिवाजी

मराठों का उत्थान और पतन

ने इस कार्य का भार अपने सिर पर लेकर सारे संकटों का सामना करते हुए उसे ठिकाने पहुँचा दिया; यही शिवाजी का विशेषता है।

---



## स्वराज्य-स्थापना का प्रारम्भ

शिवाजी ने स्वराज्य-स्थापना की तैयारी किस प्रकार की, यह पहले बतला चुके हैं। परन्तु उसने ठीक किस समय और किस कार्य से उसका श्रीगणेश किया, इस सम्बन्ध में थोड़ा मतभेद है। शिवभारत-ग्रंथ तथा अन्य कई कागज़-पत्रों से ऐसा जान पड़ता है कि शिवाजी के कार्य के प्रारम्भ का साल सन् १६-४५ समझा जाता है। सम्भवतः सबसे प्रथम कार्य दादाजी कोंडदेव के जीते-जी शुरू हुआ, और वह था खड़ेवारे में राजगढ़ नामक क़िला बाँधने का काम। दादाजी कोंडदेव की मृत्यु सन् १६४७ में हुई। इस समय कर्मचारियों ने नये परवाने माँगे। इसपर शिवाजी का हुक्म निकला कि पहले की परिपाटी ही जारी रहेगी। इस प्रकार शिवाजी ने अपनी जागीर में शान्ति रखने का प्रयत्न किया। दरबारों से यह जान पड़ता है कि सन् १६४६ ईस्वी में

क्रिलेदार को मिलाकर शिवाजी ने तोरणा नाम का किलाले लिया और इसका नाम प्रचंडगढ़ रक्खा । यह पूना से नैऋत्य की ओर बीस मील पर है । इसकी जहाँ-तहाँ मरम्मत करके भावलों की सेना इसमें रक्खी गई । कहते हैं कि इस किले में एक जगह शिवाजी को बहुत-सा गड़ा हुआ धन मिला, और उसने घोषित कर दिया कि भवानी देवी ने प्रसन्न होकर यह द्रव्य मेरे काम के लिए दिया है । इस द्रव्य से उसने बरूद-गोला आदि सामान खरीदकर किले की रक्षा का प्रबन्ध कर दिया । यह स्मरण रखना चाहिए कि शिव-भारत जैसे प्रामाणिक ग्रंथ में अथवा जेधे-शकाचली नामक प्रामाणिक शकावली में इस किले को लेने की घटना का उल्लेख नहीं है । शाहजी की दूसरी यानी सूरे की जागीर की देख-भाल उसकी दूसरी पत्नी के भाई सम्भाजी मोहिते के हाथ में थी । शिवाजी के कार्य इस पुरुष को पसन्द न थे, और न यह उनका कहना मानता था । दादाजी कोंडदेव की मृत्यु के बाद शिवाजी ने जब इस जागीर पर भी अपना कब्जा करना चाहा और यहाँ का हिस्सा माँगा, तो मोहिते ने उसकी कुछ भी पर्वा न की, न उसकी भेंट ही को गया । इसके पास ३०० सवारों की एक टोली थी । एक दिन, मध्य-रात्रि के समय, शिवाजी ने भावले लोगों का एक दल लेकर सम्भाजी मोहिते पर हमला कर दिया और उसे तथा उसके आदमियों को कैद कर लिया तथा उसकी सब चीजें अपने कब्जे में कर लीं । फिर शिवाजी ने उसे शाहजी के पास कर्नाटक भेज दिया । शिवाजी के इस कार्य से आसपास सब जगह उसका प्रभाव जम गया । पूना से उत्तर की ओर चाकन नाम का किला फिरंगोजी नरसाला नामक किलेदार के पास था ।

पूना का रास्ता इस किले की पहुँच में होने के कारण शिवाजी ने किलेदार को किसी प्रकार अपने वश में करके किला अपने कब्जे में कर लिया ।

इन सब बातों की खबर शिखर शिखल के थानेदार ने बीजापुर पहुँचाई और वहाँ के दरबार से शिवाजी के पास धमकी की चिट्ठियाँ भी आईं । परन्तु उसने विशेष भगड़े न उठाये और न कोई सरलत कार्रवाई की ।

कोंडाणा और पुरन्दर किले लिये दादाजी कोण्डदेव की मृत्यु के बाद पाँच-सात महीने के भीतर ही कोण्डाणा नामक किला लिया और और उसका नाम सिंहगढ़ रक्खा । यह किला भी उसने चालाकी से लिया और उसमें प्राण-हानि न हुई । यह किला मावल-भाग का नाका था । इसी कारण इसे अपने हाथ में रखना शिवाजी को अत्यन्त आवश्यक जान पड़ा । परन्तु शिवाजी को शीघ्र ही यह किला शाहजी की क़ैद से मुक्ति की एक शर्त के कारण बीजापुर को वापस देना पड़ा । १६

धारामती और इंदापुर नामक स्थान शिवाजी की जागीर में थे, परन्तु उनके बीच का रास्ता पुरन्दर किले की पहुँच में था । यह किला नीलकंठ नाइक नामक द्राक्षण किलेदार के अधीन था । इस नाइक के पिल्लाजी और शंकराजी नामक दो भाई थे । इन भाइयों में किलेदारी के लिए झगड़े होने लगे । तब उसका निर्णय करवाने के लिए वे शिवाजी के पास आये । शिवाजी सूझा जाने का बहाना करके फौज लेकर पुरन्दर किले पर चढ़ गया और उने अपने कब्जे में कर लिया । इसके बाद उन भाइयों को अतन इनाम दिये और उन्हें अपनी नाकरी में रख लिया ।

मराठों का उत्थान और पतन

इस प्रकार धीरे-धीरे शिवाजी की हिम्मत और ताकत दोनों बढ़ने लगीं। निजामशाही के नष्ट होने पर कोंकण का उत्तरी-

उत्तर मावल पर  
कब्ज़ा

भाग बीजापुर के राजा को मिला। आदिलशाह ने उसे मुल्लाअहमद नामक सरदार को जागीर में दे दिया। उस समय आदिलशाह बहुत दिनों तक बीमार रहा, इसलिए वहाँ कुछ गड़बड़ पैदा हुई। इसके कारण मुल्लाअहमद को आदिलशाह ने बीजापुर में बुला लिया। सूबेदार के कोंकण में न रहने के कारण वहाँ का बन्दोबस्त कुछ ढीला पड़ गया। इस मौके का शिवाजी ने लाभ उठाया। कोंकण से बीजापुर को इस समय जो खजाना जा रहा था, उसपर शिवाजी ने अचानक हमला किया; और उसे अपने कब्ज़े में करके राजगढ़ ले गया। शीघ्र ही कांगारी, तिकोना, लोहगढ़ वगैरा किले भी उसने ले लिये और इस प्रकार उत्तर मावल को अपने कब्ज़े में कर लिया। उधर आवाजी सोनदेव ने फौज लेकर कल्याण-भाग पर हमला कर दिया और किलों समेत उसे अपने अधिकार में कर लिया। शिवाजी ने उसे ही वहाँ का सूबेदार नियत किया।

जंजीरा के कई सरदारों ने पहले ही शिवाजी को यह सन्देश भेजा था कि यदि आप कोंकण में आवें तो हमतलें और घोसाला

तलें, घोसाला और  
रायगढ़

नामक किले लेने में मदद करेंगे। कल्याण लेने पर शिवाजी वहाँ गया और उन किलों को ले लिया। वापस आते समय उसने एक से वह प्रसिद्ध तलवार ली, जिसे उसने भवानी तलवार नाम दिया। इसी चढ़ाई के समय जंजीरा के सिद्दी का रायगी

नामक पर्वत शिवाजी ने अपने कब्जे में कर लिया। यहाँ पर इसने लिंगाना नामका मजदूत किला बनाया, जो आगे चलकर रायगढ़ के नाम से मशहूर हुआ।

दक्षिण कोंकण का समुद्री किनारा जंजीरा के सिद्दी के अधिकार में था। वहाँ राजापुर नामक एक समृद्ध शहर था।

दक्षिण कोंकण पर  
चढ़ाई

शिवाजी यह सुन चुका था कि वहाँ के लोग सिद्दी के शासन से त्रस्त हो गये हैं। अतः उसने उसी समय राजापुर पर

भी चढ़ाई कर दी और उसे लेकर उस भाग में अपना अधिकार जमा लिया। इस चढ़ाई से विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, रत्नागिरी आदि स्थान उसके कब्जे में आये।

इस प्रकार इस थोड़े से काल में उसने महाराष्ट्र का बहुत-सा भाग अपने कब्जे में कर लिया। जो-जो भाग कब्जे में आते,

मुसलमानों को  
नौकरी

उनका बन्दोबस्त भी वह तुरन्त करता था। भिन्न-भिन्न कामों के लिए चुन-चुन कर मनुष्य नियत करता और अपनी

शौज बढ़ाता था। उसका प्रभाव चारों ओर जम गया और दूसरे लोग उसकी नौकरी में आने लगे। जिस १६४८ के साल उसने सिंहगढ़ आदि किले और प्रदेश जीते, उसी साल बीजापुर के पाँच-सात सौ मुसलमान शिवाजी के पास नौकरी करने आये। उन्हें नौकरी में रखने की इच्छा शिवाजी के मन में न थी, परन्तु गोमाजी नाइक नामक उसके एक कर्मचारी ने कहा कि “ये लोग आपका नाम सुनकर आये हैं, इसलिए इन्हें निराश करना ठीक नहीं। यदि आप यह सोचें कि हम केवल हिन्दुओं का ही संग्रह



करेंगे और दूसरों की आवश्यकता न रखेंगे, तो राज्य प्राप्त न होगा। जिसे राज्य प्राप्त करना है, उसे चाहिए कि वह अठारह वर्ण और चारों जातियों के लोगों को अपने-अपने धर्म के अनुसार चलने की स्वतंत्रता देकर उनका संग्रह करे।” इस सलाह के अनुसार शिवाजी ने उन मुसलमानों को अपनी नौकरी में रख लिया। परन्तु इसी साल शाहजी की कैद की घटना ने शिवाजी के कार्य में विघ्न कर दिया। इसलिए अब हमें यह देखना चाहिए कि शाहजी कैसे कैद में पड़ा और पिता के जीवन की इस घटना का पुत्र के कार्यों पर क्या परिणाम हुआ।

विजयनगर के राजवंश का श्रीरंगराज नामक राजा महत्वाकांक्षी था। उसकी इच्छा थी कि राक्षस-तागड़ी के युद्ध के बाद अपने घराने का जो ऐश्वर्य नष्ट हुआ उसे शाहजी की कैद फिर से स्थापित करूँ। इस विचार से उसने जिंजी, तंजौर और मदुरा के राजाओं पर चढ़ाई करके उन्हें रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया। परन्तु जिंजी और मदुरा के राजाओं ने उसका आधिपत्य मानने की इच्छा न होने के कारण कुतुबशाह की मदद माँगी। इसपर कुतुबशाह ने श्रीरंग के राज्य पर चढ़ाई कर दी। तब उसे माण्डलिकों से सहायता लेनी पड़ी। अब कुतुबशाह की सेना ने उसके माण्डलिकों पर ही चढ़ाई का विचार करके जिंजी के किले को घेर लिया। तब मदुरा के राजा को बड़ा सोच पड़ा। क्योंकि यह साफ़ दिखाई पड़ा कि जिंजी ले लेने पर वह सेना मदुरा पर ही चढ़ाई करेगी। तंजौर के राजा ने तो डर के मारे गोलकुंडा वालों से सन्धि कर ली। इससे मारा के राजा की कठिनाई और भी बढ़ गई। उसने बीजापुर-

दरवार से सहायता माँगी। वहाँ से मुस्तफ़ाख़ाँ नामक सेनापति गोलकुंडा वालों से लड़कर जिंजी का घेरा उठवाने के लिए भेजा गया, परन्तु उसने गोलकुंडा वालों से लड़ने के बजाय संधि कर ली। संधि में यह करार हुआ कि गोलकुंडा वाले श्रीरंग के राज्य के उत्तरी भाग को अपने अधिकार में करें और बीजापुर वाले जिंजी से लगाकर दक्षिण की ओर के राज्यों को अपने कब्जे में कर लें। इस समय शाहजी और प्रधान सेनापति मुस्तफ़ाख़ाँ में मतभेद हुआ। इस मतभेद का कारण साफ़-साफ़ जान नहीं पड़ता, तथापि सम्भाव्य कारण यही दीख पड़ता है कि मुस्तफ़ाख़ाँ ने जो विश्वासघात का वर्ताव किया उसमें वह स्वयं शामिल न होना चाहता था। इसीलिए जिंजी के घेरे में शामिल होने से उसने इन्कार कर दिया। मुस्तफ़ाख़ाँ को तो यह भी शंका हुई कि शाहजी कहीं विरुद्ध पक्ष से न मिल जाय। इसलिए उसने आदिलशाह से उसे क़ैद करने की इजाजत माँगी और एक दिन बड़े सचेरे उसे क़ैद कर भी लिया। यह स्मरण रखना चाहिए कि बाजी घोरपड़े नामक एक मराठे सरदार ने इस काम में मुख्य भाग लिया था। क़ैद करने के बाद शाहजी बीजापुर भेज दिया गया। सम्भवतः यह कार्य सन् १६४८ में हुआ।

पिता के क़ैद होने की ख़बर पाकर सम्भाजी ने बंगलोर में और शिवाजी ने पुरन्दर में अपनी-अपनी जागीरों की रक्षा करने का विचार किया। सम्भाजी पर मुस्तफ़ाख़ाँ ने फ़रादख़ाँ, तानाजी डुरे और विठ्ठल गोपाल नामक सरदार भेजे; और बड़ी भारी फ़ौज फ़तेख़ाँ के सेनापतित्व में शिवाजी की जागीर पर चढ़ आई। इस फ़ौज ने

बीजापुर से लड़ाई

मराठों का उत्थान और पतन

वेलसर में डेरा जमाया और बालाजी हैबतराव सरदार ने शिरवल नामक स्थान ले लिया। यह सब खबर शिवाजी के पास पहुँची, तो उसने भी लड़ाई का निश्चय किया। शिवाजी ने कावर्जी को सेना देकर हैबतराव से लड़ने के लिए भेजा। हैबतराव लड़ाई में मारा गया और उसकी सेना भाग गई। वेलसर में भी दोनों पक्षों का सामना हुआ, परन्तु यहाँ मराठों को पीछे हटना पड़ा। शिरवल की खबर सुन कर फ़तेख़ाँ को बड़ा गुस्सा आया और उसने पुरन्दर पर चढ़कर शिवाजी का सामना करने का निश्चय किया। परन्तु यहाँ उसकी हार हुई और वह समर से भाग गया। इस कारण उसकी सेना भी भाग गई। ये घटनायें सम्भवतः सन् १६४९ में हुईं।

इसी साल मुस्तफ़ाख़ाँ की मृत्यु हो गई और आदिलशाह ने शाहजी को कुछ शर्तों पर मुक्त करने का निश्चय किया। उसकी मुख्य शर्त यह थी कि शिवाजी सिंहगढ़ किले को और सम्भाजी वंगलोर को उसे वापस दे दें और फिर शिवाजी कोई गड़बड़ न करे, तो पुरन्दर आदि भाग शिवाजी के अधिकार में रहने दिये जावेंगे। शिवाजी सिंहगढ़ को वापस न देना चाहता था। परन्तु सोनोपत उवीर जैसे चतुर पुरुष ने यह सलाह दी कि आपको अपने पिता की मुक्ति अवश्य करानी चाहिए और बीजापुर से खुलमखुला लड़ना ठीक न होगा, समयानुसार भेदनीति से काम लेना ही अधिक उचित होगा। इसके अनुसार शिवाजी ने सिंहगढ़ वापस दे दिया और शाहजी की मुक्ति हो गई। कुछ लोगों का मत है कि शिवाजी ने इस समय मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की नौकरी में जाने का

डर दिखला कर शाहजी की मुक्ति करवाई। क्योंकि आदिलशाह इस समय मुगलों से शत्रुता नहीं करना चाहता था।

जावली-विजय और  
चन्द्रराव मोरे  
का वध

इस घटना के बाद चार वर्ष तक शिवाजी के कार्यों का कुछ पता नहीं लगता। सम्भवतः वह आदिलशाह से किये हुए वादों के अनुसार चुपचाप बैठा रहा, ताकि शाहजी बीजापुर में किसी प्रकार की आपत्ति में न पड़ने पाय। परन्तु सन् १६५३ में कर्नाटक में बहुत-से भगड़े उठ खड़े हुए और उनका वन्दोवस्त करने के लिए आदिलशाह ने शाहजी को भेज दिया। इसलिए अब शिवाजी अपना कार्या-रम्भ करने के लिए स्वतंत्र हो गया। पहला भगड़ा जो उठ खड़ा हुआ वह जावली के मोरे से था। उस साल पहले तो दोनों में यादृशी बनती थी और शिवाजी ने चन्द्रराव मोरे को सहायता भी दी थी, परन्तु सन् १६५१ में वीरवाड़ी के पटेल से भगड़ा हुआ तो वह पटेल आश्रय के लिए शिवाजी के पास आया। शिवाजी ने उसे आश्रय ही नहीं दिया बल्कि मीरासी भी दी। इसके विपरीत शिवाजी के प्रदेश के एक अपराधी को चन्द्रराव ने आश्रय देकर रख लिया। इस प्रकार दोनों में वैमनस्य पैदा हुआ और वह बढ़ता ही गया। अन्त में मोरे का वन्दोवस्त करने का शिवाजी ने निश्चय किया। सन् १६५५ में उसने जावली पर चढ़ाई कर दी। तब चन्द्रराव मोरे रायरी को भाग गया। वहाँ सिलीमकर नामक मनुष्य की मध्यस्थता में शिवाजी और चन्द्रराव की भेंट हुई और चन्द्रराव अपने दो लड़कों समेत शिवाजी के आश्रय में आ गया। परन्तु इसके बाद पिता-पुत्रों ने न जाने क्या अज्ञम्य



कामों में शामिल होगा तो उसका फायदा ही होगा। मौका देखकर शिवाजी ने औरंगजेब से बातचीत जारी रखी। उधर बीजापुर-दरवार से भी वह पत्र-व्यवहार करने लगा।

सन् १६५६ में महमूद आदिलशाह मर गया और उसके बाद अली नाम का १८ वर्ष का लड़का बीजापुर की गद्दी पर बैठा। इससे वहाँ बड़ी गड़बड़ मची।

बीजापुर के कार्य में  
औरंगजेब का  
हस्तक्षेप

इस गड़बड़ को औरंगजेब ने और बढ़ा दिया। उसने कहा कि अली महमूदशाह का औरस लड़का न होने से गद्दी का

वारिस नहीं है; फिर उसने गद्दी पर बैठने के पहले दिल्ली-दरवार की मंजूरी नहीं ली है। इसी वजहाने बीजापुर चढ़ाई करने का निश्चय करके उसने शाहजहाँ से उसकी मंजूरी माँगी। उधर उसने सेना की तैयारी शुरू कर दी और बीजापुर के सरदारों को भिन्न-भिन्न प्रलोभन देकर अपने पक्ष में मिला लिया। इस प्रकार वहाँ दो पक्ष हो गये और वे आपस में भगड़ने लगे। इसी समय कर्नाटक में जहाँ-तहाँ बलबे हो रहे थे और उन्हें शान्त करने में शाहजी लगा हुआ था। बीजापुर के कुछ सरदारों ने इस संयय शाहजी की जागीर में हस्तक्षेप करना चाहा, इसलिए उसने उन्हें लिख भेजा कि हमारे कामों में यदि हस्तक्षेप किया तो ठीक न होगा। हमारा आदर रखते हुए यदि हमसे नौकरी लेंगे तो हम करेंगे, नहीं तो हमें छुट्टी दे दो; हम कहीं भी दूसरी जगह जाकर नौकरी करके पेट भरेंगे।

उधर इसी प्रकार शिवाजी को भी बीजापुर के विरुद्ध शिका-



मुगलाई से निकल कर पूना वापस आया। यहाँ भी मुगल सेना आनेवाली थी, परन्तु दैव अनुकूल था। गर्मी के दिन समाप्त होकर बरसात लग गई और नदियाँ पानी से उमड़ उठीं। इसलिए मुगल सेनापति को अपनी सरहद पर चुपचाप पड़े रहना पड़ा।

इस प्रकार मुगल सेना से शिवाजी को दण्ड देने का काम तुरन्त न हो सका। इधर औरंगजेब को एक दूसरी बात में बहुत निराश होना पड़ा। बीजापुर के साथ की लड़ाई में उसे अच्छी विजय मिली थी और वह उस राज्य को समूल नष्ट करना चाहता था, इसलिए बीजापुर के सरदारों ने सीधे दिल्ली-दरवार में दातचीत शुरू कर दी। वहाँ पर शासन-सूत्र शाहजहाँ के बड़े लड़के दारा के हाथ में थे। वह नहीं चाहता था कि औरंगजेब बहुत बलवान बन जाय। इसलिए बादशाह के नाम से उसने औरंगजेब को चिट्ठी भेजी कि इस हुक्म के देखते ही बीजापुर से युद्ध करना बन्द कर दो। इसके अनुसार औरंगजेब को बीजापुर से संधि करनी पड़ी। संधि की शर्तें ये थीं—बीजापुर डेढ़-करोड़ रुपये कर दे और उसके बेदर, कल्यानी और पराण्डा नामक किले तथा निजामशाही के कोंकण के किले और शिवाजी के किल्ले के पूना और सूपा के प्रदेश मुगल लें। परन्तु इस संधि के अनुसार किले और प्रदेशों को लेने का काम मुगलों से न हो सका, क्योंकि औरंगजेब के नाम दारा के पास से आये हुए हुक्म के अनुसार औरंगजेब के बहुत-से सरदार अपनी फौज लेकर मालवा चले गये और सेना के जाने पर बीजापुर वालों



मराठों का उत्थान और पतन

ने संधि के अनुसार प्रदेश देने में टालमटोल करना शुरू कर दिया ।

इस प्रकार बीजापुर के राज्य को नष्ट करने के काम में निराश होकर औरंगजेब वेदर को वापस चला आया । अब वह

आपत्ति और उसका निवारण

शिवाजी को उसके कार्यों के लिए भरपूर दण्ड देने को स्वतंत्र हो गया और वरसात के समाप्त होते ही उसने पून-

सूपा पर चढ़ाई करने का निश्चय किया । इससे शिवाजी बड़ी भारी कठिनाई में पड़ा । उसे सूझता न था कि क्या किया जाय । परन्तु दिल्ली में शाहजहाँ के सख्त वीमार होने की खबर दक्षिण में पहुँचते ही सारी बातें बदल गई ।

पिता की बीमारी की खबर पहुँचने पर दक्षिण की अपेक्षा उत्तर की ओर औरंगजेब को अधिक ध्यान देना पड़ा । इसलिये अब वह शिवाजी से नरम बातें करने लगा । शिवाजी ने भी मौत देखकर उससे जितना ऐंठते बने उतना ऐंठने का विचार कि और नम्रता का पत्र-व्यवहार जारी रक्खा । परन्तु औरंगजेब कुछ कम चालाक न था । इधर तो शिवाजी को लिख दिया कि मैं कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं कर दूँगा और उधर बीजापुर दरबार को लिख दिया कि शिवाजी को निकाल बाहर करो । इस प्रकार औरंगजेब ने मुग़ल-साम्राज्य के प्रदेश को सुरक्षित रखना चाहा । इतना काम करके वह उत्तर की ओर अपने भाई से गद्दी के लिए भगाड़ने को चला गया ।

बीजापुर वालों ने जो संधि करली थी उससे शिवाजी सं

में पड़ गया था। औरंगजेब के चले जाने पर बीजापुर से भगड़ा करने के लिए अब वह स्वतंत्र हो गया।

कर्नाटक पर चढ़ाई

सन् १६५७ और १६५८ में बीजापुर के

सरदार एक दूसरे को गिराने में लगे हुए थे। इस समय मुहम्मद अहमद वहाँ का सूत्रधार था और अफ़जलख़ाँ उसीके मत का होने के कारण जोरदार बन गया था। इस ख़ाँ का जोर कम करने के विचार से शिवाजी ने कर्नाटक पर चढ़ाई कर दी और कृष्णा नदी तक लूट-मार मचा दी। तब बीजापुर-इरवार ने शिवाजी को नष्ट करने के लिए अफ़जलख़ाँ को भेजा।

अफ़जलख़ाँ और शाहजी के बीच बहुत दिनों से खटपट चल रही थी। सन् १६५५ में कन्नकगिरि के राजाने बलवा किया,

शिवाजी पर अफ़जल-  
ख़ाँ की चढ़ाई

इसलिए शाहजी का ज्येष्ठ पुत्र सम्भाजी उसे दवाने को गया। उस अवसर पर सम्भाजी और अफ़जलख़ाँ के बीच भगड़ा

हुआ, और इसमें गोली लगने से सम्भाजी मर गया। इसलिए शाहजी अफ़जलख़ाँ पर बहुत अधिक नाराज़ था। यह ऊपर बता ही चुके हैं कि इस ख़ाँ का महत्व बीजापुर में बहुत बढ़ गया था। इसलिए अलीआदिलशाह ने जब शिवाजी पर चढ़ाई करने के लिए उससे कहा, तो उसने प्रतिज्ञा की कि शिवाजी को मैं पकड़कर आपके सामने पेश करूँगा। इस प्रतिज्ञा के अनुसार आवश्यक तो यह था कि अफ़जलख़ाँ शिवाजी के पूना पर चढ़ाई करता, परन्तु जावली का प्रतापराव मोरे दो-तीन वर्षों से बीजापुर में रहता था। उसकी इच्छा थी कि मैं चन्द्रराव का खिताब पाऊँ, और शिवाजी ने जावली वापस लूँ। इसके सिवा जावली

का स्थान अच्छे मौक़े पर था। वह क़िला हाथ में रहने पर वहाँ से सह्याद्री पर्वत और वाई के प्रदेश पर हुकूमत चलाने में कोई कठिनाई नहीं पड़ती थी। इन सब बातों का विचार करके और प्रतापराव की इच्छा पूरी करने के लिए अफ़जलख़ाँ वाई की ओर गया। रास्ते में उसने पंढरपुर और तुलजापुर के देवस्थानों को नष्ट किया। ये सब बातें सुनकर शिवाजी जावली को आया। इसलिए उस स्थान को सरलता-पूर्वक ले लेने की कल्पना अफ़जलख़ाँ को छोड़ देनी पड़ी। अब उसके सामने दो ही उपाय थे। या तो जावली पर चढ़ाई करता, या जावली वापस देने के लिए शिवाजी से बातचीत करता। उसने दूसरे मार्ग का अवलम्बन किया और कुछ तो डाँट-डपट का और कुछ मेल-जोल का संदेश भेजा। इस संदेश में अफ़जलख़ाँ ने शिवाजी के छोटे-बड़े कृत्य गिना डाले थे और यह डर दिखलाने का प्रयत्न किया था कि उसके शत्रु अब एक हो रहे हैं। इसका तात्पर्य यह था कि शिवाजी अपना सब प्रदेश और क़िले देकर संधि कर ले। शिवाजी को यह मालूम था कि अफ़जलख़ाँ बीजापुर में उसे यहाँ से पकड़कर ले जाने की प्रतिज्ञा करके आया है। अब जब वह संधि की बातें करने लगा तो उसमें उसे धोखेवाजी दीख पड़ने स्वाभाविक था। इसलिए उसके मन का पता ले लेना आवश्यक जान पड़ा। इसके लिए उसने एक तर्कीब की। उसने अफ़जलख़ाँ को संदेश भेजा कि आप यदि जावली आवेंगे तो ठीक होगा आपके माँगे हुए क़िले और जावली मैं देने को तैयार हूँ। आवेंगे तो मैं आपके सामने अपनी तलवार रख दूँगा। शिवाजी ने साचा कि मेरा प्रदेश लेकर ही संधि करने का उसका विच-

हो तो खौं भेंट के लिए न आवेगा; परन्तु यदि मुझे पकड़कर लेजाना। उसका उद्देश होगा, तो भेंट का संदेश वह तुरन्त स्वीकार कर लेगा। अफ़ज़लख़ाँ ने भेंट की बात तुरन्त मान ली। परन्तु उसके सलाहकारों को यह बात ठीक न जँची। उन्होंने कहा—यदि शिवाजी की इच्छा वास्तव में शरण आने की हो, तो उसे ही आपके सामने आकर सिर नवाना चाहिए; इस सीधी बात को छोड़कर आपही उसके पास जावें, यह कहाँ का न्याय है? परन्तु वह तो घमण्ड से फूला हुआ था। उसने उत्तर दिया कि मुझे नज़दीक आया देखकर स्वयं यम भी डर के मारे मुझसे संधि कर लेगा; फिर शिवाजी कौन बड़ी बात है? यह कहकर वह प्रतापगढ़ की ओर चल दिया।

अफ़ज़लख़ाँ ने आकर कोयना नदी पर डेरा डाला। अब दोनों ओर के दूत आने-जाने लगे और मेल-जोल की बातें होने लगीं। शिवाजी और अफ़ज़लख़ाँ तो परस्पर की चालें एक-दूसरे के विषय में सशंक थे, परन्तु लोगों को तो ऐसा जान पड़ा कि संधि अवश्य होगी। लोगों के ऐसा सोचने का एक भारी कारण था। खौं के साथ आये हुए सरदारों को भेंट में देने के लिए बड़े-बड़े जवाहर बगैरा मोल लेना शिवाजी ने शुरू कर दिया था। परन्तु यह सब ऊपरी दिखावट थी। अफ़ज़लख़ाँ ने निश्चय कर लिया था कि शिवाजी ने मुझपर विश्वास किया है, इस सिलसिले में दोस्ती का वहाना करके मैं उसके पेट में गुम बटारी घुसेड़ दूँगा। और शिवाजी ने इसका यह कपट पहचान लिया था, इसलिए उसका फल उसे देने का उसने निश्चय कर लिया था।

भेंट के सम्बन्ध में जो तय हुआ, उसकी शर्तें ये थीं—  
 (१) दोनों सशस्त्र आवें; (२) खाँ पालकी में बैठकर आते समय केवल दो-तीन ही सेवक लावे; (३) दोनों भेंट की शर्तों की रक्षा के लिए दस-दस सैनिक एक-दूसरे की दूरी पर पीछे खड़े रहें; (४) ऐसी स्थिति में दोनों संघर्ष की गुप्त बातचीत करें।

खाँ ने वाई में पहुँचते ही शिवाजी को डराने का प्रयत्न किया और उसने समझा कि वह डर गया है। इसलिए प्रत्यक्ष भेंट के समय उसने अपने हाथ की तलवार पास के नौकर को दे दी और यह दिखलाने का ब्रह्म

चाहा कि मैं निःशस्त्र हूँ। उसने सोचा कि ऐसा करने से शिवाजी निःशंक होकर भेंट के लिए विलकुल नजदीक आवेगा और तब मैं उसके पेट में गुप्त कटारी घुसेड़ने का मौक़ा पाऊँगा। उसे केवल इसी बात का सोच था कि डरा हुआ शिवाजी नजदीक आकर मुझसे मिलेगा या नहीं। उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि हाथ में आने पर मैं उसे अवश्य ज़ख्मी कर डालूँगा। वह महा-धमंडी था। उसे इस बात की शंका भी न थी कि शिवाजी मेरा कपट पहचान लेगा और मेरी कटारी का वार निष्फल कर देगा, या वह उसे उलटे मुझपर ही चला देगा। अफ़जलखाँ ने शिवाजी से मिलते ही अपनी कटारी का वार उसपर किया; परन्तु उसके शरीर में जिरह-वस्त्र था, इसलिए वह वार निष्फल हुआ। अब शिवाजी ने अपनी तलवार उसके पेट में घुसेड़ दी और उसकी आँतें बाहर निकल आईं। इस समय शिवाजी जिस तलवार का उपयोग किया, वह प्रसिद्ध भवानी तलवार थी

शिव-भारत में तो केवल इसीका उल्लेख है, परन्तु अन्य ग्रंथों में शिवाजी के पास विचवा ३ और बाघनखा होने का भी उल्लेख है।

अक़बलख़ाँ को मृत्यु होने पर उसके शरीर-रक्षक शिवाजी पर दौड़े, परन्तु सम्भाजी कात्रजी वगैरा मराठे वीर भी उन्हें रोकने के लिए दौड़ पड़े। इस समय जिवामहाल नामक वीर ने बहुत पराक्रम दिखलाया। अक़बलख़ाँ के भोईलोग उसका शरीर लेकर भाग रहे थे। येसाजी कंक ने पीछा कर उन्हें रोका और ख़ाँ का सिर काट लिया। उसे लेकर कुछ वीरों के साथ शिवाजी प्रतापगढ़ के किले में चला गया।

ख़ाँ का कपट पहचान कर शिवाजी ने अपनी फ़ौज आस-पास के जंगल में जहाँ-तहाँ रख दी थी। अब वह बाहर निकल ख़ाँ की सेना की दार आई और वीजापुर की फ़ौज से उसने लड़ाई ठान दी। परन्तु वे लोग तो पहले ही पचरा गये थे, इसलिए रण से भागने लगे। उन्हें भागते देख-कर मराठों ने उनका पीछा किया और बहुत-से लोगों को काट डाला। पश्चात् वीजापुर का बहुत-सा सामान मराठों के हाथ लगा।

इस बात की खबर जब अली आदिलशाह को मिली, तो उसे बड़ा दुःख हुआ। उसकी माँ तो ईश्वर का नाम ले-लेकर रोने लगी। तीन दिन तक उसने कुछ भी न खाया-पीया। फिर वह शीघ्र ही मक्के को हज करने चली गई। यह घटना १६६९ के १० नवम्बर को हुई। उसके

शिवाजी पर वीजापुर  
वालों की हमरी  
चढ़ाई

बाद भागे हुए कुछ सरदारों ने अली आदिलशाह को दिलासा

३३ यह काल के नामक उल्लेख का सबब होता है।



सिद्दी से लड़ने के लिए राघो वल्लाल अत्रे को और सावन्त से लड़ने के लिए वाजी पासलकर को भेजा। सावन्त और पासलकर का घसासान युद्ध हुआ और ये दोनों सेनापति मारे गये। स्वयं शिवाजी कोल्हापुर के आस-पास की रक्षा के लिए पन्हाला में बन्दोवस्त से बना रहा। वे बरसात के दिन थे, परन्तु शत्रु ने उसी समय आकर घेर लिया। उधर दिल्ली में यह निश्चय हुआ कि बीजापुर की सहायता के लिए सेना भेजी जाय। इसके अनुसार औरंगजेब ने शाहस्ताख़ाँ को सेनापति बनाकर बड़ी भारी सेना भेजी। इस सेना ने मंदिरों और मठों का विध्वंस किया और गाँवों को नष्ट कर डाला। फिर पूना, सूपा, इन्द्रापुर और चाकण के परगणे ले लिये। इस समय जीजावाई राजगढ़ में थी। चारों ओर से हमला हुआ देखकर इसने निश्चय किया कि पन्हाला के घेरे से शिवाजी को किसी प्रकार मुक्त करना ही चाहिए। नेताजी पालकर ने इस घेरे को उठवाने का बहुत प्रयत्न किया, परन्तु वह सफल न हुआ। एक दिन रात को शिवाजी कुछ सैनिकों सहित इस घेरे में से बचकर निकल आया और विशालगढ़ किले की ओर जाने लगा। यह खबर पाते ही सिद्दी जोहार ने शिवाजी का पीछा करने को शौज भेजी। इस सेना ने शिवाजी को रोकने का प्रयत्न किया, परन्तु उससे कुछ न बन पाया। शत्रु को धाते देखकर शिवाजी ने बाजीप्रभु देशपाण्डे के सेनापतित्व में गोलखिंडी नामक घाटी में सेना खड़ी कर दी और स्वयं किले पर चढ़ने लगा। उसे यह बतला दिया था कि किले में हमारे पहुँचने तक शत्रु को तुम यहीं रोक रखो; किले में पहुँचने पर हम तोप दाँगे, तब तुम भी चले आना। शीघ्र ही






निकला। तब समय देखकर उसने बीजापुर वालों से सन्धि करली। इस सन्धि में शाहजी ने मध्यस्थ का काम किया। इस निमित्त से शिवाजी की पिता से कई वर्षों में भेंट हुई। बीजापुर ने शिवाजी की सब शर्तें मंजूर कीं। उत्तर में कल्याण से दक्षिण में खोंडा तक और पश्चिम में दाभोल से पूर्व में इंदापुर तक सब प्रदेश शिवाजी को दे दिवा और उसका स्वातंत्र्य मान लिया। सन्धि में दूसरों के हमलों से परस्पर रक्षा की शर्त भयी थी। शिवाजी ने यह शपथ ली थी कि शाहजी के जीते जी मैं बीजापुर-राज्य में गड़बड़ न मचाऊँगा। इसके बाद शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया।



## मुगलों से प्रथम युद्ध

अब शिवाजी को शाइस्ताख़ाँ की ओर ध्यान देने का अवसर मिला। इस समय तक वह उससे मेल-जोल की चिट्ठी-पत्रों ही करता रहा। सन् १६६१ में मुगलों ने कल्याण और भिवंडी प्रदेश ले लिये थे, वीजापुर की सन्धि के अनुसार ये भाग शिवाजी के थे। शाइस्ताख़ाँ ने आगे बढ़ना उचित न समझा, इसलिए उसने दो साल आराम से पूना में बिताये। अब शिवाजी ने इसकी खबर लेनी चाही। उसने मोरोपंत पेशवा को सेना देकर जुन्नार के उत्तर के किले लेने के लिए भेजा। नेताजी पालकर

ॐ 'शिवभारत' को देखने से यह पता चलता है कि शाइस्ताख़ाँ पूना में आने पर बिल्कुल चुप-चाप न बैठा था। उसने शिवाजी को पकड़ने के लिए सह्याद्री से राजगढ़ की ओर सेना भेजी। इसका सेनापति कारतलख़ाँ था और उसे कोंकण में चौल, कल्याण, भिवण्डी, पनवेल आदि स्थान लेने का काम सौंपा गया था। इस सेना के साथ सुप्रसिद्ध 'रायबागीज' भी थी। यह सेना लोहगढ़ के पास के दक्षिणोत्तर मार्ग से एक पगडण्डी से बर्वत के नीचे उतरी। जहाँ यह पगडण्डी समाप्त होती थी वहाँ घना जंगल



मध्य प्रदेश की चढ़ाई  
(सन् १९६१ ई०)

शुरू करदी। अब शिवाजी के आदमियों ने पहरेदारों को बतलाया कि शिवाजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए गड़बड़ न किया करो। इस प्रकार कुछ दिन बीत गये। फिर एक दिन शाम को सम्भाजी और शिवाजी अलग-अलग पिटारे में बैठकर पहरे से बाहर निकल आये। मिठाई के पिटारे समझ कर पहरेदारों ने हमेशा की तरह देख-भाल न की। सम्भाजी और शिवाजी पूर्व-निश्चित स्थान पर आये। वहाँ शिवाजी के साथियों ने भागने की व्यवस्था पहले ही कर रखी थी। भेष बदलकर केरी प्रकार के मथुरा पहुँचे। इधर हिरोजीकरजंद शिवाजी के पलंग पर कपड़े ओढ़कर कुछ देर तक पड़ा रहा। फिर वह उठकर बाहर आया और पहरेदारों को उसने कहा कि महाराज आज ज्यादा बीमार हैं, इसलिए मैं दवाई लाने बाहर जाता हूँ, तुममें से कोई भीतर न जाना। यह कहकर वह बाहर निकला और दक्षिण की तरफ चल दिया। दूसरे दिन दोपहर तक भी जब पहरेदारों ने वहाँ कुछ हल-चल न देखी, तब वे भीतर गये। तब वहाँ उन्होंने देखा कि शिवाजी वहाँ नहीं थे। फिर तो यह खबर चारों ओर फैल गई। बादशाह को जब यह बात मालूम हुई, तब वह बीलादखॉं पर बहुत गुस्से हुआ और तुरन्त उसकी मनसबदारी परत करली। औरंगजेब को अपनी चतुरता का बड़ा घमण्ड था, इसलिए शिवाजी ने अपनी युक्ति से उसका यह घमण्ड चूर-चूर कर दिया। दक्षिण की ओर जायेंगे तो पकड़े जायेंगे, इस विचार के शिवाजी पहले उचार की तरह मथुरा गया। सम्भाजी को अपने साथ रखना ठीक न समझकर उसे वहीं किसीके पास जाने का निश्चय किया। वहाँ पर शीरोपंत पेशवा के साले कृष्ण-

जी पंत, काशी पंत और विशाजी पंत नामक तीन भाई थे। उनका और नीराजी का परिचय था। उन्होंने सम्भाजी को अपने पास रख लेना स्वीकार किया। फिर वैरागी का वेप धारणकर शिवाजी प्रयाग, काशी, गया, जगन्नाथ आदि होते हुए गोंडवन के रास्ते कुतुबशाही और आदिलशाही की हद्द में आकर रायगढ़ पहुँचा। इस प्रकार दक्षिण छोड़ने के दस महीने बाद शिवाजी अपने स्थान को वापस आया। वहाँ उसने देखा कि राज्य की जो व्यवस्था मैंने कर दी थी वह ज्यों-की-त्यों चली जा रही है। इसपर उसे बड़ा आनन्द हुआ। थोड़े ही दिनों के बाद कृष्णाजी वगैरा पेशवा के साले सम्भाजी को लेकर दक्षिण में पहुँचे।

औरंगजेब को शंका हुई कि शिवाजी के भागने में रामसिंह की मदद थी, इसलिए उसने उसे दरवार में आने से मना कर

शिवाजी और औरंग-  
जेब की संधि

दिया। इधर जयसिंह से भी औरंगजेब ने इसी प्रकार का वर्ताव किया। शिवाजी के आगरा जाने पर जयसिंह ने बीजापुर

का घेरा डाला था, परन्तु वह इस काम में सफल न हुआ। तब वह औरंगाबाद को वापस चला आया। इस समय शिवाजी दक्षिण में पहुँच चुका था। इसलिए औरंगजेब को यह डर पैदा हुआ कि कहीं ये दोनों हिन्दू-मिल न जायँ। इस विचार से औरंगजेब ने जयसिंह को वापस बुला लिया, दिलेरखाँ को मालवा में भेज दिया, और दक्षिण की सूवेदारी में अपने लड़के मुअज्जम और जोधपुर के राणा जसवन्तसिंह को भेजा। आगरा में इन दोनों का स्वभाव शिवाजी जान चुका था। उसने जसवन्तसिंह को घन देकर और मुअज्जम से मीठी-मीठी बातें करके यह लिख



तुरन्त अपने पिता की मदद को दौड़ा आया। परन्तु इस गड़बड़ में मराठों ने उसका काम तमाम कर दिया। इसी प्रकार एक मुगल सरदार को भी उन्होंने मार डाला। फिर शिवाजी ने अपने आदमियों को जमा किया और वहाँ से भाग आया।

मुगलों ने पहले तो अपनी छावनी में ही खोज की; फिर वे मराठों का पीछा करने को निकले। परन्तु शिवाजी ने इन्हें छकाने के लिए पहले ही बन्दोबस्त कर रक्खा था। उसने कात्रज के घाट की ओर वैलों के सींगों में तथा भाड़ों में मशालें बँधवा कर कुछ आदमी रख दिये थे और उन्हें बतला दिया था कि सूचना मिलते ही मशालों को जला देना। इसी प्रकार वे मशालें जलाई गईं। मुगलों को ऐसा जान पड़ा कि शिवाजी कात्रज की ओर गया है, इसलिए वे उधर ही गये। अन्त में दिन निकलने पर असली बात का पता लगा और वे कोंढाणा की ओर वापस आये। उनके बिलकुल पास आने तक शिवाजी ने कुछ न किया, परन्तु तोपों की मार के भीतर उन्हें आया देख किले से गोले छोड़ना शुरू किया। इससे मुगल-सेना मरने लगी। शाइस्ताख़ों बड़ी चिन्ता में पड़ा। इतने में एक गोला उसके हाथी को लगा और वह मर गया। अब तो ख़ों का धैर्य जाता रहा। उसने सोचा कि दिन दरनात के हैं, शिवाजी दगादाज है, कह नहीं सकते कि किस समय वह क्या करेगा, इसलिए बरसात सप्ताह होने पर ही जो कुछ पन लफेगा वह करेंगे। ऐसा विचारकर वह उत्तर की ओर चला गया और औरंगाबाद में छावनी डालकर रहने लगा।



औरंगजेब को जब यह हाल मालूम हुआ तब उसे अपने मामा शाइस्ताखॉ पर बड़ा गुस्सा आया। उसने उसका बहुत अपमान किया और बंगाल के सूबे में भेज दिया। यह घटना सन् १६६३ में हुई।

इसके बाद सन् १६६४ में, शिवाजी ने सूरत पर हमला किया। वहाँ ६ दिन तक कर वसूल करता रहा। यह सब द्रव्य लेकर वह रायगढ़ को सुरक्षित वापस आया। इसी समय शिवाजी के जहाज़ी वेड़े के अधिकारियों ने मक्का को जाने वाले यात्रियों से भरे हुए जहाज़ पकड़े और लोगों से बहुत-सा द्रव्य लेकर उन्हें छोड़ दिया। इस बात की खबर जब औरंगजेब को लगी, तो वह मारे गुस्से के उबल उठा। वह स्वयं शिवाजी पर चढ़ाई करना चाहता था, परन्तु उत्तर में इस समय बल्ले हो रहे थे, इसलिए वह दक्षिण में नहीं आ सकता था। तथापि उसने जयपुर के राजा मिर्जा जयसिंह और एक मुसलमान सरदार दिलेरखाँ को तुरन्त खाना किया। वे बड़ी शीघ्रता से पूना तक दौड़े आये। उन्होंने शिवाजी के किले लेने का निश्चय किया। दिलेरखाँ ने पुरन्दर को घेर लिया और पास ही जयसिंह सब बात की व्यवस्था करने के लिए डेरे डालकर रहने लगा। पुरन्दर का किला मुरारवाजी पहाड़कर के हाथ में था और उसके पास दो हज़ार सैनिक थे। मुगलों का आना सुनकर उसने इस बात का बन्दोबस्त किया कि उन्हें घास-दाना न मिले और उनके गोले-बारूद को उसने आग लगवा दी। इतने पर भी दिलेरखाँ ने सब

मुरारवाजी का  
पराक्रम



शिवाजी काँकण में था। वापस आने पर उसे मुगलों की चढ़ाई का पता लगा। शीघ्र ही उसे मुरारवाजी के मरने की खबर भी मिली। तब उसे मुगलों से सन्धि करने का विचार यह स्पष्ट देख पड़ा कि पुरन्दर मुगलों के हाथ में गये बिना न रहेगा और वे एक-के-बाद-एक मेरे किले ले लेंगे। कुछ देर तो वह बड़ी चिन्ता में पड़ा, पर अन्त में उसने मुगलों से मेल करने का निश्चय किया। राजा जयसिंह से रघुनाथ पंडित द्वारा भेंट की बातचीत शुरू हुई। जयसिंह ने रघुनाथ पण्डित का सन्मान-पूर्वक स्वागत किया और उसका संदेश खुशी से सुना। जबसे शाइस्ताख़ाँ की फ़ज़ीहत हुई थी तबसे शिवाजी की धाक मुगलों पर जम गई थी। उन्हें इस बात का यकीन न था कि लड़ाई जारी रखने पर हमें विजय ही मिलेगी। अतः जयसिंह ने शिवाजी की भेंट का संदेश स्वीकार किया।

जयसिंह का जवाब मिलने पर शिवाजी ने उसकी भेंट को जाने की तैयारी की। स्वयं उसने तो सादी पोशाक धारण की परन्तु साथ जानेवाले सैनिकों को मूत्र मुगलों से सन्धि सजाया। भेंट का स्थान पुरन्दर के पास ही निश्चित हुआ था। शिवाजी को आते देखकर जयसिंह ने कुछ आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। फिर एक डेरे में उनकी बात-चीत हुई। इस समय शिवाजी ने जयसिंह के धर्माभिमान को जागृत करने का प्रयत्न किया। 'आपको जो किले चाहिए, उन्हें मैं देता हूँ और उनपर आपका झण्डा चढ़वा देता हूँ। परन्तु इस बात का श्रेय मुसलमानों को न मिलने पावे। मैं हिन्दू हूँ और आप भी हिन्दू हैं। यहाँ पहले हिन्दुओं का ही राज्य

था। हिन्दू-धर्म की रक्षा करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषों के सामने मैं दस बार सिर मुकाने को तैयार हूँ। आप कभी ऐसा काम न करेंगे, जिससे अपने देश तथा मान की हानि होगी। ऐसी बातें सुनकर जयसिंह का धर्माभिमान जागृत हो उठा और उसने बड़ी खुशी से संधि करना स्वीकार किया। परन्तु उसे इस बात की आवश्यकता जान पड़ी कि ऐसा करने से पहले शिवाजी दिलेरख़ाँ से मिल ले। इसलिए उसने अपने मामा सुभानसिंह को साथ देकर दिलेरख़ाँ के पास शिवाजी को भेज दिया। शिवाजी भेंट के लिए आ रहे हैं, यह सुनकर दिलेरख़ाँ बड़ा खिन्न हुआ। इसका कारण यह था कि पुरन्दर अबतक दिलेरख़ाँ के हाथ आया न था और संधि होने से उसे लेने का श्रेय उसे न मिलता। इसलिए पहले तो उसने टालमटोल की, परन्तु अन्त में संधि के लिए तैयार हो गया। शिवाजी और मुग़लों के बीच इस समय जो संधि हुई, उसकी शर्तें ये थीं:—(१) शिवाजी स्वयं अपने पास वाराह किले और उनके आस-पास का मुल्क रखे, (२) शिवाजी के आठ वर्ष के लड़के गम्भाजी को पाँच हजार की मनसबदारी मिले, (३) बीजापुर के राज्य में शिवाजी चौध और सरदेसायुक्ती वसूल कर सके परन्तु इसके लिए वह ११ किलों में १ करोड़ ४० लाख रुपये नजराना दे, (४) आवश्यकता पड़ने पर स्वयं शिवाजी बादशाह की नौकरी करे। शिवाजी की बहुत शक्यता थी कि कोलाहा के पास के हवशियों का जंजीरा प्रदेश सुभे मिले। परन्तु इस पर उसे यह उत्तर मिला कि जब तुम स्वयं बादशाह की भेंट का आश्रय तब इस बात का विचार किया जायगा।

मिला कि शिवाजी पर पाँच हजार सवारों का पहरा रक्खा जाय।

कैद

अब शिवाजी बड़ी मुसीबत में पड़ा। उसने रामसिंह के जरिये बादशाह से प्रार्थना की कि

मुझे यदि अपने देश को वापस जाने की आज्ञा न देनी हो तो न दो; पर मेरे साथ आये हुए लोगों को यहाँ की आवहवा मुआफिक नहीं, इसलिए उन्हें तो वापस जाने दो! यह बात औरंगजेब को पसन्द आ गई। उसने शिवाजी की कौज को वापस जाने का हुक्म दे दिया। केवल कुछ चुने हुए लोग शिवाजी के पास रह गये। इसके बाद फिर कई बार शिवाजी ने अपने देश को वापस जाने की इजाजत माँगी, पर वह न मिली। औरंगजेब पहले ही दिन उसके स्वाभिमानो भाव को देख चुका था। उसे इस बात का विश्वास न हुआ कि दक्षिण में वापस जाने पर वह मेरी नौकरी करेगा। अतएव उसने उसे आगरे में ही रख लेने का विचार किया। औरंगजेब ने एक बार रामसिंह से कहा कि जबतक शिवाजी आगरे में रहना मंजूर न करे तबतक उसपर कड़ा पहरा रक्खा जाय। औरंगजेब के इस विचार की कल्पना शिवाजी को पहले ही हो चुकी थी, इसलिए अपनी जान खतों में डालकर भी किसी प्रकार वहाँ से निकल भागने का उसने निश्चय किया।

अब शिवाजी ने बादशाह को संदेश भेजना शुरू किया कि मैं आगरे में रहने को तैयार हूँ। इधर दरवारियों को उसने बड़े-बड़े

कैद से मुक्ति

पिटारे भेजने शुरू किये। पहले-पहले

पहरेदार लोग पिटारों को अच्छी तरह

देख-भाल लेते थे, कुछ समय बाद उन्होंने इस काम में ढिलाई

शुरू करदी। अब शिवाजी के आदमियों ने पहरेदारों को बतलाया कि शिवाजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए गड़बड़ न किया करो। इस प्रकार कुछ दिन बीत गये। फिर एक दिन शाम को सम्भाजी और शिवाजी अलग-अलग पिटारे में बैठकर पहरे से बाहर निकल आये। मिठाई के पिटारे समझ कर पहरेदारों ने हमेशा की तरह देख-भाल न की। सम्भाजी और शिवाजी पूर्व-निश्चित स्थान पर आये। वहाँ शिवाजी के साथियों ने भागने की व्यवस्था पहले ही कर रखी थी। भेष बदलकर केरी प्रकार के मथुरा पहुँचे। इधर हिरोजीकरजंद शिवाजी के पलंग पर कपड़े ओढ़कर कुछ देर तक पड़ा रहा। फिर वह उठकर बाहर आया और पहरेदारों को उसने कहा कि महाराज आज ज्यादा बीमार हैं, इसलिए मैं दवाई लाने बाहर जाता हूँ, तुममें से कोई भीतर न जाना। यह कहकर वह बाहर निकला और दक्षिण की तरफ चल दिया। दूसरे दिन दोपहर तक भी जब पहरेदारों ने वहाँ कुछ हल-चल न देखी, तब वे भीतर गये। तब वहाँ उन्होंने देखा कि शिवाजी वहाँ नहीं थे। फिर तो यह खबर चारों ओर फैल गई। बादशाह को जब यह बात मालूम हुई, तब वह बीलादखॉ पर बहुत गुस्से हुआ और तुरन्त उसकी मनसबदारी पर ली। औरंगजेब को अपनी चतुरता का बड़ा घमण्ड था, इसलिए शिवाजी ने अपनी युक्ति से उसका यह घमण्ड चूर-चूर कर दिया। दक्षिण की ओर जायेंगे तो पकड़े जायेंगे, इस विचार में शिवाजी पहले उचार की तरफ मथुरा गया। सम्भाजी को अपने साथ रखना ठीक न समझकर उसे वहीं किसीके पास जाने का निश्चय किया। वहाँ पर शीरोपंत पेशवा के साले कृष्ण-

जी पंत, काशी पंत और विशाजी पंत नामक तीन भाई थे। उनका और नीराजी का परिचय था। उन्होंने सम्भाजी को अपने पास रख लेना स्वीकार किया। फिर वैरागी का वेप धारणकर शिवाजी प्रयाग, काशी, गया, जगन्नाथ आदि होते हुए गोंडवन के रास्ते कुतुबशाही और आदिलशाही की हद्द में आकर रायगढ़ पहुँचा। इस प्रकार दक्षिण छोड़ने के दस महीने बाद शिवाजी अपने स्थान को वापस आया। वहाँ उसने देखा कि राज्य की जो व्यवस्था मैंने कर दी थी वह ज्यों-की-त्यों चली जा रही है। इसपर उसे बड़ा आनन्द हुआ। थोड़े ही दिनों के बाद कृष्णार्ज वगैरा पेशवा के साले सम्भाजी को लेकर दक्षिण में पहुँचे।

औरंगजेब को शंका हुई कि शिवाजी के भागने में रामसिंह की मदद थी, इसलिए उसने उसे दरवार में आने से मना कर दिया। इधर जयसिंह से भी औरंगजेब ने इसी प्रकार का वर्ताव किया। शिवाजी के आगरा जाने पर जयसिंह ने बीजापुर

शिवाजी और औरंग-  
जेब की संधि

का घेरा डाला था, परन्तु वह इस काम में सफल न हुआ। तब वह औरंगाबाद को वापस चला आया। इस समय शिवाजी दक्षिण में पहुँच चुका था। इसलिए औरंगजेब को यह डर पैदा हुआ कि कहीं ये दोनों हिन्दू-मिल न जायँ। इस विचार से औरंगजेब ने जयसिंह को वापस बुला लिया, दिलेरखाँ को मालवा में भेज दिया, और दक्षिण की सूबेदारी में अपने लड़के मुअज़्ज़म और जोधपुर के राणा जसवन्तसिंह को भेजा। आगरे में इन दोनों का स्वभाव शिवाजी जान चुका था। उसने जसवन्तसिंह को धन देकर और मुअज़्ज़म से मीठी-मीठी बातें करके यह लिख

चाया कि शिवाजी और मुगलों के बीच जो संधि हुई थी, वह अगम्य की जाय। बादशाह ऐसा करने को राजी हुआ, परन्तु वह इतना ही करके न रुका। उसने शिवाजी की राजा की पदवी मान्य की। कोंढाणा और पुरन्दर के किले छोड़कर पूना-सूपा की जागीर वापस देदी और साथ ही बरार का हिस्सा जागीर में दे दिया। इस बरार की जागीर के बन्दोबस्त के लिए तथा पुरन्दर की संधि में बादशाह से सम्भाजी को मिले हुए पाँच हजार की मनसब चलाने के लिए, प्रतापराव गूजर को पाँच हजार फौज देकर औरंगाबाद की मुगल छावनी में रख दिया। इस संधि के अनुसार शिवाजी को बीजापुर के राज्य में चौथ और सरदेश-मुखी वसूल करने का हक मिला था। इससे बीजापुर वाले पदरा गये। उन्होंने तीन लाख रुपये वार्षिक कर इस शर्त पर देना स्वीकार किया कि हमारे राज्य को कष्ट न पहुँचे। इसी प्रकार गोलकुण्डा के सुलतान ने भी पाँच लाख वार्षिक कर देना स्वीकार किया। इन संधियों के होने पर शिवाजी को दो वर्ष तक किर्नी से भलाहा न करना पड़ा। यह समय उसने अपने राज्य की व्यवस्था करने में लगाया।



जी पंत, काशी पंत और विशाजी पंत नामक तीन भाई थे। उनका और नीराजी का परिचय था। उन्होंने सम्भाजी को अपने पास रख लेना स्वीकार किया। फिर वैरागी का वेप धारणकर शिवाजी प्रयाग, काशी, गया, जगन्नाथ आदि होते हुए गोंडवन के रास्ते कुतुबशाही और आदिलशाही की हद्द में आकर रायगढ़ पहुँचा। इस प्रकार दक्षिण छोड़ने के दस महीने बाद शिवाजी अपने स्थान को वापस आया। वहाँ उसने देखा कि राज्य की जो व्यवस्था मैंने कर दी थी वह ज्यों-की-त्यों चली जा रही है। इसपर उसे बड़ा आनन्द हुआ। थोड़े ही दिनों के बाद कृष्णाजी वगैरा पेशवा के साले सम्भाजी को लेकर दक्षिण में पहुँचे।

औरंगजेब को शंका हुई कि शिवाजी के भागने में रामसिंह की मदद थी, इसलिए उसने उसे दरवार में आने से मना कर

शिवाजी और औरंग-  
जेब की संधि

दिया। इधर जयसिंह से भी औरंगजेब ने इसी प्रकार का वर्ताव किया। शिवाजी के आगरा जाने पर जयसिंह ने बीजापुर

का घेरा डाला था, परन्तु वह इस काम में सफल न हुआ। तब वह औरंगाबाद को वापस चला आया। इस समय शिवाजी दक्षिण में पहुँच चुका था। इसलिए औरंगजेब को यह डर पैदा हुआ कि कहीं ये दोनों हिन्दू-मिल न जायँ। इस विचार से औरंगजेब ने जयसिंह को वापस बुला लिया, दिलेरखाँ को मालवा में भेज दिया, और दक्षिण की सूवेदारी में अपने लड़के मुअज्जम और जोधपुर के राणा जसवन्तसिंह को भेजा। आगरा में इन दोनों का स्वभाव शिवाजी जान चुका था। उसने जसवन्तसिंह को घन देकर और मुअज्जम से मीठी-मीठी बातें करके यह लिख

चाया कि शिवाजी और मुगलों के बीच जो संधि हुई थी, वह कायम की जाय। बादशाह ऐसा करने को राजी हुआ, परन्तु वह इतना ही करके न रुका। उसने शिवाजी की राजा की पदवी मान्य की। कोंडाणा और पुरन्दर के किले छोड़कर पूना-सूपा की जागीर वापस देदी और साथ ही वरार का हिस्सा जागीर में दे दिया। इस वरार की जागीर के बन्दोबस्त के लिए तथा पुरन्दर की संधि में बादशाह से सम्भाजी को मिले हुए पाँच हजार की मनसब चलाने के लिए, प्रतापराव गूजर को पाँच हजार फौज देकर औरंगाबाद की मुगल छावनी में रख दिया। इस संधि के अनुसार शिवाजी को बीजापुर के राज्य में चौथ और सरदेश-मुखी वसूल करने का हक मिला था। इससे बीजापुर वाले घबरा गये। उन्होंने तीन लाख रुपये वार्षिक कर इस शर्त पर देना स्वीकार किया कि हमारे राज्य को कष्ट न पहुँचे। इसी प्रकार गोलकुण्डा के सुलतान ने भी पाँच लाख वार्षिक कर देना स्वीकार किया। इन संधियों के होने पर शिवाजी को दो वर्ष तक किसी से भगाड़ा न करना पड़ा। यह समय उसने अपने राज्य की व्यवस्था करने में लगाया।

## औरंगजेव और आदिलशाह में युद्ध

औरंगजेव ने अपने लड़के मुअज्जम की मार्फत शिवाजी से सुलह की और शिवाजी ने अपनी मराठा-सेना प्रतापराव गूजर के अधीन औरंगाबाद की मुगलों की छावनी में रख दी। परन्तु यह सुलह बहुत दिन तक न रही। उधर शिवाजी मुगल-साम्राज्य में लूट-मार कर ही रहा था, और उधर औरंगजेव भी अपने छल-कपट के दांव-पेंच खेल रहा था। औरंगजेव ने चाहा कि किसी युक्ति से मैं शिवाजी को फिर से पकड़ लूँ। उसने मुअज्जम को सिखाया कि तुम यह दिखलाओ कि बादशाह से मेरी खटपट हो गई है; फिर तुम शिवाजी से मिल जाओ और इस प्रकार उसे अपनी पकड़ में लाओ। प्रारम्भ में मुअज्जम ने औरंगजेव के कहे अनुसार थोड़ा-बहुत आचरण किया; परन्तु जब औरंगजेव को उसे यह हुक्म मिला कि शिवाजी और प्रतापराव गूजर को कैद कर लो, तब उसने चुपचाप प्रतापराव गूजर को वहाँ से खान कर दिया। वह शीघ्र ही रायगढ़ पहुँच गया। इन सारी बातों

को देख उसे मुग़लों से युद्ध करने का और उन्हें दिये हुए किले वापस लेने का निश्चय करना ही पड़ा ।

दिये हुए किलों में पुरन्दर और सिंहगढ़ नाम के किले महत्वपूर्ण थे । उन्हें खोने की बात शिवाजी और उसकी माता के हृदय में चुभी हुई थी । अतएव इन किलों के लेने से ही इस युद्ध का कार्य प्रारम्भ

सिंहगढ़-विजय

करने का शिवाजी ने विचार किया । सिंहगढ़ लेने का काम अपने वालमित्र तानाजी मालसुरे को दिया । वह अपने भाई सूर्याजी तथा एक हजार चुने हुए मावले लेकर एक रात्रि के अन्धेरे में सिंहगढ़ के नीचे पहुँच गया । किले का बन्दोबस्त मुग़लों ने बहुत अच्छी तरह से किया था । मुसलमान बना हुआ उदयभानु नाम का शूर राठौड़ सरदार वहाँ का किलेदार था । सुव्यवस्थित दुर्जेय किले को लेना बड़े साहस का काम था, परन्तु तानाजी ने उसे पूर्ण करने का निश्चय कर लिया । उसने अपने एक हजार लोगों के दो दल बनाये । एक दल अपने साथ लिया और दूसरा अपने भाई सूर्याजी के अधीन पीछे रख दिया; फिर वह एक विकट रास्ते से किले की दीवार के एक अपरिचित भाग के पास पहुँचा । घोरपड़ (कमान) के जरिये एक मावला दीवाल पर चढ़ गया । फिर रस्सी के जरिये ३०० मनुष्य ऊपर चढ़े । इतने में राजपूतों को इनके आने का पता लग गया । वे लोग युद्ध की तैयारी कर दौड़ आये । दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ और उसमें ५० मावले तथा ५०० राजपूत मारे गये । इसी समय तानाजी और उदयभानु का प्रत्यक्ष सामना हुआ और वे भी इस लड़ाई में काम आये । तानाजी के मरने पर मराठे

भागने लगे थे, परन्तु इतने में सूर्याजी अपना दल लेकर किले में आ पहुँचा। उसने मावलों में वीरश्री जागृत की और राजपूतों पर हमला किया। इनमें से बहुतेरे मारे गये या किले की दीवार से कूदकर भागने के प्रयत्न में मर गये। इस प्रकार सन् १६७० के फरवरी महीने में सिंहगढ़ का किला शिवाजी के हाथ लगा।

सिंहगढ़ लेने पर एक महीने के भीतर ही सूर्याजी ने पुरन्दर का किला भी ले लिया। उत्तर की ओर मोरोपंत पिंगले और

चान्दवड़ की लड़ाई आवाजी सोनदेव माहुली का किला और कल्याण का भाग लेने के लिए गये।

इसी साल यानी सन् १६७० में शिवाजी ने दूसरी बार सूरत पर चढ़ाई की और तीन दिन तक शहर को लूटा। तीसरे दिन उसे पता लगा कि मुगल फौज उससे लड़ने आ रही है। इसलिए वह सूरत वालों से १२ लाख वार्षिक कर पाने का करार करके रायगढ़ की ओर चला गया। शिवाजी का विचार था कि सालेर-मुलेर के पास से चाँदवड़ होते हुए कञ्चमघाट से कोंकण जावें। परन्तु चाँदवड़ के पास ही उसे मुगल फौज का मुकाबला करना पड़ा। उसने अपनी फौज के चार दल किये। सूरत की लूट का माल ले जाने वाला दल इनके अलावा अलग ही था। उसने निश्चय किया कि सब दल शत्रु की चाल को देख-भालकर लूट वाले दल के कहे अनुसार चलें। फिर उसने यह गप उड़ा दी कि मैं औरंगाबाद लेने जा रहा हूँ। उसके दो दल मुगल फौज के दोनों ओर रह कर उसे कष्ट देने लगे। मुगल फौज का अधिपति असिद्ध दाऊदखॉ पन्नी था और इकलाजखॉ और वाँकेखॉ उसके मददगार थे। वाँकेखॉ चाँदवड़ के पास सामने आया, परन्तु

शिवाजी से हारकर वह चांदोड़ के किले में जा छिपा। शिवाजी धीरे-धीरे आगे बढ़ा। दूसरे दिन दाऊदख़ाँ की फ़ौज आ पहुँची। उसमें इकलाजख़ाँ सामने था। मराठों ने एकदम उसपर जोरों का हमला कर दिया और इकलाजख़ाँ को ज़ख्मी कर डाला। इतने में दाऊदख़ाँ स्वयं आगे बढ़ा। इस समय शिवाजी और दाऊदख़ाँ के बीच बहुत जोरों का युद्ध हुआ। तीन हजार मुग़ल और कुछ मराठे मारे गये और दाऊदख़ाँ रण छोड़कर भाग गया। मुग़लों के चार हजार घोड़े और कुछ सरदार शिवाजी के क़ब्ज़े में आये, परन्तु शिवाजी ने इन लोगों को तुरन्त छोड़ दिया। रास्ते में रायवागिन नाम की स्त्री ने उसका रास्ता रोकने का प्रयत्न किया, परन्तु उसे भी शिवाजी ने हरा दिया। इस प्रकार वह सूरत की लूट लेकर सुरक्षित रायगढ़ पहुँचा।

सूरत से आने पर मोरोपंत को उसने माहुली का क़िला लेने को भेजा। पहले-पहल तो मोरोपंत उस क़िले को न ले सका, परन्तु क़िलेदार के बदलने पर शीघ्र ही उसने उसे ले लिया। इसके बाद शीघ्र ही कर्नाला और लोहगढ़ के क़िले भी लिये। इस प्रकार थोड़े ही समय में कल्याण-भाग पर शिवाजी का क़ब्ज़ा जम गया।

अब शिवाजी ने प्रतापराव गूजर और मोरोपन्त पिंगले को मुग़लों के भाग में लूट-मार करने के लिए भेजा। इन दोनों ने बहुत-सी चौथ और सरदेशमुखी वसूल की। ये सब बातें जब औरंगज़ेब ने सुनीं, तो उसे अत्यन्त क्रोध आया। उसे शक हुआ कि मुअज़्ज़म और जसवन्तसिंह शायद शिवाजी से मिले हुए हैं। अतएव उसने

भागने लगे थे, परन्तु इतने में सूर्याजी अपना दल लेकर किले में आ पहुँचा। उसने मावलों में वीरश्री जागृत की और राजपूतों पर हमला किया। इनमें से बहुतेरे मारे गये या किले की दीवार से कूदकर भागने के प्रयत्न में मर गये। इस प्रकार सन् १६७० के फरवरी महीने में सिंहगढ़ का किला शिवाजी के हाथ लगा।

सिंहगढ़ लेने पर एक महीने के भीतर ही सूर्याजी ने पुरन्दर का किला भी ले लिया। उत्तर की ओर मोरोपंत पिंगले और आवाजी सोनदेव माहुली का किला चान्दवड़ की लड़ाई और कल्याण का भाग लेने के लिए गये।

इसी साल यानी सन् १६७० में शिवाजी ने दूसरी बार सूरत पर चढ़ाई की और तीन दिन तक शहर को लूटा। तीसरे दिन उसे पता लगा कि मुगल फौज उससे लड़ने आ रही है। इसलिए वह सूरत वालों से १२ लाख वार्षिक कर पाने का करार करके रायगढ़ की ओर चला गया। शिवाजी का विचार था कि सालेर-मुलेर के पास से चाँदवड़ होते हुए कश्मघाट से कोंकण जावें। परन्तु चाँदवड़ के पास ही उसे मुगल फौज का मुकाबला करना पड़ा। उसने अपनी फौज के चार दल किये। सूरत की लूट का माल ले जाने वाला दल इनके अलावा अलग ही था। उसने निश्चय किया कि सब दल शत्रु की चाल को देख-भालकर लूट वाले दल के कहे अनुसार चलें। फिर उसने यह गप उड़ा दी कि मैं औरंगाबाद लेने जा रहा हूँ। उसके दो दल मुगल फौज के दोनों ओर रह कर उसे कष्ट देने लगे। मुगल फौज का अधिपति प्रसिद्ध दाऊदख़ाँ पन्नी था और इकलाजख़ाँ और वाँकेख़ाँ उसके मददगार थे। वाँकेख़ाँ चाँदवड़ के पास सामने आया, परन्तु

शिवाजी से हारकर वह चांदोड़ के किले में जा छिपा। शिवाजी धीरे-धीरे आगे बढ़ा। दूसरे दिन दाऊदख़ाँ की फ़ौज आ पहुँची। उसमें इकलाजख़ाँ सामने था। मराठों ने एकदम उसपर जोरों का हमला कर दिया और इकलाजख़ाँ को ज़ख्मी कर डाला। इतने में दाऊदख़ाँ स्वयं आगे बढ़ा। इस समय शिवाजी और दाऊदख़ाँ के बीच बहुत जोरों का युद्ध हुआ। तीन हजार मुग़ल और कुछ मराठे मारे गये और दाऊदख़ाँ रण छोड़कर भाग गया। मुग़लों के चार हजार घोड़े और कुछ सरदार शिवाजी के कब्ज़े में आये, परन्तु शिवाजी ने इन लोगों को तुरन्त छोड़ दिया। रास्ते में रायवागिन नाम की स्त्री ने उसका रास्ता रोकने का प्रयत्न किया, परन्तु उसे भी शिवाजी ने हरा दिया। इस प्रकार वह सूरत की लूट लेकर सुरक्षित रायगढ़ पहुँचा।

सूरत से आने पर मोरोपंत को उसने माहुली का किला लेने को भेजा। पहले-पहल तो मोरोपंत उस किले को न ले सका, परन्तु किलेदार के बदलने पर शीघ्र ही उसने उसे ले लिया। इसके बाद शीघ्र ही कर्नाला और लोहगढ़ के किले भी लिये। इस प्रकार थोड़े ही समय में कल्याण-भाग पर शिवाजी का कब्ज़ा जम गया।

अब शिवाजी ने प्रतापराव गूजर और मोरोपन्त पिंगले को मुग़लों के भाग में लूट-मार करने के लिए भेजा। इन दोनों ने बहुत-सी चौथ और सरदेशमुखी वसूल की। ये सब बातें जब औरंगज़ेब ने सुनीं, तो उसे अत्यन्त क्रोध आया। उसे शक हुआ कि मुअज़्ज़म और जसवन्तसिंह शायद शिवाजी से मिले हुए हैं। अतएव उसने



जसवन्तसिंह को वापस बुलाकर महावतखाँ को भेजा और सारी फौज उसके सुपुर्दे कर दी। शाहजादे के पास केवल एक हजार लोग औरंगाबाद में रहे। महावतखाँ का सहायक दिलेरखाँ नियत हुआ। महावतखाँ ने शीघ्र ही आँटा और पट्टा नाम के किले ले लिये। दिलेरखाँ ने अपनी फौज के दो दल किये और चाकण तथा सालेर के किलों को घेर लिया। मोरोपन्त और प्रतापराव सालेर की मदद को पहुँचे। इस मराठा फौज को रोकने के लिए महावतखाँ ने इकलाजखाँ को भेजा। पहले-पहल प्रतापराव ने डर जाने का भाव दिखलाकर भागना शुरू किया। इसलिए मुगल फौज उसका पीछा करने के लिए अव्यवस्थित रूप से दौड़ने लगी। अब प्रतापराव लौट पड़ा। इस समय दोनों पक्षों में घनघोर युद्ध हुआ। इसे सालेर की लड़ाई कहते हैं, जो सन् १६७२ में हुई थी। इसमें मुगलों का पूर्ण पराजय हुआ। उनके २२ बड़े-बड़े सरदार और दस हजार दूसरे लोग मारे गये। इकलाजखाँ मराठों के हाथ पड़ा और दिलेरखाँ भाग गया। शत्रु का बहुत-सा सामान मराठों के हाथ लगा। इसके बाद मुगल सालेर का घेरा उठाकर औरंगाबाद चले गये। इन लड़ाई के बाद औरंगजेब ने महावतखाँ और शाहजादा मुअज्जिन को वापस बुला लिया और गुजरात के सूबेदार खाँ जहाँ को दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा। मराठों ने अब अहमदनगर और औरंगाबाद के आस-पास के भाग को लूटना शुरू किया। धरसात के दिनों में मोरोपन्त पिंगले बड़ी भारी फौज लेकर कोंकण पहुँचा और उसने वहाँ जौहार और रामनगर नाम के दो कोरी-राज्य जीत लिये। खाँ जहाँ को मराठों से लड़ने की

हिम्मत न होती थी, इसलिए उसने शिवाजी से युद्ध करना बन्द कर दिया; और भीमा नदी के किनारे पेड़गाँव में अपनी छावनी डालकर वह रहने लगा। यह स्थान मराठों के प्रदेश के पास था, इससे उनके प्रदेश पर यहाँ से सरलता-पूर्वक हमला हो सकता था और उनकी हलचल की देख-रेख भी रक्खी जा सकती थी। अतएव ख़ाँजहाँ ने यहाँ एक क़िला बनवाया और अपने पहले नाम पर बहादुरगढ़ ❀ उसका नाम रक्खा। यहाँ पर इसके बाद कई बरसों तक मुग़लों की छावनी बनी रही।

इस युद्ध से छुट्टी पाते ही शिवाजी को बीजापुर से लड़ना पड़ा। जब से शाहजी के कहे अनुसार उसने बीजापुर से सन्धि

बीजापुर से युद्ध की तैयारी

की थी तबसे उसने पिता के जीते जी इस राज्य से युद्ध न किया। परन्तु सन् १६६४ में शाहजी की मृत्यु हो गई, तब

शिवाजी पितृ-वचन से मुक्त होगया। सन् १६७२ में अली आदिलशाह के मरने पर बीजापुर के दरवार में गड़बड़ मच गई। नया आदिलशाह छोटा था। ख्वासख़ाँ वहाँ का वज़ीर था और अब्दुल-करीम बहलोलख़ाँ सेनापति था। वज़ीर तो शिवाजी से झगड़े करने के लिए तैयार न था, परन्तु सेनापति शिवाजी को साफ़ नष्ट करने का विचार कर रहा था। जिस समय ( सन् १६७०-७२ ) शिवाजी और मुग़लों के बीच युद्ध जारी था, उस समय बीजापुर-दरवार और मुग़लों के बीच शिवाजी के विरुद्ध कुछ बात-चीत हो रही थी। शिवाजी को यह सब मालूम था, और

❀ इसका वास्तविक नाम बहादुर ख़ाँ था और ख़ाँ जहाँ नाम का निताब मिला था।

मराठों का उत्थान और पतन

वह भी अपनी तैयारी में था। बीजापुर वाले चढ़ाई करना चाहते हैं, यह सुनकर उसने विशालगढ़ में बड़ी भारी सेना एकत्र की और उसके एक दल ने पन्हाला किला ले लिया।

अब बीजापुर की फौज उसपर चढ़ आई। उसे दूसरी ओर लगा रखने के विचार से अन्नाजी दत्तो ने हुवलीशहर पर हमला किया और उसे लूटा। यह शहर व्यापार

हुवली की लूट और चढ़ाई से तुंगभद्रा तक कब्जा

का स्थान था और धनाढ्य था। यहाँ पर अंग्रेज, फ्रेंच और डच लोगों के भी गोदाम

थे। शिवाजी के आदमियों ने उन सबसे कर वसूल किया। फिर चढ़ाई से लगाकर तुंगभद्रा तक के सब भाग में और पश्चिम किनारे पर बीजापुर के प्रदेश में मराठों ने अपना शासन स्थापित करना शुरू किया।

शिवाजी से लड़ने के लिए वहलोलखाँ लोधी बड़ी भारी फौज लेकर आया। शिवाजी ने उससे लड़ने को प्रतापराव गूजर को भेजा। प्रतापराव बीजापुर के प्रदेश

उम्बरांनी और जेसरी के युद्ध

में लूट-मार करते हुए खास बीजापुर तक आ पहुँचा। तब वहलोलखाँ पन्हाला

का घेरा छोड़कर बीजापुर की मदद को गया। प्रतापराव ने अब उसका रास्ता रोक लिया। इस कारण उम्बरांनी के पास वहलोलखाँ और प्रतापराव में घमासान युद्ध हुआ। वहलोलखाँ के लोगों को पानी भी न मिला, इसलिए उसने यह करार किया कि अब मैं मराठों से कभी छेड़छाड़ न करूँगा। प्रतापराव ने उदार मन से शरण आये शत्रु को जीवदान दिया, परन्तु वहलोलखाँ के अगले कार्यों से यह दीख पड़ा कि प्रतापराव ने यह उदारता दिखलाकर उचित काम नहीं किया। वहलोलखाँ शिवाजी से

व्यक्तिगत शत्रुता रखता था और उसीके कारण यह युद्ध उठ खड़ा हुआ था। शिवाजी ये बातें अच्छी तरह जानता था और इसलिए उसका विचार था कि वहलोलखाँ को पूर्णतया नष्ट किये वगैरे बीजापुर से मैं निर्भय न होऊँगा। प्रतापराव के उदार कार्य की खबर मिलने पर शिवाजी ने उसे संदेश भेजा कि बीजापुर वालों की हड्डी नरम किये बिना हमें चेहरा न दिखाओ। शिवाजी के कथन की सचाई शीघ्र ही दीख पड़ी। प्रतापराव को दूर गया देखकर वहलोलखाँ शिवाजी के प्रदेश में उपद्रव मचाने लगा। इसपर प्रतापराव ने गुस्से होकर उस पर फिर से हमला किया। परन्तु उसने अपनी फौज की व्यवस्था की ओर भरपूर ध्यान न दिया, इससे उसके कुछ चुनिन्दे लोग और वह स्वयं भी समर में मारे गये और शेष फौज को बीजापुर की फौज ने तितर-बितर कर दिया। परन्तु सुदैव से हंसाजी मोहते नामका एक मराठा सरदार उसी भाग में कुछ दूर पर था। प्रतापराव की मृत्यु की खबर पाते ही बड़े वेग से वह वहलोलखाँ से लड़ने के लिए दौड़ आया। इस कारण भागनेवाले मराठों को धैर्य मिला और सबने मिलकर ऐसे जोरों का हमला किया कि बीजापुर की फौज हारकर भाग गई। यह लड़ाई सन् १६७४ के फरवरी महीने में जेसरी नामक स्थान में हुई।

वहलोलखाँ के बीजापुर लौट जाने पर मराठों ने आदिलशाही में बहुत गड़बड़ मचा दी। इस समय बीजापुर के दरवार में फिर

बीजापुर-विजय

स्थगित

दुष्कृत्य का परिणाम

से भगड़े उठ खड़े हुए। वहलोलखाँ ने


खवासखाँ वज्जीर को मार डाला। इस

उसे शीघ्र ही भुगतना पड़ा। मराठों

मराठों का उत्थान और पतन

ने शीघ्रता से बीजापुर के प्रदेश को जीतना शुरू कर दिया। वहलोलखॉ और मुगल सरदार दिलेरखॉ में मित्रता थी और दोनों शिवाजी को नष्ट करना चाहते थे। उनको औरंगजेब का जोर भी था। परन्तु वहलोलखॉ का दरबार तथा लोगों में कुछ भी प्रभाव न था, इसलिए वह अपना मतलब पूरा न कर सका। इधर सन् १६७४-७५ में शिवाजी राज्याभिषेक तथा राज्य-व्यवस्था में लगा हुआ था। अतएव किलहाल उसे बीजापुर को जीतने का इरादा मुस्तवी कर देना पड़ा।

---



## राज्याभिषेक और अन्त

पहलेपहल कोंडाणा क़िला लेने के समय से अबतक २६-२७ वर्ष बीत चुके थे । शिवाजी ने इस समय तक बहुत-सा प्रदेश अपने क़ब्जे में कर लिया था । यह राज्याभिषेक की आवश्यकता पहले बतला ही चुके हैं कि इसकी स्थापना महाराष्ट्रियों की स्वराज्य-कल्पना के कारण हो सकी । तथापि अबतक उसपर यह छाप नहीं लगी थी कि जिस स्वराज्य-कल्पना की भावना लोगों के मन में बन रही थी उसीका यह मूर्तिमान-स्वरूप है । इस राज्य के विषय में लोगों की यह भावना होना आवश्यक था । इस कारण उसके सहकारियों को इस बात की आवश्यकता जान पड़ी कि जिस पुरुष ने इस राज्य की स्थापना की वह अपना राज्याभिषेक कराकर अपने को हिन्दू-धर्म का प्रतिपालक कहला ले । इस प्रकार यह राज्य हिन्दू-धर्म का संरक्षक समझा जावे और सब लोग इसके संरक्षण एवं वर्धन में सहायक

हों। राज्याभिषेक से एक और लाभ होने की सम्भावना थी। शिवाजी की पुराने प्रसिद्ध मराठे घराने के सरदारों ने मदद की थी, और इनमें से कई उसकी नौकरी में भी थे, परन्तु ये लोग अपने को भोंसलों की बराबरी के अथवा उनसे भी ऊँचा समझते थे और शिवाजी के साथ अपने वर्तमान में इस बात की ऐंट भी दिखलाते थे। यह कल्पना महाराष्ट्र के स्वतंत्र राज्य के लिए घातक थी। जिस समय लोकतंत्र की कल्पना देश में नहीं थी, उस समय यह आवश्यक था कि एकतंत्र के मूर्तिमान राजा की आज्ञायें सब कोई भक्ति-भाव से मानें। इस प्रकार की कल्पना हुए बिना शिवाजी का कार्य स्थायी न हो सकता था। राज्याभिषेक की तीसरी आवश्यकता यह थी कि शिवाजी लोकमान्य राजा दीख पड़े। उसने अवतक जितना राज्य जीता था, वह पहले या तो बीजापुर के राज्य में था या मुगल-साम्राज्य में था। ये दोनों राज्य शिवाजी को वागी, लुटेरा आदि कहा करते थे। जो उसे अपना सरदार समझते थे, वे भी उसे स्वतंत्र राजा तथा उसके राज्य को स्वतंत्र राज्य नहीं मानते थे। राज्याभिषेक से शिवाजी को यह दिखला देना था कि मैं अपने देश का स्वतंत्र राजा हूँ और मेरी प्रजा मुझे ऐसा ही मानती है। इस प्रकार की लोकमान्यता मिलने पर आदिलशाह तथा मुगल बादशाह के उसे लुटेरा, वागी आदि कहने में कोई जान नहीं रह सकती थी। उलटे वही यह कह सकता था कि तुम लोग यहाँ विदेशी हो और लोकमान्यता से नहीं किन्तु सेना के बल से इस देश पर राज्य कर रहे हो। उपर्युक्त बातों का विचार करके शिवाजी तथा उसके सहकारियों ने राज्याभिषेक का निश्चय किया।

इस कार्य में एक कठिनाई उपस्थित हुई। हिन्दू-शास्त्र के अनुसार केवल क्षत्रियों को राज्याभिषेक का अधिकार मिला है।

कठिनाई और उसका  
निवारण

शिवाजी के मूल पुरुष क्षत्रिय थे, परन्तु महाराष्ट्र में रहते-रहते पूरी तौर से मराठे बन चुके थे। इस कारण उसके घराने में क्षत्रियों की रीति-भाँति कुछ भी न रह गई थी और कदाचित् क्षत्रिय मूल की बात भी सामान्य स्मृति से दूर हो चुकी थी। इसलिए इस समय महाराष्ट्र के ब्राह्मण लोग शिवाजी का राज्याभिषेक करने को तैयार न थे। ये दोनों अड़चनें इस समय दूर की गईं। कहते हैं कि शिवाजी ने उदयपुर को अपने आदमी भेजकर उस घराने से अपने सम्बन्ध की मान्यता प्राप्त की, तथा काशी से वहाँ के प्रसिद्ध पंडित गागाभट्ट को इस कार्य के लिए बुलाया।

राज्याभिषेक का दिन सन् १६७४ के जून की छठी तारीख यानी शक संवत् १५९६ की ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी निश्चित हुई।

राज्याभिषेक शिवाजी का व्रतबन्ध अवतक न हुआ था,

ज्येष्ठ शुद्ध चतुर्थी को सम्पन्न हुआ; फिर त्रयोदशी तक भिन्न-भिन्न धार्मिक संस्कार होते रहे। त्रयोदशी के दिन राज्याभिषेक का कार्य प्राचीन शास्त्रों के अनुसार समाप्त हुआ। इस तिथि से शिवाजी ने राज्याभिषेक शक शुरू किया। रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 'क्षत्रिय-कुलावतंस श्री राजा शिव छत्रपति' नाम की उपाधि धारण की। गो-ब्राह्मण-प्रतिपालक, स्वधर्म-संरक्षक और स्वराष्ट्र-संवर्धक के कर्तव्य उसने अपने ऊपर जाहिरा तौर पर लिये। अपने मंत्रियों के



फारसी नाम बदलकर संस्कृत नाम रखे। राज-कारवार के उपयोग में आने वाले फारसी शब्दों के लिए संस्कृत शब्दों का 'राज-व्यवहार-कोष' रघुनाथ पंडित-द्वारा तैयार करवाया। अब तक उसके संत्रियों के काम पूर्णतया निश्चित नहीं हुए थे, इसलिए उसने अपने अष्ट-प्रधान-मण्डल के भिन्न-भिन्न कार्यों के वर्णन का आङ्ग-पत्र जारी किया। इस राज्याभिषेक के समय सर्व-साधारण ने जो हर्ष प्रकट किया, उसने यह सिद्ध कर दिया कि यह राज्य शिवाजी का नहीं किन्तु महाराष्ट्र का और हिन्दू-धर्म का राज्य है। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही शिवाजी की माता जीजाबाई की मृत्यु हुई।

इसके बाद, इसी वर्ष, उसने पोर्तुगीजों के वसई-भाग पर हमला किया। उसने मोरोपन्त के साथ दस हजार सेना कल्याण की ओर भेजी। पोर्तुगीजों ने इस समय कुछ हिन्दुओं को जबरदस्ती ईसाई बन डाला था। इसलिए मोरोपन्त ने चौथ की माँग की। पोर्तुगीजों ने मराठों

पोर्तुगीजों पर चढ़ाई  
तथा फलटण पर  
कब्जा

का चौथ का हक तो स्वीकार न किया, परन्तु कुछ धन किसी प्रकार यह संकट दूर किया। सन् १६७५ में धर्मपुर के कुछ लोगों ने कल्याण-भाग में हमला किया। यह शक था मुगलों ने कदाचित् उन्हें उबसाया था। इसलिए मोरोपन्त खानदेश के औंढा और पट्टा नामके दो किले वापस ले लिए फिर शिवाजी ने शिवनेरी लेने का फिर से प्रयत्न किया, इस कार्य में वह इसवार भी विफल हुआ। इसलिए यहाँ घेरा उठाकर वह फलटण के आस-पास के मार्ग में पहुँचा।

साल पहले अञ्जुलकरोम बहलोलख़ाँ ने इसे ले लिया था। फिर वह कोंकण में, कोंडा किले को लेने के लिए, पहुँचा; और घेरा डालकर सन् १६७६ में उसे ले लिया। फिर लूट-मार करते हुए वह रायगढ़ वापस आया। हम्बीरराव मोहिते ने मुगलों के प्रदेश में गुजरात तक चढ़ाई की और लूट का बहुत-सा माल रायगढ़ ले आया। इसके बाद इस वर्ष का वर्षाकाल समाप्त होने पर फल-टण-भाग पर फिर चढ़ाई की और वहाँ के नाईक निम्वालकर को भगा कर तथा वहाँ अनेक किले बनाकर उसपर उसने अपना क़ब्ज़ा पक्का कर लिया। इसके बाद शिवाजी कुछ समय तक रायगढ़ में बीमार रहा। इसी बीमारी के समय उसने कर्नाटक-विजय की बात सोची।

यह पहले बतला ही चुके हैं कि शाहजी की कुछ जागीर कर्नाटक में भी थी। उसमें बंगलोर और तंजोर के भाग और अरणी तथा पोर्टोन्वो के किले शामिल थे। साथ ही पहले यह भी बतलाया जा चुका है कि यह जागीर शाहजी ने अपने प्रथम

कर्नाटक-विजय का  
निश्चय

पुत्र सम्भाजी को देना चाहा था, परन्तु सम्भाजी की मृत्यु के बाद उसके सौतेले भाई व्यंकोजी ने उसपर अपना क़ब्ज़ा कर लिया था और वह तंजोर में रहता था। उसके पास रघुनाथ नारायण हनुमंते नाम का चतुर कारवारो था। परन्तु व्यंकोजी डरपोक और आलसी पुरुष था, इस कारण इन दोनों में न पटी और रघुनाथ पंत शिवाजी के पास चला आया। शिवाजी कर्नाटक-विजय की बात सोच ही रहा था। इसी बीच रघुनाथ पन्त भी उसके पास आ पहुँचा।

कर्नाटक-विजय का एक कारण और उपस्थित हुआ। इस समय गोलकुण्डा की स्थिति दुरी थी। औरंगजेब गोलकुण्डा लेने के ताक में ही बैठे था, इसलिए रघुनाथ पन्त ने सोचा कि यदि कुतुबशाह और शिवाजी की मैत्री हो जाय तो गोलकुण्डा नष्ट होने से बच जायगा और शिवाजी को उसकी मदद मिल सकेगी। गोलकुण्डा के शासन-सूत्र इस समय मादन्ना और आकन्ना नाम के दो भाइयों के हाथ में थे। इसलिए रघुनाथ पन्त ने सोचा कि कुतुबशाही और शिवाजी के बीच मैत्री होने में कठिनाई न होगी। अतएव रघुनाथ पन्त शिवाजी के पास जाने के पहले गोलकुण्डा में गया। इस समय मुगलों से बीजापुर वालों का मेल था और वे दक्षिणी भाग को जीतकर मुगलों के कब्जे में देने की बात सोच रहे थे। उनका यह विचार कुतुबशाही के लिए नाशक था, इसलिए रघुनाथ पन्त ने सोचा कि शिवाजी और कुतुबशाह के बीच मैत्री होना सम्भव है और दोनों मिलकर दक्षिण भाग को मुगलों के हाथ में जाने देने से अवश्य रोकेंगे।

ऐसा विचारकर रघुनाथ पन्त पहले गोलकुण्डा गया और वहाँ के कारवारी मादन्ना और आकन्ना से मिला। उन्हें इस बात के लिए राजी किया कि कुतुबशाह और शिवाजी के बीच मैत्री हो और दोनों मिलकर उस भाग को पहले ही जीत लें कि जिसे मुगल और बीजापुर ले लेना चाहते हैं। यहाँ से वह फिर शिवाजी की भेंट को गया और अपने मन की सब बातें उसे बताई। शिवाजी ने अपने कारवारियों की सलाह ली और कर्नाटक की चढ़ाई का निश्चय कर लिया।

शिवाजी ने अपने साथ बड़ी भारी फौज और बहुत-सा सामान

लिया और पहले वह गोलकुण्डा को गया। वहाँ उसने कुतुबशाह से मित्रता की सन्धि की और कर्नाटक-गोलकुण्डा से भेल विजय के कार्य में उसे भी शामिल कर लिया। दोनों में यह निश्चय हुआ कि जो कुछ प्रदेश जीता जाय वह दोनों में आधा-आधा बाँट लिया जाय। शिवाजी यहाँ करीब एक महीने बना रहा। इसके बाद उसने दक्षिण की ओर कूच किया।

तुंगभद्रा के किनारे प्रेमल में उसने पड़ाव किया। यहाँ से वह श्री शैल-मल्लिकार्जुन और निवृत्ति-संगम नामक तीर्थ-क्षेत्रों के दर्शनों को गया। वहाँ घाट, मठ, धर्मशाला आदि बनवा कर और बहुत-सा दान-धर्म करके वह जिञ्जी की ओर बढ़ा। रास्ते में वेलोर लेने के लिए उसने जो फौज भेजी थी उसने वेलोर ले लिया। जिञ्जी के समीप पहुँचने पर वहाँ के किलेदार ने क़िला खाली कर दिया। शिवाजी ने वहाँ लगान आदि का बन्दोबस्त महाराष्ट्र के समान ही शुरू किया, और इसके बाद कावेरी के किनारे त्रिनमल्ली उर्फ त्रिवादी में पड़ाव किया।

त्रिनमल्ली से उसने अपने भाई व्यंकोजी को लिखा कि पुरखों की जायदाद का आधा हिस्सा हमें भी दो। दोनों पक्ष के लोगों की बात-चीत शुरू हुई, फिर व्यंकोजी शिवाजी की भेंट को आया। शिवाजी ने उसे अनेक प्रकार से समझाया और उससे अपना हिस्सा माँगा। व्यंकोजी शिवाजी के पास करीब दो-ढाई महीने रहा, परन्तु इस बात का उसने कोई फ़ैसला नहीं किया। सम्भवतः

शिवाजी और व्यंकोजी के बीच झगड़ा व समझौता

उसे यह आशा थी कि बीजापुर से मुझे मदद मिलेगी और वड़े भाई को आधा हिस्सा देने से मैं बच जाऊँगा। अन्त में जब शिवाजी ने यह देखा कि व्यंकोजी किसी प्रकार का जवाब नहीं देता, तो उसने उसे अपने स्थान को वापस जाने की हुट्टी दे दी। पर बीजापुर से व्यंकोजी को जो पत्र आया, उससे वहाँ से मदद मिलने की आशा नष्ट हो गई। इतने पर भी कुछ मुसलमानों ने उसे शिवाजी से लड़ने के लिए उकसाया। शिवाजी चाहता था कि दोनों पक्षों में लड़ाई का मौका न आवे; परन्तु व्यंकोजी ने जब उसकी फौज पर हमला कर ही दिया, तो दोनों पक्षों में बालकुरण्डपुर के पास लड़ाई हुई। इस लड़ाई में व्यंकोजी हार गया और उसके कई आदमी मारे गये। लड़ाई का हाल शिवाजी को मालूम होते ही उसने अपने भाई को पत्र-द्वारा फिर भी समझाने का प्रयत्न किया। अन्त में दोनों में मेल हो गया। इस संधि की एक शर्त यह भी थी कि बीजापुरवाले यदि वरावरी के नाते हमसे मदद माँगे तो वह हम दें, परन्तु यह मदद नौकरी के रूप में न होगी। यह शर्त बहुत महत्व की है और शिवाजी के वास्तविक हृदय की द्योतक है। वह यह न चाहता था कि हिन्दू लोग मुसलमानों के गुलाम बने रहें। यही बात उसने व्यंकोजी को भी एक पत्र में दर्साई है। कदाचित् इसी कारण उसने कर्नाटक पर चढ़ाई की। पुश्तैनी जायदाद के आधे हिस्से की माँग बीजापुर और मुगलों को दिखलाने के लिए बहाना था। कर्नाटक की चढ़ाई में उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि उस भाग में मुसलमानों के बजाय हिन्दुओं का शासन रहे, ताकि उसके स्वतंत्र हिन्दू राज्य को किसी प्रकार का डर न

पैदा हो; और इसलिए व्यंकोजी उसके कहे अनुसार चले। यदि व्यंकोजी ने उसका कहना मान लिया होता, तो कदाचित् दोनों भाइयों के बीच कतई झगड़ा पैदा न हुआ होता।

इस चढ़ाई से कर्नाटक में उसका दबदबा जम गया। बंगलोर, कोलार आदि किले और गदग, मुलगुंद, लक्ष्मीश्वर, बेल-

वाड़ी आदि स्थान उसके कब्जे में आये।

कर्नाटककी चढ़ाई का परिणाम

इसमें से कुछ उसने व्यंकोजी तथा उसकी स्त्री को दे दिये। रघुनाथ पंत को उसने

अपने प्रदेश के इधर का कारवारी बनाया और मुगलों की चढ़ाई का हाल सुनकर वह शीघ्र ही रायगढ़ को लौट गया। साथ में वह कर्नाटक से बहुत-सा द्रव्य भी ले गया।

वापस आते समय शिवाजी ने तुंगभद्रा के उत्तर में कुछ फौज रख दी थी। तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच का दोआब बीजापुर

के अधिकार में था। दक्षिण के जीते

सावनूर की लड़ाई और तुंगभद्रा-कृष्णा के दोआब पर कब्जा

हुए प्रदेश से आवागमन की सरलता के लिए इस भाग को जीतने की आवश्यक-

कता मराठों को जान पड़ी। इसलिए

मोरोपंत पिंगले ने कोपल नाम का स्थान अपने कब्जे में कर लिया। कर्नाटक में सेनापति हम्बीरराव मोहिते के अधीन शिवाजी

ने कुछ सेना रख दी थी, उसे अब उसने वापस बुलाया। मार्ग में हम्बीरराव मोहिते कुछ समय दोआब की मराठी छावनी में

रहा। यहाँ पर बीजापुर की फौज ने सावनूर के पास उसपर हमला कर दिया। हम्बीरराव ने बीजापुर की फौज को पूर्णतया

हरा दिया और उसके अधिकारी इसेनखॉं बायना को कैद कर

लिया। इसपर बीजापुर ने एक बड़ी भारी फौज भेजी। हम्मीर-राव रावधान ही था और धनार्जी जाधव उसकी मदद को आ-पहुँचा था। दोनों ने बीजापुर की फौज को बीजापुर तक खदेड़ दिया। इस लड़ाई से तुंगभद्रा और कृष्णा का दोआब मराठों के कब्जे में आया। शिवाजी ने खुनाथ पंत के भाई जनार्दन नारायण हनुमंते को इस भाग का अधिकारी नियत किया।

कर्नाटक जाते समय शिवाजी ने गोलकुंडा से जो मेल किया था, वह बीजापुर के कारवारी बहलोलखाँ को अच्छा न लगा।

बीजापुर की मुगलों  
से रक्षा करने  
का प्रयत्न

वह गोलकुंडावालों पर बहुत नाराज हुआ। इन्होंने का मुगल सूवेदार दिले-रखाँ कुतुबशाह और आदिलशाह को नष्ट करने के लिए तैयार बैठा था। उसने

पहले बीजापुर से मेलकर के गोलकुंडा पर चढ़ाई की। परन्तु मादन्न ने बहुत मेहनत करके फौज जमा की और बीजापुर वालों को तथा मुगलों को हरा दिया। इसके बाद शीघ्र ही बहलोलखाँ मर गया। मसाऊदखाँ सिद्दी उत्तकी जगह कारवारी हुआ। दिलेरखाँ की गोलकुण्डा की चढ़ाई का हाल औरंगजेब को अच्छा न लगा। उसने उसे तुरन्त बीजापुर पर चढ़ाई करने का हुक्म भेजा। इस हुक्म के अनुसार दिलेरखाँ ने बीजापुर पर चढ़ाई की और उसे घेर लिया। यह देख मसाऊदखाँ को कुछ न सूझ पड़ा कि किस प्रकार बीजापुर की रक्षा की जाय। अन्त में उसे यह विचार आया कि शिवाजी से सहायता माँगूँ। उसने शिवाजी को बहुत नम्रता के साथ पत्र लिखा। शिवाजी ने मसाऊदखाँ की प्रार्थना स्वीकार करली और बीजापुर के घेरे को उठवा देने की

युक्ति सोची। वह गोदावरी नदी पार कर जालना शहर को पहुँचा और वहाँ उसने बहुत-सा कर वसूल किया। पास ही औरंगाबाद में सुलतान मुअज़्ज़म था, परन्तु शिवाजी ने उसकी कोई पर्वाह न की और मुगलों के प्रदेश में खूब गड़बड़ मचा दी। परन्तु दिलेरखाँ बीजापुर का घेरा छोड़ता ही न था। उसने बीजापुर को लेने का पूर्ण निश्चय कर लिया था। मुअज़्ज़म ने रणमस्तखाँ को दस हजार फौज देकर शिवाजी पर चढ़ाई करने को भेजा, वह उसका पीछा करता हुआ आया। दोनों की जालना के पास मुठभेड़ हुई और बड़ी भयंकर लड़ाई हुई। पहले तो ऐसा जान पड़ा कि मराठे हार जावेंगे। उनका सिधोजी निम्बालकर नामका सरदार मारा गया और संताजी घोरपड़े पीछे हटा। तब शिवाजी ने स्वयं सैन्य को उत्तेजना दी और शत्रु पर हमला कर मुगल सेना को मार भगाया। फिर किशनसिंह के अधीन २० हजार मुगल फौज आ पहुँची। इसपर बहरजी नायक के दिखलाये हुए रास्ते से शिवाजी सब लूट समेत नासिक के पास पट्टा नामक किले में चला गया। तब मुगल सेना औरंगाबाद लौट गई। पट्टा में शिवाजी ने कुछ काल तक विश्राम किया। इसलिए उसने उसका नाम विश्रामगढ़ रख दिया। यहाँ से वह रायगढ़ को चला आया।

रायगढ़ पहुँचते ही उसे बीजापुर का सदेश मिला कि तुरन्त यहाँ आकर आदिलशाही को बचाओ। शिवाजी ने फिर से यह काम स्वीकार किया और बड़ी शीघ्रता से बीजापुर के लिए रवाना हो गया। परन्तु रास्ते में उसे मालूम हुआ कि

सम्भाजी का विद्रोह और  
उसकी शान्ति

१३ ग्रैण्ट डफ का मत है कि यह लड़ाई संगमनेर के पास हुई।



मराठों का उत्थान और पतन

सम्भाजी मुक्तसे बागी होकर दिलेरखाँ से जा मिला है। इसलिए पहले उसे इस आपत्ति को दूर करने में लगना पड़ा। सम्भाजी बालपन से ही कामी और मद्यपी था। शिवाजी ने उसे सुधारने का बहुत प्रयत्न किया, परन्तु सकलता न मिली। उसने उसे कुछ काल तक रामदास स्वामी की संगति में भी रक्खा था, परन्तु वहाँ भी वह न सुधरा। इसके बाद वह घर में भगाड़े-कसाद करके घर से निकल गया और दिलेरखाँ के पास पहुँचा। उसने इसे अपने पास रख लिया और औरंगजेब को इस बात की खबर दे दी। परन्तु उत्तर पहुँचने के पहले ही दिलेरखाँ ने कुछ फौज देकर सम्भाजी को भूपालगढ़ लेने के लिए भेजा। किले के मोर्चे लगाकर सम्भाजी किले के सामने खड़ा हो गया। किले का हवलदार फिरंगोजी नरसाला था। यह वही पुरुष था, जिसने सन् १६६२ में चाकण के किले पर शाइस्ताखाँ से टक्कर ली थी। सामने सम्भाजी को देखकर उसकी फौज पर गोले बरसाने की हिम्मत फिरंगोजी को न हुई। किला अधीन कर देने का सम्भाजी का सरल हुक्म पहुँचते ही किले के बहुतेरे लोग रातों-रात भाग गये। जो थोड़े-बहुत बच रहे, उनके साथ सम्भाजी ने किला हाथ में आने पर बड़ी क्रूरता का व्यवहार किया; परन्तु शीघ्र ही उसे अपने राज्य में वापस आना पड़ा, क्योंकि उसे आश्रय में रखने की दिलेरखाँ की सिफारिश औरंगजेब को पसन्द न हुई। वह शक्ती आदमी था; उसे शक हुआ कि शिवाजी ने ही उसे मुगलों का हाल जानने के लिए भेजा है। इसलिए उसने दिलेरखाँ को अधिकारच्युत किया, खाँजहाँ गहादुर को सूबेदार बनाकर भेजा और सम्भाजी को कैद कर दिल्ली

भेजने के लिए लिखा। इसी समय शिवाजी ने सम्भाजी को समझाने के लिए कुछ लोग भेजे थे। विश्वासघात करके सम्भाजी को कैद करने की हिम्मत दिलेरखाँ को न हुई। इसलिए उसने शिवाजी के पास से आये हुए लोगों से सम्भाजी की भेंट करा दी और उन्हें भाग जाने के लिए कहा, इस कारण सम्भाजी पिता के पास वापस चला आया। उसे अब पकड़ी ठोकर लग गई थी। उसे यह स्पष्ट जँच गया कि दिलेरखाँ की सज्जनता के कारण ही मैं बच सका। शिवाजी ने उसे कुछ उपदेश की बातें बतलाई और पन्हाला क़िले में अच्छी देख-रेख में रख दिया। पिता की मृत्यु होने तक वह वहीं रहा।

शिवाजी यद्यपि सम्भाजी को वापस लाने की खट-पट में लगा था, तथापि बीजापुर को सहायता देने का काम कर ही रहा था।


उसने हम्बीरराव को बीजापुर भेजा। इस शिवाजी ने बीजापुर को बचा लिया।  
सेनापति ने दिलेरखाँ की सेना को रसद न मिलने दी। फिर और भी मराठे बीजापुर

की मदद को पहुँचे। यह देख मसाऊदखाँ की हिम्मत बढ़ी। अन्त में दिलेरखाँ प्रस्त हो गया और बीजापुर को लेना उसे असम्भव जान पड़ा। इसी समय मोरोपन्त पिंगले ने औंढा और नहावागढ़ नामक सुगल क़िले लिये और खानदेश पर अपनी सेना फैला दी; इस कारण दिलेरखाँ घेरा उठाकर वापस चला गया। इस प्रकार शिवाजी ने बीजापुर को इस समय बचा दिया और आदिलशाही और कुछ वर्ष जीती रही। मसाऊदखाँ ने शिवाजी के उपकार माने, दोनों की बीजापुर के पास भेंट हुई। इस अवसर पर उसने कर्नाटक के शिवाजी के जीते हुए सब प्रदेश पर मराठों का अधिकार स्वी-

संराओं का उत्थान और पतन

कार किया और शाहजी की तमाम जागीर शिवाजी को दे दी ।

बीजापुर की रक्षा का काम शिवाजी के जीवन का अन्तिम काम था । इसके बाद वह थोड़े दिनों की बीमारी के बाद शीघ्र ही मर गया । शिवाजी ने अपना कार्य केवल १८ वर्ष की अवस्था में प्रारम्भ किया था । तबसे मृत्यु-पर्यन्त उसे कभी भी विश्रान्ति न मिली । वह सदैव लड़ाई-भगाड़ों में लगा रहा । इस कारण कोई आश्चर्य नहीं कि केवल ५० वर्ष की अवस्था में, केवल सात दिन के ज्वर के बाद, गुड़घी रोग से, उसका अन्त हो गया !



## मराठों का जंगी वेड़ा

शिवाजी को अधिकांश लड़ाइयाँ ज़मीन पर ही लड़नी पड़ीं; परन्तु कोंकण के समुद्री किनारे पर अधिकार जमाने के लिए वहाँ के मुसलमान, अंग्रेज़ तथा पोर्तूगीज़ लोगों जंगी जहाज़ी वेड़े की आवश्यकता से कुछ समुद्री युद्ध भी उसे करने पड़े।

इस किनारे पर तथा इधर के समुद्र में मिलनेवाली नदियों के मुख पर चौल, दाभोल आदि बन्दरगाह बहुत प्राचीनकाल से प्रसिद्ध थे। यहाँ अरब, ईरान आदि देशों के लोग व्यापार के लिए आया करते थे। इसलिए भड़ोंच से गोवा तक कोंकण के भाग को अपने कब्जे में रखने की आवश्यकता शिवाजी को आरम्भ से ही जँच गई थी। कोंकण को जीतने पर उसकी रक्षा के प्रबन्ध का काम भी करना पड़ा और इसके लिए उसने धीरे-धीरे जंगी वेड़े का बन्दोबस्त किया तथा किनारे पर कुछ मजबूत किले और बन्दरगाह बनवाये।

शिवाजी को समुद्र पर जो मगड़ा करना पड़ा, वह मुख्यतः

जंजीरा के सिद्दी सरदार से हुआ। वन्वर्ड के दक्षिण की ओर करीब ४५ मील पर राजापुर की खाड़ी काँकण के उत्तरी किनारे पर कब्जा तथा जंगी बड़े की व्यवस्था है। उसके उत्तरी किनारे पर दंडा और राजपुरी नाम के वन्दरगाह हैं। उनमें से राजपुरी विलकुल खाड़ी के मुँह के पास है और दंडा उसके आग्नेय की ओर करीब दो मील पर है। इन दोनों स्थानों का संयुक्त नाम दंडा-राजपुरी है। इस खाड़ी के पश्चिम की ओर एक पथरीला द्वीप है और उसपर मजबूत किला बना हुआ है। यही प्रसिद्ध जंजीरा है। ॐ यह स्थान सिद्दी लोगों के अधिकार में था और उसके सामने के काँकण भाग पर भी उनका ही शासन था। ये लोग ऐवीसीनिया (हवसाण) से आये हुए थे, इसलिए उन्हें हन्शी भी कहते थे। सय्यद शब्द का अपभ्रंश होकर वे सिद्दी कहलाने लगे। वे बड़े शूर और अच्छे दर्यावर्दी लोग थे। चौदहवीं सदी से उन्होंने हिन्दुस्थान के साथ व्यापार शुरू किया और हिन्दुस्थान के किनारे पर बसने लगे। दक्षिण में जब मुसलमानी राज्य स्थापित हुए तब इन लोगों ने अच्छा नाम कमाया और इनमें से कई लोग सरदार बन गये। प्रारम्भ में काँकण का भाग अहमदनगर की निजामशाही में था और इसलिए सिद्दी सरदार उसके मातहत थे। सन् १६३६ में निजामशाही के नष्ट होने पर काँकण का भाग बीजापुर के

---

ॐ जंजीरा शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो यह उस द्वीप का नाम है और दूसरे समुद्र के अथवा समुद्री किनारे के किसी भी किले को जंजीर कहते हैं।

आदिलशाही में चला गया, तब बीजापुर-दरवार ने जंजीरा के सिद्दी सरदार को वजीर का खिताब देकर कोंकण का सूबेदार नियत किया। दोनों में शर्त यह थी कि सिद्दी समुद्री व्यापार की रक्षा करे तथा मक्का को जानेवाले यात्रियों को किसी प्रकार का कष्ट न होने दे। इस समय से जंजीरा के सिद्दी सरदार का शासन नागोठना से वाणकोट तक के कोंकण-भाग में जारी हुआ। उत्तर की ओर नागोठना से कल्याण तक का कोंकण-भाग बीजापुर के अधिकार में था और उसके लिए अलग सूबेदार कल्याण में नियत हुआ था। शिवाजी ने सन् १६४८ में कोंकण में जाकर तलें, घोसाले आदि किले हस्तगत किये, तबसे सिद्दी लोगों का मराठों से वास्ता पड़ने लगा। सिद्दी लोग हिन्दू-धर्म के विरोधी थे और कोंकण के हिन्दुओं को कष्ट दिया करते थे। इसलिए शिवाजी ने जंजीरा के सिद्दी को कोंकण से मार भगाने का निश्चय किया। अनुकूल अवसर पाकर उसने नागोठना से वाणकोट तक सब किले जीत लिये और कोंकण के उस भाग पर अपना कब्जा जमाया। अन्त में केवल दंडा और राजपुरी सिद्दी के हाथ में रह गये, क्योंकि यहाँ पर उसने बहुत मजबूत किलेबन्दी की थी। इन्हें लेने का काम शिवाजी ने शामराव राम्केकर को सौंपा, परन्तु वह सन् १६५९ में विफल होकर वापस चला आया। दूसरे साल राघोवल्लभ अत्रे ने यह काम अपने ऊपर लिया और बहुत परिश्रम करके दोनों स्थानों पर कब्जा कर लिया। अब सिद्दी के हाथ में किनारे का कुछ भी भाग न रहा, केवल जंजीरा बच रहा। मराठों ने इसे भी लेने का निश्चय किया, परन्तु यह किला समुद्र में दूर होने के कारण किनारे से इसपर मार

न बैठती थी। समुद्र-तट मराठों के हाथ में होने के कारण खाने-पीने की चीजें तथा अन्य सामान सिद्दी को यहाँ से न मिलता था, मगर सिद्दी के पास जहाज़ होने से वह सब सामान दूसरे स्थानों से ले आता था। अतएव शिवाजी को जहाज़ों का जंगी वेड़ा तैयार करना पड़ा। उसने शीघ्र ही दक्षिण कोंकण जीतकर वाड़ी के सावन्त आदि हिन्दू रजवाड़ों को अपने मातहत कर लिया। सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग आदि समुद्री किले दुरुस्त किये और कई नये किले बनाये। इनमें मालवण का सिन्धुदुर्ग मुख्य है। इस किले के बनने का काम तीन वर्ष तक चलता रहा और सन् १६६४ में स्वयं शिवाजी के हाथों इस किले का प्रवेश-महोत्सव हुआ। सुवर्ण-दुर्ग, विजयदुर्ग, पद्मदुर्ग, अंजवबेल, रत्नागिरी आदि स्थानों में जहाज़ बनाने का काम चलता था। कोंकण के समुद्री किनारे पर कोली तथा भण्डारी जाति के लोग रहते थे। वे बड़े कट्टर तथा समुद्र-संचार करने में प्रवीण थे। उन्हींमें से शिवाजी ने अपने जंगी वेड़े के लिए लड़ाकू लोगों की भरती की। प्रारम्भ में शिवाजी के पास केवल तीन जहाज़ थे, परन्तु उसके अन्त समय तक उनकी संख्या साठ से भी अधिक हो गई थी। इस जंगी वेड़े में सब मिलाकर पाँच हजार लोग थे। दरिया सारंग और माय-नायक भण्डारी नामक दो पुरुष इनके मुख्य अधिकारी थे। सिधोजी गूजर और कान्होजी आँगरे नामक दो पुरुषों ने शिवाजी के इस वेड़े में नौकरी करके आगे अच्छा नाम कमाया। शिवाजी के समय में मालवण का सिन्धुदुर्ग ही उसके वेड़े का मुख्य स्थान था।

मराठों का जंगी वेड़ा तैयार हुआ तब गोवा के पोर्तुगीज़

शिवाजी से दवे और उन्होंने उससे सन्धि करली। उन्होंने समय-समय पर उसे गोला-बारूद और तोप दक्षिणी कोंकण पर कब्जा देना स्वीकार किया और हर साल वे शिवाजी को नजराना भी भेजने लगे। शीघ्र ही मराठों के इस वेड़े का संचार पूरे कोंकण किनारे पर होने लगा और इससे उसे खूब लाभ हुआ। समुद्री किनारे का व्यापार बढ़ा और मराठे जहाज़ ईरान और अरब के बन्दरों को भी जाने-आने लगे। कोंकण के किनारे पर डच, अंग्रेज़ आदि यूरोपीय लोगों के जो कारखाने थे, उनसे भी इन लोगों का व्यापार शुरू हुआ और उन्ह सब पर शिवाजी का दबदबा अच्छा जम गया। सन् १६६५ में ८५ छोटे जहाज़ और ३ बड़े जहाज़ लेकर ७ हजार लोगों के साथ शिवाजी मालवण से निकला और गोवा से दक्षिण की ओर १३० मील पर विदनूर राज्य के बन्दरगाह में अचानक उतरा। वहाँ उसने बहुत-सा कर वसूल किया, फिर वह वापस लौटा। रास्ते में गोकर्ण-क्षेत्र में उतरकर, महाशिवरात्रि के दिन उस क्षेत्र में स्नान करके, महाबलेश्वर के दर्शन को गया। फिर कारवार, अंकोला आदि बन्दरगाहों से कर वसूल करते हुए वह वापस आया। इस अवसर पर कारवार के अंग्रेज़ व्यापारियों ने भी कर दिया था। इसके बाद शिवाजी ने स्वयं फिर कभी समुद्री चढ़ाई न की। हाँ, इस घटना के दस वर्ष बाद यानी सन् १६७५ में शिवाजी ने गोवा के पास का फोण्डे नाम का मजबूत क़िला और कानडा का भाग बीजापुर वालों से जीत लिया। इस प्रकार कारवार, शिवेश्वर, अंकोला आदि उत्तर कानडा के स्थान मराठों के अधिकार में आये और कारवार के पास की गंगावती



## मराठों का उत्थान और पतन

नदी मराठा-राज्य की दक्षिण सीमा हुई। उस भाग के विदनूर और सांधे नामक राज्य मराठों के मातहत बने और हर साल कर देने लगे। मराठों का जहाजी बेड़ा मजबूत होने के कारण इस भाग को कब्जे में रखने का काम शिवाजी के समय में कठिन न था, परन्तु उसकी मृत्यु के बाद मराठों ने इस भाग की ओर विशेष ध्यान न दिया। तथापि अब भी वहाँ मराठो संसर्ग के संस्कार दीख पड़ते हैं।

यह बताही चुके हैं कि जंगी जहाजों का बेड़ा बनाने में शिवाजी का मुख्य उद्देश्य जंजीरा को कब्जे में करने का था,

जंजीरा को जीतने का प्रयत्न परन्तु इस काम में वह कभी सफल न हुआ। जहाजी बेड़ा तैयार होने पर शिवाजी ने जंजीरा को घेरकर जीतने की कईवार

कोशिश की। अन्त में सन् १६७० में उसने यह काम स्वयं अपने हाथ में लिया। उसने अपने बेड़े से जंजीरे को ऐसा घेर डाला कि वहाँ के लोग भूखों मरने लगे और विलकुल त्रस्त हो गये। वहाँ का मुख्य सरदार फतेखाँ क़िला छोड़ देने को तैयार हुआ परन्तु सिद्दी सम्बूल, सिद्दी कासिम और सिद्दी खैरियत नाम के तीन छोटे सरदारों को फतेखाँ का विचार ठीक न लगा। वे हिंदुओं के कट्टर द्वेषी थे। उन्होंने फतेखाँ को कैद किया और सूरत के मुगल सूबेदार से मदद माँगी। इस मदद के आ पर मराठों को अपना घेरा उठा लेना पड़ा। इस समय ने जंजीरे के सिद्दी मुगलों के मातहत हुए। सिद्दी सम्बूल को याक़ूबखाँ ब खिताब देकर औरंगजेब ने अपने जहाजी बेड़े का मुख अधिकारी बनाया। इसी साल होली के अवसर पर मराठों के

उसमें मशरूफ़ देख सिद्धियों ने जल और स्थल दोनों ओर से हमला करके दंडा-राजपुरी वापस लेली। इसके बाद मराठों ने जंजीरा को लेने का कई बार प्रयत्न किया, परन्तु सूरत के मुग़ल अधिकारी की सिद्धियों को मदद रहने के कारण वे अपने कार्य में कभी सफल न हुए।

मुग़ल बादशाह के जंगी बड़े के अधिकारी होने पर सिद्दी लोग अधिक साहस के काम करने लगे। बरसात में वे बम्बई के बन्दरगाह में अपना वेड़ा ठहराते, मराठों के बन्दरगाहों पर हमला करके लूट-मार करते, लोगों को पकड़ कर ले जाते और कभी-कभी उन्हें क़त्ल भी कर डालते थे। ऐसे कार्यों के कारण शिवाजी को सिद्दी पर बहुत गुस्सा आया। बम्बई का बन्दरगाह अंग्रेज़ों के क़ब्ज़े में था। इसलिए उचित तो यह था कि वे सिद्दी को अपने बन्दरगाह में न ठहरने दें; परन्तु सूरत में उनका गोदाम होने के कारण मुग़लों का विरोध करने की उनकी हिम्मत न होती थी, इसलिए वे दुरंगी चाल चला करते थे। अन्त में शिवाजी ने सिद्दी का जुल्म बन्द करने के लिए एक अच्छी युक्ति सोच निकाली। बम्बई-बन्दर के प्रवेश-मार्ग के पास खांदेरी और अन्धेरी नाम के दो द्वीप हैं। उस समय तक किसी ने उनकी ओर ध्यान न था। शिवाजी ने उन्हें अपने क़ब्ज़े में कर उनपर क़िलेबन्दी करने का विचार किया। सन् १६७८ मराठों ने खांदेरी अपने क़ब्ज़े में ले लिया और उस पर क़िलेबन्दी शुरू कर दी। यह बात अंग्रेज़ों के साथ-साथ सिद्दी को भी ख़तरनाक जान पड़ी, इसलिए उन्होंने मराठों का काम न

## मराठों का उत्थान और पतन

होने देने का निश्चय किया। इस कारण मराठों और अंग्रेजों के जंगी वेड़ों में दो-एक बार मत्गड़ा हुआ। इसपर शिवाजी ने कल्याण के पास अपनी फौज तैयार कर बम्बई पर हमला करने का विचार किया। यह देख अंग्रेजों ने शिवाजी से मेल कर लिया और खान्देरी की किलेबन्दी के विरोध का काम छोड़ दिया। सिद्दी ने पास ही के अन्धेरी-द्वीप पर तोपें खड़ी कीं। इसलिए मराठों के जंगी वेड़े के अधिकारी दौलतराँ ने उससे युद्ध किया। परन्तु वह उसमें जख्मी हो गया और मराठों के वेड़े का भी बहुत नुकसान हुआ। इस कारण अन्धेरी-द्वीप सिद्दी के कब्जे में बत रहा, परन्तु खान्देरी-द्वीप की किलेबन्दी इस समय तक पूरी हो चुकी थी और वह मराठों के ही कब्जे में रहा। तथापि अन्धेरी-द्वीप सिद्दी के कब्जे में रहने के कारण बम्बई के अंग्रेजों को दवाने का शिवाजी का हेतु भरपूर सफल न हुआ। इसी समय बम्बई के पास के प्रदेश की सिद्दी और पोर्तुगीजों से रक्षा करने के लिए, अलीबाग के पास नौघर में समुद्र के किनारे जो पथरीली जमीन थी उसपर शिवाजी ने सन् १६८० में एक किला बनवाया और उसका नाम जंजीरे कुलावा रक्खा। इसी समय से यह स्थान मराठों के जंगी वेड़े का केन्द्रस्थान हो गया।

इस प्रकार शिवाजी ने जंगी वेड़ा तैयार करने का तथा कोंकण का समुद्री तट सुरक्षित रखने का भरपूर प्रयत्न किया और

वेड़े की व्यवस्था पर  
कड़ी दृष्टि

उस किनारे के सब प्रतिस्पर्धियों पर दबदबा जमाया। शिवाजी इस बात की अत्यन्त सावधानी रखता था कि मेल

वेड़ा हमेशा अच्छी तरह तैयार रहे और उसे किसी चीज की कर्म

न हो। एक बार प्रभावलो के सूवेदार जिवाजी नायक ने नियमानुसार अन्न तथा अन्य सामग्री न पहुँचाई। जब शिवाजी को यह बात मालूम हुई, तब उसे बड़ा गुस्सा आया और उसने सूवेदार को एक बड़ी कड़ी चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी से स्पष्ट जान पड़ता है कि शिवाजी अपने वेड़े के सम्बन्ध में अत्यन्त दक्ष रहता था। उसमें उसने जिवाजी नायक को साफ लिख दिया कि यह न समझो कि ब्राह्मण होने के कारण मैं तुम्हारा मुलाहजा करूँगा। वेड़े को आवश्यक सामान पहुँचाते समय उसे इस बात का खयाल रहता था कि प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न हो। फल वाले अथवा छोटे-छोटे पौधे काटने से उसने अपने अधिकारियों को मना कर दिया था; और जो कुछ लकड़ी आवश्यक होती, उसे उसके मालिक को उचित दाम देकर लेने का हुक्म दिया था।

## शिवाजी की शासन-व्यवस्था

शिवाजी न केवल अच्छा योद्धा और कुशल सेनापति ही था बल्कि अच्छा व्यवस्थापक भी था। मृत्यु के समय उसके राज्य की सीमा उत्तर में रामनगर से दक्षिण में गंगादती नदी तक और पूर्व में वागलान से नासिक, पूना, सातारा आदि लेते हुए कोल्हापुर तक थी। यही उसका स्वराज्य था। इसमें उसने बहुत अच्छी शासन-व्यवस्था की थी। शिवाजी को शासन-व्यवस्था की कई बातें दादाजी कोण्डदेव की देख-रेख से मालूम हो गई थीं। फिर उसने अपनी बुद्धि से मुसलमानों के शासन-प्रबन्ध की कई अच्छी बातें ग्रहण कीं। महाभारत, रामायण आदि प्राचीन-ग्रन्थों से उसने जो कुछ पढ़ा-सुना था, उसका भी उसने अपनी कल्पना के बलपर शासन-व्यवस्था के लिए उपयोग किया और ऐसी उत्तम शासन-व्यवस्था प्रचलित की कि जिसने अनेक आपत्तियों के आने पर भी स्वराज्य को नष्ट न होने दिया।

शिवाजी की शासन-व्यवस्था की आधार-शिला उसका अष्ट-प्रधानमंडल था। इसमें मुख्यतया आठ मंत्री थे— (१) पेशवा या पंत-प्रधान, (२) मुजुमदार या अमात्य, (३) वाकनीस या मंत्री, (४) उवीर या सुमन्त, (५) सुरनीस या सचिव, (६) पंडितराव, (७) सरनौबत या सेनापति, और (८) न्यायाधीश। राज्याभिषेक के समय शिवाजी ने अपने अष्ट-प्रधान-मंडल की सुव्यवस्था की। उनके पहले फारसी नाम बदलकर संस्कृत नाम रखे और उनके कार्यों का आज्ञापत्र प्रचलित किया। वह यह है— (१) मुख्य प्रधान सब राज-काज करे। राजपत्रों पर सिक्का (मुहर) लगावे, सेना लेकर युद्ध तथा चढ़ाई करे, जो मुल्क जीता जाय उसका उचित वन्दोवस्त करके आज्ञा के अनुसार चले। सब सरदार और सेना उसके साथ जावें; और वह सब के साथ चले। (२) सेना-पति सब सेना की रक्षा और युद्ध तथा चढ़ाई करे। जो मुल्क जीता जाय उसको आवश्यक रक्षा कर हुक्म के मुताबिक कार्रवाई करे। फौज के लोगों का कहना सुने। फौज के सब सरदार उसके साथ चले। (३) अमात्य राजा के सब जमा-खर्च की देख-रेख कर दफ्तरदार और फड़नीस को अपने अधीन रखे। लिखने का काम सावधानी से करे। फड़नीस और चिटनीस के पत्रों पर अपना सिक्का लगावे। युद्ध करे और जीते हुए भाग का उचित प्रवन्ध कर आज्ञा के अनुसार चले। (४) पंडितराव सब धर्माधिकार, धर्म-अधर्म देखकर दण्ड करे। शिष्टों का सत्कार करे। आचार-व्यवहार, प्रायश्चित्तपत्र आदि जो हों उनपर अपनी सम्मति-सूचक चिह्न करे। दान-कार्य, शान्ति, अनुष्ठान तत्काल

करे। (५) सचिव राजपत्रों को ठीक तौर से देखकर कम-अधिक मजमून को ठीक करे। युद्ध करके जो मुल्क जीते जायँ उनकी रक्षा कर आज़ा के अनुसार चले। राजपत्रों पर सम्मति-सूचक चिन्ह करे। (६) न्यायाधीश सब राज्य के न्याय-अन्याय का विचार कर धर्म के अनुसार फ़ैसला करे। न्याय-पत्रों पर सम्मति-सूचक चिन्ह करे। (७) मंत्री सब मंत्र-विचार और राज्य-कार्य सावधानी से करे। नियंत्रण और वाकनीसी उसके अधिकार में हैं। मुल्क की रक्षा कर युद्ध आदि करे। राज-पत्रों पर समय-सूचक चिन्ह करे। (८) सुमन्त पर-राज्य से पत्र-ज्यवहार करे, उनके जो दूत आवें उनका सत्कार करे, युद्धादि करे। राजपत्रों पर समय-सूचक चिन्ह करे।

शिवाजी के इस आज़्ञापत्र से प्रकट होता है कि उसके सब मंत्रियों में पेशवा मुख्य था और इसीलिए उसका यह नाम रखा गया था। राज-काज का सारा उत्तरदायित्व भी पद के अनुसार उसपर रखा गया था। ऐसी अवस्था में यह कहना कि अन्य मंत्री किसी प्रकार उसके मातहत न थे, अनुचित है। † यह सत्य है कि शिवाजी के ये प्रधान बहुते-कुछ उसके नौकर ही थे और प्रधानतः उसे सलाह-भश्वरा देने का ही कार्य किया करते थे। परन्तु इतिहास से यह भी सिद्ध है कि कई चढ़ाइयाँ उन्होंने अपने मन से भी की हैं और शिवाजी ने बहुधा उनका कहना माना है। पंडितराव और न्यायाधीश को छोड़कर शेष प्रधानों को युद्ध आदि भी करने पड़ते थे और यह भी उनके कार्य का एक भाग

था। उनमें से कुछ सूवेदारी का भी काम करते थे। जब कभी वे राजधानी में न रहते तब उनके मुतालिक यानी प्रतिनिध्यात्मक अधिकारी उनका काम किया करते थे। इन आठ प्रधानों के अलावा चिटनीस और फड़नीस नाम के दो महत्वपूर्ण अधिकारी और थे। चिटनीस के हाथ में राजकीय पत्र-व्यवहार का काम था। फड़नीस राज के दान-पत्र लिखा करता था। किलों के हवलदारों से पत्र-व्यवहार करने के लिए गढ़नीस नाम का अधिकारी था। मुसलमान राजाओं से पत्र-व्यवहार करने के लिए पारसनीस नाम का अधिकारी था। इनके सिवाय इसी प्रकार के कुछ और भी अधिकारी थे, जो प्रधान-मंडल के मातहत थे और जिनके हाथ में शिवाजी के राज्य के “कारखाने” यानी भिन्न-भिन्न वस्तुओं की कोठियाँ थीं। जबतक शिवाजी का यह प्रधान-मंडल अपने मूलरूप में चलता रहा तबतक सब काम ठीक-ठीक होते रहे और औरंगजेब के भयंकर-आक्रमण की आपत्ति का सामना भी सफलता-पूर्वक हो सका।

शिवाजी ने अपने राज्य की मुल्की व्यवस्था भी बहुत उत्तम की थी। पहले ज़मीन का लगान अनाज के रूप में वसूल किया जाता था और ज़मींदार या ठेकेदार उसे सरकार में जमा किया करता था।

मुल्की व्यवस्था

शिवाजी ने ये दोनों प्रथाएँ उठा दीं। उसने ज़मीन की पैमा-यश करके उसका लगान ज़मीन की क्रिस्म के अनुसार कायम कर दिया और उसे वसूल करने के लिए अपने निजी सरकारी कर्मचारी नियत किये। पहले जब ज़मींदार या ठेकेदार लगान वसूल किया करते थे तब लोगों को बहुत कष्ट होता था। क्योंकि



वाजिव से ज़्यादा वसूल करना और सरकार में कम दाखिल करना उनका नियम ही था। इस दोष को दूर करने के लिए शिवाजी ने अपने राज्य को प्रान्तों में, प्रान्तों को तर्फों में और तर्फों को मौजों में बाँट डाला। प्रान्त का अधिकारी सूबेदार अथवा मुख्य देशाधिकारी होता था, जिसकी तुलना आजकल के जिलाधीश से की जा सकती है। इसके नीचे तर्फ के अधिकारी हवलदार होते थे, जिन्हें कहीं-कहीं परिपत्यागार भी कहते थे। इनकी तुलना आजकल के तहसीलदारों से की जा सकती है। गाँवों में लगान-वसूली के लिए पटेल होते थे और हिस्सा रखने के लिए कुलकर्णी नियत किये जाते थे। ज़मीन की पैमायश करके उसका रक़बा काश्तकार के नाम पर चढ़ाया जाता और सरकारी लगान के लिए उससे इक्करारनामा लिखवाया जाता था।

शिवाजी के समय में न्याय-व्यवस्था बहुत-कुछ पहले जैसी ही प्रचलित थी। गाँवों में न्याय का काम बहुधा पंचायतों द्वारा पटेल करता था। यदि पक्षकार उसके न्याय से संतुष्ट न होते तो वे अपने मामले न्यायाधीश के सामने ले जा सकते थे। कुछ मामले हाज़िर-मजलिस के सामने, यानी सब मंत्रियों की सभा में, पेश होते थे। इस अवसर पर कदाचित् सभानायक और महाप्रशिनक नामके दो पुरुष पशकारों से जिरह करने के लिए नियत किये जाते थे।

शिवाजी की सैनिक व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। दो तरह की सेना थी-घुड़सवार और पैदल। नौ पैदल सिपाहियों पर एक नायक, पाँच नायकों पर एक हवलदार, दो या तीन हवलदारों पर एक जुमले

न्याय-व्यवस्था

सैनिक व्यवस्था

दार, दस जुमलेदारों पर एक हजारी और सात हजारियों पर एक सरनौबत होता था। पच्चीस सवारों पर एक हवलदार, पाँच हवलदारों पर एक जुमलेदार, दस जुमलेदारों पर एक हजारी और पाँच हजारियों पर एक पंच हजारी होता था। इन फौजी अधिकारियों को हिसाब-किताब में सहायता देने के लिए उनके मातहत कर्मचारी अलग होते थे। घुड़सवारों के दो भेद थे—एक वारगीर और दूसरा शिलेदार। वारगीर प्रत्यक्ष सरकारी नौकर होता था। उसे घोड़ा और अन्य सामान खुद सरकार से मिलता था। इसीलिए ये सरकारी पागा के लोग कहलाते थे। शिलेदार ऊँचे दर्जे का आदमी होता था और वह अपना निजी घोड़ा तथा अन्य सामान रखता था। फौज को वेतन नियत समय पर दिया जाता था। शिलेदारों को नियत रकम मिलती थी; लोगों की तरफ वार्का रहा हुआ लगान वसूल कर अपना वेतन पूरा करलें, ऐसा कभी न होने पाता था। शिलेदार सिरजोर न होने पावें, इसके लिए उन्हें पागा की मातहती में रक्खा जाता था, अथवा कुछ वारगीर उनके साथ शामिल कर दिये जाते थे, नये सिपाही तभी रक्खे जाते थे जब उनके चाल-चलन की जमानत पुराने सिपाही देते थे। तथापि यह स्मरण रखना चाहिए कि शिवाजी को सिपाहियों की कमी कभी न पड़ी। जो सिपाही लड़ाई में जख्मी होते, उन्हें अपने पोषण के लिए उचित रकम मिला करती थी। मरे हुए सिपाहियों के आश्रित सम्बन्धियों के पालन-पोषण के लिए भी उचित प्रवन्ध कर दिया जाता था और इनमें से जो कोई फौजी काम करने के लायक होते वे नौकर रख लिये जाते थे।

शिवाजी का सैनिक शासन बहुत कड़ा था। कोई भी सैनिक अपने साथ स्त्री आदि किसी को नहीं रखता था। किसी भी ब्राह्मण, स्त्री, गाय, बालक और दुर्बल मनुष्य को किसी भी प्रकार का कष्ट देने की सख्त मनाई थी। सब लूट सरकार में जमा होती थी। तथापि लूट लाने वाले को उचित पुरस्कार दिया जाता था। लूट का सामान छिपाने से बड़ी कड़ी सजा मिलती थी। युद्धों में जो पराक्रम दिखलाते उनका भिन्न-भिन्न प्रकार से सन्मान किया जाता था।

शिवाजी के किलों की व्यवस्था उसके सैनिक शासन का ही भाग था। मृत्यु के समय उसके हाथ में २४० किले थे।

प्रत्येक किले पर एक मराठा हवलदार और उसके अधीन उसीकी जाति के सहायक किले के भिन्न-भिन्न भागों की रक्षा के लिए रहते थे। बहुधा इनकी संख्या ५०० रहती थी, परन्तु समयानुसार बढ़ाई जाती थी। हवलदार के दो सहायक अधिकारी होते थे। एक सबनीस और दूसरा कारखाननीस। वास्तव में इन तीनों के जिम्मे ही किले की व्यवस्था का काम था। जमानबन्दी का काम सबनीस के अधिकार में था और किले के आसपास के प्रदेश की देखभाल भी वही करता था। दाना, घास, बारूद, गोला, मरम्मत आदि का काम कारखाननीस करता था। महाराष्ट्र-भर में आज जो सैकड़ों किले दिखाई पड़ते हैं, उनमें से बहुतसे शिवाजी के समय के हैं और वे इस पुरुष की दूर दृष्टि और राजकार्य-चातुरी के साक्षी हैं। उसके किले के तीन भेद थे। पर्वतों में अथवा अंतरीप पर बनवाये हुए किले को जंजीरा या दुर्ग कहते थे। पहाड़ी किले को गढ़ और मैदानी किले को भूमिकले

या कोट कहते थे। पहले दो प्रकार के किलों को ही शिवाजी महत्वपूर्ण समझता था। वे ऐसे स्थानों पर बनाये जाते, जहाँ शत्रु की जल्दी पहुँच न हो। किलों में सब प्रकार का बन्दोबस्त रहता था, ताकि घेरा पड़ने पर किसी चीज़ की कमी न मालूम पड़े। इन्हीं किलों के कारण शिवाजी का कार्य सरल और सफल हुआ। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि शिवाजी ने बहुत-सा द्रव्य किले बनवाने में और उन्हें सुरक्षित रखने में खर्च किया। वास्तविक बात तो यह है कि शिवाजी के किले उसके राज्य के आधार-स्तम्भ थे। उनका इतिहास बहुत ही मनोरंजक तथा वीरश्री-परिप्लुत है।

शिवाजी के प्रदेश के दो विभाग थे—एक स्वराज्य और दूसरा मुगलार्द। ऊपर जिस शासन-व्यवस्था का वर्णन किया है, वह

शिवाजी के राज्य के विभाग और “लट्ट” स्वराज्य की है। मुगलार्द में शिवाजी सर-देशमुखी और चौथ वसूल किया करता

था। परन्तु बहुत काल तक उसका यह अधिकार आदिलशाह, कुतुबशाह और दिल्ली के बादशाह ने नहीं माना। इसलिए बहुधा वह इनके राज्यों में लट्ट किया करता था; और इसी कारण शिवाजी के शत्रुओं ने सदैव उसे लुटेरा कहा है। परन्तु वास्तव में यह उसके साथ बड़ा भारी अन्याय है। यदि किसी पुरुष को दूसरे देश पर चढ़ाई करने का कुछ भी अधिकार हो सकता है, तो किसी भी पुरुष को अपने देश में स्वतंत्रता स्थापित करने का पूर्ण अधिकार है। स्वयं शिवाजी ने मूरत के मुगल सूबेदार को जो उत्तर दिया, वह इस आक्षेप का खासा जवाब है। उसने कहा था कि “तुम्हारे बादशाह ने ही मुझे

अपने देश और लोगों की रक्षा करने के लिए सेना रखने को बाध्य किया है, और इस सेना का खर्च उसीकी प्रजा को देना होगा।” यदि औरंगजेब को हिन्दुस्थान में राज्य करने का अधिकार था, तो शिवाजी को अपने देश में स्वतंत्रता स्थापित करने का उससे सौ गुना अधिक अधिकार था; और यह कार्य युद्ध के सिवाय उस समय न हो सकता था। युद्ध के लिए द्रव्य की आवश्यकता थी और मुसलमान राजाओं की तथा उनकी सहायक प्रजा की अथवा अन्य विरोधियों की लूटों के सिवाय उसके पास कोई अन्य उपाय न था। जो लोग राजी-खुशी से स्वतंत्रता के कार्य में योग न देते थे, उनसे सख्ती से द्रव्य लेना शिवाजी अपना कर्तव्य समझता था। जिन लोगों की नस-नस में गुलामी भर गई थी, उनको वह इसी प्रकार जबरदस्ती स्वतंत्रता के पाठ पढ़ाना चाहता था। इसमें उसने किसी की भी मुरब्बत न की। यह पहले बतला ही चुके हैं कि शिवाजी ने अपने भाई व्यंकोजी से पुश्तैनी जायदाद का आधा हिस्सा माँगा, उसका मूल कारण यही था कि वह अपने को आदिलशाह का नौकर तथा उनकी कृपा से पलने वाला समझता था। फिर यह स्मरण रखना चाहिए कि लूट करते समय शिवाजी किसी को अनावश्यक कष्ट नहीं देता था। गरीब, बालक, स्त्री, वृद्ध और किसानों को उसने कभी तकलीफ नहीं होने दी। जब किसी स्थान में वह लूट के लिए पहुँचता, तो वहाँ के मुख्य-मुख्य लोगों को बुलाकर उस गाँव की हैसियत के अनुसार द्रव्य माँगता था। यदि इस सीधी रीति से वे लोग द्रव्य दे देते, तो वह वहाँ से चुपचाप चला जाता; परन्तु यदि माँगा हुआ द्रव्य देने से इन्कार करते, तो उसके सिपाही

वस्ती में घुस जाते और ज्वरदस्ती द्रव्य ले आते थे। यदि कहीं सशस्त्र प्रतिकार होता, तो शिवाजी के आदमियों को भी उनका उर्सा प्रकार सामना करना पड़ता। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि शिवाजी की लूट स्वराज्य-प्राप्ति के लिए एक प्रकार के कर की वसूली ही थी, क्योंकि, यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो चुकी है कि उसके "स्वराज्य" में यह काम विलकुल न होने पाता था। इतिहास हमें बतलाता है कि अनेक शासकों को अपने राज्य की रक्षा के लिए लोगों से ज्वरदस्ती द्रव्य लेना पड़ा है। जब उनका यह काम उचित हो सकता है। तब किस नीति के अनुसार स्वराज्य-स्थापना के लिए ज्वरदस्ती द्रव्य लेने का शिवाजी का काम अनुचित कहा जा सकता है? जिन लोगों से शिवाजी ने अपने कार्य के लिए ज्वरदस्ती द्रव्य लिया वे तो उसे लुटेरा कहते ही हैं; परन्तु आश्चर्य तो यह है कि उन्नीसवीं और बीसवीं सदी के शास्त्रीय इतिहास-लेखक भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। हाँ, यह अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि शिवाजी को लूट की आय यथेष्ट होती थी और इससे उसका बहुत-सा काम चलता था। परन्तु इससे दो बातें सिद्ध होती हैं; एक तो शत्रु की शक्ति कम होती थी, और दूसरे उसकी निजी शक्ति बढ़ती थी।

भूमि-कर और लूट की आय के अलावा शिवाजी की आय के कुछ अन्य साधन भी थे। उनमें से आय के अन्य साधन और टकराल मुख्य तो कुछ कर थे, और कुछ विशिष्ट बातों में राजकीय अधिकार का प्रसल था।

यह हम बतला ही चुके हैं कि शिवाजी अपना भूमि-कर

बहुधा द्रव्य के रूप में लिया करता था। इसके लिए सिक्के ढालने की आवश्यकता थी। अतः राज्याभिषेक के साल से उसने राय-गढ़ में एक टकसाल जारी की, परन्तु अन्य राज्यों के सिक्कों का चलन उसने अपने यहाँ नहीं रोका। सभी प्रकार के असली सिक्के उसके राज्य में चलते थे। ✓

शिवाजी की शासन-व्यवस्था के कुछ सामान्य नियम बहुत ही अच्छे थे। वह अपने सब कर्मचारियों को समय पर और नज़द वेतन दिया करता था। केवल एक-दो अपवादों को छोड़कर, उसने किसीको सरकारी काम के बदले में जागीर नहीं दी। उसके इस नियम की उत्तमता इति-

शिवाजी की शासन-  
व्यवस्था के सामान्य  
नियम

हास से सिद्ध है। जागीर की प्रथा राज्य की नींव को ढीली कर देती है और अन्त में उसे नष्ट कर डालती है। हम आगे चलकर देखेंगे कि जब महाराष्ट्र के शासकों ने शिवाजी के इस अच्छे नियम का उल्लंघन किया, तब उन्होंने महाराष्ट्र के विनाश का बीज बो दिया। अस्तु। शिवाजी का एक दूसरा अच्छा नियम यह था कि वह किसीको सरकारी नौकरी वंश-परम्परा से नहीं देता था बल्कि योग्यता देखकर देता था। वंश-परम्परा से नौकरी देना किसी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। इस बात का क्या निश्चय है कि पुत्र भी पिता के समान योग्य हो? यदि इतिहास के आधार पर कुछ कहा जा सकता है, तो हम यहाँ कहेंगे कि योग्य पिता का पुत्र बहुधा अयोग्य हुआ करता है। इसलिए सरकारी नौकरी वंश-परम्परा से चलाना अयोग्य लोगों के हाथ में शासन के सूत्र देना है। इससे राज्य नष्ट हुए बिना

नहीं रहता। पेशवों ने जागीर की प्रथा को जारी करके सरकारी नौकरी को आनुवंशिक करने की प्रथा भी जारी कर दी। इसके जो बुरे परिणाम हुए, वे आगे चलकर इतिहास में हमें दीख पड़ते हैं। शिवाजी तो अपने बड़े-बड़े कर्मचारियों का भी तबादला किया करता था और कभी-कभी अधिक योग्य पुरुष मिलने पर पहले के कम योग्य लोगों के बदले में उन्हें रख लेता था। कार्य का कौशल ही उसके पास पुरस्कार का कारण होता था। शिवाजी ने जिस तीसरे अच्छे नियम का पालन किया, वह है धार्मिक सहिष्णुता। इस बात में उसमें और उसके प्रतिस्पर्धी औरंगजेब में जमीन-आस्मान का अन्तर देख पड़ता है। कहाँ तो वह शिवाजी, जो हिन्दू होने पर भी, हिन्दू-धर्म का प्रतिपालक और उद्धारक कहलाने पर भी, अपनी आँखों के सामने हिन्दुओं पर होते हुए अत्याचार देखते रहने पर भी, सब धर्म के लोगों को एकसाथ समझता था; और कहाँ वह औरंगजेब, जिसकी अधिकांश प्रजा हिन्दू होने पर भी वह उनपर अपना धर्म ज़बरदस्ती लादना चाहता था! शिवाजी ने कभी मुसलमान-धर्म की निन्दा नहीं की। कुरान हाथ में पढ़ने पर सन्मान-पूर्वक वह उसे किसी मुसलमान को दे देता था। उसने कभी कोई मसजिद नहीं ढाई; उलटे, हिन्दू मंदिरों के समान उनके भी खर्च का बन्दोबस्त उसने कई बार कर दिया। हिन्दुओं के समान मुसलमानों को भी उसने अपनी हनौकरी में रक्खा और कुछ को तो उसने काफ़ी ऊँचे पद भी दिये। अब इससे औरंगजेब की तुलना कीजिए। हिन्दुओं के वेदों का पठन-पाठन उसने बंद किया, उनकी पाठशालायें बन्द कीं, उनके मंदिरों को ढा दिये और मूर्तियाँ नष्ट करवा दीं; सम्भवतः वह



हिन्दुओं को नौकरी देता ही न था, और यदि किसी को देता ही तो उसके साथ अथवा उसके सिरपर एक मुसलमान अवश्य रख देता था ! उसने हिन्दुओं को मुसलमान-धर्म में परिवर्तित करने का प्रयत्न कई बार किया और इस हेतु से उसने उनके ऊपर जज़िया-कर का भारी बोझ लाद दिया । अतएव कोई आश्चर्य नहीं कि शिवाजी सदैव अपने कार्य में सफल होता रहा और औरंगज़ेब के भाग्य में सदैव विफलता बनी रही । उपर्युक्त बातों से यह स्पष्ट है कि शिवाजी बहुत ही उत्तम व्यवस्थापक और शासक था । उसका सारा जीवन अशान्ति में बीता, परन्तु वह सदैव अपने मन में शान्त बना रहता था । इस कारण वह बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बात की ओर ध्यान दे सकता था । उसने अपने एक सैनिक अधिकारी को शक संवत् १५९६ की वैशाख शुद्ध पूर्णिमा ( ९ मई १६७४ ) को जो पत्र लिखा, उसमें उसने इस बात की ताकीद की है कि लोगों पर जोर-जबरदस्ती किसी प्रकार की न करनी चाहिए; परन्तु यह भी लिखा है कि घास-दाना आदि का प्रबन्ध पहले से ही कर रखना चाहिए, और रात को छावनी में किसी प्रकार की आग न रहने देनी चाहिए । इस हेतु से उसने तमाखू पीने की भी मनाही कर दी थी । इतना ही नहीं, उसने दीये भी रखने की मनाही कर दी थी; क्योंकि कभी कभी चूहे उनकी बत्ती ले जाते हैं और उससे आग लगने का डर रहता है । इन बातों से यह स्पष्ट है कि शिवाजी अपने कामों में कितनी बारीकी से ध्यान रखता था । इसी कारण उसे कभी अपने काम में विफलता न हुई । सारे अच्छे व्यवस्थापक छोटी-बड़ी सभी बातों की ओर शान्त चित्त से ध्यान दिया करते हैं; तभी वे

अपने कार्य में सफल होते हैं। शिवाजी भी ऐसे ही पुरुषों में से एक था। इसी कारण वह औरंगजेब, कुतुबशाह और आदिलशाह जैसे बड़े-बड़े शत्रुओं के बीच रहने पर भी अपना काम अच्छी तरह से कर सका और एक छोटे-से जागीरदार से स्वतंत्र राज्य का संस्थापक हो सका।

## टिप्पणी

### सरदेशमुखी और चौथ

जिस प्रकार आजकल कर वसूल करने के लिए कुछ पुरुष नियत होते हैं, उसी प्रकार आदिलशाही और निजामशाही की स्थापना होने पर "देशमुख" नियत किये जाते थे। उनका पहला काम लगान की वसूली था; परन्तु दूसरा काम यह भी था कि जो कुछ भाग उनके हाथ में हो, उसके अमल के लिए वे जिम्मेदार हों। उस भाग से जो कुछ वसूली होती थी, उसका दसवाँ हिस्सा उन्हें मिलता था। इसमें से पाँच सैकड़ा नकद या अनाज के रूप में दिया जाता था और शेष पाँच सैकड़े के लिए खेती के लायक ज़मीन दी जाती थी। इसीको वतन कहने की प्रथा वहाँ प्रचलित हुई। ये वतनदार देशमुख अपने को बहुत ऊँचे दर्जे के समझते थे। मुख्य अथवा ऊँचे दर्जे के देशमुख सरदेशमुख कहलाते थे। शिवाजी का पिता जागीरदार तो था, पर देशमुख न था। इस कारण महाराष्ट्र के अन्य देशमुख अपने को शिवाजी से ऊँचे दर्जे का समझते थे, क्योंकि यह देशमुखी वंश-परम्परा से चली आती थी। अतएव शिवाजी ने भी चाहा कि मुझे भी देशमुखी का अधिकार मिले। इसी हेतु से उसने जुन्नर और अहमदनगर के प्रान्त में सन् १६५० के लगभग इस अधिकार की माँग की। परन्तु शाहजहाँ ने उसे किसी प्रकार टाल दिया। सन् १६५० में

उसने फिर से औरंगज़ेब से यह अधिकार माँगा। उसने इस समय इस बात का भी प्रस्ताव किया कि औरंगज़ेब नाहजहाँ से मुझे इस बात की इजाज़त ला दे कि मैं फ़ौज खड़ी कर दामोल और उसके आस-पास के भाग ले लूँ और औरंगज़ेब के भाई-भाई के युद्ध के समय दक्षिण की रक्षा करूँ। औरंगज़ेब ने कोंकण-विजय की अनुमति तो दे दी, पर सरदेशमुखी के विषय में आवाजी सोनदेव के दिली आने पर उससे विचार करने का वचन दिया। सन् १६६६ में जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरन्दर की जो संधि हुई, उस अवसर पर भी उसने फिर सरदेशमुखी के अधिकार का प्रश्न छेड़ा। इसी अवसर पर पहले-पहल उसने चौथ की भी माँग की। यह लगान-बसूली का चौथाई हिस्सा था। इस बात का भी उसने शिवाजी के दिली आने पर विचार करने का वचन दिया; परन्तु उनकी इस भेंट का कोई नतीजा न निकला। अन्त में सन् १६६७ में औरंगज़ेब ने शिवाजी को राजा का खिताब देकर बरार में जागीर दी और उसके लड़के सम्भाजी को मंसब दी। सम्भवतः यह उसने शिवाजी की चौथ और सरदेशमुखी की पुरानी माँगों को पूर्ण करने के लिए किया। परन्तु शिवाजी इतने से सन्तुष्ट होने वाला न था। उसने बीजापुर और गोलकुण्डा से चौथ और सरदेशमुखी वसूल की। सन् १६६८ में बीजापुर ने चौथ और सरदेशमुखी के बदले तीन लाख रुपये वार्षिक देने का वादा किया और गोलकुण्डा उसी समय पाँच लाख रुपये देने को राजी हो गया। इसके बदले में शिवाजी ने मुग़लों से उनकी रक्षा करने का भार अपने सिर पर लिया। सरदेशमुखी का मतलब हम ऊपर बतला ही चुके हैं। पर चौथ का मतलब यह था कि जो यह ले, वह चौथ देने वाले भाग की रक्षा करे। शिवाजी ने और उसके उत्तराधिकारियों ने चौथ के इस मतलब को कभी-कभी निबाहा, परन्तु बहुधा सरदेशमुखी और चौथ दोनों लूट के समान बसूल की जाती थीं। इस अधिकार का एक मतलब आगे चलकर यह भी निकला कि जो जिस भाग में चौथ या सरदेशमुखी ले उसीको समस्त

## शिवाजी की शासन-व्यवस्था

पड़ने पर उस हिस्से को अपने राज्य में शामिल करने का अधिकार है। मराठों ने इस मतलब का अमल कई बार किया। इस दृष्टि से चौथ और सरदेशमुक्ती की तुलना काठ वेळज़ली की सहायक प्रथा से की जा सकती है।

## शिवाजी का शील, स्वभाव तथा योग्यता

अबतक हमने शिवाजी के जिन कार्यों और नियमों का वर्णन किया है उनसे शिवाजी के शील, स्वभाव और योग्यता का बहुत कुछ पता लग सकता है। परन्तु इतिहास में यह एक ऐसा व्यक्ति है, जिसके विषय में अभी भी अनेक भ्रान्त कल्पनायें प्रचलित हैं। अतएव शिवाजी के शील, स्वभाव तथा योग्यता का थोड़ा-बहुत विचार करना आवश्यक है।

सफलता प्राप्त करने के लिए लोकनायक को जिस गुण की सर्व-प्रथम आवश्यकता है, वह है उसका शील। शील-रहित लोग धोखेवाजी से भले ही चार दिन धूम मचा लें, पर जीवन में उन्हें सफलता नहीं मिल सकती। किसी भी क्षेत्र में जाइए, सुन्दर शील ही सफलता की नींव दिखाई पड़ेगी। जबतक अनुयायी यह न जान लें कि जिसका आदेश हम मानते हैं वह दुर्गुणों से रहित है, तबतक वे निर्भय होकर विश्वास-पूर्वक उसका आदेश न मानेंगे। यदि

शिवाजी का चरित्र

उन्हें थोड़ी भी शंका हो कि हमारा नायक किसी प्रकार हमें धोखा देगा, तो वे भी उसी प्रकार उससे वर्ताव करेंगे। इसके लिए शिवाजी के प्रतिस्पर्धी औरंगजेब का ही उदाहरण पर्याप्त है। शिवाजी के शील के विषय में इतना कहना पर्याप्त है कि उसे किसी प्रकार का व्यसन न था। हम पहले बतला ही चुके हैं कि स्त्री, बालक, किसान, वृद्ध आदि निस्सहाय लोगों को किसी प्रकार का कष्ट देने की उसने सख्त मनाही कर दी थी। बड़ी सख्ती के साथ इस नियम का पालन किया जाता था और इसे तोड़नेवाले को प्राण-दण्ड तक हो सकता था। एक-दो बार उसके सरदारों ने मुसलमान स्त्रियों को पकड़ लिया और उन्हें उसके पास ले गये। शिवाजी ने लानेवालों को धिक्कार कर, उन स्त्रियों को वस्त्र आदि देकर, सन्मान-पूर्वक उनके आप्त जनों के पास भेज दिया। शिवाजी के चरित्र की प्रशंसा उसके निन्दकों ने भी की है। मुसलमानी इतिहास-लेखक खाफ़ीखाँ ने उसके शुद्ध चरित्र के लिए प्रशंसा के उद्गार निकाले हैं। आजकल भी जिन्होंने शिवाजी के विरुद्ध बहुत कुछ लिखा है उन्होंने स्वीकार किया है कि उसका व्यक्तिगत चरित्र बहुत ऊँचे दर्जे का था। ❀

यह तो सब मानते ही हैं कि शिवाजी अत्यन्त धर्मशील था; यहाँ तक कि उसने अपना राज्य रामदास स्वामी को प्रदान कर दिया

शिवाजी की धर्मशीलता  
तथा अन्य गुण

था। इसीसे यह ज्ञात होता है कि स्वराज्यो-  
द्धार का कार्य उसने निस्स्वार्थ भाव से किया।  
हिन्दू क्षेत्रों के दर्शनों के समय तथा राम-

❀ अध्यापक यदुनाथ सरकार; 'शिवाजी एण्ड हिज़ टाइम्स'

दास स्वामी की भेंटों के समय उसने यह कई बार प्रकट किया कि मैं इन सांसारिक भगड़ों से दूर होकर धर्म-सिद्धि में लीन होना चाहता हूँ। ऐसे समय रामदास स्वामी तथा अन्य पुरुषों को शिवाजी को यह जतलाना पड़ा कि स्वराज्य-सिद्धि ही धर्म है। इतनी धार्मिकता रहने पर भी वह सर्व-धर्म-सहिष्णु था। इसके उदाहरण हम पहले देही चुके हैं। शिवाजी का व्यक्तिगत जीवन बहुत सादा था और वह अपने शरीर के लिए आवश्यकता से अधिक खर्च कभी न करता था। यदुनाथ सरकार को भी लिखना पड़ा है कि वह पितृ-भक्त पुत्र, प्रेमपूर्ण पिता और सब स्त्रियों की ओर ध्यान देने वाला पति था। शिवाजी के स्वदेशाभिमान के उदाहरण पहले आही चुके हैं। शिवाजी संकट से कभी न डरनेवाला था। संकट के समय सदैव वह स्वयं आगे रहता था और स्वराज्य-स्थापना के बाद भी उसने अपना यह क्रम न छोड़ा। अफजलख़ाँ से त्रस्त रहने पर भी शिवाजी ही स्वयं उससे मिलने गया। शाइस्ता-ख़ाँ के महल में स्वयं शिवाजी ही आगे बढ़ा। रण में सदैव वह आगे ही रहता था। इसके उदाहरण हम पहले बतला चुके हैं। सारांश, शिवाजी में साहस की मात्रा बहुत अधिक थी। परन्तु इसका मतलब यह नहीं कि वह साहस-प्रिय था। चातुर्य का उपयोग करने पर ही वह साहस का उपयोग करता था। पर विशेषता यह थी कि साहस की आवश्यकता का समय आने पर वह साहस दिखलाने से पीछे न हटता था। रामदास स्वामी जैसे निस्पृही और स्पष्टवक्ता पुरुष ने शिवाजी को “यशस्वी, कीर्तिमान्, सामर्थ्यवान्, नीतिमान्, समझदार, आचारशील, विचारशील, ज्ञानशील, कर्मशील, सर्वज्ञ, सुशील, धर्म-भूति, निश्चय का

महामेरु, अखंड निर्धारी, राजयोगी” कहा है; और साथ ही यह भी कहा है कि उसके गुण-महत्व की क्या तुलना हो सकती है !

इन गुणों के साथ उसमें एक आवश्यक गुण यथेष्ट बुद्धि का भी था। इस गुण का महत्व बड़ा भारी है और अनेक कार्यों में इसकी आवश्यकता होती है। कई बार तो इसी-  
यथेष्ट बुद्धि के बल पर सफलता मिलती है। वावर,

अकबर, औरंगजेब, शेरशाह आदि पुरुष इसीके बल पर सफल हुए। शिवाजी ने इनसे कहीं अधिक बुद्धिमत्ता दिखलाई है। शिवाजी के किलों की रचना, अष्ट-प्रधान-मण्डल की व्यवस्था, सेना का संगठन, मुल्की व्यवस्था, और शासन के समान्य नियम—ये सभी उसकी बुद्धिमत्ता के परिणाम-स्वरूप दीख पड़ते हैं। अफजलख़ाँ से भेंट करने के प्रसंग पर अतुल साहस के सिवा उसने जो बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता दिखलाई वह प्रशंसा ही के योग्य है। इसी प्रकार शाइस्ताख़ाँ को पूना से जिस प्रकार भगा दिया, उसमें भी उसकी बुद्धिमत्ता अच्छी तरह प्रकट होती है। आगरा जाने के पहले राज्य का अच्छा बन्दोबस्त करना, वहाँ कैद में पड़ने पर उससे चुपचाप ज्वालाकी से छूट आना, चतुरता से सम्भाजी की रक्षा करना और मुगल राज्य में से सुरक्षित लौट आना—ये सब बातें उसकी प्रगाढ़ बुद्धिमत्ता की प्रदर्शक हैं।

लोकनायक में एक और बात की आवश्यकता होती है। उसे अपने कार्य की सफलता का पूर्ण विश्वास होना चाहिए।

आवश्यक आत्म-विश्वास किसी भी उच्च कार्य को करने में निराशा बार-बार सामने आती है। यदि नेता को ही अपने कार्य की सफलता की आशा न हो तो अनुयाइयों को





गोजी नरसाला, संभाजी कावजी, मानकोजी दहातोंडे, गोमाजी नाइक, नेताजी पालकर, सूर्याजी मालसुरे, हिरोजी फरजंद, देवजी गाढ़वे, मुरारवाजीप्रभु, वालाजी आवाजी चिटनीस, वाजीप्रभु देशपाण्डे, आवाजी सोनदेव, प्रतापराव गूजर, मोरोपंत पिंगले, राघो बहाल अत्रे, अन्नाजी दत्तो, दत्ताजी गोपीनाथ, रावजी सोमनाथ, निराजी रावजी, वालाजी आवाजी आदि पुरुष मुख्य थे। इन लोगों ने शिवाजी के लिए अपने प्राण सदैव तैयार रखे थे; और शिवाजी भी इन्हें उसी प्रकार चाहता था। इनमें से कुछ पुरुष समय-समय युद्ध में काम आये। उनकी मृत्यु पर शिवाजी ने सदैव अत्यन्त शोक प्रदर्शित किया। तानाजी मालसुरे की मृत्यु पर तो वह बालक के समान रोया। मृत साथियों के आप्र सम्बन्धियों के पालन-पोषण का उसने सदैव उचित प्रवन्ध किया। जिन पुरुषों का उसने अपने काम के लिए उपयोग किया, उनको वह कर्मचारी नहीं किन्तु सहकारी समझता था। वे लोग उसके उच्च उद्देश्य को अच्छी तरह समझते-बूझते थे; और इसलिए वे सब संसारिक लोभों को दूर कर उसके लिए तन-मन से प्रयत्न करते थे। ऐसे ही साथी मिलने के कारण शिवाजी को अपने उद्देश्य की सिद्धि में पूर्ण विश्वास था और वह उसे सिद्ध कर सका।

जिन-जिन लोगों ने शिवाजी को उसके कार्य में सहायता की, उनमें श्री समर्थ रामदास स्वामी की भी गणना होती है। परन्तु यह प्रश्न अभी तक विवादास्पद ही है कि रामदास स्वामी ने शिवाजी को कितनी और किस प्रकार की सहायता पहुँचाई।





शिवाजी के कार्य के विषय में एक प्रश्न विचारणीय है।

शिवाजी का उद्देश्य क्या था ? क्या वह केवल महाराष्ट्र में स्वराज्य-

स्थापना करना चाहता था, अथवा सारे  
शिवाजी का उद्देश्य हिन्दुस्थान में हिन्दू-साम्राज्य जमाना

चाहता था ? इस प्रश्न के विषय में दो मत हैं । एक पक्ष का कहना

है कि शिवाजी का उद्देश्य सारे भारतवर्ष में हिन्दू-साम्राज्य स्थापित

करने का था । इस पक्ष के समर्थन में शिवाजी का कोई पत्र अब तक

नहीं मिला है । इसलिए इस पक्ष को केवल तर्क का आधार ठूँठना पड़ा

है । उनकी आधारात्मक बातें ये हैं—(१) शिवाजी ने छत्रपति की

पदवी धारण की और राज्याभिषेक-शक शुरु किया, यह केवल छोटे-

से महाराष्ट्र का राजा बनने के लिए नहीं किन्तु सारे भारतवर्ष में

हिन्दू-साम्राज्य स्थापित करने के विचार से ही ऐसा किया । (२)

यदि केवल महाराष्ट्र की सीमा के भीतर उसे अपना राज्य स्थापित

करना होता तो शिवाजी ने अपने भाई व्यंकोजी से झगड़ा न

किया होता । वह भी फिर महाराष्ट्र में अपना राज्य स्थापित

करके चुपचाप बना रहता । (३) चौथ और सरदेशमुखी वसूल

करने की पद्धति में शिवाजी का विशिष्ट हेतु दीख पड़ता है । वह

यह है कि इस हक के आधार पर मराठों को चाहे जिधर, चाहे

जितनी दूर तक, फैलने का मौका मिले । ( ४ ) जयसिंह से

सुलह करके दिल्ली को जाने में उसका कुछ विशिष्ट हेतु था । सम्भ-

वतः वह यह देखना चाहता था कि उत्तर-हिन्दुस्थान के राजपूत

राजा हिन्दू-साम्राज्य की स्थापना में कहाँ तक मेरे सहायक होंगे ।

( ५ ) शिवाजी ने समुद्री किनारे को अपने कब्जे में रखने के

विचार से सिद्दी को हराने के लिए बहुत प्रयत्न किया । यदि

उसका हेतु महाराष्ट्र तक परिमित होता तो समुद्री किनारे को अपने कब्जे में करके अंग्रेज़ा, पोर्तुगीज़ा वगैरा विदेशी लोगों को दबाव में रखने का प्रयत्न उसने न किया होता। ( ६ ) शिवाजी के हिन्दू-साम्राज्य की कल्पना के कुछ अस्पष्ट उल्लेख वखरो में दीख पड़ते हैं। उदाहरणार्थ शिव-दिग्विजय में लिखा है कि दिल्ली जाकर वहाँ अधिकार चलाने का योग इस समय नहीं दीख पड़ता, क्योंकि औरंगज़ेब बादशाह अवतारी पुरुष है। इससे ऐसा जान पड़ता है कि शिवाजी का विचार दिल्ली में राज्य करने का था, परन्तु वह यह जानता था कि औरंगज़ेब के जीते जी यह बात नहीं हो सकती ॥ इसी प्रकार श्रीसावरकर ने “हिन्दू पद पादशाही” नामक अपनी पुस्तक में शिवाजी के सन् १६४५ के एक पत्र के आधार पर उपर्युक्त कल्पना को स्थापना करने का प्रयत्न किया है। इस पत्र का उल्लेख हम अन्यत्र कर चुके हैं। उसमें “हिन्दवी स्वराज्य” शब्द आये हैं। इसके आधार पर आप यह कहते हैं कि शिवाजी सारे भारतवर्ष में हिन्दू-स्वराज्य स्थापित करना चाहता था।

हमें तो उपर्युक्त प्रमाणों में कोई सार नहीं दीख पड़ता। उनमें से कुछ तो विलकुल सारहीन हैं। चक्रवर्ती, छत्रपति अथवा बादशाह कहला लेना उस काल में एक साधारण बात थी। यदि छोटी-छोटी जागीरों के शासक राजा कहला ले सकते थे। तो महाराष्ट्र का शासक छत्रपति की पदवी अवश्य धारण कर सकता था। व्यंकोजी से लड़ने का उद्देश्य हम वतला ही चुके हैं कि शिवाजी

यह चाहता था कि मेरा भाई अपने को मुसलमानों का नौकर न कहलावे । सरदेशमुखी और चौथ वसूल करने के उद्देश्य भी हम बतला ही चुके हैं । उनमें प्रधानतया द्रव्य-प्राप्ति का ही उद्देश्य था । हाँ, इतना और अधिक कह सकते हैं कि वह यह चाहता था कि अपने पड़ोस के प्रदेश दूसरे न लेने पावें । दिल्ली को जाने का उसका उद्देश्य यदि कुछ हो सकता है तो केवल यही कि मुगल-साम्राज्य का बल ज्ञात हो जाय । समुद्री किनारे को अपने अधिकार में रखना उसे आवश्यक था, क्योंकि कोंकण में उसका राज्य स्थापित हो चुका था । बखरों के उल्लेखों पर कुछ भी जोर देना ठक न होगा, क्योंकि उनमें से कोई भी शिवाजी के समय में नहीं लिखी गईं । स्वयं सर देसाईजी को अपनी पुस्तक में कई स्थानों पर यह कहना पड़ा है कि इन बखरों का उपयोग समझ-बूझ कर ही करना चाहिए । इतिहास और मनुष्य-स्वाभाव के आधार पर यही कहा जा सकता है कि शिवाजी का उद्देश्य केवल महाराष्ट्र में स्वराज्य स्थापित करने का था । शिवाजी की मृत्यु के बाद रामदास स्वामी ने सम्भाजी को जो उपदेशात्मक पत्र लिखा है, उसमें यही बतलाया है कि सब मराठों को एक करो और महाराष्ट्र-धर्म वढ़ाओ । इन शब्दों में महाराष्ट्र की परिमित कल्पना स्पष्ट दीख पड़ती है । “हिन्दवी स्वराज्य” शब्दों के विषयमें हमें यह कहना है कि ये शब्द उस समय लिखे गये थे, जब शिवाजी १५ वर्ष का था । उस समय उसकी दृष्टि में आदलिशाही और कुतुबशाही के राज्य दीख पड़ते थे । इन्हीं की तुलना में उसने

❀ “मराठा तितका मिलवावा—महाराष्ट्र-धर्म वाढ़वावा ।”

अपने भावी राज्य को हिन्दू-राज्य कहा है। जब एक छोटा-सा स्वतंत्र हिन्दू-राज्य भी न हो, तब अखिल-भारतीय स्वतंत्र हिन्दू-साम्राज्य की कल्पना मन में आना मनुष्य-स्वभाव के विरुद्ध जान पड़ता है।

शिवाजी का सारा जीवन लड़ने में बीता, तथापि ऐसे समय में भी उसने थोड़े-बहुत लोकोपयोगी काम किये। हम यह बतला ही चुके हैं कि राज्याभिषेक के समय शिवाजी ने राजकीय पत्र-व्यवहार के फ़ारसी शब्दों के लिए संस्कृत शब्दों का उपयोग शुरू किया और इसके लिए उसने राज-व्यवहार-कोष रघुनाथ पंडित से बनवाया। इसके अलावा करण-कौस्तुभ, शिव-भारत और शिवाकौंदय नामक तीन ग्रंथ और बनवाये। करण-कौस्तुभ ज्योतिष-ग्रंथ है। शिव-भारत में शिवाजी का जीवन चरित्र वर्णित है। शिवाकौंदय में “श्लोक वार्तिक” टीका पर गागा भट्ट ने श्लोकवद्ध टीका की है। श्लोकवार्तिक टीका जैमिनी के पूर्व मीमांसा-ग्रंथ की टीका है। इस प्रकार लोकाचार को ठीक-ठीक मार्ग दिखलाने के लिए शिवाजी ने भी कुछ प्रयत्न किया—फ़ारसी शब्दों के बदले संस्कृत शब्दों के उपयोग का भाषा तथा साहित्य पर स्थायी परिणाम हुआ। मुसलमानी राज्य स्थापित होने पर शिवाजी के समय तक व्यवहार की भाषा में फ़ारसी शब्दों का बहुत अधिक उपयोग होने लगा था। शिवाजी के परिवर्तन से धीरे-धीरे मराठी और संस्कृत शब्दों का उपयोग अधिक होने लगा और ग्रंथ-रचना भी अधिक हुई। विद्वानों का उचित मान करने की रीति शिवाजी ने ही जारी की और इससे धीरे-धीरे विद्या बढ़ी। इसी रीति को आगे चलकर पेशवों ने भी जारी



रक्खा। शिवाजी की राज्य-स्थापना से इतिहास का सर्व-सामान्य सिद्धान्त सिद्ध होता है कि स्वराज्य के बिना किसी प्रकार की उन्नति नहीं हो सकती। स्वराज्य स्थापित होने पर ही भाषा और साहित्य, आचार और विचार धन और बल में उन्नति होना शक्य है।

शिवाजी के समय में एक बड़ा भारी लोकोपयोगी काम हुआ। आदिलशाही का एक सरदार फलटण का बजाजी नाइक निम्वालकर, आदिलशाह के दवाब और धमकी के कारण, मुसलमान हो गया था। जीजाबाई ने लोगों की सम्मति से उसे फिर से हिन्दू-धर्म में ले लिया। इस निम्वालकर-घराने से शिवाजी का पुराना सम्बन्ध था। इस शुद्धि पर लोग कुछ आक्षेप न करें, इसके लिए शिवाजी की लड़की सखुबाई बजाजी के बड़े लड़के महादजी को व्याह दी गई। बजाजी नायक का मुसलमान होना आपद्धर्म समझा गया था और शास्त्रों के आधार पर ही वह फिर से हिन्दू-धर्म में लिया गया। इसके बाद इसी प्रकार के कुछ और उदाहरण इतिहास में हुए। इससे यह दीख पड़ता है कि जीजाबाई और शिवाजी ने शुद्धि की प्रथा का प्रारम्भ बहुत पहले कर दिया था।

शिवाजी का इतिहास समाप्त करने के पहले हमें यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि हिन्दुस्थान के इतिहास में शिवाजी का क्या स्थान है। हम यह प्रारम्भ में ही बतला चुके हैं कि कई प्रकार की अनुकूल स्थिति ने शिवाजी के कार्य को सम्भव किया। इसीको ऐसा कह सकते हैं कि अनुकूल

हिन्दुस्थान के इतिहास में शिवाजी का स्थान

स्थिति ने शिवाजी को जन्म दिया। यानी यदि स्थिति अनुकूल न होती तो शिवाजी जैसा पुरुष उस समय न हुआ होता। इतिहासवेत्ता यह जानते ही हैं कि बिना अनुकूल स्थिति के कोई भी महापुरुष नहीं पैदा होता। परन्तु इसीमें महापुरुष अपना कार्य कर दिखाते हैं। उनकी विशेषता यह रहती है कि वे अपने काल के प्रतिनिधि होते हैं। यही बात शिवाजी के विषय में चरितार्थ होती है। उस काल के लोगों की जो इच्छा थी, वही उसकी इच्छा थी। उस काल के लोगों का जो ध्येय था, वही उसका ध्येय था। उस काल के लोगों की जो महत्वाकांक्षा थी, वही उसकी महत्वाकांक्षा थी। उस काल के लोगों का जो सुख-दुःख था, वही उसका सुख-दुःख था। उस काल के लोगों की जो स्फूर्ति थी, वही उसकी स्फूर्ति थी। सारांश, वह अपने काल का पूर्ण प्रतिनिधि था। साथ ही इसके वह अपने काल को पहचान सकता था। उसे मालूम था कि इस कार्य में लोग मेरा साथ देंगे और उनका उपयोग करना मेरा कर्तव्य है। उसे आन्तरिक स्फूर्ति हो गई थी कि परमेश्वर ने मुझे दुनिया में इसी कार्य के लिए भेजा है। उसे विश्वास हो गया था कि ईश्वर मुझे सफलता देगा। शिवाजी का व्यक्तित्व समझने के लिए हम अपने से एक प्रश्न कर सकते हैं। उस परिस्थिति में रहनेवाले लाखों लोग थे, पर शिवाजी ही को क्यों स्वराज्य-स्थापना की स्फूर्ति हुई? मारटिन लूथर के समय पोप के घृणित कृत्यों को देखने और समझनेवाले लाखों थे, पर विटेनवर्ग के चर्च पर लेख लिखकर चिपकाने की स्फूर्ति और हिम्मत इसी महापुरुष को क्यों हुई? इस प्रश्न के उत्तर में यदि आप कुछ कह सकते हैं, तो यहाँ कहेंगे कि परि-

स्थिति का महत्व तो है ही, पर उसका उपयोग करने का महत्व व्यक्ति को है। यही उत्तर शिवाजी के लिए भी उपयुक्त है। उसके समय में स्वतंत्रता की पुकार पैदा हो गई थी, पर लोक-शक्ति विखरी हुई थी और कभी-कभी तो मराठे लोग आपस ही में मार-काट किया करते थे। शिवाजी ने इस विखरी हुई शक्ति को एकत्र किया और स्वतंत्रता की जो ध्वनि यहाँ-वहाँ सुनाई देती थी उसे उसने उसका मूल-मंत्र बना दिया। उसने महाराष्ट्र की शक्ति पैदा नहीं की—वह तो वहाँ पहले ही थी। उसका परिणाम यहाँ-वहाँ अलग-अलग दीख पड़ता था। शिवाजी ने उस शक्ति का सम्मिलन करके उसका एक निश्चित ध्येय बना दिया। यही उसकी महाराष्ट्र के लिए वास्तविक सेवा हुई और इसी बात के लिए हमें उसे श्रेय देना चाहिए। एक बार लोकनायक बन जाने पर लोग उसीकी ओर सहायता और उद्धार के लिए देखा करते थे। इसके कई उदाहरण हैं। इनमें से सावनूर का उदाहरण ध्यान में रखने लायक है। जब सावनूर के लोग मुसलमानों का अत्याचार अधिक न सह सके तब उन्होंने शिवाजी को पत्र लिखा और उसे अपने उद्धार के लिए आमन्त्रित किया। उसमें उन्होंने उसे स्पष्टतया हिन्दू-धर्म का प्रतिपालक और उद्धारक कहा है। जिन्हें शिवाजी के देशोद्धारक होने के विषय में शंका हो, उन्हें उपर्युक्त पत्र अवश्य अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। शिवाजी के देशोद्धारक होने की बात कई मामूली प्रमाणों से भी सिद्ध हो सकती है। हम प्रश्न कर सकते हैं कि किस सांसारिक लाभ के लिए शिवाजी के सहकारियों ने उसके कहने पर अपने प्राण खतरे में डाले और

उनमें से कई ने आत्म-यज्ञ भी किया ? उसका नाम लेते ही लोगों में क्यों जोश पैदा हो जाता था और वह जोश उसकी मृत्यु के बाद भी कई वर्ष तक क्यों बना रहा ? उसके जीते जी ही लोग उसे विष्णु का और उसके मरने के बाद शिव का अवतार क्यों समझने लगे ? आज दिन तक महाराष्ट्र में घर-घर उसके नाम की पूजा क्यों होती है ? सार यह है कि महाराष्ट्र के स्वातंत्र्य-सिद्धि के कार्य से उसने जिन लोगों की स्वार्थ-सिद्धि में बाधा की, उन लोगों का कथन बहुतांश में शिवाजी के विरुद्ध ही रहेगा । इसलिए महाराष्ट्रीय हुए वगैर—कम से कम हिन्दू हुए बिना तो शिवाजी का महत्व किसी की समझ में नहीं आ सकता । यदुनाथ सरकार जैसे छिद्रान्वेषी पुरुष को भी अपनी पुस्तक के अन्त में शिवाजी के महत्व का गायन करना पड़ा है । आपने वहाँ जो कुछ कहा है, उसे हम यहाँ ज्यों का त्यों दिये देते हैं —

“शिवाजी का वास्तविक महत्व उसकी कल्पना में अथवा राजकीय दूर-दर्शिता में नहीं है, किन्तु उसके शील और कार्यक्षमता में हैं । दूसरों को अच्छी तरह समझ लेना, उचित प्रवन्ध कर लेना और किसी भी परिस्थिति में अन्तःस्मृति से यह जान लेना कि क्या सम्भव है और क्या लाभदायक है, यही उसके जीवन की सफलता के कारण थे । इनके साथ-साथ हमें उसकी च्यक्तिगत नीतिमत्ता और आदर्श की उच्चता को भी मद्देनजर रखना चाहिए । क्योंकि इन्हींके कारण अच्छे-अच्छे लोगों ने भी उसका साथ दिया । उसकी सर्व-सहिष्णुता और न्यायपरता के कारण उसके राज्य का कोई भी पुरुष असन्तुष्ट नहीं हुआ ।

यदुनाथ सरकार का मत

## मराठों का उत्थान और पतन

उसने बहुत परिश्रम से अच्छी व्यवस्था स्थापित की और अपने राज्य में नैतिक नियमों का पालन अच्छी तरह करवाया। इसलिए लोग अन्य स्थानों की अपेक्षा उसके यहाँ अधिक सुखी थे। उसकी बड़ी-बड़ी विजयों को देखकर लोगों को बहुत खुशी हुई और उनकी हिम्मत बढ़ी, और उसका नाम मराठों के लिए नव-जीवन का मूलमंत्र हो गया। उसकी मृत्यु के नौ वर्ष के भीतर ही उसका राज्य नष्ट हो गया। परन्तु मराठों का उसने जो एक राष्ट्र बना डाला, वह उसका अविनाशी कार्य था; और लोगों में जो उसने जोश भर दिया, वह लोगों का अमूल्य धन था।

“यह सच है कि दक्षिण के तीन मुसलमानी राज्यों के आपसी झगड़ों से तथा उनकी भीतरी कमजोरियों से शिवाजी को सिर उठाने का मौक़ा-मिला, परन्तु उसकी सफलता का कारण शत्रुओं की कमजोरी नहीं किन्तु उच्च आदर्श हैं। मैं उसे हिन्दुओं का अन्तिम प्रतिभाशाली पुरुष और राष्ट्र-संवर्धक मानता हूँ। उसकी शासन-व्यवस्था उसकी निजी वस्तु थी और जिस प्रकार रणजीतसिंह ने अपने शासन में बाहरी सहायता ली उस प्रकार शिवाजी ने नहीं ली। उसकी सेना ने अपने ही लोगों से शिक्षा-पाई और वे ही लोग उसके संचालक रहे। रणजीतसिंह के सामान फ्रेंच अथवा अन्य किसी विदेशी लोगों को उसने नहीं बुलाया। उसने जो कुछ रचा और बनाया, वह बहुत दिनों तक चलता रहा। पेशवाई के परम-समृद्ध काल से भी उसकी शासन-व्यवस्था की प्रशंसा होती रही।

“शिवाजी पढ़ा-लिखा न था। उसने पुस्तकों से कुछ न

सीखा । ❀ कोई शाही दरवार, सभ्यनगर अथवा सुव्यवस्थित सेना देखने के पहले ही उसने अपने राज्य और शासन-व्यवस्था की स्थापना की थी । किसी अनुभवी मंत्री या सेनापति से उसे किसी प्रकार की सहायता अथवा मंत्रणा नहीं मिली । उसकी प्रतिभा ही कुछ ऐसी थी कि बिना किसी सहायता के अकेले उसने सुव्यवस्थित राज्य, अजेय सेना और विशाल तथा लोकोपकारी शासन-व्यवस्था की स्थापना की ।

“उसके पहले मराठे लोग दक्षिण के राज्यों में तितर-बितर फैले हुए थे । उसने उनका एक शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया और यह सब उसने उस समय किया कि जब मुराल बादशाहत, बीजापुर की आदिलशाही, पोर्तुगीज राष्ट्र और जंजीरा के सिद्धी जैसी चार प्रचण्ड बलशालिनी शक्तियाँ उसका घोरतम विरोध कर रहा थीं । आधुनिक काल में अन्य किसी हिन्दू ने यह योग्यता नहीं दिखाई । वाखरकारों ने शिवाजी की भौतिक सम्पत्ति यानी हाथी, घोड़े, सिपाही, नौकर, जवाहिर, सोना, चांदी आदि का भरपूर लेखा दिया है । परन्तु शिवाजी ने भावी पीढ़ी के लिए महाराष्ट्र का नवजीवन-रूपी अमूल्य धन बना रखा, उसका उन्होंने उल्लेख नहीं किया ।

“उसके पहले मराठे लोग केवल किराये के टट्टू अथवा विदेशियों के वन्दे गुलाम थे । राज्य का कारवार तो चलाते थे, परन्तु उसकी व्यवस्था में उनका कुछ भी हाथ न था । सैनिक बनकर वे अपना रक्तपात तो करते, परन्तु युद्ध अथवा संधि की

वातों में वे क्रुद्ध न बोल सकते थे । वे सदैव मातहती का काम करते रहे । कभी अगुआ न बने । शिवाजी ही पहला पुरुष था कि जिसने दिल्ली की बादशाही और बीजापुर की आदिलशाही को चुनौती दी और इस प्रकार अपने लोगों को सिखाया कि चाहो तो तुम भी युद्ध का कार्य स्वतंत्रतया कर सकते हो । फिर उसने स्वराज्य स्थापित किया और इस प्रकार अपने लोगों को यह बतला दिया कि राज्य के भिन्न-भिन्न विभागों के शासन की योग्यता तुममें भी है । उसने अपने उदाहरण से यह सिद्ध कर दिया है कि हिन्दू भी राष्ट्र की रचना और राज्य की स्थापना कर सकते हैं, शत्रुओं को हरा सकते हैं, अपनी निजी रक्षा कर सकते हैं, साहित्य और कला, व्यापार और उद्योग-धन्ये की उन्नति कर सकते हैं, अपने निजी जंगी और व्यापारी बड़े बनाकर उनका संचालन कर सकते हैं और विदेशियों से भी बराबरी की समुद्री लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं । सारांश, उसने हिन्दुओं को अपना परम उत्कर्ष करना सिखा दिया । उसने यह सिद्ध कर दिया है कि हिन्दू-जाति केवल जमाइतदार और चिटनीस ही नहीं बरन् जनपति और छत्रपति पैदा कर सकती है । जहाँगीर बादशाह ने प्रयाग के अक्षय बट को विलकुल जड़ तक कटवा डाला और उसकी ठूँठ पर पिघला हुआ लाल-लाल लोहा डलवा दिया । इससे वह समझ बैठा कि मैंने उसे नष्ट कर डाला । परन्तु एक ही वर्ष के भीतर उसने अपनी वाढ़ फिर से शुरू की और इस वाढ़ की विघ्न-बाधाओं को एक ओर ढकेल दिया ।

“शिवाजी ने यह सिद्ध कर दिया है कि हिन्दुत्व का वृद्ध अभी मरा नहीं है । वह अब भी सदियों की राजकीय दासता,

शिवाजी का शील, स्वभाव तथा योग्यता


शासन की अनुभव-हीनता और बाकायदा अत्याचार के भार से दवा रहने पर भी ऊपर उठ सकता है । नवीन शाखायें और पत्ते पैदा कर वह अब भी आकाश में अपना सिर उठा सकता है ।” ❀



❀ अध्यापक यदुनाथ सरकार-कृत 'शिवाजी एण्ड हिज़ टाइम्स';

पृष्ठ ११०-१११ ।





## सम्भाजी

शिवाजी की जब मृत्यु हुई, तब उसका सबसे बड़ा लड़का सम्भाजी पन्हाला किले में नजरबन्द था। शिवाजी की मृत्यु की खबर पाते ही मोरोपन्त पेशवा और अन्नाजी दत्तो सचिव रायगढ़ को आये और वहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित हुआ

पहले राजाराम  
फिर सम्भाजी

कि गद्दी पर किसे बिठलाया जाय। सम्भाजी सबसे बड़ा लड़का होने के कारण वास्तविक अधिकारी था, परन्तु उसके दुर्व्यसनी और अविचारी होने के कारण सबको भय था कि वह यदि गद्दी पर बैठा तो राज्य पर संकट आये बिना न रहेंगे। दक्षिण के राज्य नष्ट करने के लिए स्वयं औरंगजेब के दक्षिण में शीघ्र आने की खबर थी। इसलिए सबको इस बात की आवश्यकता जान पड़ी कि मराठा-राज्य सुव्यवस्थित रहे। शिवाजी की एक पत्नी

२०२

सोयरावाई ने यह सूचना की कि मेरे लड़के राजाराम को गद्दी पर बैठा कर सब कोई राज-कारवार चलावें। मोरोपंत पेशवा और अन्नाजी दत्तो ने यह बात प्रसन्द की और दूसरे बड़े-बड़े लोगों को अपनी ओर करके उन्होंने राजाराम को गद्दी पर बैठाने का विचार निश्चित कर लिया। कोल्हापुर में जनार्दन पन्त हणमंते सुमन्त था। उसे पन्हाला का बन्दोवस्त अच्छी तरह से रखने को लिखा गया। पन्हाला में हिरोजी फ़रज़ंद को इस बात की चिट्ठी लिखी गई कि सम्भाजी को शिवाजी की मृत्यु की खबर विलकुल न लगने दो। इस प्रकार इन लोगों ने सम्भाजी को छोड़, राजाराम को गद्दी पर बैठाकर, सुव्यस्थित रीति से राज्य चलाने का निश्चय किया। शिवाजी की मृत्यु के एक महीने बाद राजाराम का राज्याभिषेक भी हो गया। परन्तु बहुत शीघ्र ही यह विचार विफल हो गया। शिवाजी की मृत्यु की खबर एक कान से दूसरे कान होती हुई सम्भाजी तक पहुँच गई। हिरोजीफ़रज़ंद के नाम हुकम लेकर जो लोग गये थे, उन्हें डाट-डपट कर सच बात उसने पूछ ली। तत्काल उसने उग्र रूप धारण किया। हुकम लाने वाले लोगों को उसने किले की दीवार से गिराकर मार डाला। हिरोजी फ़रज़ंद कोंकण में भाग गया, अतएव पन्हाला क़िला सरलता से उसके क़ब्जे में आगया। जनार्दन पंत हणमंते सेना-सहित कोल्हापुर में था। सम्भाजी ने उसकी सेना को अपनी ओर कर लिया और उसके पैरों में वेड़ियाँ डाल दीं। यह देख कर हम्बीर-राव मोहिते सेनापति सम्भाजी से जा मिला। आगे की व्यवस्था के लिए मोरोपंत पिंगले पन्हाला की ओर जा रहा था। सेनापति को उस मसलहत में से अलग हुए देख कर मोरोपंत भी सम्भाजी

से जा मिला। तब सम्भाजी ने रायगढ़ की ओर कूच किया। यह किला भी शीघ्र ही उसके हाथ लग गया। यह किला हाथ आते ही अपने विरुद्ध लोगों को उसने सजा देना शुरू किया। अन्नाजी दत्तो और मोरोपंत पिंगले को उसने कैद में डाल दिया और राजाराम की माँ सोयराबाई को दीवार में चिनवा कर मार डाला !

इस समय बादशाह औरंगजेब का लड़का मुहम्मद अकबर बाप से वागी हो कर सम्भाजी के आश्रय में आया। सम्भाजीने उसका आदर-सत्कार करके रायगढ़ के पास उसे रख सम्भाजी कलुषा के कब्जे में लिया। कुछ समय बाद सम्भाजी को यह खबर लगी कि अन्नाजी दत्तो आदि अकबर से मिलकर राजाराम को गद्दी पर बैठाने का पड्यन्त्र रच रहे हैं। यह खबर पाते ही सम्भाजी बाघ के समान रायगढ़ दौड़ आया और उस पड्यन्त्र में जिस-जिसके शामिल होने की उसे शंका हुई उस-उसको उसने मृत्यु-दण्ड दिया। अन्नाजी दत्तो तथा बालाजी आपजी चिटनीस को उसने हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा डाला। इस समय सम्भाजी विलकुल चिढ़ गया था और कलुषा नाम का एक दुष्ट कनौजिया ब्राह्मण उसका मुख्य सलाहकार बन बैठा था। यह भोंसलों का प्रयाग का पुश्तैनी पराडा था और सम्भाजी के राज्याभिषेक के कुछ ही दिन पहले वह दक्षिण में आया था। उसने तथा अन्य सलाहकारों ने सम्भाजी को क्रोधवश देखकर शिवाजी के उत्तमोत्तम पुरुषों को मौत के रास्ते लगा दिया। अन्त में सम्भाजी की पत्नी येसूबाई ने उसकी आँखें खोलीं, तब कहीं उसे अपनी गलती मालूम पड़ी। उसने बालाजी आपजी के लड़के खंडों और

नीलो को उनके पिता का काम सौंपा । परन्तु शांत-चित्त से काम करने लायक सम्भाजी न था । कलुषा पर उसका सारा भरोसा था, और वह शिवाजी के समय के कारवारियों को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहता था । सम्भाजी पर उसका दबाव दिनों-दिन बढ़ता ही गया ।

सम्भाजी को सुधारने की इच्छा से दो बड़े पुरुषों ने प्रयत्न किया । इनमें से एक रामदास स्वामी थे । इन्होंने सम्भाजी को उपदेश देने के विचार से जो पत्र लिखा, उसका सार यह था कि कारवारियों के पुराने अपराध क्षमा कर उन्हें अपने हाथ में लो और अच्छी तरह राज्य चलाओ । शिवाजी ने जो कुछ प्राप्त किया उसीके लिए यदि लड़ते रहोगे, तो शत्रु को अपना सिर उठाने का मौका मिलेगा । इसलिए ऐसा न कर रामदास स्वामी ने शिवाजी के कार्यों आदि का उसे ध्यान दिलाया । इस उपदेश के थोड़े ही दिनों बाद, सन् १६८२ में, रामदास स्वामी की मृत्यु हो गई । सम्भाजी को सीधे रास्ते पर लाने का प्रयत्न करने वाला दूसरा पुरुष कर्नाटक का प्रसिद्ध रघुनाथ नारायण हणमंत था । उसने औरंगजेब की होने वाली चढ़ाई की ओर ध्यान आकर्षित किया । परन्तु सम्भाजी को उसकी बातें ठीक न लगीं, यह देखकर रघुनाथ पंत कर्नाटक को वापस चला गया । वहाँ सन् १६८२ में उसकी भी मृत्यु हो गई । उसके बाद जिंजी के प्रदेश की व्यवस्था शिवाजी के जाभात्र हरजी राजा महाड़िक को सौंपी गई और नीलो मोरेश्वर पिंगले उसका सहायक नियत हुआ ।

सम्भाजी व्यसनी और हठी तो था, परन्तु बहादुर था ।

जंजीरा के सिद्धियों से उसने जो युद्ध किये, उनमें उसकी वीरता अच्युत तरह दीख पड़ी। यह वतला ही जंजीरा के सिद्धियों से चुके हैं कि शिवाजी ने जंजीरा को लेने की क्षमता बहुत कोशिश की, परन्तु वह इसमें सफल

न हो सका। शिवाजी की मृत्यु के बाद सिद्दी ने मराठों पर मर्यादक अत्याचार करने शुरू किये और औरंगजेब ने उसे इस काम में प्रोत्साहन दिया। सम्भाजी को जब यह खबर लगी, तब उसे बड़ा गुस्सा आया और उसने सिद्दी को मटियामेट करने का निश्चय किया।

प्रथम खंडोजी फरजंद ने अपने ज़िम्मे जंजीरा में जाकर वगावत फैलाने का काम लिया। इस विचार से उसने जंजीरा में सिद्दी की नौकरी कर ली, परन्तु उसके जंजीरा से युद्ध पड्यंत्र का हाल सिद्दी को किसी प्रकार मालूम हो गया और सिद्दी ने उसे प्राण-

दण्ड दिया। फिर दादजी रघुनाथ देशपांडे ने जंजीरा को घेरा डाल कर लेने का विचार किया। स्वयं सम्भाजी अकबर को साथ लेकर जंजीरा को लेने के लिए कोंकण में गया और अपने कार्य की सफलता के लिए एक अजब युक्ति सोची। उसने समुद्र लूट डालने का विचार किया, परन्तु उससे यह काम न बन पड़ा। रणमस्तरख़ाँ नाम का मुगल सरदार कल्याण के आस-पास लूट-मार मचाने लगा, इस कारण सम्भाजी को उधर जाना पड़ा। इसके बाद सिद्दी ने दादजी को हरा दिया। सम्भाजी को पोर्तगीज़ लोगों से भी लड़ना पड़ा था। ये लोग कोंकण में अच्छे बज़वान बन बैठे थे और साष्टी या साल सत्ती, दमन, वसई, खेदंडा और गोवा नाम के बन्दर



लिए कई सेनापति भेजे थे, परन्तु शिवाजी ने उनकी दाल न गलने दी और उनका हेतु सदैव विफल औरंगजेब की चढ़ाई किया। कुछ साल औरंगजेब को राजपूताने से लड़ना पड़ा और इन लोगों ने उसे खूब तंग किया। इसी समय शाहजादा अकबर राजपूतों से जा मिला था, परन्तु औरंगजेब ने उनमें भेद-नीति का बीज बोकर अकबर को दक्षिण की ओर भगवा दिया। हम यह देख ही चुके हैं कि अकबर वहाँ से भागकर दक्षिण में सम्भाजी से मिला और कुछ समय तक उसके पास रहा। उसके बाप औरंगजेब ने राजपूतों से संधि करली और किसी प्रकार उनसे छुट्टी पाई। अब कहीं उसे दक्षिण की ओर ध्यान देने की फुरसत मिली। शिवाजी की मृत्यु हो ही चुकी थी। इसलिए उसे ऐसा जान पड़ा कि अधिक से अधिक दो साल में हम सारे दक्षिण को जीत लेंगे।

इस विचार से औरंगजेब बड़ी भारी सेना लेकर सन् १६८१ के सितम्बर मास में अजमेर से दक्षिण की ओर रवाना हुआ। उसने अपने साथ कई प्रकार की सेना, अच्छा तोपखाना और यूरोपियन गोलंदाज लिये थे। इस प्रकार एक चलता-फिरता शहर लेकर वह सन् १६८१ के अन्त तक दक्षिण में आ पहुँचा।

औरंगजेब ने पहले मराठों का प्रदेश जीतने का विचार किया। इसके अनुसार उसने अपने लड़के मुअज्जम को और आजम

को आगे भेजा। आजम ने मराठों के रामसेज लेने का मुगलों का वृथा प्रयत्न

को आगे भेजा। आजम ने मराठों के उत्तरी प्रदेश पर हमला किया और मुअज्जम जुन्नर से निकल कर कल्याण-

प्रान्त में पहुँचा। आजम ने भेद-नीति के सहारे सालेर का किला

सरलता से ले लिया। फिर वागलान भाग के कई किले हस्तगत कर सन् १६८२ में रामसेज नामक किले को मुगलों ने घेर लिया। तब उन किले को मदद पहुँचाने के विचार से सेनापति हम्बीरराव मोहिते वागलान में पहुँचा। रामसेज के पास उसकी मुगलों से भारी लड़ाई हुई। हम्बीरराव हारकर सातारा मिरज की ओर वापस आया। इसपर मुगलों ने उसका पीछा किया, परन्तु अब वे स्वयं आफत में पड़े। मराठों ने बार-बार हमले करके उनको तंग कर डाला। औरंगजेब ने यह खबर पाकर आजम को वापस बुला लिया। उधर रामसेज के मराठे बड़ी वीरता से लड़े। मुगलों ने उनपर दो बार ज़ोरों का हमला किया, परन्तु दोनों बार उनका प्रयत्न व्यर्थ हुआ। अन्त में मुगलों ने घेरा उठा लिया और वह किला मराठों के हाथ में बना रहा।

इधर मुअज़्ज़म कल्याण-प्रान्त में लूटमार करता हुआ दक्षिण कोंकण में वेंगुरला तक पहुँचा। इसी समय सम्भाजी ने गोवा के पास पोर्तुगीज़ों को अच्छी शह मुअज़्ज़म आफत से बचा दी थी। उसे दूर करने के लिए ही मुअज़्ज़म की यह चाल थी। मराठों ने मुगलों का कभी खुले रण में सामना न किया। मुअज़्ज़म ने मुल्क को बर्बाद करने का जो काम किया उससे उसका निजी नुक़सान हुआ। कोंकण में वैसे ही अनाज कम पैदा होता है; जो थोड़ा-बहुत पैदा हुआ था, वह भी उसने नष्ट कर डाला। मराठे किलों में रहते थे और उनके पास भरपूर अन्न-सामग्री थी। इसलिए मुगल सैनिकों को खाने का न मिला। इस बात की ख़बर जब औरंगजेब ने पाई, तब उसने सूरत के सूबेदार को मुअज़्ज़म को अनाज भेजने के





इससे सम्भाजी को कुछ अवकाशमिला, परन्तु उसका उसने समुचित उपयोग नहीं किया। उसने यह न सोचा कि आदिलशाही और कुतुबशाही के नष्ट होने पर मुगल सम्भाजी की विलासिता सेना के सारे हमले मेरे ही राज्य पर होंगे। सन् १६८६ में आदिलशाही को और सन् १६८७ में कुतुबशाही को औरंगजेब ने नष्ट कर डाला। फिर औरंगजेब ने मराठों की ओर अपना मोर्चा फेरा। इस समय सम्भाजी कलुषा के क़ब्जे में पूरी तरह जा चुका था। यह पुरुष अपने को बड़ा भारी मंत्र-तंत्रवेत्ता कहा करता था और उसमें सम्भाजी का बड़ा भारी विश्वास था। इसलिए सम्भाजी ने उसे “छंदोगा माल्य” यानी वेदवेत्ता की पदवी दे रखी थी। जब कभी औरंगजेब की चढ़ाइयों की बात निकलती तो वह कहा करता कि बादशाह को नष्ट करने के लिए सेना की आवश्यकता ही क्या है—मैं मंत्र-तंत्र ने चाहे जब बादशाह को साफ़ कर दूँगा। सम्भाजी ऐसी बातों से बड़ा खुश होता और उसका सन्मान किया करता था। इस समय वास्तव में सारा राज्य-कारवार कलुषा के हाथ में सौंप कर सम्भाजी अपने व्यसनों में मस्त था। लगान की वसूली का कुछ ठीक-ठिकाना न था, सारा राज्य-प्रबन्ध विगड़ गया था, और सेना में कुछ भी व्यवस्था न रह गई थी। शिवाजी के समय के नियम अब न पाले जाते थे। इस प्रकार जहाँ-तहाँ गड़बड़ मच गई थी। ऐसे समय में औरंगजेब ने आजमशाह के अधीन खानदेश की ओर इतिकन्हाँ के अधीन कोंकण में और मुकर्रवख़ाँ के अधीन कोल्हापुर की ओर—ऐसे कुल मिलाकर तीन दल भेजे।

मुकर्रवख़ाँ को यह पता लगा था कि सम्भाजी संगमेश्वर में

लिए लिखा और शाहबुद्दीन नामक एक सरदार को फौज देकर उसकी मदद के लिए भेजा। सूरत से अनाज के जो जहाज आये, उनमें से कई मराठों ने पकड़ लिये। इसी समय मुअज़म की सेना में वीमारी शुरू हुई। इससे वह बड़ी आफ़त में पड़ा। अन्त में और मदद पहुँचने पर वह किसी प्रकार पश्चिमी घाट लाँघकर सन् १६८४ के मार्च महीने में कृष्णानदी के किनारे चालवे नामक स्थान में पहुँचा और वहीं छावनी डालकर रहने लगा।

इसके बाद सम्भाजी ने भड़ोंच पर हमला किया और वहाँ बहुतेरी लूट की। इसके बाद दस हजार मराठों का दल वादशाही

मराठों को जीतने का  
विचार छोड़कर औरंगजेव का बीजापुर की ओर मोर्चा

सेना की आँख बचाते हुए बुरहानपुर पहुँचा और उसके आस-पास बड़ी गड़बड़ मचा दी। यह खबर पाते ही औरंगजेव ने उस दल पर ख़ाँजहाँबहादुर को भेजा, परन्तु मराठे उससे बचकर

अपने मुल्क में वापस चले आये। इसके बाद औरंगजेव ने अपने लड़के कामबख़्श को बुरहानपुर के बन्दोबस्त के लिए नियत किया। इस प्रकार औरंगजेव का मराठों को जीतने का यह प्रयत्न व्यर्थ हुआ। उसके तीन साल बृथा गये। इसलिए उसने किलहाल मराठों के पीछे पड़ने का प्रयत्न छोड़ दिया। अब उसने बीजापुर की आदिलशाही और गोलकुण्डा की कुतुबशाही की खबर लेने का विचार किया। इसलिए उसने अपना मोर्चा बीजापुर की ओर फ़ेरा। आजम ने पिता के हुक्म से सन् १६८५ में बीजापुर पर घेरा डाला।

इससे सम्भाजी को कुछ अवकाशमिला, परन्तु उसका उसने नमूचित उपयोग नहीं किया। उसने यह न सोचा कि आदिलशाही

सम्भाजी की विलासिता और कुतुबशाही के नष्ट होने पर मुगल

सेना के सारे हमले मेरे ही राज्य पर

होंगे। सन् १६८६ में आदिलशाही को और सन् १६८७ में

कुतुबशाही को औरंगजेब ने नष्ट कर डाला। फिर औरंगजेब ने

मराठों की ओर अपना मोर्चा फेरा। इस समय सम्भाजी कलुषा

के कन्नड़े में पूरी तरह जा चुका था। यह पुरुष अपने को बड़ा

भारी मंत्र-तंत्रवेत्ता कहा करता था और उसमें सम्भाजी का बड़ा

भारी विश्वास था। इसलिए सम्भाजी ने उसे “छंदोगा माल्य”

यानी वेदवेत्ता की पदवी दे रखी थी। जब कभी औरंगजेब की

चढ़ाइयों की बात निकलती तो वह कहा करता कि बादशाह को

नष्ट करने के लिए सेना की आवश्यकता ही क्या है—मैं मंत्र-तंत्र

ने चाहे जब बादशाह को साफ़ कर दूँगा। सम्भाजी ऐसी बातों

में बड़ा खुश होता और उसका सन्मान किया करता था। इस

समय वास्तव में सारा राज्य-कारबार कलुषा के हाथ में सौंप कर

सम्भाजी अपने व्यसनों में मस्त था। लगान की वसूली का कुछ

ठीक-ठिकाना न था, सारा राज्य-प्रबन्ध विगड़ गया था, और सेना

में कुछ भी व्यवस्था न रह गई थी। शिवाजी के समय के नियम

अब न पाले जाते थे। इस प्रकार जहाँ-तहाँ गड़बड़ भव गई थी।

ऐसे समय में औरंगजेब ने आजमशाह के अधीन खानदेश

की ओर इतिकन्हाँ के अधीन कोंकण में और मुकर्रवख़ाँ के अधीन

कोन्हापुर की ओर—ऐसे कुल मिलाकर तीन दल भेजे।

मुकर्रवख़ाँ को यह पता लगा था कि सम्भाजी संगमेश्वर में

रहता है और ऐश-आराम में मस्त है। उसने किसी प्रकार संग-

सम्भाजी का वध  
 मेश्वर के रास्ते का पता लगा लिया और  
 कुछ सेना लेकर वह वहाँ जा पहुँचा।

सम्भाजी की इस समय ऐसी चुरी हालत थी कि मुगलों के आने की खबर देने वालों को ही उसने डाट दिया ! इस कारण शीघ्र ही कलुषा और वह स्वयं मुगलों के हाथ में पड़े। मुकर्रवखाँ ने उन्हें कैद कर औरंगजेब के पास भेज दिया। औरंगजेब ने यह सोचा कि सम्भाजी को अपने पास रखने से मराठों के किले जल्द लेसकूँगा। इसलिए उसने उसे अपने पास रखने का विचार किया। तथापि उसने पहले यह चाहा कि सम्भाजी को मुसलमान बनालूँ। इस विचार से उसने सम्भाजी को यह संदेश भेजा कि यदि तुम मुसलमान हो जाओ तो मैं तुम्हें जीवन-दान दे दूँगा। सम्भाजी यद्यपि दुर्व्यसनी था, तथापि वह शिवाजी का लड़का था। बादशाह की कैद में रहना ही उसे अपमान-कारक जान पड़ा। इसलिए वह अपने जीवन से ही मुक्त होना चाहता था। औरंगजेब के अपमानकारक संदेश से वह इतना चिढ़ गया कि उसके उत्तर में उसने कहला भेजा कि यदि तुम अपनी बेटी मुझसे व्याह दोगे तो मैं मुसलमान हो जाऊँगा। सम्भाजी इतना कहकर ही न रुका, उसने मुहम्मद पैगम्बर को गालियाँ भी दीं। उसकी सब बातें जब औरंगजेब के कानों पड़ीं, तो वह क्रोध से लाल हो गया और तत्काल उसने हुक्म दिया कि सम्भाजी की जीभ काट कर आँखें फोड़ के और फिर टुकड़े-टुकड़े करके उसके प्राण ले लेना। इस प्रकार सन् १६८९ के मार्च महीने की ११ वीं तारीख को अत्यन्त क्रूरता-पूर्वक सम्भाजी का वध हुआ।

इसके बाद औरंगजेब को ऐसा जान पड़ा कि वस मराठों का राज्य अपनी मुट्ठी में आ गया। परन्तु यह उसकी कल्पना ही थी, और कल्पना ही रही। सम्भाजी निर्दयता-पूर्वक मारा गया, पर मराठों को तो औरंगजेब अपने अधीन नहीं ही कर सका।

### टिप्पणी

सम्भाजी के विषय में सर देसाई का मत कुछ भिन्न है। उनके कथनानुसार औरंगजेब ने जिस समय बीजापुर को जीता, उस समय वहाँ के मुख्य सरदार सर्जेखाँ को सन् १६८७ में सम्भाजी का मुल्क जीतने के लिए भेजा। सर्जेखाँ वाई तक आया। यहाँ पर मराठों का सेनापति हम्बीरराव मोहिते अपनी छावनी डाले पड़ा था। मुग़लों और मराठों का घमासान युद्ध हुआ। उसमें मुग़लों का पराभव तो हुआ, परन्तु तोप का गोला लगने से सेनापति की मृत्यु हो गई। ऐसे समय में हम्बीरराव की मृत्यु से महाराष्ट्र की बड़ी हानि हुई।

कर्नाटक का कारवार शिवाजी के दामाद हरजीराजा महाड़िक के हाथ में था। बीजापुर को जीतने पर औरंगजेब ने अपनी फ़ौज गोलकुण्डा पर भेजी और फिर उसका इरादा कर्नाटक को जीतने का था। इसलिए कर्नाटक के अपने मुल्क की रक्षा के लिए सम्भाजी ने मोरोपंत पिंगले के भाई केशवपंत पिंगले और सन्ताजी घोरपड़े को दस हजार फ़ौज देकर जिंजी की ओर सन् १६८७ के जून महीने में भेजा। परन्तु केशवपंत और हरजीराजा के बीच झगड़े उत्पन्न हुए। सम्भाजी की फ़ौज कर्नाटक में पहुँचने की खबर पाकर औरंगजेब ने तुरन्त कुछ फ़ौज मैसूर वगैरा जीतने के लिए भेजी। मराठों के पहुँचने के पहले ही मुग़लों ने बंगलोर शहर ले लिया। इधर हरजीराजा ने सम्भाजी के उद्देश्य के अनुसार जिंजी का अच्छा बन्दोबस्त किया। उसके बाद कुछ-समय तक केशवपंत तथा हरजी मित्र-भाव से रहे, परन्तु जल्द ही उन दोनों में फिर से झगड़े उठ खड़े हुए।

## मराठों का उत्थान और पतन

इस समय मुग़लों ने पूर्वी किनारे पर बहुत दूर तक अपना कब्ज़ा जमा लिया था। हरजी का कहना था कि मुग़ल फ़ौज से लड़कर पूर्वी किनारे को अपने कब्ज़े में कर लेना चाहिए। परन्तु केशवपंत उसकी कुछ सुनता न था। अन्त में हरजी ने अपनी ही हिम्मत पर अर्काट, कांचीवरम्, पूनामाली आदि स्थान और उनके आसपास का मुल्क थोड़े ही समय में जीत लिया और उस भाग से कर भी वसूल किया। हरजी का पराक्रम देखकर केशवपन्त तथा संताजी उसकी मदद को पहुँचे और उन सबने मिलकर बहुत-सा मुल्क जीता।

इधर इसी समय महाराष्ट्र में सम्भाजी ने पन्हाला के दक्षिण का सब प्रदेश जीत लिया। इस समय सम्भाजी के लिए बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ था। औरंगज़ेब के कृत्यों के कारण चारों ओर असन्तोष फैला था। उसके सरदार और लड़के उससे ऊब गये थे। उसका कोई भी सरदार आगे बढ़ने की हिम्मत न करता था। जो मौक़ा शिवाजी को कभी प्राप्त न हुआ था, वह सम्भाजी को प्राप्त हुआ। यदि सम्भाजी में थोड़ी भी चतुरता और विचार-शक्ति होती, तो वह इस समय खुद बादशाह की फ़ौज को बिलकुल साफ़ कर सकता था। परन्तु वह तो इस समय अपने व्यसनों में मग्न था। इसी कारण औरंगज़ेब दक्षिण में अपने पैर बनाये रख सका और सन् १६८८ के फ़रवरी महीने में वह बड़ी भारी फ़ौज कर्नाटक में भेज सका। वहाँ मराठों और मुग़लों के बीच कोई भारी लड़ाई न हुई। कभी-कभी छोटी-छोटी टोलियों की लड़ाइयाँ हो जाती थीं। इसी प्रकार से सन् १६८८ का साल बीत गया। आगे सन् १६८९ में शीघ्र ही सम्भाजी पकड़ा गया और उसका वध हुआ।



## महाराष्ट्रियों का जीवन-संग्राम

( सन् १६८९-१७०७ तक मुग़लों से युद्ध )

सम्भाजी के वध की खबर पाकर सब मुख्य-मुख्य मराठे सरदार रायगढ़ में एकत्र हुए और उन्होंने इस बात का विचार किया कि मराठा-राज्य की रक्षा अब खराज्य की रक्षा के लिए किस प्रकार की जाय। औरंगजेब का येसूदाई की सलाह खयाल तो यह था कि सम्भाजी के वध से मराठे दब जावेंगे, परन्तु बात कुछ भिन्न ही निकली। सम्भाजी ने अनेकों को मार डाला था और अपने व्यसनों से लोगों का प्रेम नष्ट कर डाला था, तथापि वह उनका राजा था और शिवाजी का पुत्र था। उसके वध का बदला लिये वगैर मराठे कभी शान्त न रह सकते थे। इस कारण महाराष्ट्र में जहाँ-तहाँ उसके वध से विद्रोह की प्रवृत्ति पैदा हुई और महाराष्ट्रियों में बहुत जोश दीख पड़ा। इस जोश को बढ़ाने वाला सबसे भारी कारण यह था कि औरंगजेब महाराष्ट्र के राज्य को निगलना चाहता था। इसलिए



भराओं का उत्थान और पतन

तो जुलफिकारखाँ को फौज देकर उसने उसे लेने के लिए भेजा। इस सेनापति ने जिंजी पर घेरा डाला। इधर राजाराम के चले जाने पर मुगलों ने पन्हाला क़िला ले लिया और जिस विशाल-गढ़ क़िले पर रामचन्द्र पंत बहुतकर महाराष्ट्र के बन्दोवस्त के लिए रहता था उसे घेर लिया। रामचन्द्रपंत ने बहुत समय तक क़िले की रक्ष को; परन्तु जब उसने यह देखा कि क़िला अपने हाथ में नहीं टिक सकता, तब वहाँ से निकला और सातारा चला गया। यहाँ से उसने घूम-फिर कर भराओं के अधीनस्थ क़िलों में सब सामग्री का बन्दोवस्त किया। मुग़ल लोग जहाँ कहीं मिलते, वहीं मराठे उनपर हमला कर देते थे। इससे उनपर इनकी अच्छी धाक जम गई और अकेले-दुकेले घूमने से वे डरने लगे।

वादशाह ने वीजापुर, गोलकुण्डा और महाराष्ट्र के राज्य जीत तो लिये, पर उनसे एक कौड़ी भी वसूल न होती थी। वीजापुर और गोलकुण्डा के घुड़सवारों ने सैकड़ों दल बनाकर और अपने को मराठे कहकर नासिक, वीड़, बेदर आदि में लूट-मार शुरू की। इस कारण वाद-

भराओं ने मुग़लों से कई स्थान वापस लिये

शाह की फौज को सब मुख्य शहरों और क़िलों का बन्दोवस्त करते-करते समय नहीं मिलता था। इतने में धनाजी जाधव व सन्ताजी घोरपड़े महाराष्ट्र में वापस आये। उन्होंने वादशाह को तंग कर डाला। उनके वापस आते ही रामचन्द्र पन्त ने वाई के मुग़ल फौजदार पर हमला करने के लिए उनसे कहा। उन्होंने उस पर अचानक हमला करके उसे कैद कर लिया और वाई में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। फिर सन्ताजी ने मीरज के फौजदार पर

हमला करके वह स्थान भी ले लिया । इस पराक्रम के लिए राम-चन्द्र पन्त ने उसे मीरज की देशमुखी दे दी । धनाजी और सन्ताजी के पराक्रम देखकर अन्य मराठे शिलेदारों का साहस बढ़ा और उन्होंने मुगलों के प्रदेश में कर वसूल करना शुरू किया । राजाराम ने इन सबको खिताब आदि देकर उत्तेजना दी । इसी समय संकराजी नारायण खण्डेकर ने युक्ति से राजगढ़ किला मुगलों से वापस ले लिया और उसके बाद परशुराम पंत प्रतिनिधि ने सन् १६९२ ईस्वी में पन्हाला जीत लिया । इस प्रकार महाराष्ट्र में जहाँ-तहाँ गड़बड़ मच गई और मराठों की विजय व वादशाह की पराजय होने लगी । औरंगजेब जिंजी की सेना को मदद न पहुँचा सके, इस विचार से धनाजी और सन्ताजी ने एक भारी हमला करने का विचार किया । उन्होंने एक अच्छी भारी सेना तैयार कर गोदावरी के किनारे का सब प्रदेश लूटने की बात सोची । यह भाग बहुत उपजाऊ था । धनाजी और सन्ताजी ने लूटमार कर उसे साफ़ कर दिया । उत्तर-हिन्दुस्थान से आने वाले अनाज में से बहुत-सा उन्होंने लूट लिया और उसके साथ बन्दो-बस्त के लिए जो सरदार थे उनपर हमला कर उन्हें कैद कर लिया । फिर उनसे बहुत-सा द्रव्य लेकर उन्हें छोड़ दिया ।

भरपूर अन्न-सामग्री न मिलने से वादशाह को बड़ी चिन्ता हुई । उसने सोचा कि राजाराम को कैद किये बिना मराठों की यह गड़-बड़ बन्द न होगी । इस विचार से उसने मुगलों के प्रदेश में लूटमार अपने लड़के कामबरक्ष तथा जुलफिकार-ख़ाँ के वाप आसफ़ख़ाँ को फौज देकर, जिंजी को जल्द लेने के लिए, जुलफिकारख़ाँ की मदद को भेजा । स्वयं अपनी

छावनी हटाई और वह कृष्णा के किनारे गलगले नामक स्थान को आया। परन्तु मराठे कहाँ इन बातों से डरने वाले थे? उन्होंने अपना कार्य पहले के समान ही जारी रखा। परसोजी भोंसले ने वरार में धूम मचाई, खंडेराव दामाड़े गुजरात के पीछे पड़ गया, और हैवतराव निम्बालकर गोदावरी के प्रदेश का ध्वंस करने लगा; और इन सबपर संताजी घोरपड़े व धनाजी जाधव की तान थी। अन्त में सन् १६९५ में निराश होकर औरंगजेब भीमा नदी के किनारे ब्रह्मपुरी नामक स्थान में चला आया।

ऊपर बताया जा चुका है कि जुलफिकारखाँ को जिंजी लेने का काम सौंपा गया था। यह क़िला अनेक पर्वत जोड़कर बनाया गया था और उसका घेरा बड़ा भारी था।

मुग़लसेना जिंजी को लेने  
के लिए

पहले-पहल जब जुलफिकारखाँ वहाँ पहुँचा तो उसे यह जान पड़ा कि मेरी फ़ौज इस काम के लिए भरपूर नहीं है। इसलिए उसने नई फ़ौज आने तक तंजोर वरौरा स्थान लेने का विचार किया। वहाँ से बहुत-सा कर वसूल कर वह वापस आया, परन्तु तब भी वादशाह की मदद न पहुँची थी। अन्त में कई बार लिखने पर बड़ी मुश्किल से ऊपर बताये मुताबिक़ आसिफ़खाँ और कामबरख़ा के अधीन कुछ फ़ौज पहुँची।

औरंगजेब ने मदद तो भेजी, परन्तु घेरे का काम कुछ ढीला रहा। वादशाह ने अपने लड़के कामबरख़ा को जिंजी के घेरे का

जिंजी के पास संताजी  
और धनाजी का पराक्रम

मुखिया नियत किया था, इस कारण जुलफिकारखाँ को अपना अपमान हुआ सा जान पड़ा और वह तथा उसका पिता दोनों असन्तुष्ट हुए तथा घेरे का काम उदासीनता से करने लगे।

इस समय रामचन्द्र पन्त ने धनाजी और सन्ताजी को बड़ी भारी फौज देकर कर्नाटक रवाना किया। ये दोनों बादशाह की फौज से किसी प्रकार बचते हुए कर्नाटक में घुसे और कांजीवरम के फौजदार अलीमरदानखाँ पर कावेरीपाक नामक स्थान में हमला किया और उसे घेर लिया। इस कारण इस खाँ को संताजी के अधीन होना पड़ा ( १३ दिसम्बर १६९२ )। आगे जब वह जिंजी पहुँचा, तब एक लाख होण देकर उसने अपनी मुक्ति कराली। इसके बाद सन्ताजी ने जिंजी को घेरने वाली फौज पर हमला किया। दूसरी ओर से धनाजी ने भी धावा बोल दिया और उसी समय किले की सेना ने भी भीतर से चढ़ाई की। इस अवसर पर बहुत-से मुगल सैनिक मारे गये, इस्माइलखाँ नामक सरदार जख्मी होकर कैद हो गया, और कुछ सामग्री भी मराठों के हाथ लगी। मराठों ने कांजीवरम और कडप्पा नामक स्थानों पर अपनी सत्ता जाहिर की और वहाँ अपना सूबेदार भी नियत कर दिया।

मराठों की गड़बड़ चारों ओर मची होने के कारण बादशाह तथा जिंजीवालों को एक दूसरे की खबर न पहुँचती थी। ऐसे

समय में पहले तो यह गप उड़ी कि बादशाह पागल हो गया है, और फिर दूसरी गप यह फैली कि वह मर गया ! इससे

मुगलसेना में फूट और मराठों की विजय

मुगलसेना में खूब गड़बड़ हो गई। कामवर्खा को गद्दी का लोभ लगा, यह देखकर मराठों ने उससे बातचीत शुरू की। इससे कामवर्खा बहुत खुश हुआ। उसने अपनी फौज को कूच के लिए तैयार होने का हुक्म दे दिया। उसकी यह तैयारी देख जुलफिकारखाँ और आसफख़ाँ ने मराठों से मेल करने का अभियोग उसपर

## मराठों का उत्थान और पतन

लगाया और उसे क़ैद कर लिया। ऐसे समय में कांजीवरम से बहुत-सा कर वसूल कर सन्ताजी घोरपड़े सन् १६९३ के प्रारम्भ में जिंजी पहुँचा और मुग़ल सेना पर हमला करके उसे जर्जर कर डाला। अन्त में आसफ़ख़ाँ ने सन्ताजी घोरपड़े से सन्धि कर ली। उसमें यह निश्चित हुआ कि मुग़लों को मराठे वान्देवाश जाने दें और वहाँ पर वादशाह का जिस प्रकार हुक़म आवे उस प्रकार वे करें, तबतक मराठे उन्हें तंग न करें। यहाँ की सब ख़बर औरंगज़ेब को पहुँची, तो उसने कामबख़्श को वापस बुलवा लिया और जिंजी के घेरे का समस्त अधिकार फिर से जुलफ़िकारख़ाँ को दे दिया। पर उस साल के मई महीने तक वह वान्देवाश में ही बना रहा। इस प्रकार मुग़ल फ़ौज की फ़ज़ीहत कर पूर्व-कर्नाटक में मराठों ने अपना क़ब्ज़ा जमाने का प्रयत्न किया। वेलोर के पास के सतगढ़ का राजा मराठों से मिल गया। सन्ताजी ने त्रिचनापल्ली का घेरा डाला। इस बीच में राजाराम भी जिंजी से निकल कर वहाँ आ पहुँचा। तब त्रिचनापल्ली के नायक ने मराठों से संधि कर ली। इसके बाद राजाराम अपने चचेरे भाई व्यंकोजी के लड़के शाहजी से मिला और उससे धन-जन की सहायता का वचन लेकर जिंजी को वापस लौट आया। इसके बाद सन्ताजी और धनाजी फिर से महाराष्ट्र को वापस गये। तब कहीं, सन् १६९४ में, जुलफ़िकारख़ाँ को कर्नाटक में मुग़ल-सत्ता स्थापित करने का अवसर मिला। सतगढ़ के राजा को उसने अपनी ओर मिला कर मार डाला। फिर त्रिचनापल्ली, तंजोर आदि के राजाओं को मुग़ल सत्ता मानने को बाध्य किया और उनसे बहुत-सा धन तथा कर वसूल किया तथा कई क़िले लिये। फिर

उस साल के अक्टूबर महीने में उसने जिंजी के घेरे का काम शुरू किया। परन्तु उसका मुख्य लक्ष्य द्रव्य वसूल करने की ओर था। सन् १६९५ के अक्टूबर में उसने वेलोर का घेरा डाला। इतने में सन्ताजी और धनाजी फिर कर्नाटक आये। इसपर जुल-फिकारखाँ घेरा उठाकर सावधानी के साथ अरकाट में रहने लगा।

इधर सन्ताजी ने मुगलों के कब्जे के पश्चिम कर्नाटक में खूब गड़बड़ मचा दी। इसकी खबर जब औरंगजेब को पहुँची, तो उसे

भगाने के लिए उसने अपने पास की फौज भेजी। कर्नाटक का फौजदार कासिम भी उससे आ मिला। सन्ताजी ने इस

सन्ताजी ने मुगलों के  
छक्के छुड़ाये

फौज को चुपचाप आने दिया। फिर एक दिन मुगल सेना जब डेरे डालने के प्रयत्न में थी तब सन्ताजी ने अचानक उसपर हमला कर दिया और उसे घेर लिया। इस कारण मुगलों को किसी प्रकार की सामग्री न मिल सकी और उन्हें भूखों मरना पड़ा। फौज की इस हालत की खबर पाकर औरंगजेब ने, हिम्मतखाँ नामक सरदार के साथ, उसकी मदद के लिए और फौज भेजी। हिम्मतखाँ के नज़दीक पहुँचते ही सन्ताजी ने उसपर जोरों से हमला किया। खाँ तो किसी प्रकार जान बचाकर भाग गया, परन्तु फौज को मराठों की शरण आना पड़ा। सन्ताजी ने मुगल सरदारों से खूब द्रव्य लेकर उन्हें छोड़ दिया। कासिमखाँ ने शर्म के मारे विष खाकर जान दे दी। हिम्मतखाँ हार कर भाग गया था, वह अन्न और सेना लेकर फिर से आया। वसवापट्टम के पास मैदान में मराठों और मुगलों की मुठभेड़ हुई। मराठों ने भागने का दहाना किया। मुगलों ने समझा कि मराठे डर गये, अतएव,

सराठों का उल्थान और पतन

वै इनका पीछा करने लगे । पर पहाड़ी भाग में पहुँचते ही मराठे लौट पड़े और उन्होंने मुगलों पर बड़े जोरों का हमला किया । खूब मारकाट शुरू हुई और खयं हिम्मतखाँ मारा गया ( जनवरी सन् १६९६ ) । मुगलों की सेना भाग गई और उसका सामान मराठों के हाथ लगा ।

जुलफिकारखाँ ने जिंजी को घेर तो रक्खा था, पर वह अपने काम में बहुत सुस्ती करता था । औरंगजेब की उम्र ८० वर्ष की हो चुकी थी और उसके अधिक दिन जीने की आशा न थी । इसलिए वह दक्षिण में कदाचित् अपना कोई राज्य स्थापित करना चाहता था । सम्भवतः इसी विचार से उसने घेरे का काम बहुत दिनों तक चलाने का विचार किया; पर जब उसे इस बात का पता चला कि जिंजी के लेने का काम यदि शीघ्र समाप्त न होगा तो बादशाह मुझे वापस बुला लेगा, तब जुलफिकारखाँ ने अपना काम बड़े जोश से शुरू किया ।

राजाराम और उसके कारवारियों को अब चिन्ता उत्पन्न हुई । रामचन्द्र पन्त ने उन्हें महाराष्ट्र में आने को लिखा था । इसलिए अब उन्होंने महाराष्ट्र में ही वापस आने का निश्चय किया । मुगल सेना में कुछ मराठे सरदार थे । खंडोबहाल चिटनीस

ने अपने भाषण से उनका स्वदेशाभिमान जागृत किया और उनकी सहायता से राजाराम तथा कारवारियों को सुरक्षित महाराष्ट्र में जाने का अवसर मिला । इसके बाद सन् १६९८ में जुलफिकारखाँ ने जिंजी का किला लिया, पर मराठों के राजा और उसके कारवारियों के बच-

कर निकल जाने के कारण औरंगजेब का हेतु सिद्ध न हुआ।

इस समय मराठों की ओर एक बहुत बुरी घटना हुई।

धनाजी जाधव और सन्ताजी घोरपड़े के बीच कुछ वैमनस्य

उत्पन्न हो गया था, इस कारण एक बार

सन्ताजी व धनाजीका  
आगसी झगड़ा और  
सन्ताजी का बंध

धनाजी ने संताजी पर हमला कर दिया।

सन्ताजी अपनी जान बचाने के लिए माने

नामक घराने के आश्रय में पहुँचा, पर

वह वहाँ मारा गया। ( सन् १६९७ )।

राजाराम जिंजी से निकलकर सुरक्षित विशालगढ़ पहुँचा।

यहाँ आनेपर राज्य-व्यवस्था में उसने कुछ फेरफार किये। अब-

तक रायगढ़ ही मराठों की राजधानी

राज्य-व्यवस्था का  
नवीन प्रबन्ध

समझा जाता था। राजाराम ने अब

सातारा को राजधानी बनाया। धनाजी

जाधव सेनापति नियुक्त हुआ। रामचन्द्र पन्त को अमात्य का

पद दिया गया। संकराजी नारायण खाण्डेकर सचिव हुआ।

कान्होजी आंग्रि को जंगी वेड़े का सब अधिकार मिला। जिन-

जिन लोगों ने महत्वपूर्ण काम किये थे, उन्हें-उन्हें जागीरें दी गईं

और उनका उत्साह बढ़ाया गया।

सन् १६९९ की बरसात समाप्त होते ही राजाराम ने खान-

देश बरार की ओर बड़ा भारी हमला करने का विचार किया।

इसलिए उसने बहुत भारी फौज जमा

राजाराम का आग्वरी  
प्रयत्न और मृत्यु

की। इतनी बड़ी फौज पहले कभी न

हुई थी। राजाराम ने बादशाह की

घावनी पर हमला कर शाहू को मुक्त करने का प्रयत्न किया; पर



उस समय शाहू और वादशाह दोनों अपने डेरे में न थे, इसलिए राजाराम का प्रयत्न विफल हुआ। इसके बाद वह फौज उत्तर की ओर बढ़ी और कर की वसूली तथा मराठों की सत्ता स्थापित करती हुई वरार को गई। फिर वह जालना को आई। इस समय जुलफिकारखाँ ने मराठों पर हमला किया, पर वे किसी प्रकार बच कर चले ही आये। रास्ते में राजाराम बीमार हुआ। सिंहगढ़ पहुँचने तक उसकी बीमारी बहुत बढ़ गई और थोड़े ही दिनों के बाद, सन् १७०० के मार्च महीने की ३ री तारीख को, वहाँ उसकी मृत्यु हो गई।



राजाराम के मरनेपर भी मराठों ने अपना काम पहले जैसा ही जारी रखना। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ताराबाई ने अपने लड़के शिवाजी का गद्दी पर मराठों को दबाने की औरंगजेब की शक्ति विठलाया और स्वयं सब कारवार देखने लगी। औरंगजेब ने जब देखा कि मराठे दबने के बदले दिनोंदिन बलवान होते जाते हैं, तो उसने विचार किया कि उनके किले भी लेने चाहिए और लूटमार करने वालों पर अलग फौज भेजनी चाहिए। इस विचार से उसने जुलफिकारखाँ को कर्नाटक से बहुत जल्द वापस आने के लिए लिखा। औरंगजेब ने अपनी सेना के दो भाग किये और यह निश्चय किया कि एक भाग किले ले और दूसरा भाग लूटमार करने वालों को नष्ट करे। पहला काम उसने स्वयं अपने जिम्मे लिया और दूसरा आजमशाह के लड़के वेदरवक्ष और जुलफिकारखाँ को सौंपा।

सन् १६९५ से औरंगजेब की छावनी ब्रह्मपुरी में थी। वहाँ

से वह सन् १६९९ के अक्टूबर में किले लेने के लिए आगे बढ़ा। बहुत शीघ्र उसने वसन्तगढ़ नाम का औरंगजेब की आशा-वृद्धि किला ले लिया। फिर उसने सातारा किले का घेरा डाला। मराठों का अनुमान था कि वसन्तगढ़ को लेने पर औरंगजेब पन्हाला की ओर जावेगा, इसलिए उन्होंने सातारा किले में अच्छा बन्दोबस्त नहीं किया था, तथापि उन्होंने आजमशाह को चुपचाप अपनी ओर मिला लिया और उसकी सहायता से समय-समय पर आवश्यक अन्न-सामग्री किले में ले जा सके। इसी कारण वे क़रीब पांच महीने औरंगजेब की सेना का सामना करते रहे। अन्त में जब अन्न-सामग्री न मिली, तब मराठों ने किला मुग़लों के हवाले कर दिया। इस घटना के केवल एक महीने बाद राजाराम की मृत्यु हुई। इन सब बातों से औरंगजेब की आशा बढ़ी और उसे ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब मेरा प्रयत्न सफल होगा।

सातारा लेने पर औरंगजेब ने परली को घेरा और दो महीने में उसे ले लिया। इसके बाद बरसात शुरू हुई। इससे पहाड़ी भाग में उसकी सेना की दुर्दशा होने लगी। औरंगजेब की भेदनीति; उसकी प्रारम्भिक विजय पर मराठों की लट्ठमार का जारी रहना इसलिए वे मैदान में छावनी डालने के विचार से वहाँ से चलने लगे। पर कृष्णा नदी की बाढ़ से उनके सैकड़ों लोग नष्ट हुए। इन कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए उसने मान नदी के किनारे खवासपुर में छावनी की। यहाँ उसने फौज का ठीक-ठीक बन्दोबस्त किया। बरसात समाप्त होने पर पन्हाला को उसने घेरा और सन् १७०१ के मई महीने में उसे ले लिया। इसके बाद

## मराठों का उत्थान और पतन

पूरे पाँच वर्ष तक औरंगजेब इसी प्रकार किले लेने का सपाटा चलाता रहा। वर्धनगढ़, नन्दगिरी, चन्दनचन्दन, विशालगढ़, बहादुरगढ़, राजगढ़ तीरणा, पुरन्दर आदि किले उसने ले लिये। इसके साथ ही औरंगजेब ने अपनी भेद-नीति का प्रयोग किया। उसने कुछ ऐसी जाली चिट्ठियाँ बनवाई कि जिससे एक दूसरे को मराठे सरदारों का मुगलों से मिलने का संशय हो। उसका यह प्रयत्न भी बहुत कुछ सफल हुआ। इसी कारण तारावाई और रामचन्द्र पंत में अनबन शुरू हो गई। तारावाई का विश्वास परशुराम चिम्बक पर विशेष था। इस समय तक कई पुराने पुरुष मर चुके थे। धनाजी जाधव, रामचन्द्र पन्त, परशुराम चिम्बक और संकराजी नारायण ही मुख्य पुरुष थे। परन्तु इनमें भी पर्याप्त मेल नहीं था। इस बात का पता औरंगजेब को लग गया। इसलिए उसने वेदरवख्श और जुलफिकारखाँ को सन्देशा भेजा कि मराठों को साफ़ करने का मौक़ा यही है। यह बात तो ठीक है कि इस समय मराठों में भरपूर मेल नहीं था, परन्तु अब भी थोड़ा-बहुत पुराना जोश बना हुआ था। तारावाई ने इस समय लोगों को खूब उत्तेजित किया। सन् १७०२ में मराठों ने सूरत और बुरहानपुर से बहुत भारी कर वसूल किया। सन् १७०५ में मराठों ने नर्मदा नदी पार कर मालवे में चढ़ाई की और वहाँ भी कर वसूल किया। इसपर औरंगजेब ने जुलफिकारखाँ को मालवा में भेजा और बरार व गुजरात का भी बन्दोबस्त किया। पर मराठे इससे कहाँ दबते थे? मुग़ल फौज के आते ही वे तितर-बितर हो जाते, पर उसके कुछ दूर होते ही एकत्र होते और कर का अपना काम किया करते थे। मराठों की सफलता का



मराठों का उत्थान और पतन

अत्यन्त परिश्रम से लिये हुए किलों को मराठों ने वापस लेने की शुरुआत की। रामचन्द्र पन्त ने पन्हाला और पावनगढ़ लिये, परशुराम त्रिम्बक ने वसन्तगढ़ और सातारा के जिले जीते, संकराजी नारायण ने सिंहगढ़, रायगढ़ और रोहिड़ा के किले ले लिये। वाकिमखेड़ा लेते-लेते औरंगजेब तंग हो चुका था। बहुत परिश्रम करके लिये हुए किले मराठों के हाथ वापस जाने की खबर पाकर उसे बहुत दुःख हुआ। वह बीमार पड़ा और अहमदनगर को वापस आया। वहाँ सन् १७०७ के फरवरी की २० वी तारीख को उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार मराठों को जीतने का उसका सारा प्रयत्न विफल हुआ।



अपने राज्य में वापस जाने दें, जिससे वहाँ पर तारावाई के लड़के शिवाजी और उसके बीच राज्य के लिये भगाड़े उठ खड़े हों। आजमशाह ने उसकी सलाह मानली और शाहू को दक्षिण जाने के लिए स्वतंत्र कर दिया। शाहू वहाँ से मुक्त होकर दक्षिण की ओर बढ़ा। रास्ते में सबसे पहले नन्दुरवार के आस-पास के पहाड़ी प्रदेश का अधिकारी मोहनसिंह उससे मिला। फिर अमृतराव कदमवाडे उसकी ओर आया। तदनन्तर वरार का परशोजी भोंसले और खानदेश का चिमणाजी दामोदर मोघे उससे मिले। इन बड़े-बड़े सरदारों के मिलने पर कई छोटे-मोटे लोग भी शाहू के पक्ष में शामिल हुए। इस प्रकार उसकी सेना अच्छी बढ़ गई। गोदावरी के पास पहुँचने पर उसने अपने आने की खबर तारावाई को भेजी। पर तारावाई को यह ठीक न लगा। वह कार्यशील और महत्वाकांक्षिणी स्त्री थी। उसने सोचा कि मेरे पति ने ही मराठा-राज्य को किसी प्रकार बचाया और यह शाहू इस बने बनाये राज्य को लेने आ रहा है। इसलिए उसने उसे राज्य न मिलने देने का निश्चय किया। उसने पहले तो यह अफवाह उड़ाई कि यह सच्चा शाहू नहीं है। फिर उसने कारवारियों को इकट्ठा कर शाहू को राज्य न मिलने देने का निश्चय प्रकट किया। किलेदारों और सूबे के अमलदारों को उसने हुक्म भेजा कि शाहू को किसी प्रकार की मदद न दो। फिर, उसने सेनापति धनाजी जाधव और प्रतिनिधि परशुराम त्रिम्बक को सेना देकर शाहू को हरा देने के लिए भेजा। सेना के साथ खण्डो वल्लाल चिटनीस भी था।

शाहू को जब ये बातें मालूम हुईं तब उसने भी निश्चय





सेना लेकर कोल्हापुर की ओर गया। ताराबाई उस समय पन्हाला किले में थी। शाहू के आने की खबर पाकर वह राँगणा किले को चली गई। पन्हाला किले को लेकर शाहू ने राँगणा किले पर हमला किया, पर इस समय वह इस कार्य में सफल न हुआ और वापस लौटा। रास्ते में, १७१० के जून में, धनाजी जाधव की मृत्यु हो गई।

धनाजी की मृत्यु से शाहू और ताराबाई का झगड़ा और अधिक बढ़ा, क्योंकि शाहू का पक्ष बहुत कमजोर हो चुका था।

धनाजी की मृत्यु और  
बाबाजी विश्वनाथ  
का उदय

कुछ समय तक तो ऐसा जान पड़ा कि उसका पूर्ण विनाश हो जायगा, पर उसके सौभाग्य से एक बहुत उपयोगी पुरुष उसे मिल गया। बालाजी विश्वनाथ

भट्ट उसका नाम था। यही आगे चलकर शाहू का प्रसिद्ध पेशवा हुआ। यह सम्भव: १६७९ में कोंकण से 'देश' में आया था। अपनी योग्यता से बढ़ते-बढ़ते सन् १७०७ में यह दौलताबाद का सरसूवेदार हो गया था। धनाजी जाधव और शाहू का मेल होने में इसका बहुत भाग था। चिमनाजी दामोदर मोघे और बालाजी की अच्छी मैत्री थी। मोघे के शाहू से मिलने पर उसने धनाजी को शाहू से मिलने के लिए आम्रह किया, और धनाजी ने उसका कहना मान लिया। आगे सातारा की गद्दी पर बैठने पर शाहू ने धनाजी को सेनापति-पद के साथ वसूली का काम भी सौंपा। धनाजी ने वसूली का काम बालाजी पर छोड़ दिया। यह काम बालाजी ने इतनी योग्यता से किया कि धनाजी और शाहू दोनों उससे बहुत खुश हुए। धनाजी की मृत्यु के बाद



इस प्रकार बहुत-से सरदार शाहू को छोड़ चुके थे। ऐसे समय में बालाजी ने नई सेना खड़ी की। शाहू ने उसे सेनापति का पद दिया और २५ लाख की जागीर तरावाई और उसका लड़का शिवाजी केंद्र में दी। इस समय तारावाई का पक्ष बलवान हो चुका था और वह शाहू को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। इस संकट से बचने के लिए बालाजी और शाहू ने युक्ति सोची। राजाराम की तारावाई और राजसवाई नाम की दो स्त्रियाँ थीं। तारावाई और शिवाजी ने ही महाराष्ट्र का दक्षिणी राज्य अपने कब्जे में कर रक्खा था, इसीलिए राजसवाई और उसका लड़का सम्भाजी उनसे असन्तुष्ट थे। शाहू ने राजसवाई को यह सूचना की कि तारावाई को कैद में डाल दो, उसके लड़के शिवाजी को पागल ठहराकर कारागार में बन्द कर दो; और अपने लड़के सम्भाजी को गद्दी पर बैठाकर राजकारवार चलाओ; इस काम में मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। अपने लड़के को गद्दी मिलने की आशा से राजसवाई को बड़ा आनन्द हुआ और वह शाहू के कहने के मुताबिक करने को तैयार हो गई। कुछ लोगों की सहायता से तारावाई और शिवाजी को पन्हाला में कैद कर सन् १७१२ में सम्भाजी राजा बन बैठा। इस प्रकार तारावाई का पक्ष नष्ट हो गया और घरेलू झगड़ा समाप्त हुआ। शिवाजी चौदह वर्ष के बाद सन् १७२६ में कैद में ही मरा। इसके एक लड़के सम्भाजी को इस नये राजा सम्भाजी ने पकड़कर मार डाला, पर रामराजा नामक एक लड़के को तारावाई ने किसी प्रकार बचा लिया। यही रामराजा शाहू की मृत्यु के बाद सातारा का राजा हुआ।

तारावाई के पक्ष का पतन तो हुआ, पर मराठे सरदार स्वतंत्र बन बैठे थे। वे शाहू की सत्ता मानते न थे। इसलिए शाहू देश की अशान्ति दूर कर अपना अधिकार खटावकर और आँध्र का जमा लेने का प्रयत्न करना पड़ा। इसी प्रयत्न में धोखे से बालाजी दामाजी थोरात की कैद में पड़ गया। शाहू ने बहुत-सा धन देकर उसे छुड़वाया, पर थोरात को दवाने का काम वह तुरन्त न कर सका। क्योंकि मान देश में कृष्णराव खटावकर ने और कोंकण में कान्होजी आँध्रे ने गड़बड़ मचा रखी थी। शाहू ने खटावकर के विरुद्ध बालाजी को और आँध्रे के विरुद्ध पेशवा बहिरोपंत पिंगले को भेजा। बालाजी और खटावकर के बीच आँध्र के पास भारी लड़ाई हुई। इसमें खटावकर हार गया। इस लड़ाई में परशुराम पंत के लड़के श्रीपतराव ने बड़ा पराक्रम दिखाया था, इसलिए परशुराम को बंधन-मुक्त कर शाहू ने उसे फिर से प्रतिनिधि-पद पर आसीन किया। आँध्रे और पिंगले के युद्ध में कुछ भिन्न ही परिणाम हुआ। कान्होजी आँध्रे ने बहिरोपंत को हराकर कैद कर लिया और लोहगढ़ व राजमाजी नाम के किले ले लिये। फिर वह भी अप्रवाह फैली कि वह सातारा पर हमला करना चाहता है।

इस समय बालाजी खटावकर को हराकर वापस आ चुका था। उसने सोचा कि कान्होजी आँध्रे बलवान सरदार है, इसलिए मेल की बातें करके ही उसे अपने पक्ष में मिलाना चाहिए। बालाजी ने कान्होजी को उसके पूर्वजों की की हुई सेवाओं की याद दिलाई। इसपर कान्होजी मेल करने

को तैयार हो गया । बालाजी के कहने से शाह ने २६ किले, जंगी बेड़े का अधिकार और सरखेल-पद उसे दिया । कान्होजी ने शाह का स्वामित्व स्वीकार किया, बहिरोपन्त को छोड़ दिया और राजमाजी के सिवा शेष किले वापस कर दिये । ऐसी भारी विजय प्राप्त कर बालाजी सातारा को वापस आया । शाह ने सन्मान-पूर्वक उसका स्वागत किया और बहिरोपन्त की जगह उसे पेशवा नियत किया ।

अब बालाजी को जो पहला काम करना पड़ा, वह राज्य की व्यवस्था का था । राजाराम के समय औरंगजेब ने महाराष्ट्र को अपने कब्जे कर डाला तब मराठे मराठे सरदारों की विद्रोही प्रवृत्ति और निजामुलमुल्क सरदारों ने सारे देश में दंगा-फिसाद मचाकर और लूटमार करके मुगलों का अधिकार न जमने देने का उपाय किया था । तबसे उनकी यह आदत बेरोकटोक चली आ रही थी । अब इस बात की आवश्यकता जान पड़ी कि देश में लूटमार और दंगे-फिसाद बंद हों । पर यह काम सरल न था । यह कठिनाई दक्षिण के सूबेदार निजामुलमुल्क के कारण और भी बढ़ गई थी । यहाँ पर यह बतलाना आवश्यक है कि यह निजामुलमुल्क कौन था । सन् १७०७ में औरंगजेब के लड़के आजम और मुअज्जम के बीच तख्त के लिए लड़ाई हुई । उसमें आजम हार गया और मुअज्जम बहादुर-शाह नाम से बादशाह हुआ । आजम लड़ाई में मारा गया और जुलफिकारखाँ मुअज्जम से मिल गया तथा उसका वजीर नियुक्त हुआ । जुलफिकारखाँ के एवजी दाऊदखाँ पन्नी के हाथ में दक्षिण के ६ सूबों की व्यवस्था थी । बहादुरशाह की मृत्यु के बाद सैयद

अब्दुल्ला और सैयदहुसेन नाम के दो भाइयों ने फर्रुखसियर को गद्दी पर बिठलाया। इस काम में चिंकलीजख्ताँ नामक सरदार ने बड़ी मदद की थी। यही आग चलकर निजामुलमुल्क नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी मदद के लिए सैयदबन्धुओं ने उसे दक्षिण का सूबेदार नियत किया और दाऊदख्ताँ पत्नी को गुजरात में भेज दिया। निजामुलमुल्क बड़ा धूर्त पुरुष था। उसने देखा कि मराठा-राज्य में आपसी भगड़े चले हुए हैं, वहाँ के सरदारों को दंगे-फिरसाद और लूटमार करने की आदत पड़ी हुई है, और वे किसी का अधिकार नहीं मानते। इस परिस्थिति से लाभ उठाकर निजामुलमुल्क ने अपनी सत्ता दृढ़ करने का प्रयत्न किया। तारावाई के पक्ष के पतन के बाद चन्द्रसेन जाधव को भालकी के पास २५-लाख की जागीर देने का लालच दिखलाया और उसे अपने वश में कर लिया। इस प्रकार मराठों का एक बड़ा भारी सरदार मुगलों का मातहत बन गया। रम्भाजी निम्बालकर नाम का एक बड़ा पराक्रमी सरदार था। उसे अपने वश में करके निजामुलमुल्क ने पूना-प्रान्त पर हमला कर दिया। बालाजी विश्वनाथ और हैबतराव निम्बालकर की सेना को पुरन्दर के पास हराकर भगा दिया और पूना-प्रान्त अपने कब्जे में कर लिया।

फिर उसने रम्भाजी को रावरम्भा का खिताब देकर पूना-प्रान्त में जागीर दी। हैबतराव निम्बालकर के मरने पर उसका लड़का भी निजामुलमुल्क के पदुत्र में फँस गया और वारशी के पास एक बड़ी भारी जागीर लेकर मुगलों का नौकर बन गया। इस प्रकार भिन्न-भिन्न मराठे सरदारों को फुसलाकर

मराठे सरदारों के  
विद्रोह की शान्ति

निजामुलमुल्क ने अपने मनसबदार बना डाला और मराठा-राज्य के पुरजे-पुरजे ढीले कर डाले । अब तो ऐसा जान पड़ने लगा कि मराठा-राज्य के टुकड़े-टुकड़े हो जावेंगे, परन्तु सुदैव से थोड़े ही दिनों के भीतर निजामुलमुल्क को सन् १७१५ के अप्रैल में दक्षिण की सूबेदारी छोड़ कर जाना पड़ा । इस समय बालाजी विश्वनाथ ने बड़ी चतुरता दिखलाकर मराठे सरदारों में मेल उत्पन्न किया और मराठा-राज्य को नष्ट होने से बचा लिया । यह कार्य जागीरदारी-प्रथा से सम्पन्न हुआ । यह देख चुके हैं कि शिवाजी इस प्रथा के विरुद्ध था, पर इस समय इसके सिवा बचाव का कोई दूसरा उपाय न था । मराठा-राज्य में ऐक्य उत्पन्न करने के लिए बालाजी ने एक-एक सरदार को जागीर दे डाली । यह निश्चय हुआ कि सरदार अपनी-अपनी जागीर में कर की वसूली करें, न्याय-कार्य करें और शान्ति रखें । छत्रपति और उनके मुख्य प्रधानों के हुक्म के सिवा वे पर-राष्ट्रों से लड़ाई अथवा सुलह न करें । निश्चित किया हुआ कर सरकार में चुकावें और अपनी जागीर के हिसाब सरकारी दरखदारों ( हिसाब-परीक्षक ) को जाँचने दें । इन शर्तों को सरदारों ने खुशी से मान लिया । जागीरें मिलने से उनको बड़ा आनन्द हुआ । कई सरदारों की जागीरें मुग़ल सल्तनत में मिली थीं । इस कारण वहाँ उन्होंने अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न किया । अगले चालीस साल में इसीलिए मराठों का राज्य बहुत जोरों से बढ़ा । मराठे सरदारों में ऐक्य रखने के लिए बालाजी विश्वनाथ ने एक और बात भी की । महाराष्ट्र में मुख्य सत्ता की हद्द के भीतर प्रत्येक सरदार को वतन या इनाम दिया गया । इस वतन का वे बड़ा अभिमान करते







दोनों का युद्ध हुआ और उसमें दाऊदखाँ मारा गया (सन् १७१५) तथा हुसेनअली निर्विघ्न दक्षिण पहुँचा। हुसेनअली ने सूरत से बुरहानपुर तक मुगल प्रदेश का वन्दोवस्त करना चाहा; पर गुजरात में खण्डेराव दाभाड़े कर वसूल करता था, इसलिए उसने जुलफिकारवेग नामक सरदार को सेना देकर दाभाड़े पर हमला करने के लिए भेजा। इस युद्ध में जुलफिकारवेग मारा गया और मुगलों की हार हुई। इसके बाद हुसेनअली ने चन्द्रसेन जाधव और मौकूबसिंह को दाभाड़े से लड़ने के लिए भेजा। दोनों पक्षों की मुठभेड़ अहमदनगर के पास हुई। इसमें भी दाभाड़े की जीत रही। मराठों ने अब दक्षिण के छः सूबों में चौथ और सरदेशमुखी वसूल करना शुरू कर दिया।

उधर फ़ारुखसियर दोनों भाइयों को नष्ट करने का प्रयत्न कर ही रहा था। इसलिए उन्होंने सोचा कि मराठों से मेल

रखना लाभदायक होगा। तब उसने मराठों से सन्धि करली। सन्धि की शर्तें ये थीं—

वरार, खानदेश, औरंगाबाद, बेदर, बीजा-

पुर और हैदराबाद नाम के छः सूबों में तथा त्रिचनापल्ली, तंजोर और मैसूर के सांडलिक राज्यों में चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार मराठों को रहे। खानदेश के सिवाय शिवाजी का जीता हुआ सब मुल्क यानी स्वराज्य मराठों को वापस दिया जाय। शिवनेरी और त्रिम्बक के किले भी मराठों को दिये जायें। परसोजी के लड़के कान्होजी भोंसले ने वरार और गोंडवन में जो मुल्क जीता था वह मराठों के कब्जे में रहे और शाहू के रिश्तेदार दिल्ली से मुक्त कर दिये जायें। शाहू ने अपनी और

मराठों और मुगलों के बीच सन्धि



में गद्दी पर विठलाया। इन राजक्रान्तियों के समय मराठा-सेना वहीं थी। फर्खसियर को कैद करने के पहले सैयद-पन्न और बादशाह-पन्न के बीच दिल्ली में लड़ाई हुई। उसमें मराठों के १५०० सैनिक, सन्ताजी भोंसले तथा वालाजी महादेव भानू मारे गये। आगे शान्ति स्थापित होने पर सन्धि के अनुसार सैयदों ने कौज का खर्च तथा सनदें वालाजी के सुपुर्द कीं।

वालाजी को तीन सनदें प्राप्त हुई थीं। एक दक्षिण के छः सूबों की चौथाई की थी, दूसरी इन छः सूबों की सरदेशमुखी की थी, और तीसरा स्वराज्य की थी। इस प्रकार ये सूबाई तथा क़ैद में रहे हुए अन्य लोगों को साथ लेकर सन

मुगल दरबार से तीन महत्वपूर्ण सनदें

१७१९ के वर्षा-काल के आरम्भ में वालाजी सातारा को पहुँचा।

इसके बाद वालाजी ने लगान-वसूली का बन्दोबस्त फिर से ठीक-ठीक किया और उसके नियम निश्चित कर दिये। वे ये थे—

वालाजी विश्वनाथ की मुस्की व्यवस्था

(१) सरदेशमुखी की आमदनी राजा का वतन कहलावेगी, इसपर गद्दी के मालिक के सिवाय और किसी का हक न होगा।

(२) शेष आय स्वराज्य कहलावेगी; इसमें से (क) २५ सैकड़ा राजा की होगी, इसे राजदावती कहेंगे, (ख) शेष ७५ सैकड़ा मोवासा कहलावेगी, इसमें से सहोत्रा यानी स्वराज्य का छः सैकड़ा पंत-सचिव का होगा, (ग) शेष ६९ ऐन मोवासा कहलावेगी, इसमें से नाड़गौड़ा (यानी स्वराज्य के उत्पन्न में से तीन सैकड़ा) राजा इच्छानुसार चाहे जिसको दे सकेगा, और (घ) शेष ६६ सैकड़ा में से सरदारों को जागीरें दी जावेंगी।





## “ मूले कुठारः ” की नीति

वालाजी विश्वनाथ के दो लड़के थे। वाजीराव बड़ा था और चिमनाजी अप्पा छोटा। दोनों वीर थे; और बचुपा वालाजी के साथ रहा करते थे, इस कारण राज-कार्य का ज्ञान भी उन्हें अच्छी तरह हो गया था। शाहू ने वाजीराव की योग्यता पहले ही देखली थी। इस कारण वालाजी की मृत्यु के बाद वाजीराव को ही उसने अपना पेशवा बनाया। पेशवाई पाने पर वाजीराव ने खानदेश पर चढ़ाई की और मुगलों के मुल्क की सौध न देनेवाले शौजदारों को दबाया। दो-तीन वर्ष के भीतर उसने मालवा पर तीन चढ़ाइयाँ कीं। वह बड़ा वीर और साहसी पुरुष था। इस कारण मराठे शिलेदारों पर उसकी धाक जम गई और वे उसके कहे अनुसार चलने लगे।

वाजीराव बड़ा सहत्वाकांक्षी पुरुष था। वालाजी विश्वनाथ

मराठों का उत्थान और पतन

ने मराठों की दृष्टि उत्तर की ओर फेर ही दी थी। बाजीराव भी उधर ही अपने पराक्रम दिखलाना चाहता था। अतः उसने अपनी नीति पहले से ही निश्चित करली थी। शाहू के दरबार में एक दिन इसी विषय पर प्रश्न छिड़ा, तो उसने इसी नीति का प्रतिपालन किया और कहा—महाराज यदि आज्ञा दें तो मैं दिल्ली जाकर वहाँ के पुराने वृद्ध पर ही घाव लगाऊँगा; मूल के नष्ट होने पर शाखायें अपने आप नष्ट हो जायँगी। इन शब्दों में बाजीराव की महत्वाकांक्षा तथा राजनीति दोनों सम्मिलित हैं।

बाजीराव के कार्यों का वर्णन करने के पहले हमें यह देख लेना चाहिये कि मुगल राज्य में क्या-क्या परिवर्तन हुए। हम यह देख चुके हैं कि सन् १७१९ में रोशनअरख्तार मुहम्मदशाह नाम से दिल्ली का बादशाह हुआ। यह भी सैयद-वन्धुओं को न चाहता था। निजामुलमुल्क और सैयदों में भी न पटो। उसने सैयदों की एक फौज को लड़ाई में हरा दिया। फिर मुहम्मदशाह ने छल से हुसेनअली का खून करवा डाला और उसके भाई को लड़ाई में हरा दिया। अब निजामुलमुल्क बिना किसी विघ्न के दक्षिण का सूबेदार बन बैठा। फिर सन् १७२१ में बादशाह ने उसे अपना वजीर बनाया, पर एक साल तक वह अपने सूबे की व्यवस्था करने में ही लगा रहा। सन् १७२२ में वह दिल्ली गया, पर शीघ्र ही उसके और बादशाह के बीच अनबन हो गई। उसने वजीरी का काम छोड़ दिया और वकील-

ई-मुतालिक की पदवी धारण कर दिल्ली में रहने लगा। समय पाकर एक दिन वह शिकार का वहाना कर दक्षिण के लिए खाना हुआ। मुहम्मदशाह को जब यह खबर लगी, तो उसने गुप्त रीति से हैदराबाद के कोतवाल मुबारिकख़ाँ को निजामुलमुल्क का नाश करने के लिए लिखा; पर कोतवाल लड़ाई में मारा गया। इस प्रकार निजामुलमुल्क सन् १७२४ में अपनी सूबेदारी में सकुशल वापस पहुँचा।

दक्षिण में उसे मराठों से काम पड़ा। वहाँ के छः सूबों की चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का हक मराठों को मिल चुका था और वे उन्हें वसूल करते थे। इस कारण उस मुल्क में मराठों की धाक जम गई थी। उसे दूर कर निजामुल-मुल्क अपने विभाग को पूर्ण स्वतंत्र करना चाहता था। इस विचार से उसने पहला काम यह किया कि अपनी राजधानी औरंगाबाद से हैदराबाद को बदल दी। फिर उसने चाहा कि मराठों से ऐसी संधि की जाय कि वे हैदराबाद के आसपास कर वसूल न करें। सन् १७२६ में वाजीराव फर्नाटक गया था। निजामुलमुल्क को अपने कार्य के लिए वह अच्छी सन्धि जान पड़ी और उसने अपना काम बड़ी हिकमत के साथ किया। इस समय शाह के पास श्रीपदराव प्रतिनिधि ही भेजा देने के लिए था और यह पुरुष वाजीराव से ईर्ष्या किया करता था। निजाम ने प्रतिनिधि को दरार में जागीर देकर खुश कर लिया। हम यह बता ही चुके हैं कि निजाम ने रावदशा



## मराठों का उत्थान और पतन

निम्बालकर को पूना-प्रांत में जागीर दी थी। शाहू को खुश करने के लिए उसने निम्बालकर को अब करमाला के पास नई जागीर दी और पूना-प्रान्त में मराठा-सत्ता स्थापित कर दी। फिर उसने प्रतिनिधि के जरिये शाहू से यह सन्धि की कि शाहू हैदराबाद के सूबे की चौथ और सरदेशमुखी का हक छोड़ दे, चौथ के बदले निजाम उसे निश्चित रकम दे और सरदेशमुखी के बदले इन्दापुर के पास जागीर दे। वाजीराव को यह संधि पसन्द न आई और उसका व प्रतिनिधि का झगड़ा हुआ। निजाम को जब यह बात मालूम हुई, तब उसने मराठों की इस आपसी अनबन को अधिक बढ़ाने का विचार किया और कोल्हापुर के सम्भाजी को अपनी ओर मिला लिया। निजाम को अब यह पूर्ण आशा हुई कि चन्द्रसेन जाधव, रावरम्भा निम्बालकर और कोल्हापुर के सम्भाजी की सहायता से मैं सरलता-पूर्वक वाजीराव की खबर ले सकूँगा। इसलिए उसने शाहू के कर वसूल करने वाले कर्मचारियों को खदेड़ बाहर किया और उसे ऐसा सन्देश भेजा कि केवल तुम्हारे ही आदमी नहीं बल्कि कोल्हापुर के सम्भाजी के आदमी भी वसूली के लिए आते हैं; इसलिए पहले यह निश्चित हो जाना चाहिए कि तुममें से सच्चा हकदार कौन है, तब मैं सच्चे हकदार को वसूली का काम करने दूँगा। इस प्रकार मराठों के आपसी झगड़े से लाभ उठाकर वह उनके चौथ और सरदेशमुखी के हक साफ नष्ट करना चाहता था।

निजाम का सन्देश सुनकर शाहू को बड़ा क्रोध आया। वाजीराव तो पहले ही उससे जलता था। वाजीराव फौज लेकर



यह नौकरी छोड़कर वह वाजीराव का निजी खिदमतगार हो गया। वह अपना काम बड़ी ईमानदारी से किया करता था, इससे वाजीराव उसपर सदैव प्रसन्न रहा-करता था।

होलकर-घराने के लोग नीरा नदी के किनारे जेजुरी के पास के होल नामक गाँव के रहनेवाले थे। इस घराने का प्रथम प्रसिद्ध पुरुष मल्हारराव हुआ। यह पहले भेड़ें चराया करता था, पर बाद में किलेदार का काम करने लगा था। इस काम में उसने वाजीराव की मालवा की चढ़ाइयों के समय अच्छा पराक्रम दिखलाया। इस कारण बढ़ते-बढ़ते पाँच हजार सैनिकों का सेनापति हो गया और मल्हारजी के बड़े मल्हारराव होलकर कहलाने लगा। इसी मल्हारराव ने उत्तर-हिन्दुस्थान में एकवार चढ़ाई करते समय राणोजी शिन्दे को एक पागा का मुखिया बना दिया। अब राणोजी शिन्दे की बढ़ती शुरु हुई और धीरे-धीरे वह होलकर के बराबरी का सरदार बन गया। इस प्रकार ये दो प्रसिद्ध घराने मराठों के बड़े भारी सरदार बन बैठे।

इसी काल के लगभग एक तीसरे घराने का उदय हुआ। इसका नाम गायकवाड़ है। यह बतला चुके हैं कि बालाजी विश्वनाथ ने खंडेराव दाभाड़े को वागलान की जागीर देकर यह आश्रवासन दिया था कि यदि तुम गुजरात जीतोगे तो वह भी तुम्हें जागीर में दे दिया जायगा। खंडेराव दाभाड़े ने गुजरात में कर वसूल करना शुरू किया। सैयद हुसेनी ने उसे दवाने का दो बार प्रयत्न किया, परन्तु दोनों बार दाभाड़े की विजय हुई। शाहू उससे बहुत खुश हुआ और उसे सेनापति का पद दिया। दमाजी गायकवाड़ इसी



देखकर पिलाजी गायकवाड़ भी उसी पक्ष में जा मिला और रुस्तमअली लड़ाई में मारा गया । इस प्रकार गुजरात में सरबुलन्दख़ाँ के एवज़ियों को मारकर हमीदख़ाँ बना रहा । आगे चलकर वाँडे और गायकवाड़ के बीच चौथ के सम्बन्ध में झगड़े होने लगे । इसलिए हमीदख़ाँ ने यह निश्चय कर दिया कि मही नदी के पश्चिम में वाँडे चौथ की वसूली करे और उसके पूर्व की ओर दाभाड़े का हक़ रहे ।

सरबुलन्दख़ाँ के एवज़ियों की यह दुर्दशा देखकर बादशाह ने बुलन्दख़ाँ को गुजरात में जाने के लिए बार-बार कहा, तब कहीं वह अहमदाबाद को आया । अब वाजीराव ने गुजरात में सरदेशमुखी के हक़ प्राप्त किये हमीदख़ाँ छिपे छिपे ही कर वसूल किया करता था । वाँडे और दाभाड़े भी यह काम किया करते थे । इस कारण सरबुलन्दख़ाँ का अधिकार वहाँ ठीक-ठीक जमता न था । सरबुलन्दख़ाँ ने बादशाह से मदद माँगी, पर उसे मिली नहीं । तब वाजीराव ने सरबुलन्दख़ाँ को यह संदेश भेजा कि दक्षिण के समान गुजरात में भी यदि तुम चौथ वसूल करने का हक़ हमें दो तो हम वहाँ का बन्दोबस्त करने को तैयार हैं । दिल्ली से मदद मिलने की आशा से सरबुलन्दख़ाँ वाजीराव का कहना न मानता था । इसलिए चिमनाजी अप्पा सन् १७३० में गुजरात में घुसा और कर वसूल करने लगा । अंत में सरबुलन्दख़ाँ को वाजीराव से संधि करनी पड़ी । उसने सूरत शहर को छोड़कर शेष गुजरात की चौथ-सरदेशमुखी के हक़ मराठों को दे दिये । अहमदाबाद की आमदनी पर उन्हें केवल पाँच सैकड़ा मिलना निश्चित हुआ ।

बाजीराव ने यह वादा किया कि २५०० घुड़सवार गुजरात में रखकर मैं उसका बन्दोबस्त करूँगा और पिलाजी गायकवाड़ को गड़बड़ न मचाने दूँगा। इस प्रकार गुजरात में भी मराठों के पैर जम गये।

हम पहले एक जगह बता चुके हैं कि उदाजी पँवार मालवा में लूटमार किया करता था। सन् १६९८ में उसने मारडवगढ़ में अपना डेरा जमाया और कुछ मालवा में मराठों का धाक समय तक वह मालवा में खैर-बखार करता रहा। आगे जब बालाजी विश्वनाथ ने जागीरदारी की प्रथा जारी की, तब मालवा को जीतने की शर्त पर यहाँ की जागीर उन्हें मिली। थोड़े ही समय में उदाजी ने धार में अपना अधिकार जमाया और मालवा को अपने हाथ में लाने का प्रयत्न शुरू किया। इसी प्रकार मल्हारराव होलकर ने भी मालवा में बर बमूल करना शुरू किया। सन् १७२६ और १७२४ में बाजीराव ने मालवा पर दो भारी चढ़ाइयाँ कीं और वहाँ पर अपनी धाक जमा ली। इसी समय निजामुलमुल्क एह्लिण में स्वतंत्र बन बैठा था। इसलिए बादशाह ने उसके बजाय राजा गिरिधर को मालवा का सूबेदार नियत किया। इस नागर ब्राह्मण ने मुगलों का अधिकार वहाँ अच्छी तरह जमाना चाहा और मराठों को वहाँ से निकाल बाहर करने की सोची। उस समय इन्दौर का जर्नीदार नन्दलाल मंटलोई था और वह मराठों का हितचिन्तक था। जयपुर का राजा स्वर्दा उपस्थित पहले गिरिधर का महायक था; पर जब वह मराठों के विरुद्ध हो गया, तो उसे यह टीका न लगा। स्वर्दा अगिला हिन्दू-धर्म की रक्षा कर बाजीराव की मदद करना चाहता



परन्तु इससे पहले ही यानी सन् १७२५ में पेशवा ने शिन्दे, होलकर और पेंवार की मालवा में स्थापना कर दी थी और वहाँ की आस-पानी इन लोगों में बाँट दी थी कि इन मराठे सरदारों ने अपने पर मालवा में किस तरह जमा लिये, यह आगे देखेंगे।

मराठे जब मालवा में अपनी सत्ता स्थापित कर रहे थे उस समय बुन्देलखण्ड के बुन्देल राजपूत अपने पराक्रम से पहले खोया हुआ अपना मुल्क वापस ले रहे थे।

गजेन्द्र मोक्ष

मुहम्मदशाह ने दोनों को दवाने का प्रयत्न किया, पर बुन्देलों की ओर उसने प्रथम दृष्टि दी। इस समय इलाहाबाद का सूबेदार मुहम्मदग्यों वंगश नामक वीर पठान था। बुन्देलों को दवाने का काम बादशाह ने इसके सुपुत्र किया। उसे यह काम पसन्द भी आया। क्योंकि उसका इलाहाबाद का मुल्का बुन्देलखण्ड से लगा हुआ था और बुन्देलों ने उसका कुछ हिस्सा जीत लिया था। इसलिए मुहम्मद वंगश ने तुरन्त बुन्देलखण्ड पर चढ़ाई कर दी। इस समय बुन्देलखण्ड का राजा प्रसिद्ध वीर छत्रसाल था, पर अब वह बूढ़ा हो गया था। इस कारण मुहम्मद वंगश अपना कार्य जोरों से करने लगा। वह देख छत्रसाल को अपने राज्य की रक्षा की बड़ी चिन्ता हुई। अंत में उसने बाजीराव पेशवा को सहायता के लिए एक छत्रोद्वेष्टि भित्री लिखी। उसका स्वर उसके एक दोहे में दीख पड़ता है।

जो गति ग्राह गजेन्द्र की, सो गति भई है आजः—

घाजी जात बुन्देल की, राखो वाजी लाज ॥

एक पाकर बाजीराव ने बहुत शीघ्र बड़ी भारी सेना और कई सौ सरदार साथ लेकर उत्तर की ओर बृच किया। मुहम्मद



मराठों का उत्थान और पतन

बंगश की सेना से उसकी १२ मार्च १७३० को जैतपुर के पास भारी लड़ाई हुई। मराठों ने मुसलमानों को तितर-बितर कर दिया और बंगश जैतपुर के किले में जा छिपा। मराठों ने इस किले पर घेरा डाला और बंगश को रसद वगैरा मिलना बन्द कर दिया। कोई उपाय न देख मुहम्मद बंगश वहाँ से भाग गया और किला मराठों के हाथ लगा। इस प्रकार बाजीराव ने मुसलमानों से छत्रसाल की रक्षा की।

तीन-चार साल के बाद सन् १७३३ में छत्रसाल जब बहुत बीमार हुआ, तब रक्षा के विचार से उसने अपने राज्य के तीन टुकड़े किये और उसमें से एक सागर में गोविन्द पन्त बुन्देले का उदय बाजीराव को दे दिया। उसने बाजीराव को लिखा था कि जैसे मेरे दो लड़के हैं वैसे ही तुम मेरे तीसरे हो। बाजीराव ने छत्रसाल का दिया हुआ मुल्क स्वीकार कर उसके लड़के की रक्षा करने का उसको वचन दिया। इसके बाद शीघ्र ही छत्रसाल की मृत्यु हो गई। बाजीराव को छत्रसाल से जो हिस्सा मिला था उसमें कालपी, हटा, सागर, भाँसी, सिरोंज, कुंच, गढ़ाकोटा, हृदयनगर आदि स्थान मुख्य थे। गोविन्द बल्लाल खेर नामका बाजीराव का एक शागिर्द था। उसने बुन्देलखण्ड की राजनीति में अच्छा भाग लिया था। इसलिए बाजीराव ने उसपर प्रसन्न होकर इस नये मुल्क का उसे सूबेदार नियत किया। यह गोविन्द बल्लाल खेर आगे चलकर गोविन्द पंत बुन्देले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धीरे-धीरे गोविन्द पन्त ने नये-नये स्थान हस्तगत किये और नये-नये किले बनाये। उसने खुरई के नवाब से भी कुछ भाग जीता था। उसमें

सागर नाम का एक बड़ा भारी तालाब था। उसके किनारे सागर नाम का एक नया शहर बसाकर गोविन्द पन्त ने अपनी राजधानी वहीं बनाई।

निजाम और वाजीराव के बीच सन १७२८ में मुंगी शिव-गाँव में जो सन्धि हुई थी, उसमें कोल्हापुर के सम्भाजी का बड़ा

शाहू और सम्भाजी के  
बीच कलक और  
सन्धि

अपमान हुआ था। सन १७२९ के वर्षा-काल के समाप्त होते ही चिमणाजी अप्पा ने गुजरात पर चढ़ाई की और उसके बाद वाजीराव भी वहाँ के मुद्दवार मर-

चुलन्दखॉ से वहाँ के चौथ का वादा करा लेने की शर्तपत्र में लगा। इस प्रकार वाजीराव और उसके भाई को सागराष्ट्र में दूर राये देख सम्भाजी ने अपने अपमान का बदला लेने की सोची।

उदाजी चौहान नाम का एक दागी पुरुष मिरज के आस-पास चौथ बगूल किया करता था। सम्भाजी ने उसे अपनी ओर मिला लिया और वे दोनों शाहू के राज्य में लूट मार करने लगे। शाहू ने श्रीपतराव प्रतिनिधि को सम्भाजी को दवाने का काम सौंपा।

श्रीपतराव ने सम्भाजी की फौज पर अचानक हमला किया और उसकी सामग्री लूट ली। सम्भाजी पन्हाला की ओर भाग गया और ताराबाई तथा उसकी सौत राजसबाई श्रीपतराव के हाथ पड़ीं। शाहू ने ताराबाई का सम्मान किया और वास्तु जाने को कहा, परन्तु वह शाहू के पास सातारा के किले में रह गई। इसके बाद २१ अप्रैल १७२६ को शाहू और सम्भाजी के बीच सन्धि हुई। इसके अनुसार वारणा और तुंगभद्र नदियों के बीच का मुल्क सम्भाजी को मिला। शाहू ने रवायिती

लेकर कोपल का क़िला सम्भाजी को दिया और कोंकण में सालसी के दक्षिण का मुल्क भी सम्भाजी को दे दिया। इस प्रकार मुग़लों के हाथ से छूटने के समय से शाहू का तारावाई से जो भगड़ा हुआ था, उसका पूर्णतया अन्त हुआ।

उपर्युक्त गृह-कलह बन्द होने भी न पाया था कि एक दूसरा शुरू हो गया। सन् १७२९ में खण्डेराव दाभाड़े की मृत्यु हुई

और उसका सेनापति-पद उसके लड़के दाभाड़े और बाजीराव त्रिम्बकराव दाभाड़े को मिला। बाजीराव विश्वनाथ की योजना के अनुसार गुजरात का भाग दाभाड़े को मिला था। त्रिम्बकराव को यह बात अच्छी न लगी कि पेशवे मेरे प्रान्त में हस्तक्षेप करें। बाजीराव ने गुजरात में सरबुलन्दख़ाँ का अधिकार जमा दिया, यह बात निजामुलमुल्क को ठीक न लगी। इसलिए निजामुलमुल्क ने दाभाड़े को अपनी ओर मिलाकर बाजीराव से युद्ध करने का विचार किया। त्रिम्बकराव युद्ध की तैयारी करने लगा और उसने लोगों में यह कहना शुरू किया कि ब्राह्मणों ने हमारे स्वामी शाहू महाराज का राज्य अपने हाथ में कर लिया है, इसलिए उन्हें दवाने के विचार से हम तैयारी कर रहे हैं। दाभाड़े की इस युक्ति के कारण उदाजी और आनन्दराव पँवार, कंठाजी कदमवाँडे, चिमणाजी दामोदर जैसे बड़े-बड़े मराठे सरदार दाभाड़े की

---

❧ यहाँ पर इस शब्द का वह सामान्य अर्थ नहीं है, जो इस पुस्तक में बहुधा आया है। यहाँ पर इस शब्द का अर्थ वर्ण-व्यवस्था के अनुसार मराठा-जाति-विशेष है। हम यह बतला ही चुके हैं कि शिवाजी इसी जाति का था। पेशवा महाराष्ट्र ब्राह्मण थे। इसीलिए दाभाड़े ने ऊपर

और से लड़ने को तैयार हुए और उससे जा मिले । त्रिम्बकराव की फौज इस प्रकार करीब ३५ हजार हो गई । ऐसी भारी फौज लेकर वह निजाम से मिलने के लिए दक्षिण की ओर रवाना हुआ । उधर निजाम भी शीघ्रता से बड़ी भारी फौज जमा कर रहा था ।

निजाम और दाभाड़े के पड़ोस का पता बाजीराव को लग गया । बाजीराव तुरन्त फौज लेकर गुजरात की ओर रवाना हुआ । उसने लोगों पर यह प्रकट किया

उभई की लड़ाई और  
दाभाड़े का पतन

कि, हमारा शत्रु त्रिम्बकराव दाभाड़े हम-  
पर चढ़ाई कर रहा है, इसलिए उसकी

सहायता हमें लेनी ही होगी । तथापि पूना से निकलने के बाद उसने दाभाड़े से कई बार कहला भेजा कि निजाम से मिलकर गृह-युद्ध बढ़ाना ठीक नहीं । पर दाभाड़े ने उसकी एक न सुनी । इसलिए दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ते चले आ रहे थे । बाजीराव का एक सरदार आवाजी कवड़े नर्मदा पारकर उत्तर की ओर बढ़ा । पिलाजी गायकवाड़ के लड़के दमाजी गायकवाड़ से उसकी मुठ-  
भेड़ हुई । इसमें आवाजी कवड़े हार गया । पर बाजीराव हिम्मत हारनेवाला पुरुष न था । उसकी फौज दाभाड़े की फौज से आधी थी, तथापि उसने लड़ाई का निश्चय किया । दोनों फौजों की मुठभेड़ १७३१ की पहली अप्रैल को उभई नामक स्थान में हुई । बाजीराव के हमला करते ही दाभाड़े की फौज में गड़बड़ मच गई और उसमें जो नये सैनिक भर्ती हुए थे वे भाग गये ।

तब से शाहू महाराज का पक्ष लेकर शाहपों से लड़ने का अरदा विचार लोगों पर प्रकट किया ।

मराठों का उत्थान और पतन

यही बात कई सरदारों की भी हुई। अन्त में केवल दाभाड़े की फौज रण में बच गई। परन्तु त्रिम्बकराव मारा गया और उसकी सेना भाग गई। उदाजी पवार और चिमनाजी दामोदर कैद में पड़े।

शाहू को यह गृह-कलह ठीक न लगी, इसलिए उसने दाभाड़े और वाजीराव का मेल कराने का प्रयत्न किया। त्रिम्बकराव दाभाड़े के छोटे भाई यशवन्तराव वाजीराव और दाभाड़े में मेल दाभाड़े को सेनापति-पद दिया, पिलाजी गायकवाड़ के हाथ में दाभाड़े की मुतालिकी और शमशेरवहादुर का उसका खिताब बनाये रक्खा और सेनाखासखेल का नया खिताब दिया। गुजरात की आमदनी के विषय में यह निश्चित हुआ कि आधी आमदनी सेनापति ले और आधी पेशवा की ओर से सरकार में जमा हो।

बुलन्दखाँ ने गुजरात में मराठों का चौथ और सरदेशमुखी की वसूली का हक मान लिया, यह बात मुहम्मदशाह को ठीक न लगी। इसलिए सन् १७३० में बाद-शाह ने जोधपुर के राणा अभयसिंह को गुजरात का सूबेदार नियत किया। इस राणा की दिल्ली के तख्त के प्रति बड़ी श्रद्धा थी और मराठों की बढ़ती इसे असह्य थी। इसलिए उसने मराठों को गुजरात से निकाल बाहर करने का विचार किया। दाभाड़े की ओर से गुजरात का कारवार पिलाजी गायकवाड़ देखा करता था और उसने वहाँ मराठों को अच्छी धाक जमादी थी। अभयसिंह ने सोचा कि पिलाजी को नष्ट करने से मराठों की धाक भी साथ ही

नष्ट हो जायगी। यह सोचकर उसने पिलाजी को सन्धि की बात-चीत करने के लिए डाकोर नामक स्थान में बुलाया और वहाँ विश्वासघात करके दुष्टता-पूर्वक उसे मार डाला। इस कृत्य का परिणाम विलकुल विपरीत ही हुआ। पिलाजी का लड़का दमाजी गायकवाड़ वाप से बढ़कर था। उसने अच्छी तरह गुजरात पर अपना अधिकार जमाया और अभयसिंह के मूल स्थान जोधपुर पर हमले किये। तब गुजरात को छोड़कर सन् १७३५ में अभयसिंह जोधपुर भाग गया। इसके बाद गुजरात में जो सूबेदार आये, वे दमाजी से मिल-जुलकर काम किया करते थे। यशवन्तराव दाभाड़े कर्मशील पुरुष न था; पर वह व्यक्तियों के अधीन हो गया था और कारवार विलकुल न देखता था। इस-लिए वह पीछे पड़ गया और उसका गुनाहिक दमाजी गायक-वाड़ स्वतंत्र रीति से अपना काम करने लगा।

उभई की लड़ाई का बाजीराव के लिए एक अच्छा परिणाम और हुआ। निजामुलमुल्क ने देखा कि बाजीराव को दवाने के मेरे सब प्रयत्न विफल हुए और आगे-पीछे यह डर है कि वह दक्षिण का सूबेदार न नियत हो जाए।

निजाम और बाजीराव की सन्धि

इसलिए उसने बाजीराव से मिलकर मेल-जोल की बातें कीं। उसने दक्षिण के छः सूबों में चौध वरौदा बसूल करने का सराटों का हक मान लिया और गुजरात व मालवा में भी यह हक बताने का बचन दिया। इसका यह परिणाम हुआ कि सराटों का लक्ष्य मदैव उत्तराधी और बना रहा और निजाम के राज्य को हानित करने की ओर उनका ध्यान ही न गया।

उपर्युक्त युद्धों के सिवाय वाजीराव को कोंकण में भी युद्ध करने पड़े । कोंकण के इन युद्धों का वाजीराव के प्रारम्भिक काल में कोंकण की स्थिति सम्बन्ध बहुतांश में जंजीरा के सिद्दी से रहा ।

वालाजी विश्वनाथ ने सन् १७१३ में कान्होजी आंग्रे से जो सन्धि की उसमें जंजीरा का कुछ भाग आंग्रे को मिला, इसलिए सिद्दी ने आंग्रे से लड़ाई शुरू की । वालाजी विश्वनाथ आंग्रे की मदद को गया । सन् १७१४ में मराठों की विजय हुई और सिद्दी ने आंग्रे को दिया हुआ प्रदेश उसीके पास रहने देने का वचन दिया । तबसे कोंकण में मराठों का अधिकार कान्होजी आंग्रे ही चलाता रहा । आंग्रे के सिवाय कोंकण में पोर्तूगीज, अंग्रेज और सिद्दी के भी प्रदेश थे । सिद्दी का प्रदेश कोलावा के पास था और आंग्रे के प्रदेश से लगा हुआ था । पोर्तूगीजों का प्रदेश उत्तर कोंकण में था । अंग्रेजों के अधीन बम्बई के सिवा और कुछ न था । पर सिद्दी और मराठों के बीच जो भगड़े होते, उनमें अंग्रेज और पोर्तूगीज कभी एक पक्ष से तो कभी दूसरे पक्ष से मिला करते थे । सन् १७२६ के प्रारम्भ में जंजीरा के सिद्दी याकूबखाँ ने निजामुलमुल्क के भड़काने से मराठों के प्रदेश पर हमला कर दिया । कान्होजी आंग्रे ने शाहू से मदद माँगी । अंग्रेजों ने सोचा कि कोंकण में मराठों की सत्ता न बढ़नी चाहिए, इसलिए वे सिद्दी से मिल गये । सिद्दी और आंग्रे की चौकियाँ स्थान-स्थान पर थीं । दोनों ने एक दूसरे के गाँवों को लूटना शुरू किया ।

इस भगड़े के बढ़ने का एक कारण और हुआ । कोंकण

के परशुराम-चंद्र में बाजीराव का गुरु ब्रह्मेन्द्र स्वामी रहता था ।

स्वामी रहता था । सिद्दी ने सन १७२७

सिद्दी ने मराठों के  
संगठन का एक  
और कारण

के फरवरी महीने में, महाशिवरात्रि के  
दिन, ब्रह्मेन्द्र स्वामी का परशुराम-चंद्र  
का देवालय नष्ट कर डाला । स्वामी की

सब सामग्री नष्ट कर दी, उसके नौकरों को घुरी तरह पीटा और

उसका बड़ा अपमान किया । तब ब्रह्मेन्द्र स्वामी क्रोधित

होकर देश में चला गया और शाहू ने धावड़शी नामक गाँव

इनाम पाकर वहीं रहने लगा । वह सिद्दी से बहुत चिढ़ गया था,

इसलिए उसे नष्ट करने के लिए शाहू को वाग-वाग उकसाया

करता था । शाहू ने अवकाश पाते ही सिद्दी की खबर लेने का

इरादा किया ।

कान्होजी आँध्रे जैसे-तैसे सिद्दी से लड़ रहा था । इसी बीच

में, सन १७२९ में, उसकी मृत्यु हो गई । उसके सेखोजी, सग्भार्ज

जी, मालाजी, येसार्ज और हुलाजी

नितियों पर बाजीराव  
की विजय

नामक पाँच लड़के थे । इनमें सेखोजी

को पिता का पद तथा मुल्क मिला।

इसलिए सेखोजी और सग्भार्ज आपस में लड़ने लगे । इसमें

सिद्दी की वन आई और उसने मराठों के मुल्क में और भी

अधिक उपद्रव मचाना शुरू किया । आँध्रे-बन्धुओं के इन

आपत्तियों को शाहू ने शान्त करने का प्रयत्न किया और

सोपनराव प्रतिनिधि को वांछण भेजा । प्रतिनिधि बौकल गया,

परन्तु दो साल में भी उससे कुछ हो न सका । शाहू ने सेखोजी

और सग्भार्ज को अपनी मुलाज्जत के लिए हुलापा और सेखोजी



को प्रतिनिधि की सहायता करने के लिए कहा। लेकिन तब भी प्रतिनिधि से कुछ भी न हो सका। इसलिए अब शाहू ने वाजीराव और फतेसिंह भोंसले को कोंकण भेजा। इस समय याकूबख़ाँ की मृत्यु हो चुकी थी और सिद्धियों में आपसी झगड़े पैदा हो गये थे। उनमें से कुछ लोग मराठों से आ मिले। अब मराठों ने एक के बाद एक सब स्थान जीतने शुरू किये और अन्त में जंजीरा को भी घेर लिया, यह क़िला भी वाजीराव के हाथ लगा। वाजीराव ने याकूबख़ाँ के एक लड़के रहमानख़ाँ को गद्दी पर बिठलाया। इस समय भी कुछ क़िले मराठों को मिले।

मराठों को यह विजय प्राप्त हुई, पर कुछ सिद्दी सरदार अब भी न दबे थे। यदि मराठों ने उनसे अच्छी तरह युद्ध किया होता

तो इनके स्थान भी हस्तगत हो जाते;

सिद्दी मराठों के माण्डलिक

पर मराठों ने वैसा न किया। सेखोजी

अंग्रेजों से लड़ते-लड़ते, सन् १७३३ में, मारा गया। इस कारण सम्भाजी और मानाजी के बीच झगड़े शुरू हुए। अन्त में सन् १७३३ के आरम्भ में, वाजीराव फिर से कोंकण गया। आंग्रे-बन्धुओं के झगड़ों में उसने मानाजी का पक्ष लिया, इसलिए मानाजी ने कई स्थान जीत लिये। आखिर सम्भाजी वाजीराव की शरण आया। वाजीराव ने सम्भाजी को सरखेल-पद देकर विजय-दुर्ग में नियत किया और मानाजी को वज़ारतमाब का खिताब देकर कोलावा का कारबार दिया। इस प्रकार इन भाइयों के आपसी झगड़े मिटाकर वाजीराव वापस गया। उसके वापस जाते ही सिद्दी सात नामक सिद्दी सरदार ने मराठों को सताना शुरू किया। इसलिए वाजीराव का भाई चिमणजी अप्पा कोंकण

गया। उसकी और सिद्दीसात की सन् १७२६ के अप्रैल में, उससे के पास चरई नामक स्थान में, लड़ाई हुई। उसमें सिद्दीसात तथा अन्धेरी का किलेदार सिद्दी याकूब दोनों मारे गये। इस प्रकार सब उपद्रवी सिद्दी सरदार मारे गये और मराठों की सहायता से गद्दी पर बैठे हुए अब्दुलरहमान का शासन सब सिद्दियों पर ठीक-ठीक चलने लगा। शिवाजी ने सिद्दियों को दवाने के लिए अनेक प्रयत्न किये थे, पर उसे इसमें पूरी सफलता कभी प्राप्त नहीं हुई। अब कहीं मराठे उन्हें दबाकर अपने मागडलिक बना सके।

हम यह देव चुके हैं कि दयावहादुर के बाद जयपुर का राजा सवाई जयसिंह मालवा का सूबेदार नियत हुआ था। मगर ही यह भी चना चुके हैं कि या सिद्दी राजराव की दिल्ली पर चढ़ाई सूबेदार हिन्दू-धर्माभिमानी था और इसलिए मराठों की सहायता करना चाहता था। मालवा में शिन्दे, होलकर और पैवार नवा के लिए जम गये थे और हर साल चौध व सरदेसामुखी वसूल करना करते थे। मगर इन करों की सनद बादशाह से न मिली थी, जिससे नियमानुसार उनके ये हक मान्य न थे। सन् १७२७ में राजराव ने मालवा की सनद प्राप्त करने के विचार से उत्तर की ओर प्रस्थ किया और सवाई जयसिंह के जजिये यह सनद प्राप्त करने की बोगिसा की। तब बादशाह ने अपने एक वकील के जरिये राजराव को कात्ला भेजा कि मालवा की आसबर्ती ने से हम को लाभ देने को राजी है और यह भी उचित है कि यदि मराठों राजपूत राजाओं से कर वसूल करेंगे तो हम उनके बीच

रुकावट न डालेंगे। साथ ही इसके वकील के साथ गुप्त रीति से मालवा की सनदें भी दे रखी थीं और यह बता रक्खा था कि यदि इन बातों से मराठे सन्धि करने के लिए तैयार न हों तभी ये सनदें उन्हें दी जायँ। यह गुप्त बात वाजीराव को मालूम हो गई और उसने अपनी माँगें बहुत अधिक बढ़ा दीं। पूरे मालवा की जागीर, धार, माण्डू और रेसीन के किले तथा चम्बल नदी के दक्षिण का सब मुल्क, बंगाल में चौथ और सरदेशमुखों वसूल करने का हक अथवा उसके बदले ५० लाख रुपये, इलाहाबाद, गया और मथुरा नामक तीर्थ-क्षेत्र तथा दक्षिण के छः सूबों की सरदेशपाण्डेगिरी वाजीराव ने बादशाह से माँगी। बादशाह ने अन्तिम माँगों को छोड़ शेष माँगों को अस्वीकार किया और दिल्ली के पास फौज जमा करने लगा। वजीर खानडौरान और कमरुद्दीनख़ाँ सेना लेकर मथुरा की ओर आने लगे। यह खबर वाजीराव को मिली, तो वह भी शीघ्रता से उत्तर की ओर बढ़ा। मल्हारराव होलकर दोआब में कर वसूल कर रहा था, उसे अयोध्या के नवाब सआदतख़ाँ ने वहाँ से भगा दिया। इसके बाद उपर्युक्त तीनों मुसलमान सरदार आगरा आये। वाजीराव इन सबको बचाकर अचानक दिल्ली के पास आ पहुँचा। वह अपना उद्देश्य शान्ति से सिद्ध करना चाहता था, पर मुसलमान सरदारों ने मराठों पर हमला कर दिया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ और मुगल हार गये। सआदतख़ाँ, बंगश और खानडौरान को जब वाजीराव के दिल्ली पहुँचने की खबर मिली, तो वे भी बड़ी शीघ्रता से वहाँ पहुँचे। इन सबसे दिल्ली के पास लड़ना वाजीराव को ठीक न लगा। इसलिए वह वहाँ से दोआब में

चला आया और अपने भाई चिमणाजी को लिख भेजा कि निजामुलमुल्क नर्मदा पार कर इधर न आने पावे । पर वाजीराव का उद्देश्य सिद्ध न हुआ । उसे अचानक दक्षिण आना पड़ा । मगर जान से पहले उसने, मौखिक संदेश के अनुसार, १३ लाख रुपये सालाना भिलने की स्वीकृति बादशाह से ले ली ।

उसके जाने पर बादशाह ने सोचा कि इन समय यद्यपि वाजीराव सन्धि लिये बिना चला गया है, मगर वह शीघ्र ही अवश्य लौटगा और तब हमारे दरबार उसे हरा न सकेंगे । इसलिए उसने मान्यता की रक्षा के लिए एक नई युक्ति सोची । बादशाह ने निजामुलमुल्क को फिर बुलाया और उसके लड़के राजीउद्दीन के नाम से साबरमती नदी गुजरात के भाग उत्तरेक अर्धीन कर दिये । साथ ही उसने यह वचन लिया कि मैं स्वयं सराठों को इन दोनों प्रान्तों से मित्रता बनाऊँगा ।

निजामुलमुल्क ने पहले राजपूत और हुन्देले राजाओं को अपने शत्रुओं में किया । फिर अपनी तथा उनकी शौजे निजामुल्क का सराठों से लड़ने के लिए रवाना हुआ । निजामुलमुल्क का यह दही भारी मेला तथा सबसे ऊपर तोपखाना लेकर मिर्गोज आया । इसी समय वाजीराव नर्मदा पार कर उत्तर में पहुँचा । सराठों को नरदीक आया देख निजाम पीछे हटकर भोपाच के पास गया । यहाँ सराठों ने तुलना ही उसपर हमला कर दिया । इसपर निजाम अपनी सव मेला लेकर भोपाच के किने से हुन्देले सराठों से मिले, जो पेर किया और निजाम की सन्धि

## मराठों का उत्थान और पतन

बन्द कर दी। इसलिए वह बड़ी आपत्ति में पड़ा—न तो उसे वादशाह से कोई मदद मिली, और न दक्षिण से ही चिमणाजी अप्पा के कारण कोई मदद पहुँच सकी। अन्त में उसने अपना सब भारी सामान भोपाल तथा इसलामगढ़ के किले में छोड़ दिया और तोपखाने के आश्रय में पीछे हटने लगा। पर मराठों ने अपने हमलों से उसके नाकों दम कर दिया। अन्त में उसे संधि करने को तैयार होना पड़ा। निजाम ने स्वयं अपने हाथ से वाजीराव को लिख दिया कि मैं तुम्हें मालवा-प्रान्त की सनद, नर्मदा और चम्बल नदियों के बीच का सब मुल्क तथा फ़ौज के खर्च के लिए ५० लाख रुपये वादशाह से दिलवा देने की ज़िम्मेदारी लेता हूँ। यह संधि १७३८ के जनवरी महीने की ७वीं तारीख को सिरोंज के पास दर्राई-सराई नामक स्थान में हुई। पर इतिहास में इसे बहुधा सिरोंज की संधि कहते हैं।

वाजीराव को न केवल मुसलमानों से बल्कि पोर्तूगीज़ों से भी लड़ना पड़ा। ये लोग पन्द्रहवीं सदी के अन्त में पहले-पहल

पोर्तूगीज़ों से बसई  
लिया

हिन्दुस्थान में आये। इन लोगों ने बड़ी शीघ्रता में पश्चिमी किनारे पर अपना राज्य स्थापित करना प्रारम्भ किया।

साथ ही विलकुल मुसलमानों के समान ये भी अपने धर्म का प्रसार करने लगे। इस काम में ये चाहे जैसा अत्याचार करते थे। इनके इन अत्याचारों से लोग विलकुल ऊब उठे। लोगों ने सब बातें पेशवों के कानों तक पहुँचाई और रक्षा की और प्रार्थना की। वाजीराव और चिमणाजी अप्पा ने सन् १७३० में यह उत्तर भेजा कि समय मिलते ही हम उनकी खबर लेंगे। परन्तु पेशवे

बहुत समय तक भिद्रियों से उलझे हुए थे, इन कारण उन्हें समय न मिला। पोर्तुगीजों का अत्याचार दिनोंदिन बढ़ता ही गया। अन्त में सन् १७३७ में चिमणाजी अपना कोंकण में पहुँचा। उन्होंने साष्टी अथवा सालसत्ती द्वीप के स्थान तथा थाना, वेलापुर, बेसावी आदि स्थान भी जीत लिये और शंकरराजी केराव फड़के तथा खण्डोजी मानकर को उस प्रान्त की रजा का थार रौंया। फिर पृना को वापस चला गया। उसके वापस जाने ही पोर्तुगीजों ने मराठों को फिर से सताना शुरू किया। तब बाजीराव ने रामचन्द्र हरि पटवर्धन को केलवे और साष्टी जीतने के लिए भेजा, परन्तु उससे कोई विशेष कार्य न हो सका। तब १७३८ में बाजीराव ने भिद्रें-कोलकर को कोंकण भेजा। इसी समय लिम्बुन से पोर्तुगीजों को सहायता पहुँची। दोनों पक्षों के बीच जो युद्ध हुआ, उसमें गोवा का पोर्तुगीज गवर्नर मारा गया और उन लोगों का सारा सुवस्त्रान हुआ।

थोड़े ही दिनों के बाद स्वयं चिमणाजी अपना कोंकण छोड़ा। अपने घसई-भाग से पोर्तुगीजों को मार भगाने का निश्चय किया। मराठे सरदारों ने पोर्तुगीजों के शिल-भिन्न स्थान लेना शुरू किया और अन्त में सन् १७३९ के प्रतवरी महीने में घसई का भी घेरा हुआ। यह स्थान बहुत मजबूत था, पर ३ महीने के बड़े परिश्रम के बाद मराठों ने उसे जीत ही लिया। इस विजय से मराठों का बड़ा नाम हुआ।

जिस समय बाजीराव ने निजामुलमुल्क को भीरान में देखा

था, उस समय नागपुर के भोंसले ने इलाहाबाद पर चढ़ाई की और वहाँ के सूबेदार को मारकर बहुत-सा धन वसूल किया। फिर मराठे जब पोर्तगीजों से लड़ रहे थे तब रघुजी ने पूर्व की ओर चढ़ाई करके कटक को लूटकर साफ कर दिया। इन दोनों चढ़ाइयों के लिए रघुजी ने पेशवा से इजाजत नहीं ली थी। इसलिए वाजीराव को भोंसले पर क्रोध आया; और भोंसले को दवाने के लिए उसने आवजी कवड़े को भेजा। रघुजी और आवजी के बीच लड़ाई हुई। उसमें आवजी हार गया। तब स्वयं वाजीराव ने रघुजी पर चढ़ाई करने का इरादा किया। उसी समय उत्तर से यह खबर आई कि ईरान के बादशाह नादिरशाह ने दिल्ली पर चढ़ाई करके राजधानी को लूट डाला है और वह दक्षिण में आनेवाला है। इसलिए वाजीराव ने दक्षिण के सब सरदारों तथा हिन्दू-मुसलमानों को एक करने का प्रयत्न किया और नादिरशाह का सामना करने के लिए फौज की तैयारी शुरू कर दी। परन्तु नादिरशाह दक्षिण में न आया। वह दिल्ली से ही अपने देश को वापस चला गया।

निजामुलमुल्क ने भोपाल में बिर जाने पर मालवा की सनद दिला देने का इत्क़रार वाजीराव से किया था। पर एक बार वाजीराव के हाथ से बचकर दिल्ली जाने निजाम से लड़ाई तथा सन्धि पर सनद की बात ही वह न उठाता था।

नादिरशाह के चले जाने पर भी जब वह इस बारे में चुप रहा, तब वाजीराव को गुस्सा आया और उसने उसे नुकसान पहुँचाने का विचार किया। रघुजी भोंसले और





मराठों का उत्थान और पतन

और खरगोन नाम के जिले पेशवा को दिये । इसके बाद वाजीराव उत्तर-हिन्दुस्थान की ओर चला गया ।

इसी समय सम्भाजी आंग्रे ने मानाजी आंग्रे पर चढ़ाई की । उसने आस-पास के सब स्थान ले लिये और कोलावा को घेर

लिया । मानाजी ने तुरन्त मदद के लिए

आंग्रे-बन्धुओं का फिर  
से झगड़ा, उसकी  
शान्ति तथा वाजी-  
राव की मृत्यु

पेशवा को चिट्ठी लिखी । इसपर चिम-

णाजी अप्पा ने वाजीराव के बड़े लड़के

वालाजी को आगे भेजा और फिर वह

स्वयं आया । वालाजी ने वहाँ पहुँचते

ही सम्भाजी से उसके सब जीते हुए स्थान वापस लेना शुरू

किया । चिमनाजी अप्पा के कहने से आंग्रेजों ने भी मानाजी

को मदद पहुँचाई । इसलिए सम्भाजी शीघ्र ही रास्ते पर आया

और सुवर्णदुर्ग को भाग गया । एक दिन चिमनाजी अप्पा

और वालाजी उर्फ नाना रेवपण्डा लेने का विचार कर रहे थे, उसी

समय वाजीराव की मृत्यु का दुःखद संवाद उन्हें मिला । वाजीराव

सन् १७४० के अप्रैल महीने की २५ वीं तारीख को नर्मदा के

किनारे कलमड़े नामक मौजे में मर गया ।

वाजीराव अत्यन्त वीर और महत्वाकांक्षी पुरुष था । यह

बता ही चुके हैं कि उसकी राजनीति का सार यह था कि मूल

धड़ को गिराने से शाखायें अपने-आप

वाजीराव की योग्यता

गिर जावेंगी । वह जन्म भर चढ़ाइयाँ

और लड़ाइयाँ करता रहा । उसे निजामुलमुल्क जैसे बड़े-बड़े

सरदारों से सामना करना पड़ा, परन्तु सफलता सदैव उसके

साथ रही । उसके समय में मराठों का राज्य बहुत अधिक बढ़





## मराठा-राज्य का मुख्य शासक पेशवा

पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं कि जब बाजीराव की नर्मदा के किनारे मृत्यु हुई, उस समय उसका लड़का बालाजी और भाई चिमणाजी कोंकण में थे। कुछ विघ्न के बाद बाजीराव के दो और लड़के और थे। एक का नाम रघुनाथ और दूसरे का जनार्दन था। इसके सिवा उसकी रखेल-मस्तानी से भी एक लड़का हुआ था। उसका नाम शमशेरवहादुर था। पिता की मृत्यु के समय बालाजी की उम्र करीब २१ वर्ष थी। हम देख चुके हैं कि वह चढ़ाइयों में भाग लेने लगा था। बाजीराव की मृत्यु के बाद चिमणाजी अपना बालाजी को लेकर सातारा गया और करीब दो महीने के बाद शाहू महाराज ने बालाजी को पेशवा का पद दिया। यह पद मिलने के पहले उसके मार्ग में एक भारी विघ्न उपस्थित हुआ था। अगले

इतिहास के लिए यह जान लेना अत्यन्त आवश्यक है कि यह विघ्न किसने पैदा किया और उसका स्वरूप क्या था।

शुजा भोंसले का नाम ऊपर आ चुका है। हम यह बता चुके हैं कि राजाराम के समय परमजी भोंसले नाम का एक सरदार बरार में चौथे बन्दूक किया जाता था।

परमजी भोंसले का उदय शाह के गद्दी पाने पर दो-तीन वर्ष बाद उसकी मृत्यु हुई। उसके बाद उसके लड़के कान्होजी भोंसले को शाह ने सेनासामंत सूत्रा का पद तथा बरार का अधिकार दिया। बहुत दिनों तक उसके कोई पुत्र न था। इसीलिए उसके बरार

## मराठों का उत्थान और पतन

१७३० की घटना है। रघुजी ने धीरे-धीरे अपना अधिकार पूर्व की ओर बढ़ाना शुरू किया और नागपुर-भाग पर भी उसने अपना अधिकार कर लिया।

रघुजी भोंसले स्वभाव से ही कर्तृत्ववान और महत्वाकांक्षी था। बाजीराव की चढ़ाई को देख कर उसे भी इच्छा हुई कि मैं भी

रघुजी भोंसले की  
कर्नाटक पर चढ़ाई

ऐसी चढ़ाइयाँ करूँ। उसकी इलाहाबाद और कटक की ओर की चढ़ाइयों का वर्णन हम ऊपर कर ही चुके हैं और यह

बता ही चुके हैं कि इसके लिए उसने शाहू अथवा बाजीराव से आज्ञा न माँगी थी। यह भी बता चुके हैं कि बाजीराव रघुजी को दण्ड देने का विचार कर रहा था, परन्तु बाद में उसने रघुजी से मेल कर उसे कर्नाटक पर हमला करने को कहा। रघुजी के साथ इस चढ़ाई के समय करीब ५० हजार फौज थी। उसने कर्नाटक के नवाब दोस्तअली पर डमलचेरीघाट के पास अचानक हमला किया और उसे मार डाला (मई १७४०)। फिर मराठों ने सारे कर्नाटक में कर वसूल किया। अन्त में दोस्तअली के लड़के सफ़दरअली ने मराठों को बड़ा भारी कर देने का वचन दिया और त्रिचनापल्ली को घेरकर वहाँ के अधिकारी चन्द्रसाहब को पकड़ने के लिए उन्हें फुसलाया। मराठों ने त्रिचनापल्ली लेने का निश्चय किया। पर बरसात शुरू होने के कारण रघुजी ने इस विचार को इस ऋतु के अन्त तक स्थगित कर दिया, और महाराष्ट्र की ओर २५० मील हटकर शिवगंगा के किनारे उसने छावनी डाली। इसी समय उसे बाजीराव की मृत्यु की खबर मिली।



मराठों का उत्थान और पतन

मुरारराव घोरपडे को सौंपा। पर यह बहुत काल तक न टिका। त्रिचनापल्ली लेने के दोही वर्ष बाद निजामुलमुल्क बड़ी भारी फौज लेकर कर्नाटक आया। उसने मुरारराव से त्रिचनापल्ली लेली और उसे गुर्ता भेज दिया। फिर निजामुलमुल्क ने अपने हस्तक अनवरुद्दीन को कर्नाटक का नवाब बनाया, तब वह हैदराबाद वापस गया।

हम यह देख चुके हैं कि मालवा की सनद बादशाह से लेने की वाजीराव की बड़ी इच्छा थी। पर वह यह कार्य पूरा न कर सका। वाजीराव के बाद बालाजी ने बादशाह को पत्र लिखकर तथा निजामुलमुल्क से भेंटकर मालवा की सनद प्राप्त करने का बहुतेरा प्रयत्न किया, पर फल कुछ न निकला। तब उसने मल्हारराव होलकर, राणोजी शिन्दे, पिलाजी जाधव इत्यादि सरदारों के द्वारा मालवा में अपना अधिकार जमाया। फिर उसने सवाई जयसिंह की भेंट लेकर १७४१ के जून में छः महीने के भीतर मालवा की सनद प्राप्त करा देने का वचन लिया और तब वरसात में बालाजी सातारा को वापस आया।

यहाँ उसे शाह ने पोर्तगीजों के पास से जीता हुआ सारा कोंकण-भाग दे दिया और नर्मदा के उत्तर-भाग का कर वसूल करने की सनद भी लिख दी। फिर वरसात समाप्त होने पर, अर्थात् १७४१ के दिसम्बर में, बालाजी ने उत्तर की ओर चढ़ाई की और गढ़ा व मण्डला नामक स्थान जीत लिये। नाग-

सब सरदारों पर बालाजी की सत्ता

पुर के रघुजी भोंसले से नर्मदा के उत्तर का सुस्त सुगन्धित रखने के लिए पेशवा को इन स्थानों को अपने हाथ में रखना आवश्यक था। दूसरे साल बालाजी ने अहीरवाड़ा, खैरवाड़ा, हुन्देलखण्ड आदि भागों में अपना अधिकार जमाया। इन समय नागपुर के भोंसले ने कई लोगों को उसके विरुद्ध भड़काया, पर उनके सामने किसी की वृद्ध न चली! अपने यशवन्तराव पेशवा से मिल करके उसे धार का अधिकार दिया और इस प्रकार गड़चढ़ करने वाले नायकवाड़, भोंसले आदि सरदारों को हाथ में रखने की योजना की।



मालवा की सनद उसे अब भी न मिली थी। यह मिलने का सुअवसर एक दूसरे मार्ग से प्राप्त हुआ। पेशवा को मालवा की सनद मिली अलीवर्दीख़ाँ नाम का एक साधारण पुरुष किसी प्रकार बंगाल का सूबेदार बन बैठा था और जब रघुजी भोंसले कर्नाटक में गया तब अलीवर्दीख़ाँ ने कटक को भी जीत लिया। मीर हवीव नाम का कटक का दीवान अलीवर्दीख़ाँ की नौकरी में था, पर वह अब भी अलीवर्दीख़ाँ का नाश करना चाहता था। इसलिए उसने रघुजी के सरदार भास्कर पन्त को अपनी मदद के लिए बुलाया। भास्कर पन्त ने बंगाल तथा विहार में कर वसूल किया तथा कटवा और हुगली नामक स्थानों में अपनी छावनियाँ रखीं। इसी समय दिल्ली के बादशाह से अलीवर्दीख़ाँ को बंगाल का कर भेज देने का संदेश आया। पर अलीवर्दीख़ाँ ने कहला भेजा कि पहले मराठों से मेरी रक्षा करो, फिर मैं कर भेजूँगा। इसके बाद उसने भास्कर पन्त पर अचानक हमला किया। मराठे इस समय दुर्गा के उत्सव में मग्न थे। अचानक हमले के कारण उनकी हार हुई और वे नागपुर को वापस आये। इस समय तक रघुजी कर्नाटक से वापस आ गया था। इस पराभव से रघुजी को अलीवर्दीख़ाँ पर बड़ा गुस्सा आया और विहार पर हमला करने के विचार से वह खाना हो गया। इतने में दिल्ली के बादशाह ने अलीवर्दीख़ाँ को मदद पहुँचाने के विचार से अवध के नवाब सफ़दरजंग को लिखा और बालाजी को भी इस कार्य के लिए लिखा। इसके बदले में उसने मालवा की सनद देने का वचन दिया। बालाजी अलीवर्दीख़ाँ की मदद करने के विचार से बड़ी

शीघ्रता से आया और उसने लड़ाई में रघुजी को हरा दिया। रघुजी वहाँ से भागकर नागपुर चला आया और बालाजी मानवा की सनद प्राप्त करने के विचार से मालवा में आया। ७ जुलाई सन १७४३ को, पेशवा को, मालवा की सनद मिल गई।

यह सनद प्राप्त करने पर बालाजी शाह के पास मानवा को गया। इस समय रघुजी ने उसके पास अपने एक दूत के साथ यह सन्देश भेजा कि आग्ने की कुछ किया वह मराठों के राज्य-प्रसार के लिए अत्यन्त लाभदायक है और इस-लिए अदभुत सेरे मन में आपस में प्रति होई

पेशवा और रघुजी का  
मेल तथा उनकी  
सनदें

## मराठों का उत्थान और पतन

इस प्रकार बालाजी ने रघुजी को खुश कर लिया और रघुजी का सन्तोष हो गया। इससे मराठों के आपसी झगड़े बन्द हुए और उन लोगों ने फिर से बढ़ाईयों शुरू कीं। सन् १७४४ के वर्षा-काल के समाप्त होते ही बालाजी मालवा में गया। शीघ्र ही उसने भेलसा जीत लिया और भोपाल के फौजदार मुहम्मदख़ाँ का आधा मुल्क हस्तगत कर लिया। इसके बाद वह बुन्देलखण्ड गया। वहाँ बहुत-सा मुल्क जीतकर तथा कर वसूल कर उसने नये मुल्क की व्यवस्था की और सन् १७४५ की वरसात में वह अपने देश को वापस गया। इसी समय राणोजी शिन्दे की मृत्यु हुई।

शाहू पर बहुत-सा कर्ज हो गया था। वह कर्ज चुकाने के लिए उसने पेशवा से कहा। पेशवा ने शिन्दे-होल्कर से धन माँगा। सन् १७४६ में धन प्राप्त करने का एक अच्छा अवसर मराठों को मिला। जयपुर का राजा सवाई जयसिंह सन् १७४३ में मरा। उसके ईश्वरसिंह और माधवसिंह नाम के दो लड़के थे। ईश्वरसिंह बड़ा था, पर माधवसिंह उदयपुर की राज-कन्या का पुत्र था और सन् १७१० के इकरार के मुताबिक वही गद्दी का मालिक था। जब जयसिंह ज़िन्दा था, तभी उदयपुर के राणा जगतसिंह ने माधवसिंह को अपने राज्य का रामपुरा नामके परगना जागीर में दे दिया था; और यह इकरार हुआ था कि इसके बदले माधवसिंह उदयपुर के राणा की नौकरी करे। जयसिंह की मृत्यु के बाद भी माधव-

जयपुर के राजकीय  
झगड़ों में मराठों  
का हस्तक्षेप



इस प्रकार जयपुर के इस झगड़े में मराठों की विजय तो हुई, पर शिन्दे और होलकर के बीच सदा के लिए वैमनस्य हो गया और राजपूताना में मराठों की बड़ी बदनामी हुई। सवाई जयसिंह और बाजीराव के बीच बड़ा मेल था। हिन्दू-धर्म की रक्षा के लिए मराठे और राजपूत मिल-जुलकर काम करते थे। मालवा को जीतने में राजपूतों की सहायता का बड़ा उपयोग हुआ; पर जयपुर के इस झगड़े में मराठों ने जैसा आचरण किया, उससे राजपूतों का यह खयाल हो गया कि मराठे धन के लिए चाहे जब बचन-भंग कर सकते हैं। इसके बाद मराठों के साथ उनकी कोई सहानुभूति न रही। यह परिणाम ध्यान रखने लायक है, क्योंकि सन् १७६१ में जब पानांपत के मैदान में मराठों और मुसलमानों के बीच घमासान युद्ध हुआ तब राजपूत राजा उदासीन ही रहे !

पेशवा और रघुजी भोंसले के बीच मेल होने पर रघुजी ने पूर्व की ओर अपने राज्य का विस्तार बढ़ाना शुरू किया। उसने भास्कर पन्त कोल्हटकर को १७४४ के वर्षा-काल के बाद बीस-हजार फौज देकर पूर्व की ओर रवाना किया। भास्कर पन्त उड़ीसा में कर वसूल करके विहार में घुसा। मराठा फौज का आक्रमण देख बंगाल का सूबेदार अलीवर्दीख़ाँ घबरा गया। रण में विजय की सम्भावना न देख उसने छल-कपट करने का विचार किया। मराठा फौज को छावनी कटवा में गंगा के किनारे थी। वहाँ अलीवर्दीख़ाँ ने सुलह का बात-चीत के बहाने भास्कर

भास्कर पन्त का धोखे से बध





को केंद्र कर डाला। इस समय में समस्त उड़ीसा मराठा-राज्य में शामिल हुआ। रघुजी भोंसले ने शिवराय भटनगर के वहाँ का सृष्टिकार नियत किया, जिसने वहाँ का काम कई सालों तक चढ़ी अच्छी तरह से किया।

उपर्युक्त सन्धि के चार वर्ष बाद, यानी सन् १६१७ में, रघुजी की मृत्यु हुई। उसके चार लड़के थे। सुयोग्य को दिल्ली-

की पहली गी से और जामोरी को

रघुजी की मृत्यु के बाद  
उसके लड़कों में इसका

साम्राज्य वृत्तग गी से हुए थे। जामोरी







मराठों का उत्थान और पतन

जाने लगी। बालाजी बाजीराव इस बड़ी भारी जिम्मेदारी को निवाहने के सर्वथा योग्य था। इसलिए उसके समय में मराठारज्य का उत्कर्ष चरम सीमा को पहुँच गया। यह कैसे हुआ, यह आगामी अध्याय में देखा जायगा।

---



खबर लगी कि दमाजी आ रहा है, तब उसने एक दिन रामराजा को भोजन के लिए बुलाकर कैद कर लिया और किले में रख दिया।

इस बात की खबर जब पेशवा को मिली तो वह तारावाई का सच्चा स्वरूप स्पष्ट जान गया। पेशवा की सेना ने दमाजी

गायकवाड़ को रोकने का प्रयत्न किया, दमाजी गायकवाड़ की पेशवा से सन्धि पर उसे सफलता न मिली। दमाजी

तारावाई से मिला और सातारा के आस-पास के किले उसके अधीन कर दिये। यह बता ही चुके हैं कि

आलाजी इस समय निजाम के राज्य की ओर गया था। तारावाई और दमाजी की हलचलों की खबर पाते ही निजाम से केवल दो लाख रुपये लेकर शीघ्रता से वह सातारा को खाना हो गया।

पेशवा के आने के पहले ही नाना पुरन्दरे ने दमाजी पर हमला करके उसे सातारा से भगा दिया। उसके पक्ष की और कुछ

फौज आनेवाली थी, पर पेशवा के आने की खबर पाकर दमाजी डर गया और उसने सन्धि की बातचीत की। पर उसका व्यवहार ठीक न रहा, इसलिए आलाजी ने उसे कैद कर लिया। इसके

बाद यशवन्तराव दाभाड़े को भी कैद किया, तब कहीं कई महीनों के बाद दमाजी ने पेशवा से मेल कर अपनी मुक्ति करवा ली।

उनके बीच यह निश्चय हुआ कि गुजरात के वकाये के बदले दमाजी १५ लाख रुपये पेशवा को दे। गुजरात का आधा

हिस्सा दमाजी पेशवा के अधीन करे, और पेशवा की चौकियाँ विठलाने में वह मदद करे। सरकारी चढ़ाइयों के समय दस

हज़ार फौज लेकर वह सरकार की नौकरी करे, दाभाड़े की



ने प्रयत्न किया। पर वह इस कार्य में सफल न हुआ और रामराजा १३ वर्ष तक सातारा के किले में कैद रहा। आगे चलकर जब १७६१ की ९ नवम्बर को तारावाई ८५ वर्ष की अवस्था में मरी, तब माधवराव पेशवा ने रामराजा को कैद से मुक्त कर गद्दी पर विठलाया।

जिस समय बालाजी तारावाई और निजाम के दीवाने रामदास पन्त के पड्यन्त्र नष्ट करने में लगा हुआ था, उस समय मल्हारराव होलकर और जयप्पा शिन्दे उत्तर के मुसलमानों की राजकीय स्थिति दिल्ली के वजीर को सहायता देकर उत्तर भारत में मराठों की घाक जमा रहे थे।

सन् १७४८ में दिल्ली के बादशाह मुहम्मदशाह की मृत्यु के बाद उसका लड़का अहमदशाह गद्दी पर बैठा। उसने अयोध्या के नवाब सफ़दरजंग को अपना वजीर नियत किया। अयोध्या-सूदे के पश्चिम की ओर गंगा के उत्तर में रुहेलों का मुल्क था और हाफिज़ रहमतख़ाँ वहाँ शासन करता था। इसी प्रकार गंगा-यमुना के दोआब में पठानों का शासन था और कायमख़ाँ बंगश उनका मुखिया था। सफ़दरजंग को वजीरी मिलते ही धीरे-धीरे उसने पठान और रुहेले दोनों का नाश करने का निश्चय किया। पहले उसने रुहेलखण्ड में बादशाही सल्तनत जमाने के लिए नये फ़ौजदार भेजे, पर रुहेलों के सेनापति पुन्देख़ाँ ने इन फ़ौजदारों की दाल न गलने दी। तब सफ़दर ने पठान और रुहेलों को आपस में लड़वाकर दोनों का नाश करने का विचार किया। सफ़दरजंग के फुसलाने से पठान सरदार कायमख़ाँ बंगश ने रुहेलखण्ड पर चढ़ाई की, पर वह युद्ध में मारा गया। इस प्रकार एक शत्रु नष्ट





मराठों का उत्थान और पतन

ने प्रयत्न किया। पर वह इस कार्य में सफल न हुआ और रामराजा १३ वर्ष तक सातारा के किले में कैद रहा। आगे चलकर जब १७६१ की ९ नवम्बर को तारावाड़ ८५ वर्ष की अवस्था में मरी, तब माधवराव पेशवा ने रामराजा को कैद से मुक्त कर गद्दी पर विठलाया।

जिस समय चालाजी तारावाड़ और निजाम के दीवान रामदास पन्त के पड्यन्त्र नष्ट करने में लगा हुआ था, उस समय मल्हारराव होलकर और जयप्पा शिन्दे उत्तर के मुसलमानों की राजकीय स्थिति दिल्ली के वजीर को सहायता देकर उत्तर-भारत में मराठों की घाक जमा रहे थे।

सन् १७४८ में दिल्ली के बादशाह मुहम्मदशाह की मृत्यु के बाद उसका लड़का अहमदशाह गद्दी पर बैठा। उसने अयोध्या के नवाब सफ़दरजंग को अपना वजीर नियत किया। अयोध्या-सूदे के पश्चिम की ओर गंगा के उत्तर में रहेलों का मुल्क था और हाफिज़ रहमतख़ाँ वहाँ शासन करता था। इसी प्रकार गंगा-यमुना के दोआब में पठानों का शासन था और कायमख़ाँ बंगश उनका मुखिया था। सफ़दरजंग को वजीरी मिलते ही धीरे-धीरे उसने पठान और रहेले दोनों का नाश करने का निश्चय किया। पहले उसने रहेलखण्ड में बादशाही सल्तनत जमाने के लिए नये फ़ौजदार भेजे, पर रहेलों के सेनापति पुन्देख़ाँ ने इन फ़ौजदारों की दाल न गलने दी। तब सफ़दर ने पठान और रहेलों को आपस में लड़वाकर दोनों का नाश करने का विचार किया। सफ़दरजंग के फुसलाने से पठान सरदार कायमख़ाँ बंगश ने रहेलखण्ड पर चढ़ाई की, पर वह युद्ध में मारा गया। इस प्रकार एक शत्रु नष्ट

हुआ देखकर सफ़दरजंग को बड़ा सन्तोष हुआ। उसने पठानों का मुल्क अपने राज्य में शामिल कर लिया। फिर अपने दीवान नवलराय को वहाँ का शासन सौंपकर वह दिल्ली चला गया।

परन्तु इस व्यवस्था से वहाँ शान्ति न हुई। कायमख़ाँ के लड़के अहमदख़ाँ बंगश को युद्ध के लिए भड़काने थे। अन्त में

सफ़दरजंग को मराठों की सहायता की आवश्यकता

उसने दोआब की राजधानी फ़र्नखाबाद को फिर से लेने का निश्चय किया और निश्चय के अनुसार यह शहर अपने ले भी लिया। फिर उसने नवलराय ने युद्ध

पर उसे मार डाला। तब रहले और अहमदख़ाँ पठान मिल्कन अयोध्या पर चढ़ाई करने लगे। वज़ीर घबरा गया और उसने भरतपुर के सूरजमल जाट की सेना की सहायता लेकर फ़ार्मदख़ाँ पर चढ़ाई की। पर स्वयं सफ़दरजंग की हार हुई और उसे भाग जाना पड़ा। उधर दिल्ली में उसके विरोधी उसे वज़ीरी से भी दूर करने का प्रयत्न करने लगे। इस प्रकार सफ़दरजंग बड़ी कठिनाई में पड़ गया। तब उसे मराठों की सहायता लेने की बात सूझी।

मल्हारराव होलकर और जयप्पा शिन्दे चहुना पार कर दोआब में घुसे और कादरगंज के पास दस हजार सौज सहित एक पठान सरदार को उन्होंने त्तक कर दिया। फिर उन्होंने फ़र्नखाबाद को लेना चाहा। २५ दिन तक युद्ध चलता रहा,

मराठों द्वारा सफ़दरजंग के शत्रुओं का नाश

पर मराठों की मदद होने के कारण कोई नतीजा न निकला। तब उन्होंने नौकाओं का पुल बनाकर सेना गंगा-पार की और रहले व

मराठों का उत्थान और पतन

पठानों की ३० हजार फौज से युद्ध करके उसे साफ़ कर दिया। इस प्रकार मराठों ने सकदरजंग के शत्रुओं का नाश किया।

वहुत-से धन के सिवा दोआब में कुछ प्रदेश भी मराठों के हाथ लगा। परन्तु इससे भी भारी बात यह रही कि शिन्दे-होलकर ने बादशाह से पेशवा के नाम एक फरमान लिखवा लिया, जिससे मुलतान, पंजाब, राजपूताना और रुहेलखण्ड में चौथ वसूल करने का हक़ मराठों को मिला। इसके बदले शिन्दे होलकर ने यह वचन दिया कि इन भागों में हम शान्ति बनाये रखेंगे और इनकी रक्षा करेंगे।

इसी समय दक्षिण की राजनीति में मराठों को हस्तक्षेप करना पड़ा। सन् १७४८ में दक्षिण के सूबेदार निजामुलमुल्क की मृत्यु होने पर सूबेदारी के लिए उसके लड़के नासिरजंग और नाती मुजफ्फरजंग के बीच झगड़े पैदा हुए। फ्रेंच और अंग्रेज

निजाम के मुल्क में  
आपसी झगड़े

लोग जबसे यहाँ आये थे तबसे अबतक व्यापार करते-करते यहाँ के आपसी झगड़ों में भाग लेने लगे थे और राज्य भी कमाने लगे थे। दक्षिण की सूबेदारी के लिए जो झगड़ा हुआ, उसमें फ्रेंचों ने मुजफ्फरजंग का और अंग्रेजों ने नासिरजंग का पक्ष लिया। पहले-पहल फ्रेंच लोगों की जीत हुई और ब्रूसी के अधीन फ्रेंच सेना हैदराबाद में जम गई। मुजफ्फरजंग और नासिरजंग दोनों के मारे जाने पर निजामुलमुल्क का लड़का सलावतजंग हैदराबाद का सूबेदार हुआ।





बादशाह का वजीर सफ़दरजंग इस समय रुहेलों ने युद्ध करने में लगा हुआ था। वहाँ से दिल्ली वापस आने पर उसे लाहौर और मुल्तान के सूबे जाने की बात मालूम हुई और उसे यह बात बड़ी बुरी लगी। इस कारण बादशाह ने उसकी अनवन हो गई। जो राज़ीउद्दीन दक्षिण का सूबेदार होने जा रहा था, उसका लड़का मीर शहाबुद्दीन दिल्ली ही में था। उसे राज़ीउद्दीन का खिताब देकर बादशाह ने अपना वरुशी नियत किया और सफ़दरजंग को वजीरी से हटाकर खानखाना नाम के एक दूसरे सरदार को यह पद दिया। इसने सफ़दरजंग चिढ़ गया और उसने भरतपुर के सूरजमल जाट की सहायता से दिल्ली पर घेरा डाला। छः महीने तक प्रयत्न करने के बाद वह उतर गया और कायनऊ चला गया। राज़ीउद्दीन ने मल्तारराव कोलकर और जयप्पा शिन्दे को अपनी सहायता के लिए बुलाया। मराठों ने सूरजमल जाट को दवाने के विचार से उसके किले कुम्हेर को घेरा। इसी घेरे के समय मल्तारराव का इकलौता लड़का और प्रसिद्ध अहल्याबाई का पति खण्डेराव मारा गया।

मल्तारराव को लड़के की मृत्यु से अत्यन्त दुःख हुआ। उसने प्रतिज्ञा की कि सूरजमल जाट का सिर काटूँगा और कुम्हेर की मिट्टी यमुना में फेंकूँगा, तभी मेरे जीवन की सफलता होगी। उसकी यह प्रतिज्ञा सुनकर जाट दबरावा और राजा का एक उपाय सोचा। उसने शिन्दे की शरण जाने का निश्चय किया। उसने अपने दीवान के लड़के तेजराज के हाथ शिन्दे को यह संदेश भेजा कि इस समय कास बड़े भारी है और



बादशाह का वजीर सफ़दरजंग इस समय रुहेलों से युद्ध करने में लगा हुआ था। वहाँ से दिल्ली वापस आने पर उसे लाहौर और मुलतान के सूबे जाने की बात मालूम हुई और उसे यह बात बड़ी बुरी लगी। इस कारण बादशाह से उसकी अनवन हो गई। जो गाज़ीउद्दीन दक्षिण का सूबेदार होने जा रहा था, उसका लड़का मीर शहाबुद्दीन दिल्ली ही में था। उसे गाज़ीउद्दीन का खिताब देकर बादशाह ने अपना वरुशी नियत किया और सफ़दरजंग को वजीरी से हटाकर खानखाना नाम के एक दूसरे सरदार को यह पद दिया। इससे सफ़दरजंग चिढ़ गया और उसने भरतपुर के सूरजमल जाट की सहायता से दिल्ली पर घेरा डाला। छः महीने तक प्रयत्न करने के बाद वह उब गया और लखनऊ चला गया। गाज़ीउद्दीन ने मल्हारराव होलकर और जयप्पा शिन्दे को अपनी सहायता के लिए बुलाया। मराठों ने सूरजमल जाट को दिवाने के विचार से उसके किले कुम्हेर को घेरा। इसी घेरे के समय मल्हारराव का इकलौता लड़का और प्रसिद्ध अहल्यावाई का पति खण्डेराव मारा गया।

मल्हारराव को लड़के की मृत्यु से अत्यन्त दुःख हुआ।

उसने प्रतिज्ञा की कि सूरजमल जाट का सिर काटूँगा और

कुम्हेर की मिट्टी यमुना में फेंकूँगा, तभी

शिन्दे और होलकर में  
आपसी झगड़े

मेरे जीवन की सफलता होगी। उसकी

यह प्रतिज्ञा सुनकर जाट घबराया और

रक्षा का एक उपाय सोचा। उसने शिन्दे की शरण जाने का

निश्चय किया। उसने अपने दिवान के लड़के तेजराम के हाथ

शिन्दे को यह संदेश भेजा कि इस समय आप बड़े भाई हैं और





हम यह बता चुके हैं कि सूरजमल जाट से सन्धि होने पर शिन्दे मारवाड़ गया था। मारवाड़ उर्क जोधपुर के राजा अभय-सिंह की मृत्यु सन् १७५४ में हुई। उसके पश्चात् गद्दी पर उसके लड़के रामसिंह का हक था, पर उसमें योग्यता बहुत कम होने के कारण उसके चचेरे भाई विजयसिंह ने गद्दी छीन ली। अन्त में रामसिंह ने शिन्दे की मदद से गद्दी प्राप्त करने का विचार किया। इसीकी मदद के लिए शिन्दे मारवाड़ में आया। अजमेर में रामसिंह से मदद का इकरार होने पर उसने अपनी सेना के दो दल किये। एक दल का मुखिया वह स्वयं हुआ और दूसरे दल का सेनापति अपने छोटे भाई दत्ताजी को नियत किया। इसके बाद वह अजमेर से खाना हुआ। उधर विजयसिंह ने बड़ी भारी शौज इकट्ठी की और मेड़ते गाँव में छावनी डाली। इसीके पास दोनों की लड़ाई हुई। इसमें मराठों की विजय रही। विजयसिंह किसी प्रकार बचकर नागौर भाग गया। जयप्पा ने इसे घेरकर विजयसिंह को रास्ते पर लाने की बात सोची। पर यह घेरा रात-आठ महीने चलने पर भी शहर कब्जे में न आया। विजयसिंह ने कई स्थानों से मदद पाने का प्रयत्न किया, पर वह इसमें सफल न हुआ। अन्त में उसने तीन आदमी भेजकर जयप्पा का सूत्र करवाया। इसके बाद उसके भाई दत्ताजी ने उससे घनासान बुद्ध किया। विजयसिंह गाँव में भाग गया। अन्त में अठारह महीने के बाद उसने मराठों से सन्धि की। उससे नागौर, मेड़ते और भीरा भाग रामसिंह को मिले और मराठों को लड़ाई का खर्च, अजमेर शहर तथा उसके आसपास का कुछ मुल्क मिला।

मराठों का उत्थान और पतन

मराठों ने कर्नाटक में जो राज्य-विस्तार किया, अब हम संक्षेप में उसका वर्णन करेंगे। कर्नाटक में रघुजी भोंसले की जो चढ़ाई

दक्षिण में मराठों के राज्य की सीमा तुंगभद्रा तक

सन् १७४१ में हुई, उसका वर्णन ऊपर आ चुका है। इसके बाद सदाशिवराव भाऊ ने कर्नाटक पर चढ़ाई की और वहादुर-भेगडा नाम का किला लिया। फिर साव-

नूर के नवाब से उसने २५ लाख का मुल्क सन् १७४५ में प्राप्त किया। सन् १७५३ से हर साल यहाँ मराठों की चढ़ाइयाँ होने लगीं। इसके पहले करनूल और कडप्पा के नवाब तथा मैसूर का राजा सिरजोर हो गये थे। सन् १७५३ से पेशवा ने श्रीरंगपट्टम-होली हुन्नूर और वेङ्गूर नामक स्थानों पर तीन साल तक लगा-तार चढ़ाइयाँ की। सन् १७५६ में वालाजी ने सावनूर पर चढ़ाई की। उससे कुछ मुल्क और ११ लाख रुपये देने का वचन मिला। साथ ही सोंधे और वेङ्गूर नामक राज्यों से कर लेने का अपना हक उसने मराठों को दे दिया। इस प्रकार दस वर्ष पहले मराठों की स्वराज्य-सीमा जो कृष्णा नदी तक थी वह अब तुंगभद्रा तक हो गई।

सन् १७५७ के जनवरी महीने में वालाजी और सदाशिवराव भाऊ ६० हजार फौज लेकर कर्नाटक में आये। रास्ते में मुरार-राव घोरपंडे ६ हजार फौज लेकर उनसे मिला। मराठों ने मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टम को घेरा। अन्त में ३२ लाख रुपये की शर्त पर मराठों ने घेरा उठा लिया। मैसूर के दीवान ने ५ लाख रुपये तो नकद दिये, पर शेष रकम के बदले उसने ११

महाल मराठों के जिम्मे किये । इन महालों के वन्दोवस्त के लिए पेशवा ने अपने कमावीसदार नियत किये । फिर उसने स्वराज्य के पाँच परगने जीतने का काम लिया । पहले उसने शिरे को हस्तगत किया, पर वर्षा-काल प्रारम्भ होने के कारण शेष भाग को जीतने का काम बलवन्तराव सेंदहले को सौंपकर बालाजीपूना चला आया । कर्नाटक में मराठों का जो स्वराज्य का मुल्क था, उसमें से बहुतेरा कड़वा के नवाब ने अपने कब्जे में कर लिया था । उसने कईयों को मराठों से लड़वाना चाहा, पर बलवन्तराव ने उसको दूसरों से मिलने के पहले ही युद्ध में हराकर मार डाला; उसमें आधा राज्य प्राप्त हुआ । फिर बलवन्तराव ने अर्काट के नवाब से साढ़े चार लाख रुपये और वसूल किये ।

इसी समय बेङ्गूर के राज्य में बड़ी गड़बड़ मची थी । स्वराज्य का मुल्क प्राप्त करने पर बेङ्गूर को जीतने की बलवन्तराव को पेशवा की आज्ञा थी ।

मैसूर ने घाटे की  
सन्धि

मैसूर के दीवान नन्दराय ने हैदरअली नामक एक सरदार के कहने से मराठों

को दिया हुआ मुल्क वापस ले लिया । । इसलिए मैसूर पर चढ़ाई करना आवश्यक हुआ । पर वह चढ़ाई सन् १७५८ तक न हो सकी । इस साल गोपालराव पटवर्धन और आनन्दराव रास्ते सौज लेकर कर्नाटक गये और उन्होंने चौदह परगने वापस लेकर वहाँ अपनी चौकियाँ बिठवा दीं । फिर उन्होंने बंगलोर शहर को घेरा । उसमें से एक दल ने पश्चिम की ओर चेनापट्टम को जात लिया । इनके से मैसूरवालों ने हैदर को सौज लेना मराठों से लड़ने के लिए भेजा । हैदरअली ने युक्ति से

चेनापट्टम वापस ले लिया। फिर दोनों पक्षों के बीच तीन महीने तक लड़ाई होती रही। अन्त में दोनों पक्ष लड़ाई से ऊब उठे और सन्धि करली। उसमें यह निश्चित हुआ कि चौदह महाल के बदले मैसूर मराठों को ३२ लाख रुपये दे। इसमें से १६ लाख रुपये हैदराअली ने नकद दिये, पर शेष १६ लाख रुपयों के लिए उसने मराठा फौज के साहूकारों की जमानत दी। इस प्रकार समय पर भरपूर फौज कर्नाटक में न भेजने के कारण मराठों को बाटे की सन्धि करनी पड़ी और वहाँ मराठों का अधिकार पूरा कभी न जम सका।

यह बातला चुके हैं कि हैदरावाद की गद्दी पर सलावतजंग के फ्रेंच लोगों की मदद से बैठने पर फ्रेंच लोगों का महत्व वहाँ

बहुत बढ़ गया था। यह बात वहाँ के दीवान

हैदरावाद में फ्रेंचों का, शाहनवाज़ख़ाँ को ठीक न लगती थी।

महत्व कम करने का  
मराठों का प्रयत्न

सावनूर की चढ़ाई के समय मराठों की

मदद के कारण वह फ्रेंच सेनापति ब्रूसी

को नौकरी से दूर कर सका, पर शीघ्र ही उसने अपना पहला महत्व फिर से प्राप्त कर लिया। अन्त में शाहनवाज़ख़ाँ ने बालाजी बाजीराव से मिलकर ब्रूसी को दूर करने का पड्यंत्र रचा। सलावतजंग किसी काम का आदमी न था। इसलिए उसके भाइयों में से बसालतजंग अथवा निजामअली को गद्दी पर बिठला कर फ्रेंचों को निकाल बाहर करने का विचार उसने किया। शाहनवाज़ख़ाँ ने दौलताबाद का क़िला अपने हाथ में ले लिया, पर उपर्युक्त पड्यंत्र सफल न हुआ। सलावतजंग ने क़िला वापस लेने के लिए अपने भाई निजामअली को बुरहानपुर से

बुलवाया। शिन्दखेड़ के पास निज़ाम और मराठों का घमासान युद्ध हुआ। उसमें मराठों ने विजय पाई, इसलिए सलावतजंग को मराठों से संधि करनी पड़ी। उसमें उन्होंने २५ लाख का मुल्क पाया। इस प्रकार उनका तो फायदा हुआ, पर फ्रेंचों का महत्व तत्काल न घट सका। आगे सन् १७०८ में लाली ने जब ब्रूसी को अंग्रेजों से लड़ने के लिए हैदराबाद से वापस बुला लिया, और बान्देवाश की लड़ाई में फ्रेंचों की हार हुई, तब कहीं हैदराबाद में उनका महत्व नष्ट हुआ।

गाज़ीउद्दीन के वज़ीर होने पर दिल्ली में उसका महत्व बहुत बढ़ गया और दूसरा आलमगीर नाममात्र को बादशाह रह गया। मराठों की मदद से गाज़ीउद्दीन ने अपना अधिकार स्थापित किया, यह अहमदशाह की हिन्दुस्थान पर दूसरी चढ़ाई कई मुसलमानों को ठीक न लगा।

इन्हींमें से नजीबख़ाँ रहेला एक मुख्य था। वह अपने मालिक के विरुद्ध ही पड़्यंत्र रचने लगा। उसने अफ़ग़ानिस्तान के बादशाह अहमदशाह अब्दाली को गाज़ीउद्दीन को दवाने के लिए बुलाया। पहली चढ़ाइयों में अब्दाली ने लाहौर और मुलतान के जो सूबे लिये थे उन्हें वज़ीर गाज़ीउद्दीन ने वापस ले लिया था। इसलिए अब्दाली आनेवाला ही था। वह सन् १७५६ के वर्षाकाल के समाप्त होते ही हिन्दुस्थान में आया। उसने लाहौर और मुलतान फिर से ले लिये, सतलज नदी पार कर दिल्ली पर चढ़ाई की और बादशाह और गाज़ीउद्दीन का झेंद में डालकर शहर लूटा।

अहमदशाह अब्दाली के हिन्दुस्थान में आने की ख़बर पाकर

वालाजी बाजीराव ने राघोबा को गुजरात से उत्तर में जाकर  
अब्दाली को हराने के लिए लिखा।  
राघोबा उत्तर की ओर रवाना हुआ।

अब्दाली की विजय

रास्ते में मल्हारराव होलकर उससे मिला। उसने दत्ताजी शिन्दे को भी दक्षिण से बुलवाया। जिस समय राघोबा उत्तर को आ रहा था, उस समय अब्दाली दिल्ली से मथुरा को आया और उसने शहर को लूटा। फिर उसने आगरा को घेर कर क़िला ले लिया। पर इसके बाद अपने देश को वापस चला गया। जाने से पहले उसने आलमगीर को गद्दी पर मुस्तक़िल करके गाज़ी-उद्दीन को वज़ीर और नजीबख़ाँ को वरूशी बनाया। सरहिन्द में उसने समदख़ाँ के अधीन १० हजार फ़ौज रक्खी। लाहौर और मुलतान का प्रबन्ध अपने लड़के तैमूरशाह को सौंपा और उसकी मदद के लिए जहानख़ाँ को नियंत्रित किया। फिर १७५७ के अप्रैल में अब्दाली अफ़ग़ानिस्तान को वापस गया।

इधर वज़ीर गाज़ीउद्दीन की वज़ीरख़ाँ से विलङ्गल न पटती थी। इस कारण गाज़ीउद्दीन ने राघोबा तथा मल्हारराव होलकर को शीघ्र दिल्ली आने को लिखा। इस प्रकार राघोबा सन् १७५७ के जून में दिल्ली में दाख़िल हुआ। अब्दाली इस समय अफ़ग़ानिस्तान को चला ही गया था, इसलिए राघोबा के सामने अब दिल्ली-दरबार में मराठों का ज़ोर जमाने का काम ही बचा था। दिल्ली शहर नजीबख़ाँ के क़ब्ज़े में था और बादशाह आलमगीर उसके कहे अनुसार चलता था। राघोबा ने दिल्ली लेने का काम विठ्ठल शिवदेव विंचूरकर को सौंपा। विंचूर-

कर ने १५ दिन में दिल्ली ले ली। इस समय नजीबख़ाँ मराठों के हाथ पड़ा। राघोवा उसकी अच्छी ख़बर लेना चाहता था; पर मल्हारराव होलकर उसे अपना धर्म पुत्र मानता था, इसलिए वह बच गया। इस प्रकार गाज़ीउद्दीन की सत्ता दिल्ली में स्थापित हुई और बादशाह उसके हाथ आया। राघोवा स्वयं बरसात लगते समय दिल्ली में पहुँचा। यहाँ उसने पूरा वर्षाकाल गाज़ी-उद्दीन की मदद से बन्दोबस्त करने में बिताया। फिर राघोवा लाहौर की ओर गया। रास्ते में सरहिन्द के अन्दाली के अधिकारी समदख़ाँ को हराकर कैद किया। इसलिए लाहौर को लेने में मराठों को श्रम न करना पड़ा, क्योंकि तैमूरशाह और जहानख़ाँ पहले ही अफ़ग़ानिस्तान भाग गये। इसी बीच अन्दाली और ईरान के शाह के बीच युद्ध हुआ और उसमें अन्दाली का पूर्ण पराभव हुआ। तब ईरान के बादशाह ने राघोवा से सन्धि की बातचीत शुरू की। उसने लिखा कि ईरानी सत्ता और मराठी सत्ता के बीच अटक नदी की हद रहे। इस समय मराठों की धाक पंजाब में चारों ओर जम गई थी और वहाँ के राजे-रजवाड़ों ने राघोवा से सन्धि की बात शुरू की। इससे राघोवा की महत्वाकांक्षा बहुत अधिक बढ़ गई और उसने पहले की मुग़लशाही के काबुल, कन्दहार आदि सूबे हस्तगत करने का विचार किया। पर पेशवा ने उसे दक्षिण में टुला लिया, इसलिए उसके विचार जहाँ के तहाँ रह गये। वापस जाते समय पंजाब प्रान्त के पुराने जानकार अदीनादेग को कारदारी नियत किया और उसकी मदद के लिए कुछ मराठा फौज रख दी।



लाहौर की यह चढ़ाई मराठा-राज्य-विस्तार का चरम-उत्कर्ष कहा जा सकता है। इस समय मराठों का “भगवा झण्डा”

मराठा सत्ता का चरम-  
उत्कर्ष

हिन्दुस्तान की वायव्य सीमा पर फहराने

लगा। इस चढ़ाई से मराठा फौज की

खूब वन आई। उन लोगों ने खूब धन

चटोरा, पर राघोवा के भोलेपन के कारण पेशवा को एक कौड़ी का भी फायदा न हुआ। उलटा उसे एक करोड़ रुपया कर्ज करना पड़ा। जाते समय जनकोजी शिन्दे को राघोवा ने चुपचाप यह बतलाया था कि नजीबखाँ को जीता न छोड़ो। जनकोजी ने उसका कहना स्वीकार किया। यही बात राघोवा ने दत्ताजी शिन्दे से भी कही।

मराठा राज्य का चरम-उत्कर्ष होने के लिए दक्षिण में एक और अनुकूल घटना हुई। हैदराबाद में निजामअली दीवान बघ

निजाम से लड़ाई की  
तैयारी

वैठा था और राज्य का सब कारवार

वही देखता था। उसने शिन्देखेड़ की

लड़ाई के बाद मराठों को दस लाख का

मुल्क तथा नगर और परिन्दा के किले देने को कहा था, पर

अब वह उन्हें देने से इन्कार करने लगा। इसलिए मराठों को

फिर से निजाम से लड़ाई करनी पड़ी। वालाजी ने इस समय

निजाम की खूब खबर लेने का निश्चय किया। सदाशिवराव

भाऊ सेना जमा करने लगा। इतने में विशाजीकृष्ण विनीवाले

ने अहमदनगर का किला वहाँ के किलेदार कविजंग से ले लिया।

इससे मराठों की हिम्मत बढ़ गई। फिर वालाजी नगर की ओर

गया और सदाशिवराव भाऊ राक्षसभवन की ओर खाना

हुआ। अब निजामअली इकरार के मुतविक जागीर और किले देने को तैयार हुआ, पर पेशवा अब उसकी एक भी गुनने को तैयार न था। इसलिए निजाम को लड़ाई लड़नी ही पड़ी। इस समय त्रूसी हैदराबाद से पांडुचेरी चला गया था और इब्राहीमखॉ गारदी लड़-भगड़कर उसके पास से चला आया था। इसे सदाशिवराव ने अपनी नौकरी में रख लिया।

निजाम की बहुत-सी सेना धारूर में जमा थी और स्वयं सलावतजंग और निजामअली तोपखाना और सात-आठ हजार

सेना सहित उदगीर में पहुँचे। यहाँ उनकी तथा मराठा सेना की छोटी-मोटी लड़ा-

उदगीर की लड़ाई

इयाँ होती रहीं। फिर ये दोनों भाई धारूर की अपनी सेना से मिलने के लिए आगे बढ़े। इब्राहीमखॉ गारदी के तोपखाने की मार से इनकी सेना त्रस्त हो गई थी। अन्त में बड़ी हिम्मत कर उन्होंने इब्राहीमखॉ की पलटन पर बड़े जोरों का हमला किया, इसलिए इब्राहीमखॉ के आदमियों में कुछ हलचल मच गई। इतने में मराठे घुड़सवारों ने निजाम की दाहिनी बाजू पर हमला किया और तीन हजार लोगों को छोट डाला। इस लड़ाई में निजाम के ११ हाथी, १५ तोपें आदि मराठों के हाथ लगे। अब निजामअली विलकुल घबरा गया। उसने सदाशिवराव के पास सिबो-मोहर भेजकर यह कहलाया कि जैसी तुम्हारी इच्छा हो उस शर्त पर सन्धि करो। दोनों पक्षों में जा सन्धि हुई। उससे असीरगढ़, बुरहानपुर, दौलताबाद, सालेर, मुन्नेर और नगर नाम के छः किले मराठों को मिले तथा अमदेड, कुलन्दरी, नादेड और बीजापुर के प्रदेश मराठों के हाथ आये। इस प्रकार

## मराठों का उत्थान और पतन

इस विजय से निजाम का बहुतेरा मुल्क मराठा राज्य में शामिल हुआ और पेशवा का तेज चारों ओर फैल गया।

इस समय श्रीरंगपट्टम में भी मराठों का अधिकार जमने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ था। मैसूर का राजा चिकदेव कृष्ण-

मैसूर-विजय का अवसर  
खोकर मराठों ने अक्-  
दाली से भिड़ने की  
तैयारी की

राज ओदेयार विलकुल अयोग्य था और राज्य का कारवार उसका दीवान नन्दराय ही देखा करता था। नन्दराय को दूर कर राज्य को हस्तगत करने का

विचार स्वयं सेनापति हैदरअली बहुत काल से कर रहा था।

इस समय नन्दराय मैसूर में था और हैदरअली ने उस शहर को घेर लिया था, इसलिए नन्दराय ने मराठों से सहायता माँगी।

इसपर सदाशिवराव भाऊ उसकी मदद को जाने की तैयारी कर ही रहा था कि यह खबर मिली कि अक्दाली ने शिन्दे को

हरा दिया है और इसलिए दक्षिण-विजय का काम पूर्ण करना अभी स्थगित करना होगा। इसपर सदाशिवराव भाऊ उत्तर हिंदु-

स्थान में जाने के लिए पूना को वापस चला गया। इसके बाद पानीपत की भयंकर लड़ाई हुई और उससे मराठा-राज्य का

विस्तार बहुत कुछ रुक गया। यह लड़ाई क्यों हुई, कैसे हुई और उसके क्या परिणाम हुए, यह अगले अध्याय में देखेंगे।





अब कहीं दत्ताजी की आँखें खुलीं और उसे नजीबख़ाँ की नीचता का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। उसने अब उसीकी खबर लेने

का निश्चय किया। कुंजपुरा के पास

नजबख़ाँ को दवाने का  
व्यर्थ प्रयत्न

यमुना को लाँघकर वह दोआब में

आया। इटावा की ओर से नजीबख़ाँ

को सह देने के लिए उसने गोविन्द पन्त बुन्देले को लिखा। फिर

वह स्वयं नजीबख़ाँ के दोआब के मुल्क को जीत कर, शुक्रनाल के

पास गंगा नदी को पार करके, रहेलखण्ड आया। इतने में गोवि-

न्द पन्त गंगा पार कर जलालाबाद पहुँचा। अब वे दोनों मिलकर

नजीबख़ाँ को दबा डालने का विचार कर ही रहे थे, इतने में उन्हें

खबर मिली कि शुजाउद्दौला की फ़ौज नजीबख़ाँ की सहायता के

लिए आ रही है। दत्ताजी ने गोविन्द पन्त को लिखा कि शुजाउ-

द्दौला की फ़ौज को नजबख़ाँ से न मिलने दो। पर गोविन्द पन्त

से यह काम न हो सका। शुजाउद्दौला और उमरावगीर गोसाईं दम

द्वार फ़ौज लेकर जलालाबाद पहुँचे। संख्या में बहुत कम होने के

कारण मराठा फ़ौज गंगा के इस पार चली आई (नवम्बर १७५९)। इतने में खबर मिला कि अशरफ़ी लाहौर आ पहुँचा है।

अब दत्ताजी नजीबख़ाँ को दवाने का काम वैसा ही छोड़

कर अदाली का सामना करने की तैयारी में लगा। कुंजपुरा

के पास यमुना को पारकर उसने यह

काम उठाया। उधर सादाजी शिन्दे और

भिन्वक वापूजी की सेना अदाली के

आने के कारण पीछे हटते-हटते दत्ताजी की सेना से आ मिली।

इसी समय कोई-न-कोई बहाना करके गोविन्द पन्त दत्ताजी से

अदाली से युद्ध और  
दत्ताजी की मृत्यु

इसी समय कोई-न-कोई बहाना करके गोविन्द पन्त दत्ताजी से

छुट्टी माँगने लगा। गुस्से के मारे दत्ताजी ने गोविन्द पन्त को वापस जाने की इजाजत दे दी और स्वयं अकेला अव्दाली को पीछे हटाने के लिए आगे बढ़ा। इसी समय अव्दाली-रूपी संकट हिन्दुस्थान पर लाने के कारण गाजीउद्दीन वजीर ने आलमगोर बादशाह को मार डाला और वह गोविन्द पन्त की सेना के साथ पीछे बना रहा। दत्ताजी ने मल्हारराव होलकर को जल्द आने के लिए लिखा था, पर वह नहीं आया। इस कारण इसतमाम भगड़े का बोक अकेले दत्ताजी को उठाना पड़ा। पहले तो अव्दाली से दो-चार छोटी-मोटी लड़ाइयाँ हुईं; फिर उनके बीच एक अच्छा युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की विजय हुई। अब अव्दाली ने देखा कि अकेले मुझसे शिन्दे का पराभाव न होगा, इसलिए वह दोआब में घुसा और वहाँ नजीबखाँ रहले को साथ लेकर दिल्ली की तरफ खाना हुआ। उधर दत्ताजी भी यमुना के दक्षिण किनारे से दिल्ली आ पहुँचा। वहाँ १७६० के जनवरी महीने की १०वाँ तारीख को दोनों के बीच घनघोर युद्ध हुआ। उसमें दत्ताजी मारा गया और जनकोजी जखमी हुआ। जनकोजी कोठपूतली में लाया गया। वहाँ शिन्दे की मदद के लिए होलकर आ रहा था, वह उसे मिला। होलकर ने अव्दाली का सामना करने का प्रयत्न किया, पर वह हार गया।

शिन्दे के पराभव की खबर जब पूना पहुँची, तो सरदारों की इज्जत की रक्षा के लिए तथा अव्दाली की अच्छी तरह से खबर लेने के लिए पूना से फौज भेजने का निश्चय हुआ। हम यह देख चुके हैं कि इस समय मराठों ने उदगीर की लड़ाई में भारी विजय पाई थी और निजाम का आधा मुल्क ले लिया था। इसके

अपमान का बदला लेने के लिए दक्षिण से सेना बढ़ी

लेने के लिए पूना से फौज भेजने का निश्चय हुआ। हम यह देख चुके हैं कि इस समय

मराठों ने उदगीर की लड़ाई में भारी

विजय पाई थी और निजाम का आधा मुल्क ले लिया था। इसके

चाह सदाशिवराव भाऊ सारे दक्षिण को जीतने का विचार कर रहा था। पर शिन्दे के पराभव की खबर मिलने पर उसे पूना को वापस जाना पड़ा। बालाजी बाजीराव दक्षिण में सेना भेजने की तैयारी में लगा था, पर पहला प्रश्न यह उठा कि सेनापति कौन बनाया जाय ? इसके पहले दिल्ली की ओर जो सेना भेजी गई थी, उसका भार रावोबा को दिया गया था और उसे पंजाब को जीतने के काम के साथ और भी कई काम सौंपे गये थे। पर उससे कुछ भी न हो सका। वह बहुत सीधा पुरुष था और किसी के भी थोखे में शीघ्र आ जाता था। उसने पंजाब में जो कुछ विजय की वह अचढ़ाली की गैरहाजिरी में हुई। खुद अचढ़ाली से लड़ने का मौका उसे न आया था। इसलिए इस समय सेनापतित्व का काम सदाशिवराव भाऊ को सौंपने का निश्चय हुआ। सदाशिवराव की बुद्धिमत्ता बालाजी ने कई बातों में देखी थी, इसलिए पेशवा का पूर्ण विश्वास था कि वह किसी के चक्रमे में न आवेगा। इसके सिवा सदाशिवराव ने अबतक की लड़ाइयों में भाग लिया था और अच्छा पराक्रम दिखलाया था। उदगीर की लड़ाई में उसने जो कार्य किया, वह बिलकुल ताजा था। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि इस नई चढ़ाई का सेनापतित्व सदाशिवराव भाऊ को दिया गया।


नाना पुरन्दरे, बलन्तराव मेंहदले, नरसिपतराव चिटनीस आदि सरदारों को तथा बालाजी के बड़े लड़के विश्वासराव को साथ लेकर सदाशिवराव भाऊ सन् १७६० के अग्रेल महीने की चौथी तारीख को दुम्हानपुर पहुँचा। इन नर-  
 रावों के सिवाय रामशेरबहादुर, विठ्ठल शिवदेव विचूरकर, साना-



मराठों का उत्थान और पतन

जी धायगुडे, अन्ताजी मानकेश्वर, माने, निम्बालकर आदि अन्य सरदार भी थे। दमाजी गायकवाड़, इत्राहीमखाँ गारदी और सन्ताजी वाघ उसे रास्ते में मिले। जबसे वह निकला, तबसे वह गोविन्द पन्त को लिखता रहा कि शुजाउद्दौला से मेल करके किसी भी तरह उसे अपनी ओर खींचलो। इसके सिवाय गोविन्द पन्त से जो २५ लाख रुपये वसूली के वक़ाया के आने थे उनके लिए भी उसने तक्राजा किया। मालवा में आने पर उसने राजपूत राजाओं को अपने से मिलने के लिए पत्र और दूत भेजे, पर वे तटस्थ बने रहे। शुजाउद्दौला को अदाली भी अपनी ओर खींचने का प्रयत्न कर रहा था और इसके लिए वह स्वयं दोआब के अनूपशहर में आकर रहा था। उसने शुजा से मेल करने के लिए नजीवखाँ को भेजा; पर गोविन्द पन्त का मुल्क बीच में होने के कारण, उसे लिये वग़ैर नजीवखाँ की शुजा से भेंट न हो सकती थी। जबतक नजीवखाँ की भेंट नहीं हुई थी, तबतक शुजा यही कहता रहा कि मैं मराठों के पक्ष का हूँ। उनकी यह भेंट न होने देने का भार गोविन्द पन्त पर था, पर उससे वह काम न हो सका। नजीवखाँ ने इटावा का घेरा डाला। फिर अफ़वाह उड़ा कि वह आगे बढ़नेवाला है। इसके कारण गोविन्द पन्त के थानेदार भाग गये। तब नजीवखाँ ने विदूर में शुजा से भेंट की और उसको अदाली की ओर खींच लिया।

इतने में सदाशिवराव भाऊ चम्बल नदी को पार कर शिन्दे-होलकर से मिला। गोविन्द पन्त ने उसे लिखा कि तुम जल्द





आओगे तो शुजा अपने पक्ष में शामिल होगा । इसलिए सदाशिवराव का पहला दाव भाऊ ने आगरा पहुँचने की जल्दी गोविन्द पन्त के कारण की, पर गम्भीर नदी में बाढ़ होने के व्यर्थ कारण उसके दस-पन्द्रह दिन व्यर्थ गये । इतने में उसे खबर मिली कि शुजाउद्दौला अज्जाली के पक्ष में शामिल हो गया, इसलिए भाऊ ने विचार किया कि सूरजमल जाट को साथ लेकर आगरा के पास यमुना को लाँघना चाहिए और नजीवख़ाँ व अज्जाली के बीच घुसकर दोनों को अलग-अलग हराना चाहिए । अज्जाली इस समय अन्नूपुराहर में था, नजीवख़ाँ और शुजाउद्दौला विठूर में थे और गोविन्द पन्त इन दोनों के बीच इटावा में था । अज्जाली के पास ३० हजार फौज, नजीव और शुजा के पास २० हजार फौज और गोविन्द पन्त के पास करीब आठ-दस हजार फौज थी । भाऊ ने विचार किया कि आगरे के पास यमुना को लाँघकर पश्चिम की ओर से गोविन्द पन्त को मिलना चाहिए और फिर शुजा और नजीव को पहलें हरा कर फिर अज्जाली की खबर लेनी चाहिए । इसलिए भाऊ ने गोविन्द पन्त को लिखा कि अपने प्रान्त की सब नावें यमुना के दक्षिणी किनारे पर लाओ । मानार्जी धायगुड़े और तीन हजार जाट भाऊ ने यमुना के पार शकूराबाद में पहले ही भेज दिये थे । इतने में यह खबर मिली कि शुजा और नजीव अज्जाली की ओर जा रहे हैं, इसलिए भाऊ सब सरदारों और जाटों के साथ आगरा आया । पर गोविन्द पन्त ने नावें जमा न की थीं, नदी में पानी भी बहुत था; अतएव अज्जाली के पक्ष की दो सेनाओं को अलग-अलग हराने का विचार भाऊ को छोड़ देना पड़ा ।

नजीब और शुजाउद्दौला अव्दाली से सिकन्दरा में आकर मिले, तब भाऊ ने अव्दाली को हराने की नई योजना की। उसने विचार किया कि मथुरा, दिल्ली, कुंजपुरा आदि यमुना के दक्षिणी किनारे के स्थान लेकर उत्तर की ओर से यमुना पार कर

भाऊ का दूसरा दाव और दिल्ली पर कब्जा

अव्दाली को पीछे हटाना चाहिए। इस योजना के अनुसार भाऊ उत्तर की ओर रवाना हो गया। अलीगढ़ तक मराठों की चौकियाँ बिठलाने का, अव्दाली के आस-पास का मुल्क जलाकर साफ कर देने का, रुहेलों के मुल्क में घुसने की अफवाह उड़ाने का और शुजाउद्दौला के मुल्क में दंगे-फिसाद मचाने का काम उसने गोविन्द पन्त को सौंपा। भाऊ १६ जुलाई १७६० को मथुरा में आया और वहाँ से उसने बलवन्तराव मेंहदले तथा शिन्दे-होलकर को दिल्ली लेने के लिए आगे भेजा। बलवन्तराव ने दिल्ली शहर बहुत शीघ्र ले लिया और भाऊ के जाने पर क़िला भी हाथ आ गया।

दिल्ली का शहर और क़िला मराठों के हाथ आते ही मराठों की धाक चारों ओर जम गई। अव्दाली के पक्ष के कई सरदार

मराठों का आतंक

भाऊ से मिलने के लिए वातचीत करने लगे। शुजाउद्दौला भी अव्दाली से मिलने

के कारण पछताने लगा। अव्दाली ने शुजा की घात करनी चाही और उससे द्रव्य माँगने लगा। इसलिए उसने भाऊ से मेल की वातचीत शुरू की। इस प्रकार जब अव्दाली के साथी उसे छोड़ कर जाने का विचार करने लगे, तब उसे भी इस बात का पक्का तावा हुआ कि नजीबख़ाँ के कहने में आकर मैं व्यर्थ ही संकट में पड़ गया। उस समय बरसात होने के कारण मराठों ने करीब

दो महीने दिल्ली में डेरा जमाया था। इसलिए अब अक़्बाली यही चाहता था कि किसी प्रकार सन्धि हो जाय और मैं सुरक्षित स्वदेश पहुँचूँ। पर इस समय भाऊ के पास अच्छी सेना थी, जंगी तोपखाना था और वह दत्ताजी शिन्दे का पूरा-पूरा बदला लेना चाहता था। इसलिए भाऊ ने निश्चय किया कि अपने मन के मुताबिक संधि होगी तभी मैं अक़्बाली को सुरक्षित स्वदेश जाने दूँगा, नहीं तो उसकी खासती ख़बर लूँगा।

बरसात के तीन महीने भाऊ ने दिल्ली में काटे। थिछले वर्ष राज़ीउद्दीन वज़ीर ने आलमगीर बादशाह को मार डाला था, तबसे गद्दी खाली थी। भाऊ ने आलमगीर के लड़के अलीग़ौहर को गद्दी पर बिठलाने के लिए दिल्ली बुलवाया, पर अलीग़ौहर स्वयं न आया—उसने अपने लड़के जवानबख्त को भेज दिया। भाऊ ने नाना पुरन्दरे और अप्पाजी जाधवराव के हाथों जवानबख्त को बलीअहद बनाया और अलीग़ौहर को आलम का पद देकर उसके नाम का शाही सिक्का जारी किया। भाऊ का विचार वज़ीरी ख़ुद करने का था, इसलिए मुजावदौला की वज़ीरी मिलने की आशा नष्ट हो गई और वह किराने अक़्बाली के बड़े मुताबिक़ चलने लगा। भाऊ ने दिल्ली के दीवान-ए-आम की छत निवाल डाली। उसके जो तीन लाख रुपये आये, वे सेना का वेतन देने में खर्च किये। सूरजमल जाट छत दिखा देने के कारण भाऊ से नाराज़ हो गया, और अपनी सेना लेकर वापस चला गया।

नागेशंकर दानी को राजाबहादुर की पदवी देकर पोंड

हजार सेना उसके अधीन रक्खी और दिल्ली नगर तथा किले का बन्दोबस्त उसे सौंपा। इसके बाद अब्दाली पर चढ़ाई करने के लिए भाऊ उत्तर को गया वरसात समाप्त होते ही वह कुंजपुरा गया और अब्दाली को हराने की तैयारी में लगा। उसने गोविन्द पन्त को पहले बतलाये हुए काम करने की ताकीद की और स्वयं कुंजपुरा लेने की कोशिश में लगा। यह स्थान शीघ्र ही मराठों के हाथ आ गया। अब अब्दाली पर चढ़ाई करने के लिए भाऊ को यमुना पार करना आवश्यक था, इसलिए वह सारंगपुरा की ओर गया।

इतने में भाऊ को खबर मिली कि अब्दाली वागपत के पास यमुना पार कर पानीपत की ओर जा रहा है। इस समय अब्दाली भाऊ के पंजे में अच्छी तरह फंसा था। सामने उसकी सेना खड़ी थी, पीछे की ओर दिल्ली में नारोशंकर उसे रोकने के लिए तैयार था। इसलिए यमुना के दाहिने किनारे की ओर अब्दाली के बचने का कोई उपाय न था। दोआब और रुहेलखण्ड से उसे कुछ मदद मिलने की आशा थी, पर उसे भी नष्ट करने की तजवीज भाऊ ने की थी और यह काम उसने गोविन्द पन्त को सौंपा था। इस समय अब्दाली बहुत डर गया था। मराठा-सेना और अब्दाली की सेना के बीच मुश्किल से दो-चार कोस का अन्तर था। अब्दाली की सेना में महँगाई बहुत बढ़ गई थी। इस समय दोनों पक्षों के बीच जो एक छोटी-सी लड़ाई हुई, उसमें मराठों की विजय रही। अब्दाली को हराने का उत्साह सब मराठा सेना में था

और मराठों को ऐसा जान पड़ता था कि हम अक्बाली को निगल डालेंगे। पर विधि-विधान कुछ भिन्न ही था !

अब तक गोविन्द पन्त बुन्देले पर बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियाँ सौंपी गईं, पर उनमें से उसने एक भी पूरी न की। भाऊ का

विचार था कि अक्बाली की रसद बन्द करके उसकी सेना को भूखों मार डालना चाहिए। पर गोविन्द पन्त ने यह काम

न हो सका। अक्बाली की रसद बन्द होना तो दूर रहा, दिल्ली ने मराठों को मिलने वाली रसद ही वह बन्द करने लगा और इन प्रकार मराठों को ही भूखों मरने की नौबत आई। अक्बाली ने विचार किया कि मराठों को बहुत दिनों तक भूखों मराने फिर उनसे लड़ना चाहिए। परन्तु इस समय अक्बाली ने लड़कर उसकी हार दूर करने में ही मराठों का फायदा था। इसलिए मराठों ने पहले २३ नवम्बर १७६० को और फिर ७ दिसम्बर १७६० को इस प्रकार दो युद्ध किये। दोनों में मराठों की विजय रही, पर बलवन्तराव सेंहदले दूसरे युद्ध में मारा गया। इन युद्धों से मराठों का कोई विशेष फायदा न हुआ। अक्बाली अपने निश्चय पर अटल था और उसकी हिम्मत किसी प्रकार कम न हुई थी।

अब दालाजी को इस बात की खबर मिली कि भाऊ अक्बाली के कब्जे में फँस गया है, इसलिए वह २५-३० हजार सैनिक

अक्बाली का घेरा तोड़ कर दिल्ली की ओर जाने का निश्चय

भाऊ की मदद के लिए रवाना हुआ। उसके दुरहानपुर के पास आने पर गोविन्द पन्त को यह खबर मिली कि स्वयं पेशवा

दिल्ली की ओर आ रहा है। तब गोविन्द पन्त अपनी इच्छा



मराठों का उत्थान और पतन

बचाने के लिए ४ लाख रुपये लेकर दिल्ली आया। रुपये नारो-शंकर के अधीन कर गोविन्द पन्त स्वयं पानीपत की दिशा में, गाजीउद्दीन नगर की ओर, खाना हुआ। पर इस शहर के पास आने पर अदाली के सरदार आतईख़ाँ ने उसपर हमला किया। गोविन्द पन्त इस लड़ाई में मारा गया, इस कारण 'अदाली की रसद बन्द करने का उपाय नष्ट हो गया। इसके बाद पाराशर दादाजी वाघ ने कुछ थोड़ी-सी मदद मराठों को पहुँचाने का प्रयत्न किया, पर वह प्रयत्न भी विफल हुआ। इसलिए मराठा-सेना के मनुष्य और जानवर दोनों भूखों मरने लगे। अन्त में लोगों ने विचार किया कि भूखों मरने की अपेक्षा रण में मरना अच्छा है, इसलिए भाऊ ने अदाली का घेरा तोड़कर दिल्ली की ओर जाने का निश्चय किया।

१४ जनवरी सन् १७६१ को बड़े सवेरे मराठा-सेना शत्रु पर हमला करने के लिए व्यवस्थित खड़ी हुई। दाहिनी ओर जनकोजी शिन्दे और मल्हारराव होलकर लड़ाई की शुरुआत अपनी सेना-सहित थे। बाईं ओर दमाजी गायकवाड़, यशवंतराव पेंवार, संताजी मानकेश्वर, विठ्ठल शिवदेव विंचूरकर और शमशेरबहादुर थे। बीच में स्वयं सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव थे। सबके सामने तोपखाना था और उसका मुखिया इब्राहीम गार्दी था। पीछे की ओर नौकर-चाकर तथा छोटी-मोटी पलटनें थीं। मराठा फौज अपनी छावनी से डेढ़ कोस आगे बढ़ी। भाऊ ने विचार किया था कि यदि अदाली रास्ता छोड़कर एक ओर हो जावेगा तो लड़ाई न करके वैसे ही लौट चले जावेंगे। पर मराठा-सेना को इतने दिनों तक भूखों

मारकर अब अचढ़ाली उसे चुपचाप क्यों जाने देने लगा था ? मराठों के कूच की खबर पाते ही उसने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। बीच में अपने वजीर शाहबलीखॉ को रखवा, दाहिनी ओर रहेले सरदार और बाईं ओर नजीबखॉ व शुजाउद्दौला थे। सबके सामने उसका तोपखाना था। पर स्वयं अचढ़ाली पीछे रह गया था।

अब दोनों ओर से तोपें दागी जानें लगीं। दोनों फौजों के पास पहुँचते ही मराठों की बाईं ओर के यशवन्तराव पँवार और विठ्ठल शिवदेव आगे बढ़कर लड़ाई करने लगे, परन्तु दृटते-दृटते वे फिरसे अपनी

शुभ्रात में मराठों की विजय

जगह पर आये। तब इम्राहीमखॉ गादी

ने तोपों की मार ज़ोरों से शुरू की और अपनी पलटनें आगे बढ़ाईं। उसने ज़ोरों का एक हमला करके आठ हजार सोंलों को मारा कर डाला। इधर भाऊ और विश्वासराव ने वजीर शाहबली की फौज पर हमला किया और तीन हजार लोग मार डाले। स्वयं वजीर का लड़का भी मारा गया। लड़के के गिरते ही वजीर घबरा गया और उसके आदमी भागने लगे। यह देख नजीबखॉ भाऊ से लड़ने आया। इसपर जनकोजी शिन्दे भाऊ की मदद को पहुँचा। रहेलों की तोपों की मार से शिन्दे के बहुत-से लोग मरने लगे, तथापि मराठों के पैर बढ़ते ही जाते थे। बाईं ओर पँवार, गायकवाड़ और इम्राहीमखॉ ने मुसलमानों को आगे न बढ़ने दिया। लड़ाई में मराठों की विजय होती दिखाई दी और मुसलमान फौज में भगदड़ मच गई। यह देख अचढ़ाली ने अपने पलट की चार हजार सेना भेजकर इन भागनेवाले लोगों को रोका।

मराठों का उत्थान और पतन

इस प्रकार भीड़ को उस नई सेना का सामना करना पड़ा।

अब करीब दो वज्र गये थे। मराठे शक्ति भर लड़ रहे थे। इतने में दुर्दैव से बन्दूक की एक गोली अचानक विश्वासराव के लगी और वह मरणासन्न होकर गिर मराठों की पूर्ण पराजय पड़ा। इसी समय बाईं ओर विठ्ठल शिवदेव की फौज के हजार पठानों ने अपने भगवे ऋण्डे फाड़ डाले और मराठों की हार होने की पुकार मचा दी। इस कारण मराठा सेना के नौकर-चाकर भागने लगे। विश्वासराव के गोली लगने की खबर पाकर सदाशिवराव भाऊ उसके पास पहुँचा। उसकी दशा देखकर भाऊ ने मरने-मारने का निश्चय कर लिया। हाथी से उतरकर वह घोड़े पर सवार हुआ और भीड़ में घुसकर जोरों से लड़ने लगा। पर मराठों की पिछली सेना भागने लगी थी। मराठों को भागते देख अन्धाली की सेना ने उन्हें घेर लिया और मारकाट शुरू की। केवल भाऊ, शिन्दे, शमशेर-बहादुर और इनाहीमख़ाँ आखिर तक लड़ते रहे। शेष सारे सरदार या तो भाग गये, या मारे गये। भाऊ ने भगदड़ रोकने के विचार से जयवाद्य भी बजाये, पर भागनेवाले न रुके। जब बहुतेरी सेना नष्ट हो गई, तो भाऊ भीड़ में घुस पड़ा। जनकोजी शिन्दे भी उसके पीछे-पीछे आया, पर वह शत्रु के हाथ में पड़कर मारा गया। इस प्रकार सायंकाल तक लड़ाई समाप्त होकर मराठों का पूर्ण पराभव हुआ। जो लोग यहाँ-वहाँ छिपे थे, वे शत्रु के हाथ पड़े और दूसरे दिन मारे गये।

भागने वालों में से पाँच-सात हजार लोग दिल्ली की ओर आये।





## मराठा जहाज़ी वेड़े का विनाश

बालाजी वाजीराव के समय में पानीपत की लड़ाई से मराठी सत्ता को जैसा धक्का पहुँचा, उसी प्रकार मराठों के जहाज़ी वेड़े का विनाश होकर मराठों की सामुद्रिक पश्चिमी किनारे पर बालाजी की धाक शक्ति को भी धक्का पहुँचा; और जिस प्रकार पानीपत की लड़ाई के लिए यह पेशवा जिम्मेदार रहा, उसी प्रकार अथवा उससे कुछ अधिक ही यह मराठों की सामुद्रिक शक्ति के लिए भी जिम्मेदार रहा। मराठों की सामुद्रिक शक्ति के कार्यों का वर्णन हम वाजीराव के अन्त तक दे चुके हैं। कान्होजी आँग्रे की मृत्यु के बाद सन् १७३५ में वाजीराव ने उसके लड़के सम्भाजी और मानाजी का मेल करा दिया था, परन्तु फिर भी उनके भगड़े वन्द न हुए। सन् १७४१ में सम्भाजी की मृत्यु हुई। उसके बाद विजय-दुर्ग की व्यवस्था और सरखेल नाम का पद उसके दासी-पुत्र तुलाजी आँग्रे को मिला। तुलाजी शरीर का भव्य, सुन्दर, वीर और



इसमें सफल न हुआ और इन अंग्रे-बन्धुओं में वैमनस्य बनाही रहा। तुलाजी वीर और कार्यशील पुरुष था, इस कारण उसके सामने मानाजी का टिक सकना सम्भव न था। मानाजी ने किसी प्रकार पेशवा की सहायता से इस प्रबल भाई से अपने प्रदेश की रक्षा की। तुलाजी बड़ा भारी सामुद्रिक वीर सरदार था और पश्चिमी किनारे पर उसकी अच्छी थाक हो गई थी, परन्तु दमाजी गायकवाड़ और रघुजी भोंसले के समान पेशवों की अपेक्षा वह कुछ उद्धत था। वालाजी वाजीराव से जब तारावाई का झगड़ा चल रहा था। तब उसने तारावाई का पक्ष लिया था। आगे जब तारावाई को चुपचाप बैठना पड़ा और जब सब मराठा-राज्य के कारवारा पेशवा चलाने लगा, तब तुलाजी ने पेशवा की सत्ताक में रख दी और अपने मुल्क के ब्राह्मणों को कष्ट देना शुरू किया इस समय पेशवों का कोंकण का सरसूवेदार रामाजी महादेव विवलयकर था। उसके और तुलाजी के बीच झगड़े होने लगे। रामाजी बड़ा कार्यशील और दूरन्देश था। उसने अपने मन में सोचा कि जबतक तुलाजी की सत्ता पूर्णतया नष्ट न होगी तबतक मैं शान्ति से न रह सकूँगा। सन् १७४० में अंग्रेजों ने मानाजी अंग्रे की मदद की थी, तबसे मराठों के दरवार में उनके लिए अनुकूल मत था। आगे जब सन् १७५१ में कर्नाटक में फ्रेंचों पर उन्होंने विजय पाई, तब तो उनका नाम खूब बढ़ा। इस समय रामाजी ने अंग्रेजों की सहायता से तुलाजी की शक्ति नष्ट करने का विचार किया। वालाजी वाजीराव का रामाजी पर पूर्ण विश्वास था और उसे कोंकण के कारवार में प्रत्यक्ष ध्यान देने का अवकाश न था। अतएव कोंकण का सारा कारवार उसने





वेड़ा विलियम जेम्स के अधीन बम्बई से रवाना हुआ और तुलाजी का सर्वनाश और चौल बन्दर से मराठों का जहाज़ विजयदुर्ग पर अंग्रेज़ों वेड़ा उससे मिला। फिर वे सुवर्णदुर्ग का कब्ज़ा की ओर बढ़े। पर तुलाजी के जहाज़ पहले ही दक्षिण की ओर भाग गये थे। अंग्रेज़ों और मराठों के वेड़ों ने उनका पीछा किया, पर उन्हें न पा सके। तब वापस आकर अंग्रेज़ों ने समुद्र की ओर से और मराठों ने ज़मीन की ओर से तोपों की मार सुवर्णदुर्ग पर शुरू की और चार दिनों में यानी ६ अप्रैल को क़िला उनके हाथ लगा। इधर शमशेर बहादुर और दिनकर पन्त के अधीन पूना से जो फ़ौज आई थी उसने आँग्रे का खुशकी मुल्क और क़िले लेना शुरू किया। फिर मराठा फ़ौज ने रत्नागिरी को घेरा, परन्तु बरसात शुरू होने के कारण अंग्रेज़ों का वेड़ा वापस चला गया और चढ़ाई का काम स्थगित हुआ। दूसरे साल एडमिरल वाटसन और कर्नल क्लाइव जंगी जहाज़ और फ़ौज लेकर बम्बई-बन्दर में आये। विजय-दुर्ग बहुत मज़बूत समझा जाता था, इसलिए यह क़िला लेने के लिए बम्बई के गवर्नर ने वाटसन और क्लाइव को रवाना किया। बरसात समाप्त होते ही मराठा फ़ौज ने खण्डोजी मानकर के अधीन विजय-दुर्ग के पास छावनी की। अंग्रेज़ी वेड़े के आने की खबर पाकर तुलाजी ने मराठों से मेल की बातचीत शुरू की। इसलिए अब विजयदुर्ग पर हमला करने का कोई कारण न रह गया था। पर आँग्रेज़ कहाँ मानने वाले थे? उन्होंने यह चिह्लाना शुरू किया कि मराठों ने अकेले-अकेले तुलाजी से मेल की बातें करके इकरार-नामे की शर्तें तोड़ी हैं। इसलिए वाटसन ने समुद्र से और क्लाइव



लगा कि इस मुल्क को तुम वापस ले लो और उसके बदले विजय-दुर्ग को हमारे कब्जे में रहने दो। इसपर बालाजी बाजीराव ने उत्तर दिया कि विजयदुर्ग को लेने के लिए हो तो हमने तुम्हारी मदद ली थी, उसे यदि हम तुम्हारे हाथ में रहने देंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे ! अंग्रेज यह भी कहने से न चूके कि यदि विजय-दुर्ग हमारे कब्जे में रहने दिया तो हम पोर्तुगीजों से तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस प्रकार यह झगड़ा दो महीने तक चलता रहा। अन्त में स्पेन्सर और वायफ्रील्ड नामक दो अंग्रेज वकील पूना आये, तब अंग्रेज और पेशवा के बीच सन्धि हुई और इस झगड़े का निर्णय हुआ। उसके अनुसार यह निश्चय हुआ कि यहाँ से स्पेन्सर के निकलने के दिन से २४ दिन के भीतर अंग्रेज विजय-दुर्ग को छोड़ दें, पेशवा वानकोट और उसके पास के दस गाँव अंग्रेजों को दे, पेशवा अंग्रेजों से किसी भी पिछली बात के लिए कुछ न माँगे और तुलाजी को घाट के उस पार का मुल्क विलकुल न दे, वानकोट की खाड़ी में सिद्दी जो चौथाई जकात वसूल करता है पेशवा उसका वन्दोवस्त और कहीं कर दे और मराठा-राज्य में अंग्रेजी माल पर पहले से अधिक जकात न लगाई जाय। इसके बाद गोविन्द शिवराम खासगी वाले को भेजकर पेशवा ने विजय-दुर्ग पर अपना कब्जा किया और तबसे वह पेशवा के जहाजी वेड़े का केन्द्र हुआ। जहाजी वेड़े का एक स्वतंत्र सूबा बनाया गया और जहाजी वेड़े का सूबा ही उसका नाम रक्खा गया। इस सूबे पर बहुधा ऐसे ही पुरुष की नियुक्ति होती थी, जो समुद्री कामों में निपुण होता। आनन्दराव धुलप नाम का पुरुष सन् १७६४ से १७९४ तक मराठा जहाजी



## अराठों का उद्वान और पतन

के राजकीय झगड़ों में हाथ डालने का अंग्रेजों को अच्छा मौका मिला। तुलाजी के डर के मारे पश्चिमी किनारे पर अंग्रेज कुछ लड़वड़ न करते थे; पर उसका विनाश होने पर, पानीपत की लड़ाई के बाद, वे पश्चिमी किनारे के सुदृढ़ स्थानों को भी लेने का प्रयत्न करने लगे। सन् १७६५ में यशवन्तगढ़ और शिवाजी का बनाया हुआ सिंहदुर्ग ये दो जंजीरे अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिये। ये दोनों स्थान कोल्हापुर के राजा के अधीन थे, पर अंग्रेजों के विरुद्ध चिलाने और हाथ-पैर पटकने के सिवाय उसके पास कोई उपाय न था। इस प्रकार जहाजी वेड़े की ओर पूरा ध्यान न देने तथा तुलाजी आँग्रे के मजबूत वेड़े को नष्ट करने के कारण अंग्रेज उस किनारे पर जोरदार हो गये और उन्हें दवाने की ताकत किसी में न रही। रामाजी विवलकर ने तुलाजी का विनाश करवा कर अत्यन्त अदूरदृष्टि ही दिखलाई; क्योंकि उसके कारण तुलाजी आँग्रे के समान साहसी वीर निपुण और कर्मण्य सामुद्रिक वीर का राष्ट्र-हित के लिए कुछ उपयोग न हो सका।

---



### भाधवराव पेशवा

बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद उसका दूसरा भाई  
भाधवराव पेशवा हुआ। उस समय भाधवराव की उम्र बहुत कम  
थी, इसलिए उसका बालाजीराव का  
उर्फ राघोदा राव्य का काबू में  
रखना पड़ा।

निज़ाम की मराठा-राज्य  
पर चढ़ाई और राघोदा  
से घाटे की स्थिति

प्रदेश वापस लेने का यह अच्छा अवसर है। यह सोच कर निजाम-अली ने मराठों के प्रदेश पर खास पूना तक चढ़ाई करने का विचार किया। औरंगाबाद के पास फौज जमा करके वह आगे बढ़ा। जोश में आकर उसने गोदावरी के किनारे के टोके नामक देवस्थान को नष्ट कर डाला। राघोवा इस चढ़ाई के लिए जरा भी तैयार न था; निजाम की फौज के कूच की खबर पाकर उसने तैयारी की। धीरे-धीरे फौज जमा हुई। टोके के विध्वंस के कारण निजाम की ओर का हिन्दू सरदार रामचन्द्र जाधव मराठों से आ मिला और उसने निजामअली के छोटे भाई मीर मुग़ल को भी अपनी ओर खींच लिया। परन्तु इतने पर भी मराठे सरदारों में ऐक्य उत्पन्न करके शत्रु का सामना करने का काम राघोवा से जल्दी न हो सका। इसलिए निजाम पूना से १४ मील पर आ पहुँचा। अब कहीं मराठों ने उसपर हमले करना शुरू किया और उसे घेर लिया। तब कोई उपाय न देख निजाम ने सन्धि की बातचीत शुरू की। राघोवा को इस बात की चिन्ता थी की एक बार निजाम किसी प्रकार अपने मुल्क को वापस चला जाय। इसलिए उसने उदगीर की लड़ाई के बाद पाये हुए प्रदेश में से औरंगाबाद और वेदर वापस दे दिये। निजाम वापस चला गया। इस प्रकार घाटे की सन्धि करने का एक कारण और था। राघोवा के हाथ में कारंवार रहना पूना के कई सरदारों को पसन्द न था। इसलिए आवश्यकता पड़ने पर इन सरदारों को दवाने के लिए निजाम की सहायता लेने के विचार से भी राघोवा ने, सखाराम बापू के कहने से, इस प्रकार की सन्धि की थी।

बावूजी नांयक नामक एक सरदार ने इस बात पर जोर दिया





मराठों का उत्थान और पतन

आत्म-समर्पण कर दिया। तब राज्य का कारवार फिर से राघोबा और सखाराम वापू के हाथ आया। अब निजाम की सहायता की आवश्यकता न रही, इसलिए उसको कुछ थोड़ा-सा प्रदेश देकर वापस भेज दिया।

राघोबा और सखाराम वापू के हाथ में अधिकार आते ही, उन्होंने माधवराव के पक्ष के लोगों को दवाना शुरू किया। कई लोगों को उन्होंने हटाकर उनकी जगह अपने पक्ष के लोग नियत किये। स्वयं गोपिकाबाई और माधवराव पर पहरा बैठा दिया। गोपालराव पटवर्धन से मीरज वापस ले लिया। इसके बाद उसका विचार कर्नाटक पर चढ़ाई करने का था, परन्तु पहले उसे निजाम की ओर ध्यान देना पड़ा।

राघोबा के हाथ में कारवार आने पर और उसके मीरज लेने पर उससे असन्तुष्ट सरदार भगवानराव प्रतिनिधि, उसका मुतालिक गमाजी, यमाजी और गोपालराव पटवर्धन निजाम के पास गये। निजाम का दीवान विठ्ठलसुन्दर बड़ा कार्यपटु था। उसने देखा कि मराठों का प्रदेश जीतने का यह अच्छा अवसर है। गमाजी बाबा ने नागपुर के जानोजी भोंसले को सातारा की गद्दी का लोभ दिखाकर इस पड़्यन्त्र में शामिल कर लिया। इसमें शामिल होने वाले सब सरदारों को निजाम ने बड़ी जागीरों का प्रलोभन दिया। इस प्रकार निजाम की बड़ी भारी सेना तैयार हुई। सन् १७६३ के अन्त में उसने पेशवा को यह सन्देश भेजा कि प्रतिनिधि पटवर्धन आदि सरदारों की जो जागीरें तुमने ज्व्त की

हैं वे उन्हें लौटा दी जायँ । जानोजी भोंसले को और जागीर भी जाय । भीमा के वृत्तिग का तुम्हारा सब राज्य हमें दे दिया जाय. और हम कहें उस कारवारी के हाथ में राज्य का कारवार रक्खा जाय । इतनी सब बातें करोगे तो तुम्हारा प्रदेश बना रहेगा; अन्यथा तुमपर चढ़ाई करके हम तुम्हें अपने कंठ अनुत्तार करने को बाध्य करेंगे ।





## मराठों का उत्थान और पतन

सेना अनवरुद्धी में आई और उसने हैदर को घेरकर उसकी रसद बन्द की। विदरूर के रास्ते में एक लड़ाई हुई, उसमें हैदर हारकर विदरूर को भाग गया। इसके बाद हैदर ने सन्धि की बातचीत शुरू की, पर शर्तें ठीक न होने के कारण लड़ाई जारी रही।

ऊपर बता चुके हैं कि राजसभुवन की लड़ाई के बाद राज्य-कारवार माधवराव को सौंपकर धर्म-कार्य में समय बिताने के विचार

से राघोवा नासिक चला गया था। पेशवा और हैदर के बीच सन्धि इस समय कुछ नीच लोगों के कहने में आकर उसने अपने भतीजे के विरुद्ध

षड्यंत्र रचना शुरू किया। माधवराव को जब इस बात को खबर मिली, तब उसने राघोवा को अपने पास बुलाया। सन् १७६५ के प्रारम्भ में राघोवा माधवराव से आ मिला। मराठों का विचार पहले तो श्रीरंगपट्टम पर हमला करने का था, पर उन्होंने विदरूर पर हमला किया। कोई उपाय न देख हैदर सन्धि के लिए तैयार हुआ। सन्धि में यह निश्चय हुआ कि उत्तर-कर्नाटक में हैदर ने जो मराठों का प्रदेश जीता था वह उन्हें वापस दे दे, मैसूर के कर के बदले मराठों को ३२ लाख रुपये दे और सावनूर के नवाब तथा मुरारराव घोरपड़े को किसी प्रकार की तकलीफ न पहुँचावे।

इस चढ़ाई से वापस आने पर राघोवा ने राज्य के आधे हिस्से के लिए माधवराव से झगड़ा किया। माधवराव ने देखा

निजाम से मेल करके कि यदि भोंसले और निजाम उससे पेशवा का जानोजी मिलें तो वह शायद अपनी बग़ावत में भोंसले को दबाना सफल हो जाय। इसलिए माधवराव ने

निजाम से मेल करने का निश्चय किया। दोनों में यह निश्चित

हुआ कि हम परस्पर सहायता करेंगे, जो एक का शत्रु होगा वह दूसरे का भी शत्रु समझा जायगा, और कर्नाटक की चढ़ाई दोनों मिलकर करेंगे। जानोजी भोंसले पहले जब निजाम से जा मिलता था, तब माधवराव ने निजाम से फौजों के लिए ३२ लाख का प्रदंश उसे दिया था। समय की आवश्यकता देख माधवराव ने यह किया था सही, पर अपने मन में वह जानोजी से नागद्वेषी था। निजाम भी उससे नाराज था, क्योंकि पेशवा वरुण वरुण पेशवा से जा मिलता था। सन १७६५ के जाड़े के प्रारम्भ में माधवराव पूना से वरार की ओर खाना हुआ। नरने में निजाम की सेना उससे मिली। इतनी बड़ी प्रौजसे लड़ने के लिए जानोजी भोंसले तैयार न था। इसलिए उसने मेल की शर्तों पर १२ लाख पहले उसने जो ३२ लाख का प्रदंश पाया था, उसमें से १२ लाख का वापस दे दिया। उससे से एक-तिहाई माधवराव से वापस पास रखवा और दो-तिहाई सन्धि कायम रखने के लिए तिहाई वापस दे दिया।

पर मल्हारराव से अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ न बन पड़ा। तब गुजा-  
 वंदौला और मुगल बादशाह को अंग्रेजों से इलाहाबाद की सन्धि  
 करनी पड़ी। उत्तर-हिन्दुस्थान में मराठों की यह स्थिति  
 देख माधवराव ने राघोवा को उत्तर-हिन्दुस्थान में भेजने का  
 विचार किया और राघोवा ने भी यह भार अपने ऊपर लेना  
 स्वीकार किया। जानोजी भोंसले पर माधवराव ने सन् १७६५ में  
 जो चढ़ाई की थी, उसमें राघोवा को भी अपने साथ लिया  
 था। भोंसले से सन्धि होते ही राघोवा ने इस नई चढ़ाई की  
 तैयारी की और उत्तर की ओर रवाना हुआ। उसके साथ जानोजी  
 भोंसले ने अपने भाई मुघोजी को पाँच-सात हजार फौज देकर  
 भेजा और माधवराव ने नारोशंकर तथा विट्टल शिवदेव विंचूर-  
 कर को रवाना किया। मालवा में जाने पर राणोजी शिन्दे का  
 लड़का महादजी शिन्दे, पँवार और मल्हारराव होलकर भी शामिल  
 हुए। इस प्रकार करीब ४० हजार फौज इस चढ़ाई के लिए  
 तैयार हुई।

राघोवा के जिम्मे दो काम किये गये थे। रुहेलों और  
 अयोध्या के नवाब से मिलकर दिल्ली की बादशाही का बन्दोबस्त  
 करना पहला काम था, और दूसरा  
 राघोवा की गोहद से सन्धि काम जाट और राजपूत राजाओं को  
 रास्ते पर लाने का था। इनमें से कोई भी काम प्रारम्भ न होने  
 पाया था कि सन् १७६७ की २० मई को मल्हारराव होलकर  
 की मृत्यु हो गई। इसलिए राघोवा कोई निश्चय न कर सका और  
 कालपी में छावनी डालकर उसने बरसात काटी। बरसात समाप्त  
 होते ही पहले जाटों की खबर लेने का राघोवा ने निश्चय किया।

इन जाटों में ग्वालियर के पास का गोहद का राणा बड़ा प्रबल हो गया था। मराठों को मदद देने के बदले उसे बार्जाराव ने गोहद का परगना और किला जागीर दिया था, पर पानीपत की लड़ाई के बाद वह स्वतंत्र बन बैठा और मराठों के कुछ प्रदेश पर भी उसने कब्जा कर लिया। इसलिए उसे मदद देने के विचार से राघोदा ने गोहद पर घेरा डाला। घेरे का काम अच्छी तरह न हो सका और अन्त में १५ लाख रुपये लेकर राघोदा ने घेरा उठा लिया। इस समय अन्य कई मराठे राघोदा से मदद के लिए तैयार थे, पर उसकी इतनी तैयारी नहीं, इसलिए कुछ दिना बुन्देलखण्ड में छोड़कर राघोदा



बदनामी की कोई हद न रहेगी। माधवराव को भी अहिल्यावाई का कहना मान्य था। इसलिए राघोबा को अपना हट छोड़ना पड़ा। मल्हारराव के रिश्तेदारों में से तुकोजी नाम का एक सरदार था, उसे अहिल्यावाई ने अपनी सेना का सेनापति नियत किया; और गंगाधर पन्त को उसके पद से हटाकर सारा राज्य-कारवार उसने अपने हाथ में लिया। इस प्रकार अपने सारे विचार विफल हुए देख राघोबा को बड़ा खेद हुआ और वह आनन्दवल्ली को वापस चला आया।

हैदरअली से जो सन्धि हुई थी, उसमें एक शर्त यह थी कि हैदर हर साल ३२ लाख रुपये मराठों को कर दे; पर उसने इस शर्त का पालन न किया। इसलिए माधवराव दूसरी चढ़ाई और फिर से सन्धि को उसपर दूसरी चढ़ाई करनी पड़ी। इस चढ़ाई का एकदूसरा कारण भी था।

अब निजाम और अंग्रेजों में मेल होगया था और सन् १७६६ में दोनों ने यह निश्चय किया था कि हम दोनों मिलकर पहले हैदर पर और फिर मराठों पर चढ़ाई करें। उनका यह विचार विफल करने के लिए माधवराव ने हैदर पर सन् १७६७ में चढ़ाई करदी। उसने हैदर के राज्य का पूर्व-भाग उध्वस्त कर डाला और शिर्से नामक स्थान ले लिया। तब हैदर सन्धि के लिए तैयार हुआ। बालाजी बाजीराव के समय जितना प्रदेश मराठों के कब्जे में था उतना उसने मराठों को वापस देना स्वीकार किया। इसके सिवाय उसके पास से मराठों को ३३ लाख रुपये मिले। हैदर ने यह भी मंजूर किया कि मैं रजवाड़ों को तथा मुरारराव को न सताऊंगा। इसके बाद माधवराव शीघ्र पूना आया, क्योंकि राघोबा ने

राज्य के आर्थे हिस्से का मनाड़ा फिर से उठा दिया था।

राधोबा की किसी बात में एक भी न चर्चा, इसलिए वह पेशवा से बड़ा नाराज हुआ। उसने पुराना मनाड़ा फिर से उठाया।

राधोबा ने फिरसे लगवाया और किसी प्रकार माधवराव ने उमे मनाया

माधवराव ने मन्थाराम बापू को देत की बातचीत करने के लिए राधोबा के पास आनन्दवल्ली भेजना चाहा, पर मन्थाराम

बापू ने इस भागड़े में पढ़ने से इनकार कर दिया। अन्त में बड़ी मुश्किल से राधोबा और माधवराव का भेट हुई। इस समय

माधवराव ने उससे स्पष्ट बात दिया कि या तो राज्य का सम्भार करो या मिली हुई जागीर से सन्तुष्ट रहो। राधोबा ने बात सुनी

कि मैं अपना समय पूजा-अर्चा में बिताना चाहता हूँ, पर मेरा नाश रुपये का मेरा ऋजु दिवाली के पहले मुझे करना पड़ेगा।

माधवराव ने राधोबा की शर्त मानकी और उसके पालन-कार के सातारा, शिवनेरी, नगर तथा अर्सागढ़ राज के साथ अपने

अपने ऋजु में कर लिये। अब माधवराव को यह लगने लगे कि मराठा-राज्य अन्तःकला से बचाने में क्या जायता

पर भविष्य का जिरमा कौन ले सकता है !

से भी मदद मिलने की उसे आशा थी; और निजाम से भी उसने बातचीत की थी। कोई यह न कहने पावे कि 'तुम्हारे तो लड़का है नहीं, फिर तुम राज्य लेकर क्या करोगे?' इसलिए भुसकुटे उपनाम के एक ब्राह्मण लड़के को उसने गोद लिया और उसका नाम अमृतराव रक्खा। इस प्रकार राज्य का आधा हिस्सा लेने की राघोवा ने पूरी तैयारी की।

माधवराव ने यह विचार किया कि भोंसले और निजाम के राघोवा से मिलने के पहले ही राघोवा को दवा डालना चाहिए।

इसलिए उसने अपने सब सरदारों को राघोवा की हार और कैद सेना लेकर बुलाया। उसके पास करीब

४० हजार फौज जमा हुई। इस बात की खबर पाकर राघोवा ने धोड़प किले का आश्रय लिया। यहाँ पर दोनों फौजों के बीच जो भयंकर युद्ध हुआ, उसमें राघोवा का दीवान मोरो विठ्ठल रायरीकर मारा गया। अब माधवराव ने किले को घेर लिया और मोर्चेबन्दी की। तब राघोवा पत्नी सहित माधवराव के अधीन हुआ। फिर राघोवा की जागीर कब्जे में लेने के लिए फौज भेजी और माधवराव पूना वापस आया (२३ जून सन् १७६८)। उसने राघोवा को शनिवार-वाड़े में बन्दी कर दिया।

इसके बाद माधवराव पेशवा ने राघोवा को मदद करने वाले सरदारों को दण्ड देने का काम हाथ में लिया। गंगाधर यशवंत चन्द्रचूड़ को कैद कर उससे बहुत-सा चन्द्रचूड़ और गायकवाड़ का दमन

रुपया माँगा। इसी प्रकार दमाजी गायकवाड़ के लड़के गोविन्दराव को माधवराव ने कैद किया और दमाजी की मृत्यु के बाद ५० लाख से भी कुछ



लटमार कर रहे हैं उसी प्रकार यदि मैं उनके प्रदेश में लटमार मचाऊँ, तो वे अपने जानोजी माधवराव का शरण और दोनों में सन्धि प्रदेश की रक्षा के लिए मेरे पीछे आवेंगे और इस प्रकार मेरे प्रदेश की रक्षा हो जायगी। यह उपाय बहुत ठीक निकला। उसने अपनी छावनी में कुछ फौज, डेरे बगैरा रहने दिये और स्वयं १५ हजार घुड़सवार लेकर शीघ्रता से पूना की ओर चला। माधवराव को जब यह खबर मिली तो उसने अपनी आधी सेना तुरन्त भोंसले के पीछे भेजी और फिर स्वयं उसे वापस आना पड़ा, क्योंकि इस चढ़ाई में सैनिकों का मन नहीं लगता था। माधवराव की सेना जानोजी के पीछे पड़ गई और अन्त में जानोजी को घेरकर शरण आने के लिए बाध्य किया। तब १७६९ के २३ मार्च को दोनों में मेल हुआ। जानोजी को राजसमुवन की लड़ाई के बाद जो जागीर मिली थी, उसमें से २४ लाख की जागीर पेशवा ने पहले ही वापस ले ली थी। अब बची हुई ८ लाख की जागीर भी वापस ले ली। इसके सिवाय निम्नलिखित मुख्य शर्तें भोंसले ने मान लीं—(१) दिल्ली के बादशाह, अयोध्या के नवाब, रूहेले, अंग्रेज और निजाम से से किसी से भी पेशवा की इजाजत के बिना मैं बातचीत न करूँगा; (२) हरसाल पाँच लाख रुपये पाँच किशतों में पटाऊँगा; (३) अपनी फौज पेशवा के सलाह के बगैर कम-अधिक न करूँगा और सरकारी काम के लिए सदैव हाजिर रहूँगा; (४) अब आगे पेशवा के प्रदेश में घास-झाना वसूल न करूँगा और निजाम के प्रदेश के घास-झाने के बदले निश्चित रकम निजाम से लूँगा। पेशवा ने यह स्वीका



मराठों का उत्थान और पतन

सकने के कारण खुद हैदर की सेना पर माधवराव ने हमला करने का विचार किया। हैदर माधवराव की चाल को समझकर श्रीरंगपट्टम भाग गया। सन् १७७० के ३० अप्रैल को मराठों ने निजगल का क़िला जीत लिया। इस समय तक मराठों ने कई क़िले और बहुत-सा प्रदेश जीत लिया था। पर हैदर अब भी उनकी शर्तें मानने को तैयार न था, इसलिए अन्त में माधवराव ने त्रिम्बकराव मामापेठे के अधीन फ़ौज रखदी और स्वयं पूना को वापस चला गया।

बरसात में त्रिम्बकराव ने गुरमकुण्डा का प्रदेश जीता। बरसात के बाद माधवराव फिर आया, पर स्वास्थ्य दिनोंदिन

मोतीतलाव की लड़ाई

विगड़ने के कारण वह पूना को वापस चला गया। सन् १७७१ के प्रारम्भ में गोपालराव पटवर्धन की मृत्यु हुई। बरसात समाप्त

होने पर त्रिम्बकराव मामा ने विदनूर-प्रान्त पर चढ़ाई करने की सोची। इसपर हैदर ने उसपर अचानक रास्ते में हमला करने का विचार किया। पर त्रिम्बकराव ने उसकी सब बातों का पता लगाकर मेलकोट के पास उसे घेर लिया। यहाँ पर दोनों पक्षों में बड़ी भारी लड़ाई हुई। हैदर की हार हुई और वह वहाँ से भाग गया। यह लड़ाई सन् १७७१ के मार्च महीने की ८ तारीख को हुई। इसे मोतीतलाव की लड़ाई कहते हैं।

इसके बाद त्रिम्बकराव ने श्रीरंगपट्टम को घेरा, पर जीतने की

हैदर से सन्धि

सम्भावना न देख उसे छोड़ देना पड़ा। इसके बाद वह कावेरी के आस-पास दंगा-

फिसाद मचाता रहा और वेलोद में छावनी डाली। इस बीच में





## मराठों का उत्थान और पतन

तुकोजी होलकर और नहादजी शिन्दे, भी पंद्रह-पंद्रह हजार फौज लेकर इस चढ़ाई में शामिल हुए। सन् १७६९ की वरसात मराठा सेना ने वुन्देलखण्ड के वागियों को दवाने में काटी। इसके बाद मराठों ने भरतपुर पर चढ़ाई की। इस समय यहाँ का राजा केसरी नाम का लड़का था, इसलिए राज्य का कारवार उसका चाचा नवलसिंह देखता था। जाटों और मराठों के बीच जो लड़ाई हुई, उसमें जाट हार गये। तब नवलसिंह मराठों की शरण आया और उसने मराठों का जो आगरा प्रान्त और क़िला ले लिया था वह वापस दे दिया; साथ ही ६५ लाख रुपये भी दिये। इसके बाद मराठों ने अपना मोर्चा दिल्ली की ओर फेरा और पानीपत की लड़ाई के शत्रुओं की खबर लेनी चाही, पर परिस्थिति देखकर मराठों ने नजीवख़ाँ से मेल किया और दोआब में मराठों का जो प्रदेश था उसकी सन्धें नजीवख़ाँ ने जमानवस्त से उनके नाम लिखवा दीं। इसके बाद सन् १७७० में मराठे नजीवख़ाँ को लेकर दोआब में घुसे। यहाँ पर नजीवख़ाँ फिर से उन्हें धोखा देना चाहता था, पर अक़तूबर में अचानक उसकी मृत्यु हो जाने से पहले जैसा मौक़ा न आया। दोआब में घुसने पर मराठों ने एक के बाद दूसरा स्थान लेना शुरू किया और सारे प्रदेश को जीतकर साफ़ कर डाला। हाफ़िज रहमतख़ाँ रुहेलखण्ड को भाग गया और अहमदख़ाँ वंगश को मेल करना पड़ा। उसने पानीपत की लड़ाई के बाद जीता हुआ सब प्रदेश मराठों को दे दिया।

हम यह देख चुके हैं कि सन् १७६५ की सन्धि के बाद बादशाह शाहआलम अंग्रेज़ों का मातहत बन चुका था और



कार जमा लिया। इसके बाद उन्होंने पत्थरगढ़ जीता। यहाँ नजीबुदौला द्वारा पानीपत की लड़ाई के बाद लूटी गई अपार सम्पत्ति भरी हुई थी, वह सब फिर से मराठों के हाथ लगी। जवेता के बाल-बच्चे भी उनके हाथ पड़े। इसके बाद मराठा फौज सारे रुहेलखण्ड में फैल गई और उसका विध्वंस करने लगी। इस समय मराठों का डर रुहेलों के मन में इतना समा गया था कि किसी भी मराठा सवार को देखते ही रुहेले भाग जाते थे। बरसात प्रारम्भ होने पर कुछ मराठा फौज द्रोआव को लौट आई और कुछ दिल्ली चली गई। बरसात के बाद वे रुहेलखण्ड पर फिर से चढ़ाई करने वाले थे, पर माधवराव की बढ़ती हुई बीमारी के कारण उन्हें दक्षिण में वापस आना पड़ा।

माधवराव को बहुत दिनों से ज्वर-रोग हो गया था। इसी-के कारण हैदर के विरुद्ध दूसरी चढ़ाई के समय, दूसरी बार आने पर भी, उसे पूना को लौट जाना पड़ा था। उसकी बीमारी के कारण त्रिम्बकराव को हैदर से शीघ्र सन्धि करनी पड़ी और उत्तर-हिन्दुस्थान की उसके समय की आखिरी चढ़ाई भी अधूरी रही। सन् १७७२ के १८ नवम्बर को माधवराव की मृत्यु हुई। उसके साथ उसकी स्त्री रमाबाई सती हुई। उसके कोई लड़का न होने के कारण उसने अपने छोटे भाई नारायणराव को राज्य का उत्तराधिकारी नियत किया और राज्य का काम राघोवा को करने के लिए कहा।

माधवराव को जिस समय राज्याधिकार प्राप्त हुआ, उस समय





## चारहभाई की खेती

माधवराव को मृत्यु के बाद, पूर्व-निश्चय के अनुसार, उसका छोटा भाई नारायणराव पेशवा हुआ। नारायणराव की आयु इस समय करीब १७ वर्ष थी। माधवराव भी पेशवा होते समय इतनी ही आयु का था, पर माधवराव के गुण नारायणराव में नाम-मात्र को भी न थे। माधवराव स्वभाव से अत्यन्त शान्त और विचार-पूर्वक कार्य करने वाला पुरुष था। नारायणराव में बहुत अधिक जल्दवाजी थी, इस कारण वह मातहत लोगों को ठीक तौर पर न चला सका। अपनी जल्दवाजी के कारण सखाराम वापू जैसे अनुभवी और वृद्ध पुरुष का भी उसने अपमान किया, इसलिए राज्य-कार्य से सखाराम वापू ने अपना हाथ खींच लिया। नारायणराव में एक दोष और था। वह किसी पर भी बहुत जल्द विश्वास कर लेता था। इसलिए नीच लोग राज्य-कार्य में दखल देने लगे।



पहले-जैसा न रहा । उसने सोचा कि मराठों ने जो मेरा मुल्क जीता है उसे वापस लेने का यह अच्छा मौक़ा है । हैदर का यह विचार जब नारायणराव को मालूम हुआ, तो उसने युद्ध की तैयारी की । उसने त्रिसाजी कृष्ण विनीवाले तथा तुकोजी होलकर को बहुत जल्द दक्षिण में आने के लिए लिखा । पर पूना में कुछ दूसरा ही नाटक खेला जाने वाला था ।

ऊपर बतला ही चुके हैं कि मुधोजी भोंसले राघोवा का पक्षपाती था, इसलिए नारायणराव ने जानोजी का पद तथा जागीर पूना में नारायणराव को सौंपकर राघोवा को पेशवा बनाने का षड्यन्त्र सावाजी को दे डाली । सावाजी ने मुधोजी को दवाने का प्रयत्न किया, पर उसमें वह विफल हुआ । इसलिए नारायणराव ने स्वयं उसकी सहायता के लिए जाने का विचार किया । तब राघोवा के पक्षपातियों ने इस बात का षड्यन्त्र रचना शुरू किया कि मुधोजी पर पेशवा की यह चढ़ाई न होने पावे । इसके लिए उन्होंने राघोवा को कैद से छुड़ाने का भी प्रयत्न किया । पर ज्यों-ज्यों बड़े लोग उस षड्यन्त्र में शामिल होने लगे त्यों-त्यों उनका उद्देश केवल राघोवा को छुड़ाने का न होकर नारायणराव को कैद करने और राघोवा को छुड़ाकर उसे ही पेशवा बनाने का होने लगा । इस षड्यन्त्र में सखाराम बापू भी शामिल था । यह ऊपर बतला ही चुके हैं कि जल्दबाजी के कारण नारायणराव ने इस कारस्थानी पुरुष का अपमान किया था । यह पहले से ही राघोवा का पक्षपाती अपमान होने पर वह भी राघोवा के षड्यन्त्र में शामिल हो गया





को नारायणराव अपनी ससुराल में भोजन के लिए गया था। भोजन करने पर वहाँ उसे खबर लगी कि गारदी लोग दंगा-फिसाद मचा रहे हैं। उस दिन सवेरे भी उसे इस बात की खबर लग चुकी थी कि गारदी लोग कुछ दंगा-फिसाद करनेवाले हैं, पर उसके सेनापति हरिपंत फड़के ने उसे वचाने का प्रयत्न न किया। नारायणराव को जब ससुराल में गारदियों के दंगा-फिसाद की सूचना मिली, तब उससे यह भी कहा गया कि आप अपने वाड़े में अब न जाइए; पर विधि-लेख नहीं मिट सकता ! थोड़ी ही देर के बाद वह शनिवारवाड़े में वापस चला गया। उसके पीछे सुमरेसिंह, खड़गसिंह और मुहम्मद यूसुफ आये। वेतन के वचाने उन्होंने नारायणराव से कुछ कड़ी बातें कहीं और अपनी तलवारें निकालीं। नारायणराव भागकर राघोवा की ओर जाने लगा। रास्ते में एक कुनविन ने गारदियों को रोकना चाहा, पर उन्होंने उसे मार डाला। चौक में दो गायें बैधी थीं, तलवारें देखकर वे भड़क उठीं और गारदियों पर दौड़ीं। इसलिए उन्होंने गायों को भी मार डाला। नारायणराव भागकर राघोवा से जा लिपटा, पर राघोवा ने उसकी रक्षा नहीं की। आनन्दीबाई के खिदमतगार तुलाजी पँवार ने जब नारायणराव को जमीन पर गिराया तब चापाजी टिलेकर नाम के पेशवा के एक खिदमतगार ने पेशवा को वचाने का प्रयत्न किया, पर गारदियों ने दोनों को अपनी तलवारों से मार डाला। इसके बाद गारदियों ने राघोवा के नाम से घोषणा की और इस महल को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। लोगों को जब इस खून की बात मालूम हुई तब उन्हें बड़ा दुःख हुआ और गारदियों पर बड़ा गुस्सा आया, पर जहाँ-तहाँ गारदियों ने अपना अधिकार जमा लिया



को तैयार थे । निज़ामअली ने सावाजी की मदद की । माधवराव ने तुंगभद्रा के दक्षिण में जो देश जीता था उसे हैदरअली ने लूटना शुरू किया ।

राघोवा ने पहले निज़ामअली और सावाजी को दवाने का प्रयत्न किया और इसलिए उसने करीब ४५ हजार सेना लेकर

निज़ाम और हैदर पर  
राघोवाकी चढ़ाई; पूना  
में उसके विरुद्ध 'वारह-  
भाई का कारस्थान'

निज़ाम पर चढ़ाई की । निज़ाम बेदर में  
घिर गया, इसलिए उसने २० लाख की  
जागीर और औरंगाबाद देने की शर्त पर  
संधि कर ली । इतने में निज़ाम राघोवा

की मुलाकात के लिए आया और उसने उससे ऐसी मीठी-मीठी बातें कीं कि राघोवा उसके भुलावे में आगया और इस संधि के अनुसार मिली हुई सब जागीर निज़ाम को वापस कर दी । शर्त यही रखी कि जब कभी काम पड़े तब निज़ाम सैनिकसहायता दे । निज़ाम ने यह शर्त स्वीकार कर ली । इसके बाद राघोवा ने हैदरअली पर चढ़ाई की । हैदर ने मेल की बातचीत करके शर्तें निश्चित कर डालीं । इसके बाद वह कर्नाटक पर चढ़ाई करने वाला था पर पूना से जो खबर मिली उसके कारण वह लौट आया । राघोवा की ग़ैरहाजिरी में पूना में उसके विरुद्ध पुराने सरदारों ने एक षड्यंत्र रचा । उन्होंने निश्चय किया कि नारायणराव की पत्नी गंगाबाई गर्भवती है, इसलिए उसके लड़का हुआ तो ठीक ही है अन्यथा एक लड़का उसकी गोद देकर उसके नाम से राज्य का कारबार चलायेंगे । इस षड्यंत्र में सखाराम वापू और नाना फड़तबीस मुख्य थे । दस-बारह बड़े-बड़े लोग और भी शामिल थे । इसलिए उनके षड्यंत्र को "वारहभाई का कारस्थान" कहते हैं ।



को तैयार थे। निज़ामअली ने सावाजी की मदद की। माधवराव ने तुंगभद्रा के दक्षिण में जो देश जीता था उसे हैदरअली ने लूटना शुरू किया।

राघोवा ने पहले निज़ामअली और सावाजी को दवाने का प्रयत्न किया और इसलिए उसने करीब ४५ हजार सेना लेकर

निज़ाम और हैदर पर राघोवा की चढ़ाई; पूना में उसके विरुद्ध 'वारह-भाई का कारस्थान'

निज़ाम पर चढ़ाई की। निज़ाम बेदर में धिर गया, इसलिए उसने २० लाख की जागीर और औरंगाबाद देने की शर्त पर संधि कर ली। इतने में निज़ाम राघोवा

की मुलाकात के लिए आया और उसने उससे ऐसी मीठी-मीठी बातें कीं कि राघोवा उसके मुलावे में आगया और इस संधि के अनुसार मिली हुई सब जागीर निज़ाम को वापस कर दी। शर्त यही रखी कि जब कभी काम पड़े तब निज़ाम सैनिकसहायता दे। निज़ाम ने यह शर्त स्वीकार कर ली। इसके बाद राघोवा ने हैदरअली पर चढ़ाई की। हैदर ने मेल की बातचीत करके शर्तें निश्चित कर डालीं। इसके बाद वह कर्नाटक पर चढ़ाई करने वाला था, पर पूना से जो खबर मिली उसके कारण वह लौट आया। राघोवा की ग़ैरहाज़िरी में पूना में उसके विरुद्ध पुराने सरदारों ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने निश्चय किया कि नारायणराव की पत्नी गंगावाई गर्भवती है, इसलिए उसके लड़का हुआ तो ठीक ही है अन्यथा एक लड़का उसकी गोद देकर उसके नाम से राज्य का कारबार चलायेंगे। इस षड्यंत्र में सखाराम वापू और नाना फड़नवीस मुख्य थे। दस-बारह बड़े-बड़े लोग और भी शामिल थे। इसलिए उनके षड्यंत्र को "वारहभाई का कारस्थान" कहते हैं।

राघोबा ने जब निजाम पर चढ़ाई की तब सखाराम बापू, नाना फड़नवीस, मोरोवा दादा, हरिपंत फड़के आदि लोग कुछ न कुछ बहाना करके पूना को वापस चले आये। उनका षड्यंत्र पूरा रचा जाने पर शहर को उन्होंने अपने कब्जे में किया।

षड्यंत्र का प्रारम्भ

गंगावाई और पार्वतीवाई को पुरन्दर के किले में भेज दिया। राघोबा के पक्ष के लोगों की जायदाद जब्त कर ली और उनके बाल-बच्चों को कैद में डाल दिया। सातारा के महाराजा राघोबा को पदच्युत करवाकर गंगावाई के नाम पेशवाई का हुक्म सँगवाया। इतना करने पर उन्होंने शिन्दे, होलकर, फतेसिंह गायकवाड़ आदि सरदारों को अपने कार्य की सूचना दी। उन्होंने निजाम से मिल किया और फिर से सावाजी को सेनासाहेब सूबा का पद दिया। इस समय तक उनके पास करीब २० हजार फौज जमा हो चुकी थी और हरिपंत फड़के और भी सेना जमा कर रहा था।

इन बातों की खबर जब राघोबा को लगी तब उसने कर्नाटक की चढ़ाई स्थगित की और वापस लौटा। पूना के कारवारियों के विरुद्ध सहायक प्राप्त करने के विचार से उसने हैदरअली से संधि की और तुंगभद्रा के दक्षिण का तथा कृष्णा और

राघोबा उत्तर की ओर भागा

तुंगभद्रा के बीच का मुल्क उसे दे डाला। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का मुल्क पटवर्धन और रास्ते की जागीरें थीं। पूना के कारवारियों के सरदार भी शामिल थे। इन्हें दबाने के विचार से ही उसने कान किया था। कृष्णा के इस पार आने पर राघोबा ने पटवर्धन और रास्ते की जागीर में लूट-मार शुरू की। इतने में

खराबों का उतारना और पतन

त्रिम्बकराव मामापेठे, सावाजी भोंसले आदि की ५० हजार फौज पहुँचने पर राघोवा उत्तर की ओर भाग गया। त्रिम्बकराव और हरिपंत फड़के ने उसका पीछा किया। सन् १७७४ के २६ मार्च को त्रिम्बकराव मामा और राघोवा के बीच कासेगाँव में युद्ध हुआ। इसमें त्रिम्बकराव मारा गया, पर हरिपंत फड़के ने राघोवा का पीछा जारी रखा। तब राघोवा बुरहानपुर भाग गया।

इधर उस साल के १८ अप्रैल को पुरन्दर किले में गंगाबाई के लड़का हुआ। कारवारियों ने उसका नाम माधवराव रखा


और ४० दिन का होने पर उसे

पेशवा घोषित किया। लोग उसे मवाई

माधवराव कहा करते थे। इन बातों की

राघोवा का भाग कर  
अंग्रेजों के पास जाना

खबर जब राघोवा को मिली तब उसने वावूजी नाइक के जरिये मेल की बात-चीत शुरू की। पर मेल की शर्तें तय न हो सकी, इसलिए झगड़ा जारी रहा। राघोवा भागकर नर्मदा पार गया। महादजी शिन्दे अपना महत्व बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने राघोवा को पकड़ने का प्रयत्न न किया। वह कभी इधर तो कभी उधर मुका करता था। इस कारण राघोवा को भागने का अवसर मिल गया। अपनी पत्नी आनन्दीबाई के गर्भवती होने के कारण उसने उसे धार में रख दिया और वह उज्जैन को भाग गया। हरिपंत ने यहाँ भी उसका पीछा किया, इसलिए वह अहमदाबाद भाग गया। यहाँ पर उसने संधि की बातचीत शुरू करके भीतर ही भीतर अंग्रेजों से बातचीत करने का समझौता किया। अन्त में दोनों पक्षों में लड़ाई हुई और राघोवा भागकर सुरत को चला गया।



अंग्रेजों से मराठों  
के  
युद्धों का नक्शा





बम्बई-किनारे के अंग्रेज साष्टी (सालीसट) और वसई लेने के लिए बहुत काल से तैयार-से बैठे थे। हरिपंत जब राघोवा का उत्तर की ओर पीछा कर रहा था तब हमला करके उन्होंने साष्टी को ले लिया। इसके

सूरत की सन्धि

बाद राघोवा सूरत में उनके आश्रय में पहुँचा। दोनों के बीच यह संधि हुई कि अंग्रेज राघोवा को पेशवा की गद्दी पर बैठाने के लिए तीन हजार फौज की मदद दें। उस फौज के खर्च के लिए राघोवा डेढ़ लाख रुपये महीना दे। यह रकम अंग्रेजों का समय पर मिलती रहे, इसलिए अमाद, हसोद, बलसाड़ और अंकलेश्वर नाम के गुजरात के चार महाल वह फिलहाल अंग्रेजों के हवाले करे। इस संकट-काल में सहायता करने के बदले साष्टी अंग्रेजों के पास बह रहने दे। इसके सिवाय वसई, जम्बूसर, ओलपाड़ वगैरा प्रदेश भी राघोवा अंग्रेजों को सदैव के लिए दे। यह संधि सूरत में सन १७७५ के ६ मार्च को हुई। अंग्रेजों ने राघोवा से ६ लाख के जेवर इस बात की जमानत के लिए रख लिये कि राघोवा अपने वचन का पालन करे।

फिर कर्नल कीटिंग के साथ ढाई हजार फौज राघोवा की मदद के लिए निकली। दोनों की संयुक्त फौज का सामना करने का भार हरिपंत फड़के पर पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों से मराठों के युद्ध का प्रारम्भ कि राघोवा के अंग्रेजों से मिलने की बात सुनकर शिन्दे और होलकर अपने-अपने मुल्क को वापस चले गये। हरिपंत की फौज की स्थिति अच्छी न थी और राघोवा उसे अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करता रहा। परन्तु ऐसी फौज की सहायता से भी हरिपंत ने



कोपरगाँव में रहे, और उसे खर्च के लिए २५ हजार रुपये हर महीने मिलें। राघोबा अथवा कोई और बगावत करे तो अंग्रेज उसकी सहायता न करें। खुद पेशवा के घराने का राघोबा राज्य-लोभ से अन्धा होकर अंग्रेजों का आश्रित बना। उसने स्वजनों से द्रोह करके अंग्रेजों की सहायता से पेशवाई पाने की आशा की। तब कारवारियों ने देखा कि राज्य में शान्ति रखना आवश्यक है, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों की अन्याय्य माँगों भी स्वीकार कीं। अब उन्हें यह आशा दीख पड़ी कि राज्य में शान्ति स्थापित होगी। पर राघोबा रूपी शनिश्चर जबतक था तबतक शान्ति की आशा व्यर्थ ही रही। इस प्रकार फिर से मराठों की अंग्रेजों से जो लड़ाई शुरू हुई उसके पहले शान्ति का कुछ समय बीता। इस अवधि में पूना के कारवारियों ने तीन भगाड़े निपटाये।

निजामअली ने मराठों के इस आपत्ति-काल में उनके राज्य के प्रदेश जीतने का विचार किया। उसे कारवारियों ने १८ लाख का प्रदेश देकर किसी मराठा-राज्य पर चारों ओर से आपत्तियाँ प्रकाशित कीं। हैदर ने कर्नाटक पर कब्जा कर लिया। कोल्हापुर का राजा पेशवा का प्रदेश निगलने लगा। कित्तूर के देसाई ने बगावत की। प्रतिनिधि ने दंगा-फिसाद डाला। घाटवंधारी में कोलियों ने भी दंगा किया। इस प्रकार चारों ओर से आफतें आने लगीं और एक वनावटी भाऊसाहब ने इन सबकी हद्द करदी। पूछताछ करने पर वह भूटा सिद्ध हुआ। इसलिए उसे रत्नागिरी में ले जाकर रक्खा।



इसलिए नाना फड़नवीस उनसे बहुत चिढ़ गया । उसने इस समय सब हिन्दुस्थानी शासकों तथा पूना पर हमला करने का व्यर्थ डर फ्रेंचों का एका करके अंग्रेजों को हिन्दु-स्थान से निकाल बाहर करने का विचार किया और इसके लिए एक योजना तैयार की, पर उसकी यह योजना अमल में न आ सकी । शिन्दे के मुल्क पर अंग्रेजों ने चढ़ाई की थी, इसलिए वह उधर फँसा था । भोंसले को १६ लाख का मुल्क देकर वारन हेस्टिंग्स ने चुप कर दिया । निजाम-अली की फौज जल्द तैयार न हो सकी । केवल हैदर ने फ्रेंच लोगों की सहायता से मद्रास पर चढ़ाई की । मद्रास वालों की फौज इस समय मराठों से लड़ने में लगी थी, इसलिए मद्रास वालों को उसने खूब तंग किया । तब कलकत्ते की सरकार भोंसले के जरिये संधि की बातचीत करने लगी । इधर कर्नल गोडार्ड ने भी सन्धि की बातचीत शुरू की । तब नानाने उत्तर भेजा कि हैदर की सलाह बगैर हम संधि नहीं कर सकते । इसपर गोडार्ड ने विचार किया कि यदि पूना पर चढ़ाई की धमकी दी जाय तो नाना धवरा कर संधि के लिए तैयार होगा । इस विचार से ७ हजार फौज लेकर गोडार्ड बोरघाट पर चढ़ आया । उसके आने की खबर पाकर नाना ने उसका सामना करने की तैयारी की । परशुराम भाऊ पटवर्धन ने कोंकण में बम्बई और बोरघाट के बीच गोडार्ड की रसद बन्द करने के विचार से डेरा डाला । इधर से हरिपंत फड़के, तुकोजी होलकर और नाना पचीस-तीस हजार फौज लेकर गोडार्ड का सामना करने के आगे बढ़े । इसलिए अब गोडार्ड की हिम्मत आगे बढ़ने की

सराठों का उत्थान और पतन

न हुई। अन्त में उसने वापस जानने का विचार किया। इस समय सराठों ने अंग्रेजी सेना को हमले करके खूब तंग किया। गोडाई चढ़ी मुश्किल में सन् १७८१ के २३ अप्रैल को पनवल वापस गया।

उत्तर में भी अंग्रेजी फौज की यही हालत रही। जिस कर्नल केमेक ने शिन्दे के मुल्क पर चढ़ाई की थी वह अब सिरोंज तक बढ़ आया। यहाँ पर महादजी शिन्दे ने अंग्रेजी फौज को घेरकर उसकी रसद बन्द की। इसलिए अंग्रेज बहुत

तंग हुए। अब कर्नल मूर केमेक की मदद को पहुँचा। दोनों ने सन् १७८१ के वरसात में शिन्दे के मुल्क में छावनी डाली। शिन्दे ने अपनी फौज की छोटी-छोटी टोलियाँ बनाई और अंग्रेजी फौज को शान्ति न मिलने दी। तब कर्नल मूर और महादजी शिन्दे के बीच सन् १७८१ के १३ अक्तूबर को स्वतंत्र संधि हुई। उसमें शिन्दे ने यह स्वीकार किया कि पेशवा से मैं अंग्रेजों की संधि करा दूँगा। इसके बदले अंग्रेजों ने यह इत्तफाकिया किया कि शिन्दे का जीता हुआ सब मुल्क हम छोड़ देंगे और दिल्ली-दरबार की बातों में हस्तक्षेप करने के लिए शिन्दे स्वतंत्र रहेगा।

तब एण्डरसन नाम का अंग्रेज वकील शिन्दे के डेरे में आया और संधि की बातचीत शुरू की। नाना ने पहले राघोवा को अपने अधीन लेना चाहा और यह कहा कि हैदरअली को एक ओर रखकर हम यह संधि नहीं कर सकते। इसलिए बहुत दिनों तक संधि की बातचीत ठीक तौर से न हो सकी। तब

अंग्रेजों और पूना-  
दरबार की सन्धि

अंग्रेजों ने साष्टी छोड़कर शेष सब मुल्क वापस करना स्वीकार किया। इसी अवधि में हैदरअली की मृत्यु हो गई। इसलिए नाना सन्धि करने को तैयार हुआ और सन् १७८३ में सालवाई की संधि हुई। उसकी मुख्य शर्तें ये थीं—(१) साष्टी छोड़कर जीता हुआ शेष मुल्क अंग्रेज मराठों को वापस कर दें, (२) संधि होने के चार महीने के भीतर राघोबा पेशवा के मुल्क में चला जावे, (३) मराठे और किसी यूरोपियन जाति से ग्ले न करें और मराठों से द्वेष करने वालों से अंग्रेज दोस्ती न करें, (४) इस संधि के पालन के लिए महादजी शिन्दे जिम्मेदार रहे। यह संधि करवाने के लिए अंग्रेजों ने शिन्दे को भड़ोच दिया।

सालवाई की संधि के बाद राघोबा अपनी पत्नी आनन्दीबाई तथा पुत्र बाजीराव और अमृतराव को लेकर कोपरगाँव में आकर

राघोबा की मृत्यु और  
उसके लड़के

रहा। वहाँ संधि के ११ महीने बाद सन् १७८३ के ११ दिसम्बर को राघोबा की मृत्यु हुई। इस प्रकार राघोबा-रूपी ग्रह

ने करीब २३ वर्ष तक मराठा-राज्य को संकट में डाला और उसे बहुत अधिक नुकसान पहुँचाया। पिता ने एक बार जो मार्ग दिखाया था, उसी मार्ग का अनुसरण करीब ३० वर्ष बाद उसके लड़के बाजीराव ने किया। इस अनुसरण से उसने मराठा-राज्य को कितना नुकसान पहुँचाया, यह यथास्थान बतलाया जायगा। जिस समय राघोबा की मृत्यु हुई, उस समय उसकी पत्नी आनन्दीबाई गर्भवती थी। आगे जब वह प्रसूत हुई, तब उसके लड़का हुआ और उसका नाम चिमाजी अप्पा रक्खा गया। सवाई



मराठों का उत्थान और पतन

सायबराव की मृत्यु के बाद राघोबा के इन तीनों लड़कों का संबंध मराठी-इतिहास से है। इसलिए इन तीनों के नाम याद रखना आवश्यक है।

---



## सवाई माधवराव

केवल ४० दिन का होने के समय से ही सवाई माधवराव को पेशवा का पद मिला । पर उसे यह पद दिलाने के लिए पूना के कारवारियों को अत्यन्त श्रम करना पड़ा । राघोवा के विरुद्ध पड्यंत्र रचने में सखाराम बापू ने नेता का काम किया था, पर कई कारणों से शीघ्र ही राज्य-कारवार का सूत्र नाना फडनवीस के हाथ आया । इसका एक कारण तो यह था कि दोनों में अधिकार-संचालन के लिए ईर्ष्या उत्पन्न हुई । पर एक और प्रधान कारण कदाचित् यह था कि नारायणराव को पदच्युत करने के सम्बन्ध में सखाराम बापू का सम्बन्ध था । यह बात तहकीकात से साबित हो चुकी थी । इस-लिए बुद्धि-बल से नाना फडनवीस ने मराठा-राज्य का शासन-सूत्र पेशवा के नाम से अपने हाथ में लिया और सवाई माधवराव की मृत्यु तक बहुत बुद्धिमान्नी के साथ उसने शासन का कार्य सम्पन्न किया ।

सवाई माधवराव के समय नाना को जो पहली लड़ाई लड़नी

पड़ी, वह हैदरअली के लड़के टीपू के साथ हुई। जिस समय मराठों और अंग्रेजों का युद्ध जारी था उस समय

मराठों और निजाम  
का टीपू पर चढ़ाई  
करने का विचार

मराठों का मुल्क जीतकर अपना राज्य बढ़ाने का हैदरअली को अच्छा मौका मिला। उसने केवल तुंगभद्रा के इलाक़े

का ही नहीं किन्तु उत्तर की ओर कृष्णा तक बहुतेरा मुल्क जीत लिया, पर फुरसत न होने के कारण मराठे उसकी ओर ध्यान न दे सके। सालवाई की संधि की बातचीत होने के समय हैदर की मृत्यु हो जाने पर उसका लड़का टीपू उसका उत्तराधिकारी हुआ। यह बड़ा महत्वाकांक्षी, घमंडी और कट्टर मुसलमान था। सालवाई की संधि के बाद मराठे एक बड़े भारी संकट से छूटे और टीपू की ओर ध्यान दे सके। पर अब उनमें पहले की ताकत न रह गई थी। इसलिए निजामअली से मिलकर टीपू पर चढ़ाई करने का विचार उन्होंने किया। मराठों के साथ निजामअली के शामिल होने का कारण यह था कि टीपू ने निजाम को अपना मांडलिक कहकर उसका अपमान किया था।

लड़ाई प्रारम्भ होने का कारण यह था कि टीपू ने नरगुण्ड के जागीरदार से बहुत अधिक कर माँगा। इस जागीरदार

संयुक्त आक्रमण के  
कारण टीपू  
का दबना

ने टीपू से बचने के लिए नाना फड़नवीस से सहायता माँगी। नरगुण्ड की रक्षा के लिए नाना ने जो फौज भेजी उसपर टीपू ने अचानक हमला कर दिया। पहले

तो मराठा फौज को कुछ विजय मिली, परन्तु फिर उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसके बाद मदद पहुँचने पर मराठों ने टीपू को

अच्छी तरह दबाया, इसलिए उसने संधि की बातचीत की।  
उसने स्वीकार किया कि रेणु दिग्ग में सैं दो वर्ष का कर पदा दूंगा  
और नरगुण्ड के जागीरदार को न सताऊंगा। निजामअली के  
कहने से नाना ने टीपू की बातें स्वीकार कर संधि कर ली।

पर टीपू के मन में संधि करना नहीं था। निश्चित समय के  
भीतर उसने कर न पंटाया और मराठों फौज के जाने पर धोखे  
से उसने नरगुण्ड का किला ले लिया।  
टीपू का संधि का उल्लंघन करना और जागीरदार को क्रोध कर लड़कों-मराठों  
मराठों की उसपर समेत मार डाला। फिर उसने कृष्णा  
फिर से उदाई

पार के कई हिन्दुओं को जबरदस्ती मुस-  
लमान बनाया। इसलिए करीब दो हजार ब्राह्मणों ने आत्म-  
हत्या कर ली। टीपू के यह अत्याचार देख नाना फड़नवीस ने  
उसे दबाने का विचार किया। सन् १७८५ की वरसात के  
बाद हरिपंत फड़के, तुकोजी होलकर, गिणेशपंत वेहरे  
आदि बड़ी भारी फौज लेकर पूना से खाना हुए। रास्ते में पंढर-  
पुर में नाना फड़नवीस उनसे मिला। यादगीर में पहुँचने पर  
मुधोजी भोंसले और निजामअली भी उनमें शामिल हुए। तब  
सबने यह निश्चय किया कि टीपू के राज्य को जीत कर उसके छ-  
हिस्से किये जायँ। उनमें से दो हिस्से पेशवा, दो हिस्से निजाम,  
एक हिस्सा शिन्दे और एक हिस्सा होलकर ले; परन्तु इसके पहले  
कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच के मराठों के मुल्क को जीता जाय।  
इसके बाद यह संयुक्त फौज आगे बढ़ी।

किष्कर में टीपू की जो सरदार था, उसे दबाने के लिए

मुक्तोजी और गणेशपंत भेजे गये। शेष कौज वादासों की ओर  
 चली। तीन हफ्ते के बाद यहाँ कोकिला  
 टीपू की मराठों से फिर मराठों के हाथ आया। उसके बाद नान्द  
 सन्धि और भोंसले वापस चले गये। हरिपंत  
 फड़के गजेन्द्रगढ़ लेने के लिए जा रहा था। इतने में टीपू ने अदोनी  
 को घेर लिया। यहाँ पर निजामअली के भतीजे थे। उनकी  
 मदद के लिए हरिपंत ने बड़ी भारी कौज भेजी; तब बेरा उठ-  
 गया। हौलकर ने कित्तूर के आस-पास के टीपू के लोगों को मार  
 भगाया और सावनूर के नवाब से मिल करके टीपू के सरदार बुर-  
 हानुद्दीन को हराया। हरिपंत ने गजेन्द्रगढ़ और बहादुरभंडा  
 नामक स्थान जीते और वहाँ कोपल लेने ही वाला था कि इतने  
 में टीपू तुंगभद्रा पार कर इस पार आया। हरिपंत उसकी ओर  
 बढ़ा; परन्तु मौका ठीक न होने के कारण उसने हमला न किया।  
 इसके बाद हरिपंत ने शिरहट्टी ली; पर टीपू पहाड़ी मुल्क में  
 चला गया और मैदान में मराठों का सामना न किया। इतने  
 में टीपू को खबर लगी कि अंग्रेज लोग लड़ाई की तैयारी कर  
 रहे हैं। तब वह तुरन्त मराठों से सन्धि करने को तैयार  
 हुआ। सन्धि में उसने यह स्वीकार किया कि बक्राया कर के बदले  
 में ४५ लाख रुपये दूँगा। उसमें से ३० लाख रुपये उसने नान्द  
 दे दिये और शेष एक वर्ष के इत्तदार से पटाने का बचन दिया।  
 अदोनी शहर उसने निजाम को लौटा दिया और कित्तूर, वादासी  
 और नरगुण्ड मराठों को दिये। यह सन्धि सन् १७८७ के  
 अप्रैल महीने में हुई।

शिन्दे ने जो कार्य और पराक्रम किये, अब हम उनका वर्णन करेंगे। इसके लिए यह समझ लेना आवश्यक है कि इस समय वहाँ की क्या स्थिति थी। हम देख चुके हैं कि सन् १७७१ के दिसम्बर महीने में मराठों ने बादशाह शाहआलम को दिल्ली में लेजाकर उसके पूर्वजों की गद्दी पर बैठाया। इसके दो वर्ष बाद मराठा-फौज दक्षिण में आई। यहाँ नारायणराव पेशवा के खून के बाद राघोवा ने जो गृह-युद्ध शुरू किया और उसके कारण अंग्रेजों से सात-आठ वर्ष तक जो लड़ाई लड़नी पड़ी, उसके कारण मराठा-राज्य-मंडल को व्यर्थ ही बहुत श्रम हुआ। इन नौ-दस वर्ष तक मराठों को दिल्ली की ओर ध्यान देने का अवसर न मिला। सन् १७७३ में मराठा फौज के दक्षिण में जाने पर अवध के नवाब वजीर शुजाउद्दौला ने मराठों को चम्बल नदी के दक्षिण में भगा दिया और दिल्ली-दरबार में मराठों का जो महत्व था उसे नष्ट करने के प्रयत्न में लगा। इटावा लेकर वहाँ से मराठों को मार भगाया। उसके एक सरदार मिर्जा नजफख़ान ने आगरा को घेरा और शुजा की मदद मिलने पर उसे जीत लिया। इसके बाद शुजा ने मिर्जा नजफख़ान को बादशाह का मुख्तियार नियत किया। यह नजफख़ान बड़ा शूरवीर और चालवाज था। उसने बादशाह का कार-बाज कई वर्ष तक बड़ी अच्छी तरह किया। उस समय दिल्ली के बादशाह के हाथ में दिल्ली और आगरा का प्रदेश ही बच रहा था। इस प्रदेश में दक्षिण की ओर से जाट और उत्तर की ओर से सिख छेड़छाड़ किया करते थे। परन्तु नजफख़ान ने इस

स्थिति में भी शाही बन्दोबस्त अच्छा रक्खा और राज्य में शांति स्थापित की। उसने दिल्ली में मुसलमानी सत्ता फिर से जारी की और बादशाह का महत्व स्थापित किया। सन् १७८२ की ४ अप्रैल को उसकी मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु के बाद मुसलमानों में ऐसा कोई योग्य और शूरवीर पुरुष न निकला, जो बादशाही को संहाल सके; इसलिए राज्य में टटे-बखेड़े बहुत खड़े हुए।

सालवाई की संधि के बाद महादजी शिन्दे ने, लड़ाई के समय उदके विरुद्ध जो लोग हुए थे उन्हें अच्छी कड़ी सजा देने का विचार किया। शिन्दे को धोखा देने वाले शिन्दे का उत्तर के विरोधियों को दवाना और यूरोपीय उंग की फौज तैयार करना को घेरा और शीघ्र ही वह किला ले लिया। इसके बाद उसने गोहद के किले को घेरकर सन् १७८४ की २४ फरवरी को जीत लिया और वहाँ के राणा को ग्वालियर में कैद में रक्खा। खेचीवाड़ा के रावोगढ़ का जागीरदार बलभसिंह भी अंग्रेजों से मिला था, इसलिए उसपर चढ़ाई करने के लिए रामजी पाटील जाधव और खंडूजी इंगले को भेजा। बुन्देलखण्ड की वगावत शांत करने का काम खंडेराव हरि भालेराव को दिया। इसी समय महादजी शिन्दे ने अपनी फौज में बड़ा भारी परिवर्तन किया। अंग्रेजों के साथ की लड़ाई में उसने ज़्यादा यद और नये शस्त्रों की श्रेष्ठता देख ली थी, इसलिए उसने इस प्रकार की फौज भी रखने का विचार किया। डी० बाएन नामक एक प्रेंच सैनिक को इस प्रकार की दो पलटनें तैयार करने का काम दिया और इसके लिए उसने सब आवश्यक प्रबन्ध किया। डी०

बाएन के मित्र संग्स्टर नामक स्काच पुरुष को शिन्दे ने अपनी नौकरी में रक्खा । इस स्काच ने तोप, बन्दूक और बारूद-गोला बनाने का कारखाना आगरा के किले में शुरू किया । इस प्रकार यूरोपियन ढंग की फौज शिन्दे ने तैयार की । डी०वाएन को शिन्दे ने खंडेराव की मदद के लिए बुन्देलखंड भेजा । दोनों ने मिलकर वहाँ की बगावत बहुत शीघ्र शांत कर दी ।

सन् १७८४ के अप्रैल में शाहजादा जवानवख्त ने अंग्रेजों से मदद माँगी । वारेन हेस्टिंग्स ने मदद देने से इनकार किया, क्योंकि मराठों की लड़ाई ने उसे अच्छा

शिन्दे का दिल्ली में फिर अधिकार

सबक सिखा दिया था और इसीलिए उसने जवानवख्त को मदद के लिए शिन्दे

के पास जाने के लिए कहा । शिन्दे ने यह काम स्वीकार किया । तब बादशाह ने उसे अपनी वजीरी देनी चाही । महादजी बड़ा महत्वाकांक्षी पुरुष था और कोरे पद उसे प्रिय न थे । वह सभी सत्ता अपने हाथ में रखना चाहता था और पाटील बाबा जैसा सादा नाम उसे प्रिय था । बादशाह के बहुत अप्रह करने पर उसने यह सूचना की कि सवाई माधवराव पेशवा को बादशाह बकौल-ई-मुतालिक (बादशाह का खास प्रतिनिधि) नामक पद दें और मुझे उसका नायब नियत करें । इस प्रकार महादजी के हाथ में बड़ा भारी अधिकार आया । उसने बादशाही मुल्क में गांधी बंद करने का बादशाही हुक्म जारी करवाया । उसने कुछ फौज दिल्ली में रख दी और स्वयं मथुरा में रहने लगा ।

अब महादजी शिन्दे ने बादशाही मुल्क का बन्दोबस्त औरों



से शुरू किया। आगरे का किला मुहम्मदवेग खानदानी के हाथ में था और वह देता न था। सन् १७८५ शिन्दे द्वारा वादशाही के मार्च में महादजी की फौज ने उसे घेर लूट का प्रबन्ध कर ले लिया। इसके बाद मुहम्मदवेग और उसके भतीजे इस्माइलवेग को महादजी ने वादशाही नौकरी में रक्खा और उन्हें राघोगढ़ लेने के लिए गई हुई फौज की मदद के लिए भेज दिया। दोआब के अलीगढ़, कोल आदि स्थान शिन्दे के कब्जे में आये। डीग का किला भी शीघ्र ही मराठों के हाथ आया। सिखों को दवाने का काम उसने अमत्राजी इंगले के जिम्मे सौंपा। इसी समय जवेदाखों की मृत्यु हुई। दोआब की उसकी जागीर शिन्दे ने उसके लड़के गुलाम कादर को दी। शिन्दे ने अत्र कर-वसूली का काम भी अच्छी तरह शुरू किया। सन् १७६५ में इलाहबाद की जो सन्धि हुई थी, उसमें एक शर्त यह थी कि ईस्ट-इंडिया-कम्पनी शाहआलम को २६ लाख रुपया सालाना दिया करे। सन् १७७१ में जबसे शाहआलम मराठों की सहायता से दिल्ली आया था, तबसे अंग्रेजों ने यह रुपया नहीं पटाया था। अब महादजी शिन्दे ने उनसे पिछला सब वक्त्या मोगा, पर अंग्रेजों ने उसे देने से इनकार कर दिया। महादजी शिन्दे इस समय फिरसे अंग्रेजों से लड़ाई छेड़ने को तैयार न था, इसलिए अंग्रेजों के इनकार करने पर वह खामोश रहा। तथापि इस समय भी महादजी का महत्व बहुत अधिक था और पूना दरबार की अंग्रेजों से कोई भी बातचीत उसीके जरिये होती थी। सन् १७८६ में गवर्नर-जनरल मैकफर्सन ने महादजी का

महत्व कम करने के विचार से कन्नड़ को अंग्रेजों को पूना में अपना वकील रखने की इजाजत दी। इससे यह देख पड़ता है कि महादजी ने दिल्ली की बादशाही के सूत्र अपने हाथ में लिये तब मराठों की धाक अंग्रेजों पर जमी थी। इस प्रकार मराठों के हिन्दू-पद-पादशाही के उद्देश्य की अंशतः सिद्धि हुई। महादजी शिन्दे ने दिल्ली-दरबार में मराठों का महत्व स्थापित किया। यह बात पठान, खेले आदि कछर मुसलमानों को ठीक लगती थी। इसी प्रकार उत्तर के जाट, राज-जयपुर से शिन्दे का युद्ध-पूत आदि हिन्दू राजाओं को भी यह बात पसन्द न हुई। वे यह न चाहते थे कि कोई एक संत्ता स्थापित हो; क्योंकि एक संत्ता के स्थापित होने पर उनकी स्वतन्त्रता बनी न रह सकती थी। महादजी शिन्दे ने बादशाही कारवार हाथ में आते ही भिन्न-भिन्न सरदारों और रिजवाड़ों को बादशाही चाकरी करने को कहा और उनसे कड़ी रीति से कर माँगा। इसलिए वे नाराज हुए और उसका नाश करने का अवसर ढूँढने लगे। इसी कारण जयपुर के राणा प्रतापसिंह से शिन्दे की लड़ाई हुई। दोनों के बीच जयपुर से ४३ मील पर लालसोट में २८ जुलाई सन् १७८७ को युद्ध हुआ। इस अवसर पर बादशाही सेना में से कुछ लोग राजपूतों से जा मिले; इसलिए शिन्दे को वापस लौटना पड़ा। अलवर और भरतपुर के जाटों ने उसे इस अवसर पर अच्छी मदद दी, इसलिए उसकी सेना बचे गई। लालसोट के पराभव से मराठों की धाक उत्तर-हिन्दुस्थान में एकदम कम होगी और उनके शत्रुओं को आनन्द हुआ।

इस्माइलबेग नामक एक सरदार राजपूतों से जा मिली था, वह  
 शिन्दे के पराभव के अत्र वापस आया और उसने आगरे  
 के उपर में शिन्दे का किला किले को घेर लिया। गुलाम कादर  
 ने भी इस समय सिर उठाया। दिल्ली के  
 जो मुसलमान सरदार महंदाजी के विरुद्ध थे, उन्होंने गुलाम  
 कादर को सहायता दी। शिन्दे की सेना दिल्ली से भाग आई,  
 इसलिए ब्रादशाह का कारबार गुलाम कादर के हाथ में चला गया।  
 ब्रादशाह उसने दोआब को अपने कब्जे में करना शुरू किया।  
 ब्रादशाह चम्बल नदी के दक्षिण की ओर चला आया और  
 अलीगढ़ के पास उसने अपनी छावनी डाली। उत्तर के सभी  
 लोगों के मन में मराठों के प्रति द्वेष प्रदीप्त हो चुका था। आगरा  
 और अलीगढ़ को छोड़ चम्बल नदी के उत्तर में मराठों के पास  
 कोई स्थान न बचा था। ऐसे समय में शिन्दे ने नाना फड-  
 नेवीस से सहायता मांगी। नाना फडनेवीस ने शिमशेरबहादुर के लड़के अलीबहादुर  
 और तुकोजी होलकर को सेना देकर रवाना किया। इधर  
 अलीगढ़ मुसलमानों के हाथ चला गया, शिन्दे का फिर थोड़ा  
 पर लक्ष्मण अनन्त लाड़ ने आगरा किले  
 बहुत भयाना प्रभाव की अच्छी तरह रक्षा की और उसे  
 इस्माइलबेग के हाथ न जाने दिया। तब  
 महंदाजी शिन्दे ने घेरा डालने वाली मुसलमानी फौज पर हमला  
 करने के लिए अपनी फौज भेजी। इस फौज से इस्माइलबेग और  
 गुलाम कादर ने भरतपुर के पास लड़ाई की। इसमें मराठा फौज  
 को पीछे हटना पड़ा, परन्तु सिखों की चढ़ाई के कारण गुलाम

कादर को सहारनपुर की अपनी जागीर में जाना पड़ा। अब इस्माइलबेग आगरा में अकेला रह गया, इसलिए मराठा सेना ने उसपर चढ़ाई की और उसे अच्छी तरह हरा दिया। इस्माइलबेग भाग कर गुलाम कादर से जा मिला। अब महादजी ने फिरसे मथुरा में छावनी की और दिल्ली के आस-पास वह अपना अधि-कार जमाने लगा।

इधर गुलाम कादर और इस्माइलबेग ने दिल्ली में प्रवेश कर लूट-मार करने का विचार किया, इसलिए वह जोड़ी दिल्ली में घुसी। राजमहल की लूट का काम गुलाम कादर ने अपने जिम्मे लिया और शहर को लूटने के काम में इस्माइलबेग लगा। इस समय गुलाम कादर ने बादशाह

शाहआलम और राजघराने के लोगों पर राक्षसी अत्याचार किये। उसने शाहआलम को बुरी तरह पीटा और उसकी आँखें फोड़ डालीं। फिर गद्दी से उतार कर उसके स्थान में वेदरवख्श नाम के नये बादशाह की स्थापना की। गुलाम कादर के अत्याचारों से इस्माइलबेग सहमत न था और लूट का बहुतेरा धन गुलाम कादर ने ही ले लिया था, इसलिए इस्माइलबेग गुलाम कादर से नाराज होकर महादजी शिन्दे से जा मिला। तब गुलाम कादर को दिल्ली से भागना पड़ा। अब दिल्ली का किला मराठों के हाथ में फिरसे आया। महादजी शिन्दे ने शाहआलम को फिरसे गद्दी पर बैठाया और गुलाम कादर को पकड़ने के लिए फौज भेजी। एक-दो जगह से भाग कर अन्त में वह मराठों के हाथ पड़ा। महादजी शिन्दे ने उसे अत्यन्त क्रूरतापूर्वक मरवा डाला—





मराठे टीपू को अच्छी तरह न दबा सके थे, इसलिए  
 दक्षिण में टीपू से मराठों, मराठे और निजाम दोनों की इच्छा  
 अंग्रेजों और निजाम की फिर से टीपू पर चढ़ाई करने की  
 लड़ाई (सन् १७९०) थी। इसी समय अंग्रेजों को भी  
 उससे लड़ने का एक कारण मिल गया। उनके मित्र त्रावण-  
 कोर के राजा पर सन् १७७९ के दिसम्बर में टीपू ने चढ़ाई की।  
 इसलिए अंग्रेज, मराठों और निजाम से मिलकर, टीपू से लड़ने  
 को तैयार हुए। सन् १७९० के जून-जुलाई में तीनों पक्षों के बीच  
 झगड़ार हुआ और फिर चढ़ाई शुरू हुई।

मराठों की फौज का मुखिया परशुराम भाऊ पटवर्धन  
 था। उसके अधीन २५ हजार फौज और माधवराव कृष्ण  
 पानसे के अधीन आवश्यक तोपें थीं।  
 बंगलोर को वापसी अंग्रेजों की फौज वम्बई से कैप्टन  
 लिटिन के अधीन रवाना हुई।

टीपू ने धारवाड़ का प्रदेश ले लिया था, इसलिए परशुराम  
 पटवर्धन ने पहले उसे जीतना चाहा। धारवाड़ के आसपास का  
 प्रदेश तो उसने ले लिया, पर धारवाड़ के किले को लेने में उसे बड़ी  
 कठिनाई पड़ी। बीच में अंग्रेज सेनापति ने केवल अपनी सेना के  
 बल पर उसे लेने का प्रयत्न किया, पर उसका प्रयत्न विफल हुआ।  
 अन्त में सन् १७९१ के ६ अप्रैल को मराठों ने ही उसे लिखा।  
 इससे तुंगभद्रा के उत्तर का सब मुल्क मराठों के हाथ आया।  
 इसके बाद परशुरामभाऊ तुंगभद्रा पार कर रास्ते के स्थान लेता  
 हुआ श्रीरंगपट्टम की ओर बढ़ा। रास्ते के स्थान लेने में उसे  
 काफी समय लगा। इसलिए हरिपंत फड़के भी श्रीरंगपट्टम की

और खाना हुआ। अंग्रेजी सेना का अधिकारी इस समय स्वयं  
 गवर्नर-जनरल लार्ड कार्नवालिस था। प्रारम्भ में उसकी सेना ने  
 अच्छा काम किया, पर ज्यों-ज्यों वह श्रीरंगपट्टम के पास पहुँचा  
 त्यों-त्यों उसकी सेना को बहुत कष्ट सहने पड़े। क्योंकि टीपू ने उसके  
 आस-पास के मुल्क को नष्ट कर डाला था और इस कारण अंग्रेजी  
 सेना को रसद न मिल सकी, इसलिए अंग्रेजी फौज को बंगलोर तक  
 वापस जाना पड़ा। यहाँ पर मराठा फौज उससे मिली और तब  
 उसे खाने-पीने का सामान मिला। हरिपंत फड़के के पास रुपये  
 की कमी हो गई थी, उसे अंग्रेजों ने दूर किया।

सन् १७९१ के वर्षाकाल के समाप्त होने पर तीनों की संयुक्त  
 फौजें बंगलोर से खाना हुईं। दूसरे साल के फरवरी महीने में  
 वे श्रीरंगपट्टम के पास पहुँचीं। यहाँ  
 टीपू की पराजय तथा  
 सन्धि पर टीपू से लड़ाई हुई और वह हार कर  
 किले में चला गया। अब अंग्रेजों ने  
 श्रीरंगपट्टम का घेरा डाला। शीघ्र ही अम्बर क्रोनवी के अधीन  
 और अंग्रेजी सेना आ पहुँची। परशुराम भाऊ कुछ पीछे रह  
 गया था। टीपू ने एक-दो बार लड़ने का प्रयत्न किया, पर हार  
 गया और अन्त में कोई उपाय न देख शरण आया। अंग्रेज  
 उससे सन्धि न करना चाहते थे। पर मराठों और निजाम के  
 बीच यह बिरचय पहले हो चुका था कि टीपू को समूल नष्ट नहीं  
 करना चाहिए, अन्यथा अंग्रेज बहुत अधिक प्रबल हो जायेंगे।

सन्धि की शर्तें ये थीं—तीन करोड़ रुपये और अपना आधा



मराठों का उत्थान और पतन

के कोई लड़का न था; - इसलिए उसके भाई तुकोजी के पोते दौलतराव को पेशवा की सन्मति से उसका पद दिया गया।

सवाई माधवराव के समय का अन्तिम बड़ा भारी कार्य हुआ निजाम के साथ युद्ध था। इस युद्ध का कारण यह

था कि निजाम ने चौथे कई सालों तक निजाम से मराठों की लड़ाई (सन् 1695) नहीं पटाई थी। नाना ने कई बार तक्रारें

किया, पर उससे कुछ लाभ न निकला। शिन्दे की मृत्यु के बाद शीघ्र ही हरिपंत फडके की मृत्यु हुई।

इसलिए निजाम को ऐसा जान पड़ा कि अब मराठों की कोई परवाह न करनी चाहिए। इसीलिए एक अवसर पर निजाम

के दीवान मशीर-उल्-मुल्क ने पेशवा के वकील गोविन्दराव काले का बहुत अपमान किया और स्वयं पेशवा के विषय में भी बड़ी

अपमानजनक बातें कहीं। मशीर-उल्-मुल्क की इन अपमानजनक बातों की खबर पाकर नाना ने निजाम से लड़ाई करने का

निश्चय किया। नाना ने मराठा-राज्य के सब सरदारों को अपनी-अपनी

फौजें लेकर आने को लिखा। निजामअली से लड़ने के लिए करीब डेढ़ लाख फौज जमा हुई। इतनी

सर्दा की लड़ाई; मराठों की विजय तथा सन्धि सारी सेना का अधिकारी परशुराम भाट पटवर्धन था। सन् 1698 के दिसम्बर

में यह फौज पूना से रवाना हुई। रास्ते में शिन्दे, होलकर, गणकवाड़, भोंसले, पटवर्धन आदि सरदारों की भी फौजें शामिल

हुईं। दो महीने में यह सेना निजाम की सरहद पर पहुँच गई। इस फौज से लड़ने के लिए निजामअली 1 लाख 15 हजार





फौज लेकर आगे बढ़ा। दोनों फौजों की मुठभेड़ सन् १७९५ के मार्च महीने में परिण्डा के पास हुई। परशुराम भाऊ ने सारी फौज को लड़ाई की तैयारी से खड़ा किया और स्वयं कुछ फौज लेकर शत्रु की हलचल देखने आगे बढ़ा। निजाम की फौज से उसका जो सामना हुआ, उसमें वह स्वयं जख्मी हुआ और उसे पीछे हटना पड़ा। इसके बाद हरिपंत फड़के के लड़के रामचन्द्र हरि फड़के को भी पीछे हटना पड़ा। ये दो पराभव देख नाना कुछ घबरा गया। पर इसके बाद परिस्थिति बदल गई। मराठों की सेना से सामना करने के लिए निजाम का सरदार असदअलीख़ाँ १७ हजार गारदी लेकर आगे बढ़ा। भोंसले और शिन्दे की सेना ने उसे मार भगाया और खुद निजामअली के मन में डर उत्पन्न कर दिया। इतने में निजामअली के हुक्म से गारदी भी पीछे हटे। इस समय सूर्यास्त हो चुका था। अन्धकार होने पर निजाम की यह घबराई हुई सेना खर्डी की गढ़ी के आसरे से ठहरी। इतने में यह गप्प फैली कि मराठे हमला करने आ रहे हैं। इसलिए निजाम की सेना अपना खजाना लूट कर मनमाने भागने लगी। इन भागने वाले लोगों की वस्तुयें मराठों ने लूट लीं। अपनी सेना की यह दुर्दशा देख निजामअली १० हजार फौज लेकर खर्डी की गढ़ी में घुस पड़ा। दूसरे दिन मराठों ने उसे घेर कर गढ़ी पर तोपों की मार शुरू की। तब तीसरे दिन निजाम ने अत्यन्त कष्ट के कारण सन्धि की बातचीत शुरू की। इसपर मराठों ने उत्तर दिया कि पहले मशीर को हमारे हवाले करो, फिर हम संधि की बातचीत सुनेंगे। अन्त में निजामअली ने मशीर को मराठों के हवाले कर दिया। तब

दौनों में सन्धि हुई। इस सन्धि से परिणत के उत्तर की ओर सीमा नदी तक उदगीर की लड़ाई के समय सदाशिवराव भाऊ का जीता हुआ सब मुल्क, लड़ाई का खर्च तथा पिछले बकाये के बदले तीन करोड़ रुपये निजाम ने पेशवा को दिये। रघुजी भोंसले को घास-दाने के हक के बदले ३ लाख १८ हजार का मुल्क भोंसले को मिला। इसके अलावा वरार की आमदनी के हिस्से के बकाये के बदले ३१ लाख रुपये और वहाँ की आमदनी का हिस्सा पहले-जैसा ही निजाम से रघुजी भोंसले को मिला। यह सन्धि होने पर मराठों ने निजाम को छोड़ दिया। मई के महीने में सेना पूना को वापस आई। पाये हुए मुल्क का बटवारा होने पर भिन्न-भिन्न सरदार अपने-अपने मुल्क को चले गये। इस लड़ाई से पेशवों की धाक दक्षिण में भी जम गई।

इस लड़ाई के कुछ ही महीनों बाद सवाई माधवराव की मृत्यु हुई। इस समय सवाई माधवराव केवल २२ वर्ष का था।

सवाई माधवराव की मृत्यु नाना ने उसे सिखा-पढ़ा कर अच्छी तरह तैयार किया था और वह अब थोड़ा-बहुत राज्य-कारबार देखने लगा था। पर उसे ऐसा जान पड़ता था कि नाना मुझे स्वतंत्र नहीं रहने देता। उसके इस खयाल को राघोबा के लड़के बाजीराव ने अपनी चिट्ठियों से खूब भड़काया। नाना ने राघोबा के लड़कों को शिवनेरी में अच्छे बन्दोबस्त से रक्खा था। पर बाजीराव ने वहाँ के अधिकारी को अपने वश में कर लिया और सवाई माधवराव से बिट्टी-पत्री शुरू की। बाजीराव ने एक चिट्ठी में यह साफ-साफ लिखा था कि हमारी-तुम्हारी स्थिति में कोई फर्क नहीं

है; तुम शनिवारवाड़े में कूद हो और मैं शिवनेरी में हूँ। इस चिट्ठी-पत्री की बात जब नाना को मालूम हुई, तब नाना ने बाजीराव का पहरा सख्त किया और पेशवा से भी कुछ कड़ी बातें कहीं। वरसात के बाद सवाई माधवराव को बुखार आने लगा और कभी-कभी वायु-विकार भी दीख पड़ने लगे। दशहरे के दिन तो उसने हाथी के हौदे में से नीचे कूदने का प्रयत्न किया। इसलिए नाना ने उसकी रक्षा के लिए पहरा बैठा दिया। परन्तु एक दिन महल के ऊपर से वह नीचे कूद पड़ा। जहाँ वह गिरा वहाँ फव्वारा था, इसलिए उसे बहुत ज्यादा चोट पहुँची और तीन दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई।

---



पेशवा द्वितीय वाजीराव और मराठाशाही का अन्त

सवाई माधवराव के कोई लड़का न था। इसलिए मरते समय उसने अपनी यह इच्छा प्रकट की कि मेरे बाद रघुनाथराव के

लड़के वाजीराव को पेशवाई दी जाय।

नाना के पक्ष का चिह्न-  
जी आप! को पेशवा  
बनाना।

नाना फड़नवीस ने जन्म भर मेहनत करके राघोवा-रूपी ग्रह से पेशवाई की रक्षा की थी। सवाई माधवराव को

अकाल मृत्यु से उसे अत्यन्त दुःख हुआ।

वह नहीं चाहता था कि राघोवा के वंशजों को पेशवाई मिले।

वह यह जानता था कि वाजीराव मुझसे अत्यन्त द्वेष करता है।

इसलिए उसने रघुजी भोंसले और दौलतराव शिन्दे को पूना में

बुलाया और उनके सामने यह प्रस्ताव रक्खा कि सवाई माधवराव

की विधवा स्त्री यशोदाबाई को कोई लड़का गोद देकर उसे पेशवा

बनाया जाय। शिन्दे के कारबारी बालोवा तात्या पागनीस को यह

बात ठीक न लगी; पर अन्त में वह सहमत होगया और इस

योजना को अमल में लाने के लिए प्रयत्न किया । बाजीराव लोगों को अपने वश में करना बहुत अच्छी तरह जानता था । उसने अपनी आकर्षक बातों से बालोबा तात्या को अपनी ओर कर लिया और उसके जरिये दौलतराव शिन्दे के सामने ४ लाख के मुल्क का प्रलोभन रक्खा, जिससे दौलतराव शिन्दे उसकी ओर हो गया । अब यह निश्चय हुआ कि दौलतराव शिन्दे शिवनेरी में जाकर बाजीराव को कैद से छुड़ावे । इस बात की खबर नाना को लग गई । नाना ने सोचा कि दौलतराव शिन्दे के बाजीराव से मिलने पर बाजीराव के पेशवा होने में देर न लगेगी और शिन्दे ने बाजीराव को पेशवा बनाया तो अपनी कोई पूछ न रह जायगी और सदैव के लिए खटपट चलती रहेगी; इससे अच्छा, यही है कि मैं ही बाजीराव को पेशवा-पद दिलाऊँ । इस विचार से उसने परशुराम भाऊ पटवर्धन से बाजीराव को मुक्त कर लाने को कहा । परशुराम भाऊ पटवर्धन के कथन का विश्वास शपथादि से कर लेने पर बाजीराव पटवर्धन के साथ पूना आया । नाना फड़नवीस ने उसकी भेंट ली । दोनों ने एक दूसरे को पूर्व-वैमनस्य भूल जाने का वचन दिया । यह निश्चय हुआ कि बाजीराव के पेशवा होने पर नाना फड़नवीस उसका कारदारी नियत हो । इन सब बातों की खबर पाने पर बालोबा तात्या पागनीस बाजीराव से बहुत नाराज हुआ । उसने शिन्दे से पूना पर चढ़ाई करवाई । नाना फड़नवीस पूना से पुरन्दर चला गया और शिन्दे की सेना ने पूना पर अधिकार जमा लिया । अब बालोबा तात्या पागनीस ने बाजीराव को दण्ड देने के विचार से उसके छोटे भाई चिमणाजी अप्पा को पेशवा बनाना चाहा । चिमणाजी अप्पा का अधिकार पक्का करने



के लिए उसने उसको यशोदाबाई के गोद दिलाने का प्रस्ताव किया। परशुराम भाऊ पटवर्धन नाना फड़नवीस से पूछ कर इस प्रस्ताव से सहमत हुआ। नाना फड़नवीस ने चिमणाजी अप्पा के नाम सातारा से पेशवाई की पोशाक प्राप्त की और पूना को भेज दी, पर पागनीस के डर के मारे वह स्वयं वहाँ न गया। वाजीराव को इन बातों की खबर न थी, इसलिए शिन्दे ने उसे चालाकी से क़ैद कर लिया। इसके बाद शिन्दे ने चिमणाजी अप्पा को यशोदाबाई का दत्तक पुत्र बनवाकर २६ मई सन् १७९६ को पेशवा बनाया।

अब बालोबा ताल्या नाना फड़नवीस को पकड़ना चाहता था। पर नाना कुछ कम चालाक न था। वह सहाय्य लौंघकर वाजीराव पेशवा और नाना फड़नवीस कारवारी पहाड़ में जा पहुँचा। अब वाजीराव और नाना फड़नवीस दोनों समान संकट में पड़े। इसलिए वाजीराव ने नाना फड़नवीस से बातचीत शुरू की। नाना को तुकोजी होलकर की सहायता मिलने की आशा थी और उसने कागल के सखाराम घाटगे के जरिये दौलतराव शिन्दे को अपनी ओर खींच लिया। सखाराम घाटगे के हाथ में शिन्दे को खींचने का एक बड़ा भारी शस्त्र था। बायजाबाई नाम की उसकी एक बहुत ही सुन्दर लड़की थी। वाजीराव के पक्ष में शामिल होने पर घाटगे ने अपनी लड़की शिन्दे को देने का वचन दिया। नाना फड़नवीस इतना ही प्रयत्न करके न रुका। निजाम का दीवान मशीर-उल्-मुल्क खर्डा की लड़ाई के बाद मराठों के पास क़ैद में था। नाना फड़नवीस ने उससे कहा कि यदि तुम निजाम की हमें सहायता दिलवा दो तो

हम तुम्हें स्वतंत्र कर देंगे और खर्चा की लड़ाई के बाद पाया हुआ मुल्क तुम्हें वापस दे देंगे। इस प्रकार नाना ने निजाम को भी अपनी ओर कर लिया। मानाजी फाकड़े पहले से ही बाजीराव के पक्ष में था। अब रघुजी भोंसले ने भी सहायता देने का वचन दिया। इस प्रकार सब तय होने पर दौलतराव शिन्दे ने बालोवा तात्या को चुपचाप क़ैद कर लिया और बाद में परशुराम भाऊ तात्या को भी क़ैद किया। इसके बाद बाजीराव को क़ैद से छुड़ाकर पेशवा बनाया और चिमणाजी अप्पा का दत्तक-विधान नाजायज़ ठहराया गया। बाजीराव से अभय-वचन लेकर नाना फड़नवीस राज्य का कारवार देखने लगा।

संकट के समय में बाजीराव और नाना फड़नवीस में जो मेल हुआ, वह उसके दूर होने पर अधिक दिन न टिक सका।

नाना फड़नवीस ने मशीर-उल्-मुल्क को जो वचन दिये थे उन्हें बाजीराव ने मानने से इनकार किया। अगस्त सन् १७९७ में

नाना फड़नवीस के सच्चे सहायक तुकोजी होलकर की मृत्यु हो गई। काशीराव, मल्हारराव, यशवंतराव और विठोजी नाम के उसके चार लड़के थे। इनमें से अन्तिम दो अनौरस थे। इनमें सरदारी के लिए आपस में झगड़े शुरू हुए। काशीराव के कहने से दौलतराव शिन्दे ने मल्हारराव होलकर को क़ैद करना चाहा, पर मल्हारराव होलकर इस प्रयत्न में मारा गया। उसका लड़का खंडेराव शिन्दे के हाथ पड़ा। यशवंतराव होलकर नागपुर की चला गया। इस प्रकार होलकर के राज्य के सूत्र शिन्दे के हाथ में आये। नाना फड़नवीस का पक्ष निर्बल होने पर शिन्दे की सहायता से सखाराम

घाटगे ने नाना को कैद कर लिया और अहमदनगर में ले जाकर रक्खा। घाटगे ने नाना फड़नवीस के घर को लूटा और वाजीराव ने नाना के सहायक बावूराव फड़के और अप्पा बलवंत मेंहदले को कैद किया।

इस प्रकार वाजीराव ने अपने तथा अपने पिता के शत्रु से बदला लिया, पर इससे शिन्दे बहुत बली हो गया। वाजीराव ने शिन्दे को उसकी मदद के लिए दो करोड़ रुपये देने को कहा था, पर इतने रुपये देने की वाजीराव में ताकत न थी; परन्तु शिन्दे उसकी कोई बात सुनने को कहीं तैयार था? इसलिए अन्त में वाजीराव ने शिन्दे को पूना के लोगों को लूट कर अपना रुपया वसूल करने की बात सुभाई। शिन्दे ने यह काम सखाराम घाटगे के सुपुर्द किया। फिर घाटगे ने पूना में अपनी नादिरशाही शुरू की। भिन्न-भिन्न प्रकार के कष्ट देकर उसने लोगों से धन वसूल किया। वाजीराव के दत्तक-भाई अमृतराव ने यह सब अत्याचार देखकर वाजीराव से उसे बन्द करने को कहा और यह सुभाया कि शिन्दे को दरबार में बुलाकर कैद करना चाहिए। इस निश्चय के अनुसार शिन्दे को दरबार में बुलाया गया और वह आया भी। पर वाजीराव डरपोक था, शिन्दे को कैद करने का काम उससे न हो सका। इस प्रयत्न का फल इतना ही हुआ कि शिन्दे अब अधिक सावधान हो गया। उसे दवाने के विचार से वाजीराव ने नाना फड़नवीस को कैद से मुक्त किया, वाजीराव ने अपनी मीठी बातों से उसको यह विश्वास करा दिया कि नाना को कैद करने के काम में शिन्दे का ही हाथ था। नाना ने उसकी

शिन्दे का पूना को लूटना  
और नाना का फिरसे  
वाजीराव का कार-  
बारी बनना

बातों पर विश्वास करके राज्य-कारवार फिर अपने हाथ में लिया ।

इसके बाद कुछ ऐसी घटनायें हुईं कि जिनसे नाना फड़नवीस की स्थिति बुरी हो गई । पहले तो सातारा के राजा शाहू ने स्वतंत्र होकर राज्य-कारवार करने की इच्छा नाना का पक्ष फिर निर्बल से कुछ प्रयत्न किया, पर उसका प्रयत्न विफल हुआ । एक दूसरा म्हाडा महादजी

शिन्दे की विधवाओं ने उत्पन्न किया । दौलतराव ने उन्हें क़ैद कर अहमदनगर में रखना चाहा, पर वे अमृतराव के आश्रय में चली गईं । सखाराम घाटगे ने उन्हें अमृतराव के आश्रय से छीनना चाहा और इस अवसर पर अमृतराव की छावनी को उसने लूटा । यह वास्तव में पेशवा का ही अपमान था, पर यह मामला किसी प्रकार तय किया गया । सन १७९९ में टीपू और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई । उसमें टीपू मारा गया और उसका राज्य नष्ट हो गया । इसीके एक साल पहले निज़ाम ने फ्रान्सीसी क़ौज को दूर कर अंग्रेजों को क़ौज रखना स्वीकार कर लिया था और उसके खर्च के लिए उसने मैसूर से पाया हुआ सब मुल्क अंग्रेजों के अधीन कर दिया था । महादजी शिन्दे की विधवायें अमृतराव के पास से कोल्हापुर के राजा के आश्रय में चली गईं और उसने उनका पक्ष लिया, इसलिए उसके और पेशवा के बीच लड़ाई-भगड़े होने लगे । सातारा के राजा के भाई चतुरसिंह ने प्रतिनिधि और परचुराम पटवर्धन को हराया । पटवर्धन गहरे जख्मों के कारण मर गया । उधर यशवंतराव होलकर नागपुर से भाग कर शिन्दे के मुल्क में गड़बड़ मचाने लगा, इसलिए दौलतराव को उत्तर में जाना पड़ा ।

इन सब घटनाओं से भी बड़ी घटना यह हुई कि सन् १८०० के १३ मार्च को नाना फड़नवीस की मृत्यु हो गई। महाराष्ट्र

ने जिन बड़े-बड़े पुरुषों को जन्म दिया,

नाना की मृत्यु

उन्में नाना फड़नवीस भी एक था।

राघोवा की एक न चलने देने में नाना फड़नवीस का ही हाथ था। उसीके कारण मराठों ने अंग्रेजों के दाँत खट्टे किये। शिन्दे ने यदि ढिलाई न दिखाई होती तो अंग्रेजों को मराठों के काम में हस्तक्षेप करने का मौक़ा ही न मिलता और नाना ने साष्टी उर्फ़ सालीसट को उनके हाथ न जाने दिया होता। महाराष्ट्रियों का नाम उत्तर और दक्षिण दोनों ओर बढ़ाने के उसने बहुत प्रयत्न किये। एक बार बिना मदद के और दूसरी बार अंग्रेजों और निज़ाम की मदद से उसने टीपू को दबाया। लार्ड कार्नवालिस की बड़ी इच्छा थी कि टीपू का राज्य नष्ट कर दिया जाय, पर इसके परिणाम को नाना अच्छी तरह समझता था। इस कारण उसे पूरी तौर से उसने नष्ट न होने दिया। खर्डा की लड़ाई में सब मराठे सरदारों की सहायता से उसने निज़ाम को बुरी तरह हराया। नाना फड़नवीस अत्यन्त परिश्रमी और बहुत बुद्धिमान पुरुष था। इसलिए छोटी-से-छोटी बात करने के लिए तैयार रहता था और बड़ी से बड़ी बात को भी वह समझता था। महाराष्ट्र में तब से अबतक लोग यह मानते आये हैं कि बड़ी बुद्धिमत्ता से उसने मराठा-राज्य की रक्षा की। कर्नल पामर ने बहुत ठीक कहा है कि उसके साथ महाराष्ट्र की बुद्धिमत्ता और विचारशीलता चली गई !

नाना फड़नवीस की मृत्यु से बाजीराव स्वतंत्र तो न हुआ,

पर दौलतराव शिन्दे के द्वात्र में पड़ गया। इसलिए पेशवा ने यशवंतराव होलकर की ओर अपनी शिन्दे और होलकर की आपसी बढ़ाई दृष्टि फेरी। यह बता ही चुके हैं कि यशवंतराव होलकर तुकोजी होलकर का अनौरस लड़का था तथा शिन्दे से बचने के लिए नागपुर के भोंसले के आश्रय में भाग गया था और यहाँ से उत्तर में जाकर शिन्दे के मुल्क में गड़बड़ मचा रहा था। उसने शिन्दे की सेना को उज्जैन के पास घुरी तरह हराया। तब शिन्दे बाजीराव से ४७ लाख रुपये वसूल कर उत्तर में गया। इस समय होलकर दक्षिण की ओर आरहा था। इन्दौर के पास दोनों की मुठभेड़ हुई। शिन्दे ने होलकर को हरा दिया (ता० १४ अक्टूबर १८०१)।

पर यशवंतराव होलकर ने शिन्दे की ओर ध्यान देने के बदले पेशवा पर ही चढ़ाई की। इसका कारण यह था कि शिन्दे के जाने के बाद बाजीराव ने अपने पिता के विरोधियों से भरपूर बदला लेना शुरू किया। तुकोजी होलकर का अनौरस लड़का दिठोजी होलकर भी नाना फड़नवीस का पक्षपाती था। बाजीराव ने उसे कैद कर हाथी के पैरों से बँधवाया और इस प्रकार सारे पूना शहर में मरते दम तक उसे बसीटा। यह वास्तव में बड़ी भारी भूल थी। यशवंतराव होलकर ने बाजीराव से बदला लेने की शपथ ली और पूना पर चढ़ाई की। शिन्दे ने सदाशिव भास्कर को उसपर भेजा, पर यशवंतराव उससे बच कर १८०२ के २३ अक्टूबर को पूना के पास आपहुँचा और सदाशिव भास्कर तथा पेशवा की संयुक्त फौज को दो दिन के बाद

यशवंतराव होलकरकी पूना पर चढ़ाई और लड़; बाजीराव अंग्रेजों के आश्रय में

हरा दिया। लडाई का परिणाम देखते ही बाजीराव पूना से सिंहगढ़ को भाग गया। यशवंतराव ने उसे वापस बुलाया और अपनी फौज को ताकीद दी कि शहर में लूटमार न की जाय। पर बाजीराव को यशवंतराव का विश्वास न था, इसलिए वह वापस न आया। सिंहगढ़ से वह महाड़ को गया। यहाँ से उसने अंग्रेजों को सहायता के लिए लिखा। अंग्रेजों से रक्षा का वचन पाकर वह रेवडंडा से बसई को चला गया। इधर यशवंतराव होलकर ने बाजीराव के दत्तक भाई अमृतराव को पेशवा बनाया। इसके बाद उसने पूना को इच्छानुसार लूटा। इस समय पूना के लोगों को खाराम घाटगे का खयाल आये बिना न रहा।

इधर बाजीराव ने पेशवा-पद फिरसे प्राप्त करने के लिए फिरसे सहायता माँगी और सन् १८०२ के अन्तिम दिन उसने अंग्रेजों से यह संधि की कि अंग्रेज बसई की सन्धि से भारत-वर्ष का साम्राज्य अंग्रेजों के हाथ वाजीराव को पूना में ले जाकर पेशवा-पद पर विठलावे, इसके बाद अंग्रेज छः हजार फौज और तोपखाना पेशवा के राज्य में रखें, इस फौज के खर्च के लिए २६ लाख का मुल्क पेशवा अंग्रेजों के अधीन करे, पेशवा अंग्रेजों से द्वेष करने वाले किसी भी यूरोपियन राष्ट्र को आश्रय न दे, निजाम और गायकवाड़ से जो कुछ बातचीत करनी हो वह अंग्रेजों के जरिये की जाय, और किसी भी राजा से पेशवा अंग्रेजों के पूछे बगैर लडाई या संधि न करे। इस समय तक अंग्रेजों के पैर हिन्दुस्थान में पकी तौर पर जम गये थे। टीपू का राज्य उन्होंने नष्ट कर डाला था और उसके स्थान में एक छोटा-सा आश्रित राज्य मैसूर के

पुराने राजवंश को दिया था। कर्नाटक का राज्य उन्होंने अपने राज्य में शामिल कर लिया था। तंजौर के राज्य को शामिल कर उन्होंने वर्तमान मद्रास इलाका बना लिया था। बंगाल और बिहार सन् १७६५ से ही उनके हाथ में थे। यह बताही चुके हैं कि मैसूर की लड़ाई से निजाम ने जो कुछ पाया वह उसने अंग्रेजी सेना की सहायता के बदले अंग्रेजों के अधीन कर दिया था। सन् १८०१ में अंग्रेजों ने अवध के वजीर से जो संधि की, उसके अनुसार सैनिक सहायता के बदले उन्होंने गंगा-यमुना का दोआब और रुहेलखंड अपने हाथ में ले लिये थे। लार्ड वेल्लेजली इस समय भारतवर्ष में ईस्ट-इण्डिया-कम्पनी का गवर्नर-जनरल था। उसने ईस्ट-इंडिया-कम्पनी को भारत में सर्वोच्च सत्ता बनाने का निश्चय किया था और इसके लिए उसने इतिहास-प्रसिद्ध सहायक-प्रथा की योजना तैयार की थी। इसी योजना के अनुसार उसने मैसूर, हैदराबाद और अवध को ईस्ट-इंडिया-कम्पनी का आश्रित बना डाला था। इस समय तक हिन्दुस्थान में यदि कोई बड़ी भारी सत्ता बच रही थी तो वह मराठों की ही थी। वसई की संधि के पहले लार्ड वेल्लेजली ने मराठे राजाओं ने अपने आश्रय में आने को कई बार कहा था। मराठे आपस में लड़ते-भगड़ते तो थे, पर लार्ड वेल्लेजली के प्रस्ताव का अर्थ अच्छी तरह समझते थे। नाम-मात्र को ही क्यों न हो, पेशवा को वे अपना सर्वोच्च नमझते थे। पर वसई की संधि करके ३१ दिसम्बर सन् १८०२ को बाजीराव ने मराठा राज्यों की स्वतंत्रता की माला अंग्रेजों के गले में डाल दी। जैसा आगे चलकर देखेंगे, इस संधि से केवल मराठा की ही स्वतंत्रता का हरण न हुआ बल्कि करीब-करीब पूरे



मराठों का उत्थान और पतन

भारतवर्ष का साम्राज्य अंग्रेजों के हाथ आ गया। मराठाशाही के रहते अंग्रेज अपने को हिन्दुस्थान में सर्वोच्च सत्ता न कह सकते थे। मराठाशाही के नष्ट होते ही ईस्ट-इंडिया-कम्पनी हिन्दुस्थान में सर्वोच्च सत्ता बन गई।

वाजीराव का यह कार्य मराठे राजाओं को ठीक न लगा। जैसा ऊपर कह चुके हैं, मराठे सरदार कमसे कम सिद्धान्त में तो पेशवा को अपना मालिक मानते ही थे। पेशवा के परतंत्र बनने से सिद्धान्त के अनुसार वे भी परतंत्र बन गये और उन्हें यह देख पड़ा कि मराठाशाही नष्ट हो गई। कुछ समय तक तो वे कुछ निश्चय न कर सके कि क्या किया जाय। पर शासकों-शासकों के बीच के झगड़ों के फ़ैसले का अन्तिम उपाय युद्ध ही होता है। इसलिए शिन्दे, होलकर, भोंसले आदि ने भी लड़ाई की तैयारी की। पर दुर्दैव से इस समय भी वे अपने आपसी झगड़े को दूर न कर सके। प्रथम शिन्दे और भोंसले ने तो लड़ाई का निश्चय किया, पर होलकर चुपचाप तमाशा देखता रहा। शिन्दे और भोंसले अपनी-अपनी सेनायें लेकर निजाम की सरहद के पास डटे रहे। इसलिए गवर्नर-जनरल के भाई सेनापति वेल्लेजली ने उन्हें यह सन्देश भेजा कि अपनी-अपनी सेनायें लेकर अपने मुल्क का वापस चले जाओ, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार होओ। अंग्रेज दूत से शिन्दे-भोंसले का झगड़ा हुआ और अंग्रेज दूत वापस चला गया, इस लिए दोनों पक्षों के बीच लड़ाई शुरू हुई।

जनरल वेल्लेजली ने अहमदनगर के क़िले पर १० अगस्त १८०३

को हमला किया और उसे ले लिया। इसके बाद २१ सितम्बर  
 दिनांक और भोंसले का को जनरल वेलेजली ने अर्सई के पास  
 बराभाव तथा अंग्रेजों से भोंसले और शिंदे की सेनाओं पर हमला  
 उनकी सन्धि किया। उस समय वेलेजली के पास  
 केवल ८ हजार सैनिक थे। इनमें से केवल साढ़े चार हजार  
 अंग्रेज थे। कर्नल स्टीवनसन ७ हजार सैनिक लेकर उसकी  
 मदद को आ रहा था; पर उसके आने से पहले ही जनरल  
 वेलेजली ने मराठा फौजों पर हमला कर दिया। मराठों के सेना-  
 पति अनुभवी न थे, इसलिए लड़ाई शुरू होते ही भाग गये।  
 यही हाल सवारों का रहा। केवल तोपखाने ने कुछ देर तक  
 सामना किया, पर अन्त में अंग्रेजों की ही विजय रही। बहुत-  
 सी तोपें और सैनिक अंग्रेजों के हाथ पड़े। इसके बाद युर-  
 दानपुर और असीरगढ़ के किले भी अंग्रेजों के हाथ आये।  
 अड़गाँव में भोंसले ने अंग्रेजों का फिर से सामना किया, पर  
 यहाँ भी उसकी हार हुई और अर्सई से भी यहाँ उसका अधिक  
 नुकसान हुआ। इसके बाद गाविलगढ़ का मजबूत किला अंग्रेजों  
 के हाथ चला गया और खदर आई कि बंगाल की ओर का  
 खुजी भोंसले का सारा मुल्क उसके हाथ से निकल गया। अब  
 उसको विश्वास हो गया कि लड़ाई जारी रखना व्यर्थ है, इसलिए  
 १७ दिसम्बर को देवगाँव में अंग्रेजों से उसने संधि करली।  
 इस संधि से उसने बंगाल की ओर कटक और बर्धा नदी के पश्चिम  
 की ओर का सारा मुल्क अंग्रेजों को दे दिया। निजाम ने चौध  
 और घास-दाना लेने का हक छोड़ दिया और अंग्रेजों से पूरे  
 किला उनके विरोधी यूरोपियन अथवा अमेरिकन देश के किसी

## मराठों का उत्थान और पतन

भी मनुष्य को अपनी नौकरी में न रखना स्वीकार किया। शिंदे की भी दशा कुछ अच्छी न थी। भड़ोंच तो पहले ही अंग्रेजों के हाथ चला गया था। सितम्बर में चम्पानेर और पावनगढ़ के किले भी चले गये। इसी समय उत्तर-हिन्दुस्थान में जनरल लेक ने शिन्दे की सेनाओं पर अच्छी विजय पाई। अलीगढ़, दिल्ली और आगरा क्रम से अंग्रेजों के हाथ चले गये। इसके बाद वची हुई सेना को जनरल लेक ने पहली नवम्बर को पूरी तरह हरा दिया। कर्नल पावेल ने बुंदेलखंड पर कब्जा कर लिया। इस कारण ३० दिसम्बर को शिन्दे ने भी युद्ध बन्द किया और सुरजीअंजन गाँव में संधि करली। इस संधि के अनुसार उसने गंगा-यमुना के दो-आब का अपना सारा मुल्क, राजपूताना का अपना सारा मुल्क और अहमदनगर व भड़ोंच के किले अंग्रेजों के अधीन कर दिये। दिल्ली के बादशाह और निजाम ने चौथ और घास-झाना लेने का हक छोड़ दिया और पेशवा और गायकवाड़ से जो कुछ पाना था उसका अधिकार भी त्याग दिया। संधि के बाद १८०४ की २७ फरवरी को बुरहानपुर में शिन्दे और अंग्रेजों के बीच एक और संधि हुई। इस नई संधि से शिन्दे अंग्रेजों का मातहत बन गया।।

अब तक होलकर इस लड़ाई का तमाशा देखता रहा, पर अब उसने भी लड़ाई का निश्चय किया। जब उसने तीन अंग्रेजों को अपने ही जाति-भाइयों के विरुद्ध लड़ने से इनकार करने के कारण मार डाला, तब गवर्नर-जनरल वेल्लेजली ने उससे लड़ाई छेड़ दी। कर्नल मानसन ५ हजार पैदल और ३ हजार

होलकर की अंग्रेजों से लड़ाई और सन्धि

सवार लेकर मालवा में घुसा। कोटा से करीब ३० मील के फासले पर पहुँचने पर उसकी रसद बहुत कम रह गई, इसलिए जिस मार्ग से वह गया उसीसे वापस लौटने लगा। इस समय होलकर ने पीछे रखे हुए सवारों पर हमला किया और उन्हें नष्ट कर डाला। इसके बाद उसने कर्नल मानसन की पैदल सेना पर भी हमला किया। यह सेना किसी प्रकार थोड़ी-बहुत आगरा वापस पहुँची। जनरल लेक ने आगरा को मदद भेजी। होलकर ने आगरा लेने का प्रयत्न किया, पर विफल हुआ। इसके बाद उसने बादशाह को कैद करने का प्रयत्न किया। इसमें भी असफल होने पर ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के राज्य में लूट-भार करना शुरू किया। अंग्रेजों ने उसका पीछा किया और डीग के पास घेर कर उसे पूरी तरह हराया। इसके बाद उसने भरतपुर के किले का आधेय लिया। लेक ने उसे भी घेर लिया। वह उसे ले तो न सका, तथापि वहाँ के जाट राजा ने हिम्मत छोड़ दी और उससे सुलह करली। तब होलकर को वहाँ से भी भागना पड़ा। वह सिखों को अंग्रेजों के विरुद्ध उभाड़ने के लिए पंजाब गया, पर सिखों ने उसे कुछ भी मदद न दी। जनरल लेक उसका पीछा करता हुआ पंजाब पहुँचा। इस समय लार्ड वेलेजली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उसकी युद्ध-नीति ईस्ट-इण्डिया कम्पनी को पसन्द न हुई। नये गवर्नर-जनरल ने अच्छी शर्तों पर होलकर से सन्धि करली; परन्तु यह बात तो उसे स्वीकार करनी ही पड़ी कि कम्पनी की राजसत्ता के बिना मैं किसी यूरोपियन को अपनी नौकरी में न रखूँगा। और, इस शर्त को मानने से, वह अंग्रेजों का मातहत होना गया। इस प्रकार मराठाशाही की स्वतंत्रता को कायम रखने का

## मराठों का उत्थान और पतन

होलकर का प्रयत्न भी विफल हुआ। होलकर ने अंग्रेजों से सन्धि तो की, पर उसे अपनी विफलता बड़ी असह्य; यहाँ तक कि इसी रंज में वह पागल बन गया, और सन् १८११ में उसकी मृत्यु हो गई।

यशवन्तराव होलकर बड़ा साहसी और अच्छा सेनापति था। वह साधारण सैनिकों के समान रहता और उनके साथ चाहे जो कष्ट सहता था। इसी कारण वह अपने होलकर के राज्य-कारवार की व्यवस्था सैनिकों को बड़ा प्रिय था। उसके बाद उसकी एक रखेल के चार वर्ष के लड़के मल्हारराव होलकर को उसकी स्त्री तुलसीबाई ने गोद लिया और उसके नाम से पिण्डारियों के सरदार अमीरखाँ ने होलकर का राज्य-कारवार चलाया।

अंग्रेज इस समय हिन्दुस्थान में सर्वोच्च बन गये थे। उन्होंने वाजीराव को पेशवा की गद्दी पर विठा कर अपना मातहत बना लिया था। शिन्दे-होलकर-भोंसले वाजीराव विनाश की ओर भी अपना जोर आजमा कर अंग्रेजों के मातहत बन चुके थे। इस समय वाजीराव को उचित तो यह था कि जो कुछ राज्य उसके हाथ में बचा था उसका वह अच्छी तरह से प्रबन्ध करता और अपने ही हाथों जिस मातहत हालत में वह पड़ चुका था उससे सन्तुष्ट रहता; पर वाजीराव जैसा डरपोक था वैसा ही भूर्ख भी था, इस कारण उसने पेशवा की गद्दी पर अंग्रेजों की मदद से पकड़ी तौर पर बैठने पर अपने ही विनाश के बीज बोना शुरू कर दिया। उसने पन्त-प्रतिनिधि की जागीर ज़ाब्त की, इसके बाद सावन्त-



## भराओं का उत्थान और पतन

किये हुए लोगों को दूर करना शुरु किया। गुजरात में पेशवा का जो कुछ मुल्क था, उसका अधिकारी नाना पाड़नवीस का नियत किया हुआ आवा शेरकर था। उसे इस पद से दूर कर गोविन्दराव गायकवाड़ को इस पद पर वाजीगत्व ने नियत किया। इससे गायकवाड़ की आमदनी तो बढ़ी, पर उससे झगड़ा करने के लिए पेशवा की गुंजाइश भी अधिक हुई। सन् १८०० में गोविन्दराव की मृत्यु होने पर गायकवाड़ के राज्य में फिरसे गड़बड़ मची। उसके चार औरस और सात अनौरस लड़के थे। सबसे बड़ा लड़का आनन्दराव गोविन्दराव के बाद राज्य का हकदार हुआ। आपाजी रावजी उसका दीवान था। गोविन्दराव के जीतेजी उसके एक अनौरस लड़के कान्होजी ने बड़ौदा में गड़बड़ मचाई थी, इसलिए गोविन्दराव ने उसे कैद कर दिया था। अब किसी प्रकार यह वहाँ से छूट गया और आनन्दराव को अपनी ओर करके उसने राज्याधिकार अपने हाथ में ले लिये। आपाजी रावजी ने अंग्रेजों से सहायता माँगी और सन् १८०३ तक उन्होंने वहाँ शान्ति स्थापित कर दी। परन्तु इस सब कार्य के बदले उन्होंने सूरत की चौथ का गायकवाड़ का हिस्सा, चौरसली परगना और अठबिसी नाम के सूरत के ताल्लुके अपने कब्जे में ले लिये, और अरब सैनिकों के बदले २ हजार अंग्रेज सिपाही व अरब तोपखाना रखने का गायकवाड़ से इत्तफाक करवाया। इस सेना के खर्च के बदले उन्होंने गायकवाड़ से कोई आठ लाख का मुल्क लिया। अरब सैनिकों को उन्होंने छुट्टी देते समय जो वेतन दिया था उसकी अदाई के लिए बड़ौदा, अहमदाबाद आदि परगनों के

लगान की जमानत ली। इस प्रकार गायकवाड़ के राज्य में अंग्रेजों के पैर अच्छी तरह जम गये।

सन् १८०४ में पेशवा ने गुजरात के अपने मुल्क का ठेका फिरसे गायकवाड़ को दिया, पर १८०५ में कोलियों ने बगावत

की, और तब अंग्रेजों की मदद के लिए बहुत खर्च करना पड़ा। इसलिए उसके पास वाजीराव को देने के लिए कुछ न

रहा। इससे भी दुरी बात यह हुई कि आनन्दराव राज्य करने के लायक नहीं रह गया, इस कारण राज्य का कारदार उसके एक

भाई कृतेसिंह के हाथ में चला गया। पेशवा की माँगों पर उमने पेशवा से झूठ-झूठ उलटा मँगनी की, इसलिए पेशवा को गायकवाड़

के मुल्क पर कब्जा करने का मौका दिखाई पड़ा। पहले तो अंग्रेजों ने सालवाई की संधि के आधार पर पेशवा के कार्य पर आक्षेप किया;

पर जब उन्होंने देखा कि गायकवाड़ का बहुत-सा मुल्क स्वयं हमने ही अपने हाथों में कर लिया है, तब उन्होंने पेशवा की माँगों पर

आक्षेप करना छोड़ दिया। अन्त में यह तय हुआ कि गायकवाड़ गंगाधर नामक अपने कर्मचारी को हिसाब करने के लिए पूना

भेजे। अंग्रेजों ने उसकी रक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। पेशवा गंगाधर शास्त्री को अंग्रेजों का पक्षपाती समझता था और

इस कारण उससे द्वेष करता था। इसलिए सन् १८१४ तक उसे पेशवा ने अपने यहाँ न आने दिया। फिर जब वह पूना आया

तो पेशवा ने उसे अपनी ओर करने का बहुतरा प्रयत्न किया। अन्त में उसने गंगाधर शास्त्री को कठिनाई में डालना चाहा।

द्विम्बकजी डोंगले नाम के एक पुरुष पर पेशवा की दड़ी हस्त



थी। त्रिम्बकजी को भय था कि गंगाधर शास्त्री मुझे कहीं उससे वंचित न करवा दे। अतएव त्रिम्बकजी डोंगले ने उसका पूर्ण विनाश करने का विचार किया। आपाढ़ी एकादशी के दिन उसने गंगाधर शास्त्री को मरवा डाला। अंग्रेजों ने उसकी रक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी और उसके वध के विषय में डोंगले पर ही उनकी शंका थी, इसलिए उन्होंने पेशवा से उसे माँगा। बड़ी मुश्किल से पेशवा ने उसे उनके सुपुर्द किया। अंग्रेजों ने उसे थाना के किले में कैद किया। वहाँ अंग्रेज सैनिकों का अच्छा पहरा था, पर गुप्त रीति से पेशवा की सहायता पाकर डोंगले कैद से भाग गया (१२ सितम्बर सन् १८१६)। वाजीराव इस समय अंग्रेजों की मित्रता से उकता चुका था, इसलिए उसने त्रिम्बकजी डेङ्गले को चुपचाप सैनिक भर्ती करने के लिए कहा। रेजीडेण्ट से तो वाजीराव मीठी-मीठी बातें करता, पर उधर नागपुर के राजा, शिन्दे और होलकर के कारवारी अमीरखाँ से चुपचाप पत्र-व्यवहार करता था। रेजीडेण्ट माउण्ट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने जब त्रिम्बकजी डेङ्गले के फौज भरती करने की शिकायत की, तो पेशवा ने कहा कि मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। तब रेजीडेण्ट ने पेशवा से त्रिम्बकजी डेङ्गले को एक महीने के भीतर पकड़ने को कहा और इस कार्य की जमानत के बतौर सिंहगढ़, पुरन्दर और रायगढ़ के किले माँगे। अन्त में जब १८१७ की ८ मई को रेजीडेण्ट ने पूना को ब्रिटिश फौजों से घेर लिया, तब विवश होकर वाजीराव ने अंग्रेजों से संधि की। इसे पूना की संधि कहते हैं। फिर उसने त्रिम्बकजी डेङ्गले को पकड़ने के लिए घोषणा की और माँगे हुए किले तथा डेङ्गले के कुटुम्ब के कई

लोग अंग्रेजों के सुपुर्द किये। यही नहीं बल्कि उसने यह भी स्वीकार किया कि मैं अन्य किसी बाहरी सत्ता से कुछ भी व्यवहार न रखूँगा। नर्मदा और तुंगभद्रा के उस पार के सारे मुल्क पर उसने अपना अधिकार छोड़ दिया और वसई की संधि के अनुसार जो फौज रखना उसे आवश्यक था उसके बदले उसने ३४ लाख का मुल्क अंग्रेजों के सुपुर्द किया। इस प्रकार पांच हुए मुल्क में अहमदनगर, अहमदाबाद और उत्तरी कोंकण भी शामिल थे। साढ़े चार लाख रुपये लेकर उसने गायकवाड़ पर अपने सारे अधिकार छोड़ दिये।

विवशता की दशा में बाजीराव ने यह अपमानपूर्ण संधि की थी, पर मन ही मन वह अंग्रेजों से जल-भुन रहा था। जुलाई के महीने में माहुली जाफर गवर्नर-जनरल के पोलिटिकल एजेंट सर जॉन मालकम से वह मिला और अपनी माँठी बातों से उसे खुशकर सिंदगाढ़, पुरन्दर और रायगढ़ के जिले वापस ले लिये। इतना ही नहीं बल्कि पिरकारियों से अंग्रेज जो लड़ाई छेड़ने का विचार कर रहे थे, उसमें शामिल होने के लिए फौज तैयार करने की इजाजत भी प्राप्त करली। इसके बाद उसने बापू गोखले को फौज खड़ी करने के लिए कहा। साथ ही उसने अंग्रेजों के हिन्दुस्थानी सैनिकों को अपनी ओर फुसलाने का भी प्रयत्न किया। इत्तिफाक से इस बात का पता एलज़िस्टन को लग गया। २९ अक्टूबर को पेशवा ने दड़ी धूमधाम से दसहग मनाया और पूना में बहुत-सी फौज जमा हुई। उनकी प्रवृत्ति तथा संख्या बंगाल रेजीडेंट पेशवा के मन की बात, ताड़ गया और उसने

अपनी सेना खिड़की हटाली और दूसरे स्थानों से सहायता माँगी। पेशवा को खयाल हुआ कि डर के मारे अंग्रेजी सेना हट गई। उसने निश्चय किया कि कहीं से मदद आने के पहले ही रेजीडेंट की सेना को साफ़ कर डालना चाहिए। इस विचार में उसने खिड़की में अंग्रेजों पर हमला करने का निश्चय किया। इस प्रकार अंग्रेजों से मराठों की अन्तिम लड़ाई शुरू हुई।


५ नवम्बर को वापू गोखले ३६ हजार फौज लेकर खिड़की पर चढ़ाई करने के लिए पूना से आगे बढ़ा। रेजीडेंट के पास इस समय कुल २८०० सैनिक थे। कर्नल पेशवा की भगदड़ वूर उन्हें लेकर मराठों का सामना करने को तैयार हुआ। वापू गोखले ने अपने मन में लड़ाई की जो योजना की थी, वह न चल सकी। दोनों सेनाओं के बीच एक जगह जो दल-दल थी, उसका पता किसी को न था। इस कारण बहुत-सी मराठा सेना उसमें फँस गई और उसे अंग्रेजों ने साफ़ कर डाला। तब मराठों को पूना की ओर लौटना पड़ा। कर्नल वूर भी खिड़की की ओर वापस चला गया और मदद की राह देखता रहा। शाम तक शिरूर से उनकी मदद के लिए कुछ फौज आ पहुँची। १३ नवम्बर को जनरल स्मिथ भी कुछ सेना लेकर आ गया। तब वाजीराव पूना से सातारा को भागा। वहाँ उसने प्रतापसिंह तथा गोखले-वंश के कुछ अन्य लोगों को अपने कब्जे में किया। २२ नवम्बर को जनरल स्मिथ ने वाजीराव का पीछा करना शुरू किया। इस प्रकार पेशवा की वह भगदड़ शुरू हुई, जो बुरहानपुर के पास खैरी नामक स्थान में १८१८ के ३ जून को समाप्त हुई।

भगदड़ का वृत्तान्त विस्तार-पूर्वक बतलाने की आवश्यकता नहीं। सातारा से वह जुन्नर के उत्तर की ओर जा रहा था, पर रास्ते में कैप्टन स्टाउनटन ने भीमा नदी के पास कोरेगाँव पर उससे लड़ाई की। यहाँ भी वाजीराव की सेना से कुछ न बन पड़ा। कोरेगाँव से वह दक्षिण की ओर भागा। इधर अंग्रेजों ने ७ फरवरी १८१८ को सातारा का किला ले लिया। इसके बाद एक के बाद एक पूना के आसपास के सिंहगढ़, पुरन्दर लोहगढ़, बीसापुर आदि किले लिये। वाजीराव जनरल स्मिथ से बचते हुए मनमाना भागा जा रहा था, पर १९ फरवरी को जनरल स्मिथ ने वाजीराव को शोलापुर जिले के आष्ट्री नामक स्थान में पकड़ लिया। यहाँ जो लड़ाई हुई उसमें मराठों का मेनापति वापू गोखले मारा गया। वाजीराव यहाँ से भी भागा, पर सातारा के राजा प्रतापसिंह और कुटुम्बी-जनों को छोड़ दिया। सातारा के राजा का अंग्रेजों के हाथ में आना उन्हें लाभदायक हुआ, क्योंकि अब उन्होंने यह कहना शुरू किया कि हमारी लड़ाई मराठों से नहीं है, हम तो शिवार्जा के वंशज के लिए उसके वागी प्रधान से लड़ रहे हैं। अंग्रेजों के इस कहने में कई मराठे सरदार आ गये और उन्होंने वाजीराव का पक्ष छोड़ दिया। वाजीराव डर के मारे नागपुर की ओर भागा, पर उसके भाग्य में वहाँ भी आश्रय मिलना न वदा था। नागपुर में परसोजी राजा था, पर राज्य का कारदार मुघोजी उर्फ आपासाहब के हाथ में था। आपासाहब ने सन् १८१६ की २७ मई को अंग्रेजों से एक सन्धि की थी। इसके अनुसार उसने अंग्रेजों को नैतिक सहायता के बदले

## मराठों का उत्थान और पतन

साढ़े सात लाख रुपया सालाना देना मंजूर किया था। आपा-साहब बड़ा कर्तव्यशील था। वह परसोजी को मारकर स्वयं राजा बन बैठा और फिर वाजीराव से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगा। अंग्रेजों और पेशवा के बीच लड़ाई छिड़ने पर उसने भी नागपुर की अंग्रेजी सेना पर हमला कर दिया। पर सीतावल्डी के पास जो लड़ाई हुई, उसमें मुघोजी की हार हुई और अन्त में उसे अंग्रेजों के अधीन होना पड़ा। इसलिए वाजीराव को नागपुर में भी आश्रय न मिल सका। वाजीराव भागकर कोपरगाँव गया और वहाँ से भागकर चाँदा पहुँचा; चान्दा में भी अंग्रेजी सेना के आने पर वह उत्तर की ओर भागा; और अन्त में सन् १८१८ के ३ जून को सर जॉन मालकम के अधीन हुआ।

अंग्रेजों ने यह निश्चय कर लिया था कि सातारा के पुराने वंश को सातारा के पास थोड़ा-सा राज्य दे दिया जाय और पेशवा का शेष राज्य अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया जाय। इस निश्चय के अनुसार वाजीराव को आठ लाख की पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर में रख दिया गया। वहाँ ८० वर्ष की अवस्था में, सन् १८५१ में, उसकी मृत्यु हुई। इस प्रकार मराठाशाही का अन्त हुआ।



सन् १८१८ के बाद

पेशवा के राज्य को अपने राज्य में शामिल करके अंग्रेजों ने उसका कारदार पूना के रेजिडेंट माजस्ट्रेट स्टुअर्ट को सौंपा, परन्तु पेशवा के सारे राज्य को वे शामिल सातारा का राज्य अंग्रेजों के कब्जे में न कर सके। बाजीराव का पीछा करते समय अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि हम मराठों से नहीं लड़ रहे हैं, हम तो केवल मराठों के राजा की ओर से उसके विद्रोही प्रधान से लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें मराठों का छोटा-सा राज्य घना रहने देना पड़ा। सातारा के पास का थोड़ा-सा प्रदेश सांगोला, मालसीरस और पंटरपुर नाम के परगने, बीजापुर का शहर और उसके आसपास का कुछ प्रदेश सातारा के राजा प्रतापसिंह को दे दिया और कैप्टन जेम्स प्रैण्ट एक वहाँ का पोलिटिकल एजेण्ट नियत हुआ। मराठों के इतिहास का प्रसिद्ध लेखक प्रैण्ट डक़ा यही है! जबतक यह सातारा में रहा, तबतक सब कारदार ठीक चला। पर इसके बाद दोनों पक्षों में लड़ाई-भगाड़े शुरू हुए। इसका प्रधान कारण यह था कि प्रैण्ट

इफ के बाद जो पोलिटिकल एजेंट हुए, उनमें भरपूर ज्ञान, धैर्य, विवेक आदि गुणों का अभाव था। अन्त में चापलूस और सुफ्त-खोरों के कहने से महाराजा ने अंग्रेजों के विरुद्ध पड्यंत्र रचना शुरू किया। इसलिए कम्पनी-सरकार ने प्रतापसिंह को गद्दी से उतारा और उसके भाई शाहजी को गद्दी पर विठलाया। प्रतापसिंह और शाहजी दोनों बहुत अच्छे शासक थे और शाहजी ने अंग्रेजों से जैसी मैत्री दिखलाई वैसी हिन्दुस्थान-भर में अन्य किसी महाराजा ने न दिखलाई होगी। प्रथम अफगान युद्ध के समय शाहजी ने अपनी सेना अंग्रेजों के हवाले की और सन् १८४५ में कोल्हापुर में जो बगावत हुई उसे दबाने के लिए उसने अपनी फौज अंग्रेजों की सहायता के लिए भेजी। लोक-हित के कार्यों में उसने बहुत धन खर्च किया। कृष्णा और एना पर उसने जो पुल बनवाये, उनकी प्रशंसा आज भी होती है। सन् १८४८ के मार्च महीने में वह एकाएक बहुत बीमार हुआ। उसके कोई औरस लड़का न था, इसलिए उसने एक लड़का गोद लेने का निश्चय किया। इस समय गवर्नर-जनरल से पत्र-व्यवहार करने के लिए समय न था, इसलिए सिविल-सर्जन डाक्टर मेर की उपस्थिति में मृत्यु-शय्या पर पड़े महाराजा ने शेलगाँव के भोंसले-वंश के व्यंकोजी नामक लड़के को गोद लिया। इस वंश का सम्बन्ध शिवाजी महाराज के चाचा शरीफजी से था। रेजीडेण्ट फ्रीयर ने इस दत्तक-विधान को मंजूर करने के लिए बम्बई-सरकार पर जोर डाला। बम्बई के गवर्नर सर जार्ज क्लार्क का मत रेजीडेण्ट से मिलता-जुलता था, पर डाइरेक्टरों का मत भिन्न था; इसलिए ईस्ट-इंडिया-कम्पनी ने ३० साल पहले जो

छोटा-सा राज्य सातारा के महाराज को दिया था, वह अब वापस ले लिया और उसे अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया। इस प्रकार शिवाजी के राज्य का जो छोटा-सा चिन्ह सन् १८१८ तक किसी प्रकार बना था, वह सर्वैव के लिए नष्ट हो गया।

तथापि शिवाजी के वंश की एक शाखा अब भी बनी हुई है। हम यह देख चुके हैं कि शाहू महाराज के मुगलों की सैन्य से टूट कर आने पर राजाराम की पत्नी ताराबाई और उसके भतीजे शाहू के बीच राज्य के लिए भागड़े शुरू हुए।

कोल्हापुर राज्य का  
संक्षिप्त इतिहास

शाहू जब मुगलों की क़ैद में था, तब पहले राजाराम और फिर उसका लड़का शिवाजी गद्दी पर बैठा। ताराबाई राज्य का कारबार अपने हाथ में रखना चाहती थी और अपने लड़के शिवाजी को गज-पद पर बनाये रखना चाहती थी। पर शाहू का पक्ष मजबूत हुआ और ताराबाई के लड़के शिवाजी का पक्ष निर्बल हो गया, इसलिए सातारा की गद्दी पर शिवाजी का कोई अधिकार न रहा। अन्त में ताराबाई ने कोल्हापुर पर क़ब्जा कर लिया और शिवाजी के नाम से वहाँ कारबार करना शुरू किया। शाहू ने ताराबाई को गिराने के लिए जो युक्ति की, उसका वर्णन हम पहले कर ही चुके हैं। शाहू की इस युक्ति से राजाराम की दूसरी पत्नी राजसबाई का लड़का सम्भाजी सन् १७१२ में राजा हुआ। इस सम्भाजी ने भी शाहू से कई भागड़े किये। हम यह देख चुके हैं कि उस समय के हैदराबाद के सूदूरदार निजामुलमुल्क ने इनके इन भागड़ों से बहुत लाभ उठाया। कोल्हापुर का राजा निजाम ने भिला रहता था और शाहू तथा पेशवा से लड़ा करता था। सातारा



और कोल्हापुर के सम्बन्धों का वर्णन एक लेखक ने एक वाक्य में इस प्रकार किया है—‘उन दिनों पेशवा के शत्रु कोल्हापुर महाराज के मित्र और कोल्हापुर महाराज के शत्रु पेशवा के मित्र होते थे।’ सन् १७३१ में दोनों के बीच वारणा की जो सन्धि हुई, उससे कुछ काल के लिए इनका झगड़ा थोड़ा-बहुत मिट गया, परन्तु माधवराव पेशवा के समय से यह झगड़ा फिरसे शुरू हुआ। कोल्हापुर महाराज बहुधा निजाम से मित्रता रखता था, इसलिए माधवराव ने अप्रसन्न होकर उसके राज्य का कुछ हिस्सा ले लिया और उसे जागीर के रूप में पटवर्धन को दे दिया; परन्तु राघोबा के समय कोल्हापुर वालों ने उसे वापस ले लिया। फिर माधवराव शिन्दे ने उसे फिरसे जीता। सवाई माधवराव के राज्य-काल में जो विद्रोह हुआ था, उसमें कोल्हापुर वालों का ही हाथ था। द्वितीय बाजीराव के समय नाना फड़नवीस की सूचना से कोल्हापुर वालों ने पटवर्धन की जागीर पर हमला किया और सातारा में चतुरसिंह ने जो विद्रोह किया उसमें पेशवा के विरुद्ध कोल्हापुर वालों ने मदद दी। पटनकुडी की लड़ाई में चतुरसिंह और कोल्हापुर की सेना ने परशुराम भाऊ पटवर्धन को हराकर मार डाला। तब नाना फड़नवीस ने विंचूरकर प्रतिनिधि और मेजर ब्राउन को शिन्दे की सेना देकर कोल्हापुर भेजा और शहर का घेरा डाला। यह घेरा बहुत दिनों तक रहा, पर अन्त में पेशवा को उसे उठा लेना पड़ा।

अंग्रेजों और कोल्हापुर महाराज का सम्बन्ध पहले-पहल सन् १७६५ में हुआ। मालवण का किला कोल्हापुर के राज्य में









शिन्दे की विगड़ी हुई सेना ने महाराजपुर में अंग्रेजों का सामना किया, उससे अंग्रेजों का बहुत नुकसान हुआ। पर अन्त में उसकी हार हुई। सेना के विद्रोह का दण्ड शिन्दे को भुगतना पड़ा। १८ लाख की आमदनी का प्रदेश अंग्रेजों को देकर उसे अपनी सेना कम करनी पड़ी। सन् १८५७ में शिन्दे की कुछ सेना ने विद्रोह कर उससे अपना अगुवा बनने की प्रार्थना की थी। शिन्दे के शामिल होने से विद्रोहियों का बल बहुत अधिक बढ़ जाता, पर जयाजीराव ने अंग्रेजों का पक्ष नहीं छोड़ा। इस ईमानदारी के बदले अंग्रेजों ने उसे तीन लाख की आमदनी का प्रदेश लौटा दिया और ३ हजार के बदले ५ हजार सेना और २५ तोपों की जगह ३६ तोपें रखने की आज्ञा दी। शिन्दे की जिस सेना ने विद्रोह किया था, उसके स्थान पर अंग्रेजों ने अपने अधिकारियों की अधीनता वाली सेना रखी। सन् १८८६ की २० जून को जयाजीराव की मृत्यु हुई। उसके बाद उसके पुत्र माधवराव ने दही बुद्धिमान्नी से कई साल तक राज्य किया।

होलकर-पराने का इतिहास बाजीराव के समय से इतना अच्छा न रहा। यशवन्तराव होलकर के बाद उसकी रखेल तुलसीबाई

का लड़का मल्हारराव होलकर सन् १८११

होलकर और अंग्रेज

में गद्दी पर बैठा। बाजीराव और अंग्रेजों

के बीच जो अन्तिम लड़ाई हुई, उस

समय सन् १८१७ की २८ दिसम्बर को होलकर की सेना ने अंग्रेजों

पर सतिदपुर में चढ़ाई की, पर वह दुरी तरह हार गई। इसके बाद

श्रीमती गमपुर में दुरी तरह उसे अंग्रेजों ने दराया। पर इसके

बाद ही होलकर ने मन्डसौर में अंग्रेजों से सन्धि करके उनकी

अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस सन्धि से उसने नर्मदा के दक्षिण के सब प्रदेश पर अपना अधिकार छोड़ दिया और राजपूत राजाओं पर भी किसी प्रकार का दावा न रखवा। इसके बदले अंग्रेजों ने आवश्यक सेना रखकर उसकी रक्षा का भार अपने ऊपर लिया। महू की छावनी इसी शर्त की पूर्ति में बनी है। मल्हारराव होलकर की मृत्यु सन् १८३३ में हुई। उसके बाद हरिराव ने सन् १८४३ तक राज्य किया। उसके बाद द्वितीय तुकोजी होलकर गद्दी पर बैठा। यशवन्तराव की पत्नी केसरीबाई ने उसे गोद लिया था। सन् १८५७ के विद्रोह के समय तुकोजीराव अंग्रेजों के पक्ष में रहा और कई लोगों की रक्षा करके स्वयं अपनी जान उसने बोखे में डाली थी, क्योंकि उसकी सेना ने विद्रोह किया था। तुकोजीराव की मृत्यु सन् १८८६ में हुई। उसके बाद उसका बड़ा लड़का शिवाजीराव गद्दी पर बैठा। सन् १९०३ में उसे किसी कारण गद्दी छोड़नी पड़ी और उसका पद उसके लड़के सवाई तुकोजीराव को मिला। परन्तु उसे भी उस समय किसी कारण वश गद्दी छोड़नी पड़ी।

संक्षेप में यही सन् १८१८ के बाद के खास-न्नास मराठा-राज्यों का इतिहास है।













सन्मान करते थे। राजा के कुटुम्बी और नौकर सब प्रकार के करों से मुक्त थे; और नजदीकी रिस्तेदारों को पोंपण के लिए जमीन या नकद द्रव्य मिला करता था।

पेशवा के सर्व-सत्ताधारी होने का कारण ऊपर बता चुके हैं। पेशवा वास्तव में अष्ट-प्रधानों में मुख्य प्रधान था। बालाजी विश्वनाथ के पहले छः पेशवा हो चुके हैं।

शाहू के बाद पेशवा का पद बालाजी विश्वनाथ मराठा-राज्य का सातवाँ पेशवा था; और जिस समय

बालाजी विश्वनाथ पेशवा हुआ उस समय उसका पद सिद्धान्त की दृष्टि से भी राजा के बाद सर्वोच्च न था, क्योंकि पंत-प्रतिनिधि का पद इस दृष्टि से पेशवा के पदसे ऊँचे दर्जे का था। पंत-प्रतिनिधि के पद की नियुक्ति राजाराम के मरणोपरान्त ही हुई थी। पंत-प्रतिनिधि का वेतन १५ हजार होण था, परन्तु पेशवा का वेतन केवल १३ हजार होण था। इसी बात से दोनों के पद का मीलान हो सकता है, और हमारे आश्चर्य की कोई बात नहीं है। पेशवा एक प्रधान राजा का नौकर था, परन्तु पंत-प्रतिनिधि राजा का प्रतिनिधि था। सभी देशों में राजा के प्रतिनिधि वाली रिजिस्ट्रार का पद प्रधान मंत्री के पद से भी उँचा ही रहता है, क्योंकि वह राजा के स्थान में ही काम करता है। परन्तु बालाजी बाजीराव ने अपनी योग्यता और कार्य के द्वारा अपना पद सर्वोच्च कर लिया और राजाके समान पंत-प्रतिनिधि का

## मराठों का उत्थान और पतन

पद भी प्रतिनिधियों की अयोग्यता के कारण पीछे पड़ गया । भाग्य से बालाजी विश्वनाथ के बाद उसका लड़का बाजीराव बड़ा प्रतापी निकला और उसने मराठा-राज्य का विस्तार खूब बढ़ाया । इसलिए इसी समय से पेशवा का पद कुछ आनुवंशिक होता जान पड़ा था; और बाजीराव के बाद जब अनेक विध्वनों के होने पर भी पेशवा का पद उसके लड़के बालाजी उर्फ नानासाहब को मिला, तब तो उसपर आनुवंशिकता की छाप पूरी तौर से लग गई । बालाजी बाजीराव के बाद फिर इस बात का प्रश्न भी न उठा कि पेशवा का पद उसके तरुण लड़के माधवराव को क्यों मिले ! बालाजी बाजीराव के शासन-काल में ही यह बातचीत हो रही थी कि दिल्ली की गद्दी पर उसका लड़का विश्वासराव बिठलाया जाय । इसी बात से स्पष्ट है कि पेशवा के पद पर बालाजी विश्वनाथ के वंशजों का आनुवंशिक अधिकार राजा के पद के समान ही माना जाने लगा था । यदि बालाजी विश्वनाथ के वंशज योग्य पुरुष न निकलते, तो सम्भव था कि पेशवा का पद आनुवंशिक न माना जाता । पर सातारा के राजा अयोग्य निकले और बालाजी विश्वनाथ के पुत्र-पौत्र बहुत योग्य निकले । इस कारण राजा के करीब-करीब समस्त अधिकार पेशवा के हाथ में चले गये, केवल नाम को छोड़ कर पेशवा शाहू के बाद मराठा-राज्य का पूर्ण शासक बन गया । इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि शिवाजी के समान पेशवा भी धार्मिक भगड़ों का निर्णय किया करते थे ।

पेशवा के हाथ में राज्य-सत्ता ज्यों-ज्यों आने लगी त्यों-त्यों दूसरे प्रधानों का महत्व कम होता गया और उनका नाम मराठा-

राज्य में सुनाई न पहुँचने लगा। नाम-मात्र के लिए तो पदों के अष्ट-प्रधान अब भी दते थे, पर पदों जैसे उनके हाथ राज्य के सिद्ध-भित्त विभागों के शासन की सत्ता थी उस प्रकार अब न रह गई। अन्य जागीरदारों के समान अष्ट-प्रधान भी छोटी-मोटी जागीरें पाये हुए थे, पर महल की दृष्टि से दूसरे सरदारों के सामने वे कुछ न थे।

शिवाजी की शासन-व्यवस्था में एक और बड़ा भारी परिवर्तन हुआ। जिस समय औरंगजेब ने मराठा-राज्य को एक जागीरदारी की अनिवार्य खाला था उस समय महारं में मराठों

अन्य प्रधानों की  
स्थिति



मात्र के प्रधान रह गये थे और उनकी सत्ता पेशवा के हाथ में चली गई थी। इसलिए पेशवा ने राज्य-कार्य के लिए अपने निजी कारवारी नियत किये। पहले का फड़नवीस अब

मुख्य दफ्तर और उसकी व्यवस्था

बैत्रल फड़नवीस न रह गया था—वह सारे दफ्तर का अधिकारी तो था ही, पर पेशवा का प्रधान कारवारी भी हो गया था। आजकल सर्वोच्च सरकारी दफ्तर को “सेक्रेटैरियट” कहते हैं, मराठे लोग उसे हुजूर-दफ्तर कहते थे। आजकल का चीफ़ सेक्रेटरी उस समय हुजूर-फड़नवीस कहलाता था। दफ्तर के कई भाग थे। यहाँ पर प्रत्येक प्रकार के क़ागज़ों की नक़ल रखी जाती थी। इसलिए सब प्रकार की बातें दफ्तर से मालूम हो सकती थीं। नाना फड़नवीस ने दफ्तर के कामों में बहुत-से सुधार किये। इस दफ्तर में करीब २०० कारख़ून यानी क़र्क नौकर थे। द्वितीय बाजीराव के समय तक इस दफ्तर का काम बहुत अच्छी तरह से चला और प्रत्येक क़ागज़-पत्र बहुत अच्छी तरह से रक्खा गया था। इस बाजीराव के समय में ही इस दफ्तर के कामों में और क़ागज़-पत्रों को ठीक-ठाक रखने में गड़बड़-सड़बड़ हुई।

अब हम पेशवों की मुल्की व्यवस्था का वर्णन करेंगे। पेशवों की मुल्की व्यवस्था का मुख्य आधार लगान पटाने वाले की बढ़ती था। मराठे शासक इस बात को कभी न भूलें कि लोगों की समृद्धि से ही राज्य की समृद्धि होती है, इसलिए वे सहसा लगान बहुत अधिक न बढ़ाते थे। जब कभी नई जमीन काश्त में लाई जाती तो छः-सात सालों तक काश्तकार ने कुछ न लिया जाता

आय के मार्ग और लगान की दर





लिये जायें; (३) तरकारी-भाजी पैदा करने वाली जमीन पर बीघे पीछे २) गपये लिये जायें; (४) गर्मी के दिनों में बसल देने वाली जमीन पर १॥) गपया बीघा लिया जाय ।

ऊपर लगान के जो दर बतलाये हैं वे सम्भवतः सबसे ऊँचे थे । अन्य दर बहुधा इससे कम देय पड़ते हैं । पेसावों की जमा-बन्दी के सम्बन्ध में एक तत्त्व यह बताया जा सकता है कि पैदावार की घटी-बढ़ी के अनुसार जमाबन्दी में भी कमी-बढ़ी हुआ करती थी । इस कारण किसी को भी लगान देने सम्बन्ध में कष्ट न होना था ।

यह हम ऊपर एक स्थान पर बताती चुके हैं कि पड़ती जमीन को भारत में लाने के लिए पेसावे बहुत शिवायत दिना परसे थे ।

बहुधा वे अपने अधिकांशों को इस तरह की सूचना समय-समय पर देते थे कि पड़ती जमीन को भारत में लाने के

पड़ती जमीन और प्रजा  
को राज्य की ओर से  
रिआयतें



का अप्रत्यक्ष वसूल होते हैं। जमावन्दी के समान जकात-वसूली के लिए भी कमावीसद्वार वगैरा अधिकारी नियत थे। जमावन्दी के समान लोगों के आपत्काल में जकात भी माफ़ होती थी। बहुत आवश्यकता पड़ने पर आजकल के इनकमटैक्स के समान उस समय भी 'ज्यास्ती पट्टी' नाम का एक कर धन-सम्पन्न लोगों से लिया जाता था। ऐसा जान पड़ता है कि सरकारी नौकर जकात वगैरा से माफ़ थे। इसी प्रकार कोंकण के परमु और ब्राह्मण घर पट्टी (घर) से माफ़ थे।

आजकल के समान उस समय भी जंगल-विभाग से कुछ आमदनी होती थी। बहुधा चरोतर इसी विभाग में शामिल थे।

आपत्काल को छोड़ कर अन्य समय जंगल की भाय लोगों को लकड़ी वगैरा काटने के लिए कर देना होता था। इसी प्रकार शहद तथा वृक्षों की अन्य वस्तुओं से भी आमदनी होती थी।

टकरसालों से भी कुछ आमदनी हो जाती थी। आजकल के समान टकरसालें उस समय सरकारी न थीं। सिक्के बनाने का इजारा कुछ लोगों को सरकार से दिया जाता था। ये लोग उसके बदले सरकार को कुछ दिया करते थे। सिक्कों की सचाई पर

पेशवों का भरपूर खयाल रहता था; परन्तु अनुक ही प्रकार के सिक्के चलें और अनुक प्रकारके न चलें, ऐसा कोई नियम न था। सभी प्रकार के देशी और विदेशी सिक्के मराठा-राज्य में चलते थे, पर उनकी कीमत उनमें की धातु के अनुसार होती थी। बहुधा मराठा टकरसालों में होण, मोहर और रुपये बनाये जाते थे। होण



गाँव का दूसरा अधिकारी कुलकर्णी था। संक्षेप में इसे आज-कल का पटवारी कह सकते हैं। अजाकल के पटवारी का काम तो वह करता ही था; पर वह पटेल के समान जमाबन्दी, लिट्ट आदि के लिए भी जिम्मेदार समझा जाता था। परन्तु जिस प्रकार पटेल को गाँव में बड़े-बड़े लोगों के आने पर उनकी सुविधाओं की व्यवस्था करनी पड़ती थी, उस प्रकार की जिम्मेदारी कुलकर्णी पर न थी। ऐसा जान पड़ता है कि कुलकर्णीपरत ही एक प्रकार का हक हो गया था और पटेली के समान वह भी जमाबन्दी के समान समझा जाने लगा था। तथापि यह स्पष्ट है कि पटेल में कुलकर्णी का दर्जा काफी नीचा था और इसके परिणामस्वरूप गाँव में बहुत काम थे। बहुतों पटेल की आवश्यकताएँ पूर्ण होने पर कुलकर्णी की आवश्यकताएँ पूर्ण की जाती थीं।

कुलकर्णी



इस समय तक गाँव के भिन्न-भिन्न अधिकारी और दख्ते अपने भिन्न-भिन्न हज़ारों को वेतन समझने लगे थे। इस कारण कभी-कभी वेतन के सम्बन्ध में झगड़े उठ खड़े होते थे। यदि किसी की गैर-जाज़िरी में कोई दूसरा उनका काम करना तो पहला पुनः वारस आने पर दूसरे को बेदखल कर देता था।

गाँव की जमीन हज़ारों की दृष्टि में दो वर्गों में बँटी थी। जो लोग गाँव में सदा से रहते आये थे, वे मिनासदार कहलाते थे।

जबसक ये लोग पढ़ते सख्त कोई कागज़दारों के भेद

उन्हें बेदखल न कर सकता था। संयोग से यह सकते हैं कि इस समय ये मिनासदार अर्थात् वे मौखिकी काश्तकार के समान ही थे। कसो-दर्मी की शीम-शा-मि-दर-प के बाद भी ये मिनासदार अपनी आसीन जायस में होते थे। गाँव के दूसरे प्रकार के काश्तकार 'ऊपरी' कहलाते थे। इनको आजकल की भाषा में "भाम्बूली" जर्मीन से कामकाज कर सकते हैं। ये बहुधा बाहर से आये हुए होते थे; इनकी मराठी भाषा में इन्हें 'ऊपरी' कहते थे। ये जाते-जते बेदखल किये जा सकते थे और मिनासदारों के समान इन्हें हज़ार न थे।









पंचायतें नियत करनी पड़ती थीं। अपने भाग के शिवन्दी अर्थात् कौज और पुलीस के अधिकारी भी यही होते थे। धार्मिक और सामाजिक प्रश्न भी, निर्णय के लिए, इनके सामने आते थे। शिवाजी के समय में तो ये अधिकारी बहुत थोड़े समय के लिए नियत होते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान को बदले जाते थे, परन्तु पेशवों के समय में वही कमावीसदार या मामलतदार उसी क्षिति में कई बार नियत होता था। इस प्रकार धीरे-धीरे उसी पद पर ये लोग आजन्म रहने लगे और फिर अपने वाद अपने लड़कों को भी उनपर नियत करवाना शुरू किया। होते-होते अन्य नौकरियों के समान यह नौकरी भी अन्तिम पेशवों के समय आनुवंशिक हो चली थी।

वेतन के सिवा इन अधिकारियों की आमदनी के कई अन्य जरिये भी थे। नजराना लेना एक बहुत सामान्य बात थी।

जमावन्दी से अधिक लगान भी ये कभी-

कारकून वगैरा

कभी वसूल किया करते थे। यदि सर-

कार की ओर से किसी प्रकार का मान-सम्मान इन्हें मिलता तो उसके लिए भी सरकार की ओर से इन्हें खर्च मिलता था। ये कभी-

कभी भिन्न-भिन्न हिकमतों से जमावन्दी कम दिखलाया करते थे।

परन्तु इनके इन कार्यों पर एक तरह का दबाव रखने के लिए दरख-

स्त नाम के अधिकारी होते थे। इन दरखदारों की नियुक्ति वगैरा

एक सरकार से न होती थी। प्रत्येक मामलतदार के अधीन

चार कारकून यानी शर्क होते थे। इनके सिवाय एक दीवान, एक मुजुमदार, एक फइन्वीस, एक दफ्तरदार,

एक पोतनांस, एक पोतदार, एक सभासद और एक चिटनीस



पंचायतें नियत करनी पड़ती थीं। अपने भाग के शिवन्दी अर्थात् फौज और पुलिस के अधिकारी भी यही होते थे। धार्मिक और सामाजिक प्रश्न भी, निर्णय के लिए, इनके सामने आते थे। शिवाजी के समय में तो ये अधिकारी बहुत थोड़े समय के लिए नियत होते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान को बदले जाते थे, परन्तु पेशवों के समय में वही कमाव्दासदार या मामलतदार उसी हिस्से में कई बार नियत होता था। इस प्रकार धीरे-धीरे उसी पद पर ये लोग आजन्म रहने लगे और फिर अपने-पद अपने लड़कों को भी उनपर नियत करवाना शुरू किया। होने-होने अन्य नौकरियों के समान यह नौकरी भी अन्तिम पेशवों के समय आनुवंशिक हो चली थी।

वेतन के सिवा इन अधिकारियों की आमदनी के कई अन्य जरिये भी थे। नज़राना लेना एक बहुत सामान्य बात थी।

जमावन्दी से अधिक लगान भी ये कभी-कभी वसूल किया करते थे। यदि सर-

कार की ओर से किसी प्रकार का मान-सम्मान इन्हें मिलता तो उसके लिए भी सरकार की ओर से इन्हें खर्च मिलता था। ये कभी-कभी भिन्न-भिन्न हिकमतों से जमावन्दी कम दिखालाया करते थे। परन्तु इनके इन कार्यों पर एक तरह का दवावरखने के लिए दरखदार नाम के अधिकारी होते थे। इन दरखदारों की निष्पत्ति कबो मुख्य सरकार से न होती थी। प्रत्येक मामलतदार के अधीन बारह कारवून यानी इर्क होते थे। इनके सिवाय एक दीवान, एक मुजुमदार, एक फइतवांस, एक दरखदार, एक पोतनीस, एक पोतदार, एक सभासद और एक चिटनीस

होते थे। इनकी भी नियुक्ति वगैरा मुख्य सरकार से होती थी। प्रायः ये मामलतदार की मर्जी पर विशेष अवलम्बित न थे; उलटे मामलतदार के कामों पर इनकी भी एक तरह की देख-रेख होती थी और इनके कारण मामलतदार विशेष खयानत वगैरा न कर सकता था। सब चिट्ठियों और हुक्मों पर मामलतदार के हस्ताक्षर के नीचे दीवान के हस्ताक्षर होते थे। फड़नवीस के पास हिसाब-किताब के क़ाराज़ जाने के पहले मुजुमदार उन्हें देखता था। फड़नवीस सब प्रकार के क़ाराज़-पत्रों पर मिति वगैरा लिखता, रोज़ के क़ाराज़-पत्रों का हिसाब रखता, जमावन्दी के क़ाराज़-पत्रों को सिलसिलेवार लगाता और फिर सब क़ाराज़ों को मुख्य दफ्तर में लाता था। दफ्तरदार हर महीने सब क़ाराज़-पत्रों का सारांश मुख्य दफ्तर को भेजता था। कोटनीस आजकल के खज़ानची का काम करता था। पोतदार सिक्कों की जाँच करता था। सभासद छोटे-छोटे भगड़ों के क़ाराज़-पत्र रखता और उन्हें मामलतदारों के सामने पेश करता था। चिटनीस के जिम्मे चिट्ठी-पत्री लिखने का काम था। इन आठ अधिकारियों के सिवा कहीं-कहीं जामेनीस नाम का एक अधिकारी होता। इसके जिम्मे जमावन्दी के हिसाब-किताब का काम होता था। इस प्रकार प्रत्येक प्रान्त, सूबे या सरकार में सरकारी काम के लिए अलग-अलग अधिकारी नियत थे। इससे यह देख पड़ता है कि शासन-व्यवस्था की प्रत्येक बारीक बात पर मराठे शासक ध्यान देते थे। प्रत्येक सूबे या प्रान्त का जिस प्रकार शासन होता था करीब-करीब उसी प्रकार का शासन महाल, तर्फ या परगने का होता था; परन्तु उसमें सरकारी कर्मचारी प्रान्त या सूबे से कम होते थे। शिवाजी के

समय में तो महाल, तर्फ या परगने का अधिकारी हवलदार कहलाता था। सम्भवतः उसका यह नाम पेशवों के समय में भी प्रचलित था। परन्तु बाद में कदाचित् इस नाम के बदले कमावीसदार नाम का उपयोग अधिक होने लगा। कारकून तथा अन्य कर्मचारी मामलतदार की अपेक्षा हवलदार के पास कम थे और उनके नाम भी भिन्न थे, परन्तु काम बहुत-कुछ दोनों के दफ्तरों के कम-अधिक प्रमाण में एकसे थे।

यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि गाँव की भीतरी व्यवस्था में कमावीसदार, मामलतदार या हवलदार हस्तक्षेप न करते थे।

अधिकारियों का गाँवों  
से सम्बन्ध

पटेल की अनुमति से वे प्रत्येक गाँव की जमावंदी ठहराते और पटेल के जरिये उसे वसूल करते थे। यदि आवश्यकता

होती तो पटेल की सहायता के लिए फौज भेजते थे। यदि पटेल गाँव के भूगडों के निपटारे के लिए पंचायतें नियत न करता तो वे स्वयं यह काम करते थे। गाँवों के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें उन्हींके पास पेश होती थीं। इस प्रकार गाँव और मुख्य सरकार के बीच की कड़ी का काम वे किया करते थे।

पेशवाई में आदकारी-विभाग नाममात्र ही था। सरकार के शराब से प्रायः कुछ भी आमदनी नहीं थी। सर्वाई साधवराव

के समय में आदकारी की प्रवृत्ति शराब

आदकारी-विभाग

न बनने देने की ओर थी। जो गोर

ईसाई सरकारी नौकरी में रखे गये थे, उनका काम शराब के और न चलता था, उन्हें ही केवल शराब बनाने की आज्ञा दी गई थी। वन्दूकों की वारुद के लिए जो कलाली शराब की





अधिक नहीं रही। पेशवा की मुख्य फौज हुजरात और खास-पाथगा नामक दो वर्गों में बँटी हुई थी। उसका प्रबन्ध पेशवा सरदारों-द्वारा किया करते थे। शिवाजी के काल के समान घुड़-सवार दो भागों में विभक्त थे और उन्हें वारगीर और शिलेदार कहते थे। इनके सिवा कुछ सरदार अपनी सेना के साथ पिंडारी लोगों को रखते थे। इन लोगों का काम बहुधा लूट-मार करने का था और अपनी लूट में से कुछ हिस्सा ठहराव के अनुसार सरकार में जमा किया करते थे। सरंजामी सेना रखने की जिम्मेदारी सरंजामदार यानी जागीरदार सरदारों पर होती थी। कौन सरदार कितनी सेना रखे, यह उससे सरंजाम के अनुसार निश्चित होता था। मराठे लोग आमने-सामने की लड़ाई की अपेक्षा शत्रु पर लुक-छिपकर हमला करते और उसे नुकसान पहुँचाया करते थे। इस कारण पैदल सेना की अपेक्षा घुड़सवारों की क्रीमत् उस समय अधिक होती थी। प्रायः प्रत्येक मराठा सिपाही घोड़े पर बैठना अच्छी तरह जानता था और इसलिए बहुधा प्रत्येक मराठे के घर में घोड़ा बँधा रहता था। शिवाजी और सम्भाजी तोरण में भी स्वयं ही सेनापति का काम करते थे। पर उनके बाद यह प्रथा बंद हुई और चढ़ाई के मुखिया का काम पेशवा ही करने लगे। परन्तु अन्तिम वाजीराव के समय में यह प्रथा भी न रही। यह काम उसने अपने सेनापतियों पर ही सौंप दिया और वह दूर से ही लड़ाई देखा करता था।

पेशवों के समय में धीरे-धीरे पैदल सेना का भी उपयोग होने लगा था, पर पैदल सेना में मराठों की अपेक्षा इतर लोग

ही अधिक होते थे। मुसलमानों को भी बिना किसी रोकटोक पैदल-सेना व तोपखाना के भरती करके ऊँचे पद दिये जाते और महाराष्ट्रतरों के ही अधीन था। मुसलमानों के सिवा पैदल सेना में अरब और पुरविये लोग भी बहुत थे और उत्तर-भारत की मराठा सेनाओं में तो मराठे दाल में नमक के बराबर भी न थे। दोनों की नौकरी और बर्ताव में बड़ा अन्तर था। मराठे लोग साधारणतः ईमानदार होते थे, पर अन्य लोग क्रोधी और अविचारी हुआ करते थे। खड़ी पहरेदारी का काम उस समय आज के समान ही अरबी अथवा पुरवियों से लिया जाता था। मराठाशाही के अन्तिम काल में तो मराठा सेना में अरबों की संख्या बहुत अधिक हो गई थी। इन अरबों और पुरवियों ने धन के लिए उस समय चाहे जो काम किया है, और कई बार अपने स्वामी पर ही उलट पड़े हैं। गारदी सिपाहियों में पुरविये ही अधिक थे। नारायणराव पेशवा का खून करने वाले सुमेरसिंह, खड़कसिंह आदि ऐसे ही गारदी सिपाहियों में से थे। जितने मराठे सैनिक मिलते उतने भरती कर लेने के वाद, अथवा उनसे जो काम नहीं हो सकता था उसके लिए, अरबी और पुरविये ही भरती किये जाते थे। पर मराठाशाही में इतने अधिक महाराष्ट्रतरों को भरती करना बुद्धिमानी का काम न हुआ।

पैदल सेना और तोपखाने का उपयोग पहले-पहल सदाशिवराव भाऊ ने किया। दक्ष पैदल सेना और तोपखाने का

उपयोग करने से लड़ाई की पद्धति में परिवर्तन हुआ ।

नई सैनिक व्यवस्था के दोष मराठों की लड़ाई की पुरानी पद्धति पैदल सेना से न चल सकी और

आमने-सामने की लड़ाई की पद्धति जारी हुई । पानीपत

की लड़ाई में मल्हारराव होल्कर ने पुरानी पद्धति ही अमल

में लाने पर जोर दिया था । पर तोपखाने का अधिकारी इब्रा-

हीम गारदी नई पद्धति का समर्थक था । कुछ लोगों का मत है

कि इब्राहीम गारदी का मत सुनने से ही पानीपत की लड़ाई में

हार हुई । यह मत कहाँ तक ठीक है, इसका विचार हम आगे

करेंगे । परन्तु इतना कह देना आवश्यक है कि समयानुसार

पुरानी पद्धति में परिवर्तन करना उस समय उचित और आव-

श्यक था । काल के प्रवाह को रोकना किसीके लिए सम्भव नहीं।

पहले मुसलमानों से सामना करना होता था, पर पेशवों के

समय में मराठों को यूरोपियों से सामना करना पड़ा । यूरोपि-

यनों की दक्ष सेना और तोपखानों ने जो काम कर दिखाये, उसे

देखकर महादजी शिन्दे जैसे विद्वत् पुरुष ने नये प्रकार की सेना

तैयार करने का निश्चय किया । महादजी शिन्दे की दक्ष सेना

और तोपखाने ने अपूर्व काम कर दिखाया । परन्तु इस परिवर्तन

के साथ अन्य जिन बातों की आवश्यकता थी, उनकी पूर्ति मराठों

ने न की । पहले तो बन्दूक, तोपें और बारूद-भोजा उन्हें खर्च

करना था; पर बहुधा ये इन वस्तुओं के लिए विदेशियों पर

अवलम्बित रहा करते थे । यह नीति बहुत घातक रही । जब

कभी यूरोपियों और मराठों में लड़ाई छिड़ जाती, तब उन्हें यह

साहान मिलना पन्द हो जाता था; और साधारण समय में यह

सामग्री मिलती थी, तो वह बहुत निकम्मी और अपर्याप्त होती थी। महादजी शिन्दे ने बंदूक, तोप और बारूद-गोले के कारखाने बनवाये थे और वहाँ यह सामान तैयार करवाता था। पर इस व्यवस्था में भी दो-तीन दोष थे। पहले तो काफ़ी सामग्री तैयार न होती थी, इसलिए शिन्दे की सेना को छोड़ कर अन्य किसी सेना को यह सामग्री न मिल सकती थी। दूसरे, यह सामग्री हलके दर्जे की होती थी। परन्तु इन दोनों से भी भारी दोष यह था कि इन कारखानों को चलाने का काम यूरोपियन लोगों के जिम्मे था और इसलिए शिन्दे वगैरा सरदारों को सदैव इन यूरोपियनों पर अवलम्बित रहना पड़ता था। इसलिए इनके यूरोपियन अधिकारी अपने स्वामी के स्वामी बन जाते थे और जब कभी मराठों और अंग्रेजों के बीच लड़ाई छिड़ती तो वे लड़ने से इनकार कर देते थे। इसी कारण द्वितीय मराठा-युद्ध के समय होलकर ने तीन अंग्रेजों को मार डाला था। यूरोपियनों पर अवलम्बित रहने का यह दोष केवल कारखानों तक ही परिमित न था, किन्तु वह उनकी सारी सेना में देख पड़ता था। मराठे सरदारों की दक्ष सेना को यूरोपियनों ने तैयार किया और वही उसके अधिकारी बने हैं। इसलिए इस बात में भी मराठे सरदार यूरोपियनों पर अवलम्बित रहे। कोई भी यह देख सकता है कि यह नीति बहुत घातक रही। आवश्यक तो यह था कि यूरोपियनों की सहायता से केवल दक्ष सेना ही नहीं किन्तु तोप, बंदूक, बारूद के कारखानों के व्यवस्थापक और दक्ष सेना के नायक भी तैयार करवाते और इस प्रकार यूरोपियनों पर सदैव के लिए अवलम्बित न रहते। इसीके साथ ध्यान में रखने की बात यह है कि जब कभी यूरोपियन लोग हिंदु:

स्थानियों की नौकरी स्वीकार करते तब उनमें से कई लोग अपने स्वामियों से यह शर्त स्वीकार करालेते कि यूरोपियन और हिंदुस्थानियों के बीच लड़ाई छिड़ने पर हम लड़ने के लिए बाध्य न किये जायेंगे। इस वर्णन से यह स्पष्ट है कि मराठों की सैनिक व्यवस्था में पेशवा के समय बहुत-से दोष आ गये थे। फिर यदि यह स्मरण रखें कि शिन्दे की सेना पेशवों की सेना से हजार दर्जे अच्छी थी, तो हम यह सहज ही समझ सकते हैं कि द्वितीय बाजीराव की सेना से, अंग्रेजों से लड़ते समय, कुछ भी क्यों न बन सका। यदि यूरोपियों की तैयार की हुई शिन्दे की सेना भी द्वितीय मराठा-युद्ध में अंग्रेजों के सामने न टिक सकी, तो क्या आश्चर्य कि द्वितीय बाजीराव की सेना अंग्रेजों को देखते ही भाग जाती थी ! शिन्दे आदि सरदारों को जो यूरोपियन दारूद-गोला वगैरा के कारखाने बनाने, दक्ष सेना तैयार करने, रण में उनका संचालन करने तथा तोपखाना चलाने के लिए मिलते थे, वे बहुधा मिलकुल सामान्य लोग ही थे। अंग्रेजी अधिकारियों में इस काम के लिए जो निपुणता होती थी, वह यूरोपियों के इन निकम्मे लोगों में क्योंकि हो सकती थी ?

उपर्युक्त दोषों के अलावा पेशवा की सैनिक व्यवस्था में कुछ और भी दोष थे। पहला दोष तो यह था कि पेशवों के समय में सैनिकों को वेतन समय पर न मिलता था। इस दोष के बहुतसे परिणाम हुए, उन सबका यहाँ बतलाना सम्भव नहीं है। तथापि कुछ बातें सबपर स्पष्ट हो सकती हैं। जो सैनिक समय पर वेतन न पायेंगे, वे अच्छे आज्ञाकारी कभी नहीं हो सकते। हरिपंत पेशवे वगैरा नेतापतियों को कई बार ऐसे कठिन प्रसंगों में



सरकार से मिलती थी। प्रत्येक जहाज पर हशम और दर्यावर्दी नामक दो प्रकार के लोग रहते थे। हशम लड़ाकू सिपाही थे। इनके सिवाय बाजे हशम लोहार, बढई आदि भी होते थे। दर्यावर्दी लोगों में सारंग, ताण्डेल, पांजरी और खलाशी नाम के चार प्रकार थे। इनके सिवाय गोलन्दाज और वरकन्दाज अलग थे। जंगी जहाजों के सिवाय व्यापारी जहाज भी होते थे। जंगी जहाजों की कल्पना मराठों के सबसे बड़े “फतेजंग” नामक जहाज में हो सकती है। उसपर २२६ हशम, १६ गोलन्दाज और १३२ दर्यावर्दी लोग रहते थे। प्रत्येक जंगी जहाज पर युद्ध-सामग्री भरपूर रहती थी। सन् १७८३ से १७८६ तक मराठों के जहाजी बंदे में छोटी-बड़ी मिलाकर २७५ तोपें थी।

पेशवों को न्याय-व्यवस्था बहुत कुछ शिवाजी के काल के समान ही थी। वतन, दत्त-विधान, वटवारा आदि के भगड़े उस

गाँव के सभ्य लोगों की सभा के सामने  
न्याय-व्यवस्था पेश होते थे। इन सभाओं को गोत

और उनके निर्णय-पत्रों को गोत-महजर कहते थे। ऐसे गोत-महजर कुछ मिले हैं। उनपर उन-उन गाँवों के पटेल, कुलकर्णी, दारह बल्लूते और सेठ-महाजन के हस्ताक्षर मिलते हैं। यदि कोई अपना भगड़ा वाला-वाला पटेल अथवा अन्य किसी सरकारी अधिकारी के पास ले जाता तो वे उसे गोत-महजर लाने को कहते थे। इस व्यवस्था से एक बड़ा भारी लाभ था। लोग एक-दूसरे के आचरण पर अच्छा दवाव रख सकते थे। इस कारण भूठा आचरण बरने की ओर लोगों की प्रवृत्ति बहुत कम रहती थी और वे बहुधा गाँव में मेल-जोल से रहते थे। इसके सिवा कुछ



और लाभ इस व्यवस्था से होते थे। जहाँ का ऋगड़ा वहीं निपटने के कारण न्याय के स्थान में अन्याय होने की सम्भावना कम होती थी। पंचायतों की प्रवृत्ति मेल कर देने की ओर होने के कारण लोगों में ऋगड़ालू प्रवृत्ति कम होती थी। निर्णय के लिए आज के समान समय न लगता था और खर्च बहुत कम पड़ता था।

जिन लोगों का संतोष गोत-महजर में न होता, वे अपनी फर्याद देशक के पास ले जाते थे। देशक में हवालदार, कारकून, सरनौबत, सवनीस, हेजीव चिटनीस, कारखाननीस, सरगुरव, वाजी नाईक, नाईकवाड़ी, शेदे, महाजन, बलूते आदि शामिल होते थे। ऋगड़ा यदि स्थानिक स्वरूप का न होकर प्रान्तीय स्वरूप का होता तो वह बहुधा देशक के सामने पेश होता था। देशक के निर्णय-पत्र को देशक-महजर कहते थे। गोत और देशकों की सभायें बहुधा किसी देवालय में अथवा नदी के किनारे या नदियों के संगम पर होती थीं। गोत और देशक के ऊपर न्याय का अधिकारी न्यायाधीश अथवा स्वयं पेशवा होता था, परन्तु न्यायाधीश अथवा पेशवा न्याय करते समय देशक की मजलिस यानी सभा में करते थे।

इससे स्पष्ट है कि न्याय का काम बहुधा लोगों के ही हाथ में था। जाति-भ्रष्ट को शुद्ध करने का प्रश्न बहुधा शंकराचार्य के सामने पेश होता था और वही बहुधा न्याय की निर्णय-पद्धति उसका निर्णय करते थे। न्याय की निर्णय-पद्धति इस प्रकार की थी। पहले अग्रवादी और पश्चिमवादी यानी वादी-प्रतिवादी से यह लिखवा लेते थे कि हम अपना ऋगड़ा गोत अथवा देशक से निपटवाने को तैयार हैं। इस लेख को राजी-



जो रकम ली जाती उसे गुनहगारी कहते थे। गुनहगारी बहुधा हरकी की दुगनी होती थी और दोनों से होने वाली आमदनी भगड़े की वस्तु के १५ सैकड़े तक होती थी। मराठा राज्य में सरकार को कर्ज का चौथा, पाँचवा या छठवाँ हिस्सा देकर कर्ज वसूल करवाने का मागे किसी भी साहूकार के लिए खुला था।

ऊपर बताया चुके हैं कि गाँव में बन्दोवस्त रखने का काम पटेल के जिम्मे था और उसे कुलकर्णी, चौगुला और गाँव का महार मदद करते थे। मामलतदार के पास कई सवार रहते थे। महाल में शान्ति

फौजदारी इन्साफ

और व्यवस्था रखने का काम आजकल की पुलिस के समान उसीके जिम्मे था। यदि किसी गाँव में कोई फौजदारी गुनाह हुआ तो उसका निर्णय उस गाँव के पंच ही करते थे। परगने के सदर-मुकाम में उस परगने के गुनाहों का इन्साफ करने के लिए फौजदार नाम का अधिकारी होता था। पूना-जैसे बड़े-बड़े शहरों में कोतवाल नियत किये जाते थे और उनके पास उन शहरों के बड़े-बड़े भगड़े पेश होते थे। परन्तु उनके मुहल्लों के छोटे-छोटे भगड़ों का इन्साफ उन मुहल्लों के कमावीसदार ही करते थे। मराठा-राज्य में सब न्यायाधिकारियों पर एक मुख्य न्यायाधीश होता था और उसके सामने फौजदारी तथा दीवानी दोनों प्रकार के भगड़े आते थे। इस पर १७५९ से नारायणराव के बंध तक प्रसिद्ध न्यायाधेश राम शास्त्री प्रभुणे था। उसकी योग्यता तथा निस्पृहता इतिहास में प्रसिद्ध ही है।

चारी और डकैतों के गुनाहों के लिए कैद, मृत्यु-दंड अथवा

हाथ-पाँव-कान काटने की सजा मिलती थी। जिस गाँव में चोरी या डकैती होती, उस गाँव के लोगों पर चोरी हुए माल की हानि देने की जिम्मेदारी रहती थी। परन्तु यदि यह देख पड़ता कि उस चोरी-डकैती का सम्बन्ध किसी दूसरे गाँव से है, तो हानि देने की जिम्मेदारी उस दूसरे गाँव पर रखी जाती थी। राज-द्रोह या विद्रोह—जैसे भयंकर गुनाहों के लिए कभी क़ैद तो कभी माल-मिलकियत की ज़रूरी, कभी हाथ-पैर काटने की सजा तो कभी पर्वतों या किलों से ढकेल देकर मृत्यु-दंड मिलता था। शराब पीना भी गुनाहों में शामिल था और पीने वाले को भारी जुनहगारी देनी होती थी—यहाँ तक कि कभी-कभी गुनाह करने वाले की जायदाद भी ज़ब्त हो जाती थी। एलफ़िंस्टन को खोकार करना पड़ा है कि देश में गुनाह बहुत कम होते थे। प्रथम माधवराव पेशवा तक तो देश में अच्छी शान्ति थी, पर नारायणराव की मृत्यु के बाद एक बार जो गड़बड़ पैदा हुई वह अन्त तक थोड़ी बहुत बनी ही रही। एलफ़िंस्टन ने जो वर्णन किया है वह द्वितीय बाजीराव के समय का है। इसमें हम यह कह सकते हैं कि देश में न्याय और शान्ति की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी।

उपर यह बताही चुके हैं कि गुनाहों के लिए कभी-कभी क़ैद की सजा होती थी। इसके लिए मराठा-राज्य में लोहगढ़, सिंहगढ़, पुरन्दर, राजभाची, अहमदनगर आदि किलों का जेन के लिए उपयोग होता था। क़ैदी से किस प्रकार का बर्ताव किया जाय, उसे किस प्रकार का और कितना अन्न खाने को दिया जाय, इत्यादि बातें

आरागार की व्यवस्था

उसकी जाति और दर्जे से निश्चित होती थीं। कोली, रामोशी, बैरट आदि जातियों के क़ैदियों से क़िलों की इमारतों का काम लिया जाता था। प्रौढ़ मनुष्यों के लिए नागली एक सेर और लड़के को आध सेर दी जाती थी। क़ैदी ब्राह्मण हुआ तो उसे चावल, दाल, घी, नमक आदि देते थे। क़ैदी यदि अच्छे दर्जे का रहा तो क़िलेदार को इस बात की ताक़ीद रहती थी कि किसी प्रकार उसकी बेइज़्जती न होने पावे। क़ैदियों के पैरों में बहुधा बेड़ियाँ डाली जाती थीं। राजनैतिक क़ैदियों को बहुधा उनके गुनाह और दर्जे के अनुसार दंड, वस्त्र-भोजन आदि दिया जाता था। बार-बार गुनाह करने वालों को बहुधा कड़ी सज़ा मिलती थी। स्त्रियाँ भी क़ैद में रक्खी जाती थीं। क़ैदी के घर में विवाह अथवा कोई धार्मिक कार्य या अन्य कोई भारी ज़रूरी कार्य हुआ तो ज़मानत पर उसे उस कार्य के पूर्ण करने की अवधि तक छोड़ देते थे। शुभ अवसरों पर क़ैदियों को मुक्त करने की प्रथा पेशवों के समय में भी थी। इतिहास से ऐसे कोई उदाहरण नहीं दीख पड़ते कि जिसमें अत्याचार के कारण क़ैदी कारावास में ही मर गया हो। पेशवों की कारागार-व्यवस्था के सम्वन्ध में सारांश में हम यह कह सकते हैं कि उस समय की रीतियों और धार्मिक विश्वासों के अनुसार लोगों को सब सुभीते मिलते थे।

आज के समान उस समय डाक की व्यवस्था नहीं। तथापि सरकारी ढंग से चिट्ठी-पत्री भेजने का बन्दोबस्त अवश्य होता था।

इस काम के लिए जासूस और हलकारे  
डाक की व्यवस्था रहते थे। बहुधा स्थान-स्थान पर इसके

लिए टप्पे बनाये जाते थे। दूर डाक ले जाने के लिए बहुधा दो

हलकारे एक साथ भेजे जाते थे, ताकि किसी कारण से एक के काम-योग्य न होने पर दूसरा वह काम पूरा कर सके। कभी-कभी टप्पे के गाँवों पर डाक पहुँचाने की जिम्मेदारी डाली जाती थी। सरकारी डाक रोकना सरकार के विरुद्ध गुनाह करने के बराबर था। कहीं-कहीं सरकारी डाकिये के साथ कुछ थोड़ी-सी रकम देकर अपनी निजी चिट्ठियाँ भेजने की इजाजत लोगों को मिलती थी, परन्तु बहुधा सेंट साहूकार लोग अपने निजी डाकिये रखते थे। साहूकारों के इन डाकियों के साथ भी कभी-कभी अन्य लोग अपनी चिट्ठियाँ भेजते थे। जल्दी डाक भेजने के लिए ऊँट या ऊँटनी का उपयोग होता था और इस प्रकार डाक ले जाने वाले को साँडनी-सवार कहते थे।

आजकल जैसी शिक्षा की व्यवस्था उन समय न थी। इसलिए पेशवाई में उसके होने की आशा करना अनुचित है। पुराने प्रकार की शिक्षा-व्यवस्था पेशवाई शिक्षा की व्यवस्था में भी थी। शिक्षा का बहुतेरा काम प्राचीन रीति के अनुसार ब्राह्मणों के हाथ में था और बहुधा ब्राह्मण लोग ही शिक्षित होते थे। शिक्षा का स्वरूप समय के अनुसार बहुत कुछ व्यावहारिक था। शिक्षक की उद्विग्न बहुधा लोकाश्रय में चलती थी। पेशवा आदर्य महल में दक्षिण-रूप से विद्वानों को योग्यतानुसार द्रव्य, देतनियों वगैरह दिया करते थे। पेशवों की इस प्रथा का शिक्षा पर थोड़ा-बहुत परिणाम हुए बिना न रहा। पूना में स्थान-स्थान के विद्वान आते और इस प्रकार वहाँ की विद्या को बढ़ाते थे। अच्छे विद्वान और मन्दाकारी ब्राह्मणों को कुछ वार्षिक पुरस्कार मिलता करता था। इन दो

साधनों के सिवाय शिक्षा-प्रसार का एक और साधन ऐसा था कि जो हिन्दुस्थान के अन्य भागों में नहीं देख पड़ा। साधु-संत लोग अपने कथा-कीर्तनों-द्वारा केवल धार्मिक जागृति ही न करते किन्तु समाज में शुद्ध आचार और विचार का भी प्रसार करते थे। कला-कौशल्य की शिक्षा पुराने ढंग से ही लोगों को प्रत्यक्ष अनुभव-द्वारा प्राप्त होती थी। महाराष्ट्र में सैनिक शिक्षा पर लोगों का ज्यादा प्रेम था। घोड़े पर बैठना, तलवार-भाले आदि चला सकना लोगों के लिए बहुत साधारण बात थी। प्रत्येक महाराष्ट्रीय तरुण की यही इच्छा होती कि मैं लड़ाई में जाऊँ और अच्छा नाम कमाऊँ। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि पानोपत के घमासान युद्ध के बाद केवल दस-बारह वर्ष के भीतर मराठों का फिर से स्वैर-संचार होने लगा। व्यायाम की शिक्षा का महाराष्ट्र में उस समय भी सर्वत्र प्रचार था और उसका कारण यही था कि लोग अन्य कुछ बनने की अपेक्षा सैनिक बनना पसन्द करते थे।

इसका यह मतलब नहीं कि पुस्तकीय विद्या से मराठों को कोई प्रेम न था। स्वयं पेशवों ने पुरानी पुस्तकों की प्रतियाँ और नकलें प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। सन् १७४७-४८ में बालाजी बाजीराव ने उदयपुर से करीब ३६ हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त की थीं। सन् १७५५-५६ में उसने १५ हस्तलिखित प्रतियाँ खरीदीं। सन् १७६५-६६ में प्रथम माधवराव ने पुरानी पुस्तकों की नकलें प्राप्त करने के लिए ३१) ६० महीने का खर्च मंजूर किया। पेशवों के समय में पूना ने महाराष्ट्र की विद्या का केन्द्र-स्थान होने का गौरव जो एक बार पाया, वह अबतक चला जा रहा है।

पेशवों के समय में वैद्य-विद्या को भी काफ़ी उत्तेजना मिलती थी। वैद्य लोगों को भी भूमि इनाम में दी जाती थी और उनका काम यह था कि दवा मुफ्त दें। इन बातों में धर्म और जाति का किसी प्रकार का भलाड़ा न आने पाता था। इनाम पानेवालों में केवल हिन्दू और मुसलमान वैद्य-हकीम नहीं, किन्तु पोर्तगीज मिशनरी डाक्टर का भी नाम देख पड़ता है। सम्भवतः वार्षिक दक्षिणा वैद्य को भी मिलती थी।

इस पुस्तक के पढ़ने से पाठको को यह मालूम हो गया होगा कि आजकल की तरह उस समय भी योग्य लोगों को पदवियों, इनामवगैरा दिये जाते थे। उस समय पदवियों, इनाम वगैरा की पदवियों के कुछ नाम ये हैं—  
हिन्दूराव, हिस्मतवहादर, शमशेरवहादर, वज्जारन महाश्राप, सेना-पति, सेना खास खेल, सेना साहेब सूदा, सेना धुरन्धर, धुरन्धर, महााराव हिस्मतवहादर, रस्तमराव, फतेजंग यहादर, सफेजंग यहादर, सरलश्वर, सेना वार हज्जारी इत्यादि-इत्यादि। उस समय ये पदवियाँ छुट्टी न दी जाती थीं, किन्तु इनके साथ जागीर, वेतन आदि कुछ न कुछ अदरय मिलता था। पदवी-दान का सर्व पदवी पाने वालों ने न लिया जाता था। सरकार इस बात का खयाल रखती थी कि पदवी-प्राप्त पुरुष के सम्मान में किसी प्रकार की छुट्टि न आने पावे। जिन किर्ती को किसी प्रकार का सम्मान मिलता था वह निदाहने के लिए उसे सर्व भाँ मिलता था। उदाहरणार्थ, यदि किसी को पदवी में बैठने का मान मिलता तो उसे केवल पदवी का सर्व ही नहीं



मराठों का उत्थान और पतन

किन्तु उसे उठाने वाले कहरों का वेतन भी सरकार से मिलता था ।

पेशवों के समय में महाराष्ट्र के व्यापार में यथेष्ट उन्नति हुई थी । इस समय अंग्रेज, फ्रांसीसी, पोर्तगीज़, डच, वगैरा यूरोपियन लोग पश्चिमी किनारे पर वसे थे और इस व्यापार और उद्योग-धर्मों को उत्तेजना किनारे के कई स्थानों पर उनका अधिकार होगया था । महाराष्ट्र का बहुत-सा माल वे इन्हीं स्थानों से यूरोप को भेजते और यूरोप का माल इन्हीं स्थानों में लाकर महाराष्ट्र के लोगों को बेचते थे । अरब लोग इनके जैसा ही व्यापार अब तक कर रहे थे, पर अब उनका बहुत-सा व्यापार यूरोपियन लोगों के हाथ में चला गया था । व्यापारियों को पेशवों के समय में कई प्रकार से उत्तेजना मिलती थी । कभी उनके लिए जहाज़ आदि का प्रवन्ध कर दिया जाता, तो कभी घर और ज़मीन रिआयती लगान पर या मुफ्त मिलती थी । कभी-कभी उनके माल पर जकात माफ़ कर दी जाती थी । चोर, डाकू आदि लोगों से उनके माल की रक्षा करने का प्रयत्न किया जाता था । कुछ खास वस्तुओं की दूकानें कभी-कभी सरकार की ओर से भी खोली जाती थीं । कागज़, कपड़ा, कला-कौशल्य के पदार्थ आदि वस्तुओं की आवश्यकता होने पर सरकार की ओर से कारखाने वालों को नमूने देखकर उन्हें बनाने का ठेका दे दिया जाता था, और उसके लिए धन दिया जाता था । नये बाज़ार और गाँव आदि बसाने की ओर पेशवों का बहुत लक्ष्य था । बाज़ार वगैरा शुरू करने का कोई ठेका लेता तो उसे गाँव में रहने की जगह, गाँव का परवाना, बाज़ार की दूकानों से अथवा गाँव





मराठों की सामाजिक व्यवस्था, स्थिति और रीति-भाँति

इतिहास में शासन-व्यवस्था महत्वपूर्ण तो है, पर इतने से ही किसी राष्ट्र की सामाजिक व्यवस्था का वर्णन पूरा नहीं हो जाता।

वैसे तो सामाजिक शब्द के अन्तर्गत 'सामाजिक' शब्द का अर्थ समाज-सम्बन्धी सब ही बातें आ जाती

हैं; पर कभी-कभी 'सामाजिक' शब्द का उपयोग ऐसी बातों के लिए भी होता है कि जिनसे व्यक्ति-व्यक्ति के राजकीय को छोड़ कर अन्य परस्पर सम्बन्धों का बोध होता है। यहाँ पर हमने 'सामाजिक' शब्द का उपयोग ऐसे ही संकुचित अर्थ में किया है। समाज में सब व्यक्ति बराबर हैं या ऊँचे-नीचे हैं, वे परस्पर किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, क्या लोगों के वर्ग-भेद हैं, विशेष अवसरों पर वे किस प्रकार का आचरण करते हैं, इहलोक-परलोक-सम्बन्धी उनकी कल्पनायें क्या हैं, इन कल्पनाओं के कारण क्या किसी प्रकार के वर्ग-भेद पैदा होते हैं, आमोद-प्रमोद के समय वे परस्पर किस प्रकार का व्यवहार रखते हैं, इत्यादि

वातें ही 'सामाजिक' शब्द के अन्तर्गत आती हैं। इन्हींका वर्णन अब हम करेंगे। क्योंकि इस वर्णन के बिना किसी राष्ट्र का इतिहास पूर्ण नहीं हो सकता।

मराठे भी हिन्दू थे और हैं, इस कारण मराठों की सामाजिक व्यवस्था आदि की बहुतेरी बातें शेष हिन्दुस्थानियों से मिलती-

मराठों की सामाजिक व्यवस्था और रीति-भक्ति के पृथक् वर्णन की आवश्यकता

जुलती ही रहेंगी। मराठों की भी व्यवस्था का मूल भारत के शेष लोगों की व्यवस्था के समान बही था। महागण्ड में भी पहले मूलनिवासी थे, फिर आर्य आये और उन्होंने अपनी बहुतेरी बातें यहाँ के मूलनिवासियों को मिलवाईं। अन्य भागों की नाई यहाँ भी आर्यों और अनार्यों का सम्मिश्रण हुआ—सभ्यता का परस्पर आदान-प्रदान हुआ और एक सामाजिक व्यवस्था उत्पन्न हुई। अतएव कोई प्रश्न का समाधान है कि यहाँ की सामाजिक व्यवस्था में ऐसी कौनसी नई बातें मिलने की आशा है कि जिससे यहाँ की व्यवस्था के विशेष वर्णन की आवश्यकता समझें? अन्य भागों के समान ही यहाँ की भी व्यवस्था रही होगी; उसमें विशेषता कौनसी हो सकती है? परन्तु यह आक्षेप करने समय हम एक बात भूल जाते हैं कि भारत, मूल और राष्ट्र के अनुसार इतिहास बदला करता है। हिन्दुस्थान में जितने आर्य आये वे यद्यपि बहुतेरी बातों से परस्पर मिलते-जुलते थे, तथापि थोड़ी-बहुत बातों में परस्पर भिन्नता भी थी। अतएव यह कहना ठीक न होगा कि भारतवर्ष में जितने आर्य आये वे सब बातों में बिलकुल मिलते-जुलते थे। यह स्मरण रखना चाहिए कि यहाँ की मूल जातियाँ सब ही एकसमान न थीं; उतने उतने प्रकार

के भेद थे। फिर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भौगोलिक परिस्थिति का लोगों के विकास पर कुछ कम परिणाम नहीं होता। इतिहास एक दृष्टि से मनुष्य और प्रकृति की क्रिया और प्रतिक्रिया का ही वर्णन है। तीसरे, समय और स्थानान्तर के कारण लोगों में भेद पैदा हुए वगैर नहीं रहते। इन तीन कारणों से सामाजिक व्यवस्था, स्थिति और रीति-भांति के भेद पैदा होना नितान्त स्वाभाविक है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र की इन बातों का अलग-अलग वर्णन करना आवश्यक है। इसी कारण मराठों को भी सामाजिक व्यवस्था, स्थिति और रीति-भांति का वर्णन कुछ विस्तारपूर्वक करना लाभदायक होगा।

आर्य लोग जिस समय उत्तर से दक्षिण की ओर आये, उस समय सारे दक्षिण में अरण्य फैला हुआ था। आर्यों ने उसे दण्ड-कारण्य नाम दिया है। इसीके बहुतेरे महाराष्ट्र में आर्यों और अनार्यों का सम्मिश्रण भाग को आगे चल कर महाराष्ट्र नाम प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र का भौगोलिक वर्णन प्रारम्भ में कर ही चुके हैं। इस अरण्य में यहाँ के मूलनिवासी अनार्य लोग रहते थे। आर्य लोग सम्भवतः ईसा के ६०० वर्ष पूर्व से दक्षिण में आने लगे और कदाचित् १००० वर्ष तक आते रहे। यहाँ के मूलनिवासियों को इतिहास में 'नाग' नाम दिया है। आर्यों के आने पर इनमें से अनेक पहाड़ी भागों में जाकर बस गये। महाराष्ट्र के भील, रामोशी, कोली आदि यहाँ के मूलनिवासी ही हैं। हिन्दुस्थान के मूलनिवासियों के समान दक्षिण के मूलनिवासी भी सभ्यता में आर्यों से बहुत पिछड़े हुए थे। इसलिए आर्यों ने यहाँ भी अपनी सभ्यता का खूब प्रसार किया और यहाँ



लिया। इस प्रकार स्थान-विशेष के अनुसार आर्यों की रीति-भँति और आचार-विचार में काफी फर्क होगया।

उपर्युक्त वर्णन मोटे तौर पर ठीक जान पड़ता है, मगर उससे कुछ बातों का समाधान नहीं होता। दक्षिणी ब्राह्मणों के आचार-

दक्षिणी ब्राह्मणों में अधिक  
समानता के कारण

विचार में जो इतनी अधिक समानता है, उनमें काले रंग की जो बहुत कमी है, और उनके शरीर की बनावट में जो

समानता है, उसका समाधान कैसे हो ? इन बातों के समाधान के लिए हमें यह मानना ही होगा कि उत्तर से जो ब्राह्मण आये उन्होंने मूलनिवासियों से सम्बन्ध बहुत कम रक्खा होगा, अन्य जातियों में आर्यों-अनार्यों का जितना सम्मिश्रण हुआ उतना ब्राह्मणों में न हुआ होगा, अथवा यह भी सम्भव है कि वर्ण-संकर से होने वाली जातियों को ब्राह्मणों ने नीची जातियों में रख दिया होगा। इसके साथ यह भी मानना होगा कि महाराष्ट्र के भिन्न भागों में फैलने के पहले ब्राह्मण लोग एक स्थान में बहुत काल तक रहे होंगे। अन्यथा, महाराष्ट्र के भिन्न-भिन्न भागों में रहने वाले महाराष्ट्रियों के आचार-विचार में बहुत अधिक समानता होना सम्भव न होता। आगे चलकर हम बतलावेंगे कि महाराष्ट्र के दक्षिणी ब्राह्मणों में कुछ भेद-भाव हैं। तथापि समानता के प्रभाव में भिन्नता इतनी कम है कि किसी भी इति-हासज्ञ को यह मानना ही होगा कि वे दक्षिण आने पर बहुत काल तक एक स्थान में रहे और तदनन्तर महाराष्ट्र के भिन्न-भिन्न भागों में फैले। इसके साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हम जैसा आज समझते हैं कि सहाद्रि ने कोंकण के किनारे के

लांगों को 'देश' के लोगों से पूरा अलग कर दिया होगा, वह पूरी तरह ठीक नहीं है। दोनों ओर के लोगों में उस प्राचीन काल में यथेष्ट आवागमन रहा होगा। इतिहास से यह पता लगता है कि अर्वाचीन काल के हिन्दू और मुसलमान राजाओं ने भी 'कोंकण,' 'वाटमाथा' और 'देश' पर समान राज्य किया। इसलिए सहायि को जल-विभाजक के समान पूरा जन-विभाजक भी मानना ठीक न होगा।

इसके बाद दक्षिण के लोगों पर बौद्ध और जैन-धर्मों का खूब प्रभाव पड़ा। यह जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में मांसाहार जितना बर्ज्य है उतना हिन्दुस्थान के अन्य किसी भाग में नहीं है। महाराष्ट्रियों के आचार-विचार में अहिंसा, भूतदया, समता आदि का जितना परिमाण दीख पड़ता है उतना अन्य भागों में नहीं दीख पड़ता। वैसे तो बौद्धधर्म हिन्दुधाम के अन्य भागों के समान महाराष्ट्र से भी उठ गया। पर अन्य भागों के समान यहाँ भी उसका प्रभाव आचार-विचार में बना रहा और वह अन्य भागों से अधिक रहा। महाराष्ट्र में बौद्धधर्म का कितना प्रभाव पड़ा, यह यदि जानना हो तो वहाँ के बौद्ध अवशेषों का कुछ विचार कर लेना यथेष्ट होगा। कोंकण में कन्दरी, कुर, महाड़, पौल, कोल, साष्टी (सालसत्ती), हाथीगुम्हा, आदि स्थानों में और देश में कार्ले, वेङ्गसे, भाजे, इन्दुरी, सोस-वर्दी, अजन्तापर्वत आदि स्थानों में यथेष्ट अवशेष पड़े हैं। वे कला से एक से एक बढ़कर हैं और अजन्ता-पर्वत के अवशेषों का तो कुछ कहना ही नहीं है। उनसे यह साफ़ सादृश होता है कि



बौद्ध-प्रभाव के कारण लोगों ने और राजाओं ने इन-इन कामों पर खूब धन और श्रम खर्च किया था। तथापि कुछ लोगों का मत है कि इस धर्म ने ब्राह्मणों की अपेक्षा अन्य जातियों पर अपना प्रभाव अधिक डाला। बौद्ध-धर्म के इतिहास से यह बात ठीक भी जान पड़ती है। अन्य भागों में भी बौद्ध-धर्म में नीची जातियों के जितने लोग शरीक हुए उतने ऊँची जाति के, विशेषकर ब्राह्मण न हुए। तथापि यह कहना ठीक नहीं है कि बौद्ध-धर्म का महाराष्ट्र के लोगों पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। बौद्ध-धर्म के प्रभाव के कुछ उदाहरण हम ऊपर दे ही चुके हैं। यदि सब आर्य लोग प्रारम्भ में मांसाहारी थे, यदि गंगा की तराई की अपेक्षा महाराष्ट्र कम उपजाऊ है, तो सोचने की बात है कि महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों ने ही क्यों मांसाहार सदैव के लिए वर्ज्य कर दिया। हमें तो यह बौद्ध और जैन धर्मों का प्रभाव ही दीख पड़ता है। ऊपर हमने एक स्थान पर यह अनुमान किया है कि महाराष्ट्रीय ब्राह्मण दक्षिण में आने पर बहुत काल तक एक स्थान में रहे होंगे। हमारा यह भी अनुमान है कि बौद्ध-धर्म के प्रसार के बाद ही वे महाराष्ट्र में चारों ओर फैले। यही कारण है कि सारे महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों में मांसाहार एकसा वर्ज्य है।

आगे चलकर शक लोगों ने दक्षिण में आक्रमण किया। चहुँतों का मत है कि शक लोगों का रक्त महाराष्ट्र के निवासियों में बहुत अधिक है। शक लोगों का शरीर और शील जिस प्रकार का था, उसकी बहुत-कुछ छाया महाराष्ट्र-वासियों, में, विशेषकर मराठा-जाति के लोगों में, दीख पड़ती है। यह

मराठा-जाति उत्तर-हिन्दुस्थान के राजपूतों की बराबरी की ही है। कई लोग तो यह कहते हैं कि उत्तर-हिन्दुस्थान के अनेक राजपूत-वंश दक्षिण में आकर मराठा-जाति में शामिल हो गये। यह हम बतला ही चुके हैं कि शिवाजी इसी जाति का था और उसका सम्बन्ध उदयपुर के राजघराने से स्थापित हो चुका है।

इस प्रकार महाराष्ट्र के हिन्दू यहाँ के अनार्य, आर्य और शक लोगों के सम्मिश्रण से बने दीख पड़ते हैं और उनके आचार-विचार में तथा उनकी शारीरिक वनावट में भी इन सबका प्रभाव दीख पड़ता है।

आगे चलकर जब मुसलमानों का राज्य हिन्दुस्थान में स्थापित हुआ, तो उनका भी प्रभाव और जगह के हिन्दुओं के समान यहाँ के हिन्दुओं पर भी पड़ा। यह ठीक है कि उत्तर-हिन्दुस्थान के समान मुसलमानों की संख्या दक्षिण में न आई, इसलिए उत्तर-हिन्दुस्थान की अपेक्षा दक्षिण में हिन्दुओं के आचार-विचार पर उनका प्रभाव कम पड़ा; मगर उनका थोड़ा-बहुत प्रभाव पड़ा जरूर। मराठों के उदय-काल में उनमें से अनेक प्रकार के प्रभाव दीख पड़ते थे।

कुछ लोगों का मत इससे भिन्न भी है। श्री राजवाड़े कहते हैं कि उत्तर से दक्षिण में जो आर्य आये, उनमें ने बहुतेरे दक्षिण जाति के थे। हाँ, अपने धार्मिक कर्मों की राजदारे का भिन्न मत के लिए ये दक्षिण कुछ आकर भी

मराठों का उथान और पतन

समय नाग लोगों में क्षत्रिय, शूद्र और अतिशूद्र वर्ग-भेद थे। उत्तर से दक्षिण में आने के पहले ही ये वर्ग-भेद उनमें उत्पन्न हो चुके थे। नाग क्षत्रिय और आर्य लोगों के सम्मिश्रण से मराठा-जाति की उत्पत्ति हुई, और नाग शूद्र और आर्यों के मेल से आजकल की अनेक शूद्र जातियाँ पैदा हुईं। अतिशूद्र जाति के महारों की उस समय एक अलग जाति ही थी। इस प्रकार महाराष्ट्र की मराठे, कुनबी आदि जातियाँ उत्पन्न हुईं। महाराष्ट्र में आने पर आर्य क्षत्रियों ने खेती का धन्धा शुरू किया। श्री राजवाड़े के इस मत में थोड़ी-बहुत सत्यता भले ही हो, पर पहले बतलाया हुआ मत विलकुल असत्य नहीं है। यदि यह सत्य है कि शक लोगों ने दक्षिण में भी चढ़ाइयों की थीं, तो यह मानना ही होगा कि शक लोगों का रक्त महाराष्ट्र के लोगों में भी अवश्य है।

कोंकण में इन जातियों का सम्मिश्रण सम्भवतः थोड़ा-बहुत बहुत भिन्न ही रहा। कोंकण के उत्तरी भाग में आर्य लोगों की संख्या और दक्षिणी भाग में द्रविड़ लोगों की संख्या अधिक थी। आर्य लोग कोंकण में पूर्व की अपेक्षा शायद उत्तर से ही अधिक आये। कोंकण के किनारे पर ईरान, अरब आदि देशों के लोग भी आकर बसे। कदाचित् यहाँ पर अन्य लोगों से आर्यों का सम्मिश्रण बहुत अधिक न हुआ। मुसलमानों का प्रभाव तो यहाँ बहुत ही कम पड़ा। अब भी इस भाग में उनकी संख्या बहुत कम है। मुसलमानों का सम्मिश्रण होना तो सम्भव ही न था, क्योंकि तबतक सारी जातियाँ वन-चुकी थीं। धर्म तथा सभ्यता के भेद इतने अधिक थे कि दोनों का वैवाहिक सम्बन्ध किसी

प्रकार सम्भव न था। अतएव हिन्दुओं में मुसलमानों का रक्त न आ सका। हाँ, मुसलमानों में अदृश्य धर्म-परिवर्तन से हिन्दुओं का रक्त घुस गया। तथापि पास-पास रहने और राजकीय अवलम्बन से हिन्दुओं के आचार-विचार पर थोड़ा-बहुत प्रभाव अवश्य पड़ा। यह हम बता ही चुके हैं कि यह उत्तर की अनेक दक्षिण में सर्वैव कम रहा है।

हम ऊपर कह ही चुके हैं कि महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में आचार-विचार की समानता बहुत अधिक है, तथापि यह भी मानना ही होगा कि उनमें थोड़े-बहुत भेद-भाव महाराष्ट्र में 'कोंकणस्थ', 'दशस्थ' और कन्नड़

अदृश्य हैं। उनमें समानता होने से कारण

बहुधा गौरा होता है। कोंकण में मुख्य भोजन चावल है। अन्य पदार्थों में मसाले, नारियल, केले आदि ही मुख्य हैं। अतएव इनके भोजन में बहुधा यही चीजें रहती हैं। जिन लोगों को अपनी जीविका के लिए कठिन परिश्रम करना होता है उनमें उदारता, सहानुभूति आदि कोमल भाव बहुत कम देख पड़ते हैं। यही बात कोंकणस्थ लोगों की है। उदारता, सहानुभूति आदि की मात्रा बहुत कम रहती है। ये लोग अपने व्यवहार में अन्य लोगों से ही नहीं बल्कि अपने लड़के-बच्चों से भी काली सखती से पेश आते हैं। उपभोग की वस्तुयें थोड़ी होने के कारण इनका जीवन सादा एवं सुव्यवस्थित रहता है। इसी कारण ये मितव्ययी होते हैं। जीवन-कलह की कठिनाई के कारण ये शरीर से सब प्रकार के कष्ट सहने को तत्पर तथा बुद्धि से तेज होते हैं। अपने इन गुणों के कारण ये दूसरे ब्राह्मणों से अधिक मिलना नहीं चाहते। देशस्थ ब्राह्मणों की बातें कोंकणस्थ लोगों के बहुत कुछ विपरीत हैं। इनका देश कोंकण की अपेक्षा सदा से अधिक उपजाऊ रहा है। अतएव ये थोड़े-बहुत आलसी और मौजी जीव बन गये। आवहवा के कारण इनके रंग में श्यामता अधिक है। उपजाऊ भाग में होने के कारण इनमें उदारता, सहानुभूति आदि कोमल भावों की मात्रा अधिक देख पड़ती है। श्रम कम करने के कारण इनका शरीर कोंकणस्थों के समान सशक्त और गठीला नहीं होता। सुखी होने के कारण आलस्य और आलस्य से अव्यवस्था देख पड़ती है। क हाड़ के लोग यानी 'क-हाड़े सह्याद्रि के पूर्व की ओर पहाड़ी भाग रहते थे। इसलिए इन लोगों में कोंकणस्थ और देशस्थ दोनों के गुण-दोषों का सम्मिश्रण देख पड़ता है। उस

प्राचीन काल में आवागमन के साधन बहुत कम होने के कारण इन लोगों में बेटे-व्यवहार बन्द हो गया, परन्तु रोटी-व्यवहार जारी रहा। उत्तर-हिन्दुस्थान की तुलना में दक्षिण के ब्राह्मणों की यह विशेषता रही कि उन्होंने अपना परस्पर रोटी-व्यवहार कभी बन्द नहीं किया। दूरी के कारण बेटे-व्यवहार बहुत-कुछ बन्द हो गया। बहुत-कुछ कहने का कारण यह है कि उनमें कभी-कभी पहले से ही बेटे-व्यवहार होते रहे। महागाष्ट्र के इतिहास में इसके कई प्रसिद्ध उदाहरण हैं। उत्तर-हिन्दुस्थान में तो ब्राह्मण लोग परस्पर बेटे-व्यवहार करना जातिव्यवस्था के विरुद्ध ही समझते हैं। वहाँ पर ब्राह्मणों में भी ऊँची-नीची श्रेणियाँ बन गई हैं। ऊँची श्रेणी वाला ब्राह्मण अपनी लड़की नीची श्रेणी के किसी वंश में नहीं देगा। यदि वह ऐसा करे तो जाति से पतित समझा जाता है। ये बातें दक्षिण के कोंकणस्थ, देशस्थ और कन्नड़ ब्राह्मणों को लागू नहीं होती। इनमें परस्पर बेटे-व्यवहार होने से कोई अपने को अपनी श्रेणी से पतित नहीं समझता। कोंकणस्थ लोग अवश्य अपने को कुछ ऊँचे दर्जे के समझते हैं। परन्तु उनकी इस भावना में सुव्यवस्थित जीवन का अहंभाव ही विशेष है, सामान्य जातिमूलक भाव नहीं है। थोड़े-बहुत अंश में यही बात करोड़ों में देख पड़ती है। इनका नाम तो महागाष्ट्रीय इतिहास में विशेष नहीं आता, पर कोंकणस्थ और देशस्थों का

## मराठों का उत्थान और पतन

कोंकणस्थ का खासा भ्लाड़ा खड़ा हो गया था और उसका राष्ट्रीय घटनाओं पर भी थोड़ा-बहुत परिणाम हुआ। महाराष्ट्र-तराँ को देशस्थ-कोंकणस्थ का स्वरूप समझने के लिए इनका एक प्रकार का वर्ग-भेद और बँतलाना आवश्यक है। इनमें से प्रत्येक में चार उपभेद और होते हैं। उनके नाम ये हैं—ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, आपस्तम्भ और माध्यम दिन। वेदी-व्यवहार के बहुत-से निर्वन्ध इस वर्ग-भेद के कारण हो गये हैं। उदाहरणार्थ, ऋग्वेदी और यजुर्वेदी में बहुधा सम्बन्ध नहीं होते; परन्तु वेदी-व्यवहार का कोई निर्वन्ध इनमें नहीं है।

उपर्युक्त प्रकार के वर्ग-भेद पैदा होने पर और धीरे-धीरे उनकी मनुष्य-संख्या बढ़ने के कारण इन वर्ग-भेदों के निर्वन्ध कड़े होते गये और महाराष्ट्र के लोगों में भी अर्वाचीन काल में धन्धों में फेर-बदल जातियाँ, उपजातियाँ और श्रेणियाँ पैदा हुईं। मनुष्य-स्वभाव के कारण थोड़ा-बहुत वर्ण-संकर और जाति-संकर होता ही रहा। जिससे जाति-भेदों की संख्या बढ़ती ही रही। पहले-पहल तो वर्ण-व्यवस्था अच्छी तरह से अमल में थी और विलकुल प्राचीन काल में लोगों के धन्धे उसीके अनुसार नियत होते थे। परन्तु ऊँचे दर्जे के लोगों के धन्धे जब अच्छी तरह न चल सके, तो उन्होंने भी थोड़े-बहुत धन्धे नीचे दर्जे के अपना लिये। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भी धीरे-धीरे, नौकरी, खेती आदि का काम करने लगे। जब दक्षिण में मुसलमानों के आक्रमण हुए, उस समय सिद्धान्त में वर्ण-व्यवस्था शून्य बनी थी, पर व्यवहार में उन्होंने अपने धन्धे बहुत कुछ बदल





बहुत यह है कि लोगों ने जाति-पाँति के भेदभावों को भूलकर सिपाहीगिरी करना शुरू किया। लोग चार महीने तो खेती करते थे, पर दशहरे के मुहूर्त पर मुल्कगिरी करने यानी मुगल-राज्य में लूटमार कर जीविका कमाने को निकल पड़ते थे; और इस प्रकार आठ महीने घर के बाहर बिताया करते थे। इससे धीरे-धीरे महाराष्ट्रीय लोगों में सिपाहीगिरी ही धन्धा हो गया और जाति के भेदभाव पहले जैसे अधिक और कड़े न रहे। इस धन्धे के कारण उनमें एक प्रकार का राष्ट्रीय भाव पैदा हो गया। पेशवों के समय में यद्यपि अन्य कारणों से कई अनेक भेद उत्पन्न हो गये थे, तथापि सिपाहीगिरी के कारण उनमें एक प्रकार की एकता की भावना भी थी। मराठों को लड़ाकू जाति के बनाने का श्रेय शिवाजी को ही है। अब महाराष्ट्रीय लोगों का उद्देश्य पहले के जातिमूलक धन्धों को ही करने का न रहा परन्तु सिपाही का काम सीखना, लड़ाई लड़ना, देश जीतना और राज्य करना हो गया। वर्ण-व्यवस्था के शब्द का उपयोग करके हम सारांश में यह कह सकते हैं कि शिवाजी की व्यवस्था ने मराठों को क्षत्रिय बना दिया और पहले के जाति-भेद बहुत शिथिल कर दिये।

जिस एकता की भावना का हमने ऊपर उल्लेख किया है, वह पेशवों के समय में बढ़ती ही गई। धीरे-धीरे इस भावना ने हिन्दुत्व का स्वरूप धारण किया और पानीपत की लड़ाई के समय हिन्दू-पादशाही की कल्पना मराठों ने अमल में की सोची। यदि मराठे इस लड़ाई में विजयी हो जाते, तो

पानीपत की लड़ाई का सामाजिक परिणाम



और राज्य सन्हालना हो गया था। इस बात को देखते हुए एक दृष्टि से आश्चर्य है कि मराठों ने उस समय किसी राजकीय सिद्धान्त का प्रचार क्यों न किया ! परन्तु जब हम उनके जीवन की ओर ध्यान देते हैं, तो हमारा आश्चर्य दूर हो जाता है। जिन लोगों का जीवन सदैव लड़ाई लड़ते बीता, वे क्यौंकर किसी नये सिद्धान्त की उत्पत्ति कर सकते थे ? तथापि व्यवहार में उन्होंने कुछ नई बातों पर अवश्य अमल किया। इस समय धार्मिक बन्धनों का जोर काफी कम हो गया था। उदयगीर गोसाईं ने जब मराठों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की, तो उसकी गोसाईं-जाति की ओर ध्यान न देकर महादजी शिन्दे ने उसे दराड देने का निश्चय कर लिया था। इसी प्रकार उसने निजाम से लड़ाई लड़ने के लिए पूना-इरवार को कहा। उसने साफ कहा है कि यदि हम धर्म और नीति की ओर बहुत अधिक ध्यान देंगे तो राज्य के हित में बाधा पहुँचेगी। इस एक वाक्य से ही यह स्पष्ट है कि मराठे लोग पेशवों के समय शुद्ध नीति की अपेक्षा व्यावहारिक नीति की ओर अधिक ध्यान देने लगे थे।

एक और बात में भी शुद्ध नीति के विचार का अभाव दीख पड़ता है। यह स्पष्ट है कि कोई भी राज्य जनता की भक्ति के आधार पर ही अधिक दिनों तक चल सकता है। पर महाराष्ट्र जनता में शुद्ध राजभक्ति कभी न उत्पन्न होने पाई। इसका मतलब यह नहीं कि मराठे लोग राजभक्त थे ही नहीं। वे राजभक्त थे और यथेष्ट थे। पर उनकी राजभक्ति व्यक्तिमूलक थी, संस्थामूलक नहीं। यह

तो मनुष्य-स्वभाव ही है कि वह अमूर्त संस्था की अपेक्षा मूर्त व्यक्ति की पूजा अधिक करता है। इसलिए कोई आश्रय नहीं कि मराठे लोग भी उसी नियम के अनुयायी थे। परन्तु व्यक्ति का महत्व हिन्दुस्थान के अन्य भागों के समान बहुत अधिक बढ़ गया था। शिवाजी के बाद मम्भाजी राजा हुआ, पर वह पिता के समान योग्य न निकला। तभी से लोगों की भक्ति-भावना में भेद उत्पन्न हो गये थे। राजागम ने यदि जीतें हुए भागों की सरदारी का लोभ मराठों को न दिखलाया होता, तो उन्होंने औरंगजेब का उतने ज़ोरों से सामना किया होता या नहीं, इसमें भी कुछ शंका ही है। शाहू के समय तो राजभक्ति में भेद स्पष्ट हो गया। कोल्हापुर के राज्य की स्थापना और मराठों का निजामुल-मुल्क से मिलना इस बात का खासा सबूत है। शाहू के बाद राजा का पद नाम-मात्र का रह गया और पेशवे ही पदाधिकारी हो गये। इस समय कुछ लोग नानारा के राजा की ओर, तो कुछ पेशवा के प्रति भक्ति-भाव रखते थे। शाहू की मृत्यु के बाद एक राजभक्ति के सूत्र में पक्षी तरह से बँधने का अवसर मराठों को कभी भी प्राप्त न हुआ। पुराने सरदार पेशवों को सदैव अपनी सरदारी के समझते रहे। केवल नये सरदारों ने पेशवों के प्रति कुछ काल तक भक्ति दिखालाई; पर जब यह भक्ति उनके हार्थ में बाधक होने लगी, तो उन्होंने भी उसे ताक से रख दिया। सरांस यह है कि मराठों ने शूद्र राजभक्ति की भावना कभी न दिखाई। वह सदैव व्यक्तिमूलक रही। जबतक पदाधिकारी व्यक्ति मानव-मान्यता होता तबतक वे थोड़ी-बहुत राजभक्ति दिखावते रहते, परन्तु उनके कमजोर होते ही अपनी राजभक्ति शिथिल हो जाती थी।

यह शक्य हो सकती है कि मराठा-समाज उस समय बहुत अधिक अधोगति को पहुँच गया था और कदाचित् इसी कारण

सामान्य समाज की स्थिति

उसका पतन भी हुआ। पर इस शंका के लिए विशेष आधार नहीं है। महाराष्ट्र की सामान्य जनता राजकीय बातों


में विशेष भाग न लेती थी। मराठों को जिस कारण पराधीनता के बन्धनों में पड़ना पड़ा, उसके लिए सामान्य जनता नहीं किंतु मराठा सरकार ही जिम्मेदार है। मराठों की हार वास्तव में मराठा-सरकार की हार थी, सामान्य जनताकी नहीं। तथापि अठारहवीं सदी के अन्तिम काल में सैनिक की हैसियत से मराठे कुछ हलके दर्जे के अवश्य हो गये थे। विदेशियों को तोपों ने, कवायदी सेना ने और उनकी गहरी राजनीति ने मराठों को पहले जैसा कार्यशील न रहने दिया। इसका यह मतलब नहीं कि मराठे अवनत हो चुके थे। हाँ, इतना मानना ही होगा कि वे भरपूर उन्नतिशील न थे। उन्नतिशीलता का अभाव बहुत पहले से ही चला आ रहा था; मराठा-सरकार ने उसे जारी रखने में और सहायता की। यदि वह चाहती तो लोगों को कुछ ऊँचा उठा सकती थी, परन्तु अज्ञान के कारण उससे यह न हो सका।

प्राचीन भारतवर्ष में तथा महाराष्ट्र में ग्राम ही सारी व्यवस्था की अन्तिम कड़ी थी। इसलिए सामाजिक-व्यवस्था को समझने के लिए ग्राम-व्यवस्था का वर्णन जानना

ग्राम के व्यवसाय

आवश्यक है। इस ग्राम-व्यवस्था की कई

बातें हम पहले बतला चुके हैं कि महाराष्ट्र के लोगों का मुख्य धन्धा खेती ही था, परन्तु इसके सिवाय कई अन्य धन्धे वहाँ



और पहले में भी कुछ कम अतिशयोक्ति नहीं है। उनकी संख्या सम्भवतः १० सैकड़ रही होगी। फिर यह भी स्मरण रखना चाहिए कि बरसात के दिनों में सिपाही लोग भी खेती का धन्धा किया करते थे।

राजकीय बातों पर धर्म का जो कुछ प्रभाव पहले-पहल पड़ा, उसका वर्णन हम कर ही चुके हैं। अब हमें केवल यही देखना है कि अठारहवीं सदी में धर्म का धर्म और व्यवहार समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। धर्म

शब्द का अर्थ हिन्दुस्थान में बहुत ही व्यापक है। कभी-कभी तो इस शब्द के अर्थ में प्रत्येक ऐहिक और पारलौकिक बात शामिल हो जाती है। हिन्दुस्थान में धर्म की कल्पना ही ऐसी है कि उसका थोड़ा-बहुत प्रभाव छोटे-बड़े सब पर पड़े बिना नहीं रहता। तथापि अठारहवीं सदी की ओर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आजकल के समान उस समय भी ऐहिक आचार से धर्म का वियोग हो गया था। लोग व्यक्तिगत दृष्टि से धार्मिक कार्य और आचरण करते थे; परन्तु जिस समय सामाजिक व्यवहार के प्रश्न उपस्थित होने, उस समय धर्म को एक ओर छोड़ कर व्यावहारिक नीति के अनुसार अपना आचरण किया करते थे। कई मराठे सरदार अपने ही देशभाइयों के विरुद्ध निजाम के साथ शामिल हुए थे। मुसलमानों से उन्होंने अपने आदमियों के विरुद्ध सहायता ली थी और इसी प्रकार के अन्य कई काम किये थे। शुद्ध धर्म की दृष्टि से उनके इन कार्यों की भीमांसा नहीं हो सकती। सारांश यह है कि उस समय के मराठों के कार्यों का आधार धर्म न होकर व्यावहारिक नीति था। तथापि यह मानना





मराठों का उदयान और पतन

जाति का महत्व ही पहले-जैसा रह गया था। प्राण-दण्ड आवश्यकता पड़ने पर ब्राह्मणों को भी मिलता था।

यह हम अन्यत्र बतला चुके हैं कि धार्मिक भगड़े जब कभी उठते तो उनका तसकिया पेशवा या उसके मातहत अधिकारी किया करते थे। इस प्रकार धार्मिक भगड़े निपटाने का भार अपने ऊपर लेकर पेशवों ने उस समय के समाज को कई हानियाँ पहुँचाईं। एक तो उनके हस्तक्षेप के कारण समाज की प्रगति बहुत-कुछ रुक गई। कोई भी सरकार निर्णय करते समय प्रचलित रीति का ही उपयोग कर सकती है। यही पेशवों ने भी किया। उनके निर्णयों से स्थिरता तो बढ़ी, पर प्रगति रुक गई। दूसरा बड़ा परिणाम यह हुआ कि उनके हस्तक्षेप के कारण लोक-सत धीरे-धीरे उनके विरुद्ध बन गया। जात-पाँत के भगड़ों में पड़ने में किसी भी सरकार का भला नहीं हो सकता; क्योंकि ऐसी हालत में दो में से एक पक्ष सदैव उससे असन्तुष्ट बना रहेगा। और यदि सरकारी अधिकारी जात-पाँत के बन्धन से बंधे रहे तो उनकी प्रवृत्तियों और पूर्व-ग्रहों का परिणाम उनके निर्णीत कार्यों पर हुए बिना नहीं रहता। यही बात पेशवों के समय में भी हुई। कई निर्णयों से यह देख पड़ता है कि ब्राह्मणोत्तर जातियों को दबाये रखने की ओर ही उनकी प्रवृत्ति रही। यह हम मानते हैं कि यह प्रवृत्ति नेताओं में स्वाभाविक है, परन्तु यह भी मानना होगा कि उनके बुरे परिणाम भी उतने ही स्वाभाविक हैं।

अब हम मराठों के ऐहिक जीवन का कुछ वर्णन करेंगे। जात-पाँत के बन्धनों का परिणाम सामाजिक जीवन में ही नहीं



मराठों का उत्थान और पतन

रख लेते थे। सतीत्व का उल्लंघन करने पर स्त्रियों को उनके पति या अन्य रिश्तेदार कभी-कभी दासी के वतौर बेच डालते थे। ऐसी दासियों को, अथवा अनाथ दासियों को, सरकारी कारखानों में बहुत-सा काम दिया जाता था।

महाराष्ट्र-समाज में अपराधी बहुत कम होते थे। एलफिंस्टन तथा अन्य विदेशियों ने यह बात लिखी है। जो कुछ अपराध होते थे, उनमें से बहुतेरे सिपाहीगिरी तथा खेती के धन्ये से सम्बन्ध रखते थे। अपने देश के लिए वे सदा खून वहाने को तैयार रहते थे। इसी कारण बहुत-से खून आदि के भगड़े हुआ करते थे। राजपूतों के समान मराठों में भी मानापमान की भावना बहुत अधिक थी। इस कारण भी कुछ कम भगड़े न होते थे।

हिन्दुस्थान के अन्य भागों की अपेक्षा महाराष्ट्र-समाज में स्त्रियों का दर्जा सदा से बहुत ऊँचा रहा है। हिन्दुओं की स्मृतियों में स्त्रियों को जो स्थान दिया गया है, महाराष्ट्र-समाज में स्त्री वस्तुतः वह महाराष्ट्र में ही दीख पड़ता है। इसका यह मतलब नहीं कि महाराष्ट्रियों में स्त्रियाँ पुरुषों से किसी भी प्रकार का परदा नहीं करती थीं; हाँ, वह उत्तर-हिन्दुस्थान की तरह इतना अधिक नहीं है कि पुरुष का चेहरा देखते ही स्त्री अपवित्र हो जाय। अतएव कोई आश्चर्य नहीं कि महाराष्ट्र में स्त्रियाँ भी अप्रत्यक्ष ही नहीं बल्कि प्रत्यक्ष भी राजकीय सूत्र-संचालन करती थीं। इसीलिए हमें आज जीजाबाई, सौयराबाई, येसूबाई, ताराबाई, अहिल्याबाई, गोपिकाबाई,

आनन्दीबाई आदि महत्वपूर्ण स्त्रियों के नाम इतिहास में पढ़ने को मिलते हैं। कई स्त्रियों ने तो सेना-संचालन का भी काम किया था। हम पहले बतला हो चुके हैं कि शिवाजी को रायबागिन नामक एक वीर स्त्री से लड़ना पड़ा था। आगे चलकर द्वितीय बाजीराव के सेनापति वापू गोखले को इसी प्रकार एक ताई तेलिन से नामना करना पड़ा था। महाराष्ट्र के पराधीन होने पर भी भोंसी की महारानी लक्ष्मीबाई का उदय हो सका, यह बहुत शुद्ध सामाजिक व्यवस्था का ही परिणाम है। यह एक प्रश्न है कि स्त्रियाँ उस समय पढ़ी-लिखी होती थीं या नहीं? कई स्त्रियों के नाम की लिखी हुई अनेकों चिट्ठियाँ उपलब्ध हुई हैं। परन्तु इससे यह अनुमान नहीं निकलता कि वे सब पढ़ी-लिखी ही थीं। कारकून यानी मुंशी रखने की प्रथा उस समय थी और सम्भवतः स्त्रियों के नाम की बहुत-सी चिट्ठियाँ उन्हीं ने ही लिखी हैं। तथापि बड़े-बड़े घरानों की स्त्रियाँ सम्भवतः पढ़ी-लिखी अवश्य होती थीं। आनन्दीबाई ने 'ध' के स्थान में जो "मा" किया, उसीसे यह बात स्पष्ट होती है।

मराठों के त्यौहारों का कुछ वर्णन करना अप्रासंगिक न होगा। वैसे तो हिन्दुओं के बहुतेरे त्यौहार सारे भारतवर्ष में सर्व-सामान्य ही हैं, पर कुछ त्यौहार ऐसे हैं, जो महाराष्ट्र में खास रीति से मनाये जाते हैं। दसहरा इसी प्रकार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार यहाँ विशेष रीति से मनाया जाता है। हम पहले बतला ही चुके हैं कि मराठे लोग शिवाजी के समय से आठ महीने छुटमार किया करते थे। इस कार्य के लिए वे दसहरे के मुहूर्त्त पर निक-

लते थे। इसलिए दसहरे के साथ सैनिक विजय की भावना सारे महाराष्ट्र में सम्मिलित हो गई; और तबसे अबतक वह किसी न किसी रूप में बनी हुई है। दसहरे के दिन गाँव या नगर का मुखिया अपने मातहतों और दूसरे लोगों के साथ 'सीमोल्लंघन' के लिए निकलता था। इसके बाद वे शहर के बाहर डेरे डालकर रहते थे। दसहरे के दिन एक दूसरे से भेंट करने की और भेंट में बहुमूल्य चाँदों देने की प्रथा तभीसे चल निकली है। आजकल महाराष्ट्र में 'सोनपान' देने की जो प्रथा है, वह इसीका विकृत स्वरूप है। उस काल में दसहरे के अवसर पर मुसलमान और अंग्रेज भी 'भेंट' दिया करते थे। एक दूसरा त्यौहार तिल-संक्रान्ति भी महाराष्ट्र में विशेष रीति से मनाया जाता है। उत्तर-हिन्दुस्थान में तो तिल-संक्रान्ति के दिन नदी-स्नान करने की प्रथा है, पर महाराष्ट्र में संक्रान्ति के पहले दिन पिसे हुए तिल लगाकर अभ्यंग-स्नान करने की रीति है। तिल-संक्रान्ति के दिन तिल के लड्डू वाँटने की प्रथा है। जिस समय हिन्दुस्थान में शक्कर बहुत कम बनती थी, उस समय गुड़ के साथ तिल के लड्डू बनाये जाते थे। इसीलिए उसका नाम 'तिल-गुल' (तिल-गुड़) तबसे अबतक चला आ रहा है। परन्तु आजकल शक्कर की अधिकता के कारण इस 'तिल-गुल' के कई नये संस्कृत-स्वरूप पैदा हो गये हैं। गणेशोत्सव की प्रथा भी महाराष्ट्र में कुछ विशेष स्थान रखती है। यह पेशवों के समय से विशेष प्रसिद्ध हुई है, क्योंकि पेशवे गणेश-पूजक थे। प्रथम माधवराव तो गणेश का अनन्य उपासक था। यही गणेशोत्सव अब कुछ नये ढंग से सारे महाराष्ट्र में गणेश-चतुर्थी से मनाया

जाता है। दीवाली के उत्सव में भी महाराष्ट्र में कुछ विशेषता देख पड़ती है। जैसे तो लक्ष्मी-पूजन आदि धार्मिक कार्य भारतवर्ष के अनेक भागों में आम तौर पर प्रचलित हैं, पर अमावस्या के बाद प्रतिपदा और द्वितीया को महाराष्ट्र में जो विशेष कार्य होते हैं वे अन्यत्र बहुत कम देख पड़ते हैं। प्रतिपदा के दिन लड़की अपने पिता की आरती उतारती है और पिता लड़की को कुछ भेंट देता है। इसी प्रकार भाईदोज के दिन वहन अपने भाई की आरती उतारती है और वह उसको कुछ भेंट देता है। ये प्रथायें महाराष्ट्र में बहुत काल से चली आ रही हैं। देवताओं के उत्सवों में हनुमज्जयंती का महत्व हिन्दुस्थान के अन्य भागों की अपेक्षा कुछ विशेष है। हनुमान को महाराष्ट्र में बल-देवता का स्वरूप प्राप्त है। सम्भवतः १७ वीं सदी के मध्य में रामदास ग्यासी ने इस देवता के उत्सव को विशेष स्वरूप दिया। तबसे महाराष्ट्र में ऐसे बहुत ही कम गाँव होंगे कि जहाँ हनुमान की स्थापना कहीं न कहीं न हुई हो और जहाँ लड़के और जवान आदमी वररत व कुश्ती से अपनी शारीरिक उन्नति करने में न लगे हों।

एसीके साथ महाराष्ट्र के खेल-कूदों और कसरतों का विचार करना भी उचित ही है। ब्राह्मण लोग बहुधा 'नमस्कार' किया करते थे और मराठे लोग दण्ड लगाया करते थे। कुश्ती की प्रथा भी महाराष्ट्र में भली-भाँति प्रचलित थी। मुद्गल फेरने की प्रथा तो थी ही, पर 'मलखम' पर खेलने की प्रथा महाराष्ट्र की कुछ विशेषता ही है। इसी प्रकार खोखो और आठ्या-पाठ्या के खेल महाराष्ट्र में ही विशेष प्रचलित रहे हैं। इन खेलों से चपलता, चालाकी आदि

गुण विशेष विकसित होते हैं। आठ्या-पाठ्या के खेल में तो सैनिक व्यूह-रचना के सबक मिलते हैं। फरी-गदगा, लाठी बोथाटी आदि खेल स्पष्ट ही सैनिक भावों के उत्तेजक हैं। तलवार के अलावा पटा फेरने की प्रथा भी महाराष्ट्र में विशेष प्रचलित रही है। जो महाराष्ट्रीय सैनिक जीवन में अपना बहुत-सा काल बिताया करते थे, उनके खेल-कूद सैनिक भावों के परिपोषक हों, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। कभी-कभी तो पास-पास के दो गाँवों के लोग झूठ-मूठ लड़ाई भी लड़ लिया करते थे। घरू खेलों में शतरंज, चौपड़ और गंजफा विशेष प्रचलित रहे हैं। पहले दो तो हिन्दु-स्थान के अन्य भागों में भी प्रचलित हैं, पर गंजफा का खेल महाराष्ट्रेतर भागों में प्रचलित नहीं है। यह आजकल के ताश के समान होता था, पर इसके पत्ते गोल रहते थे और इसमें के चित्रों में दशावतारों के चित्र विशेष रहते थे। इसी कारण कभी-कभी इसे दशावतारी भी कहते हैं।

मनोरंजन के साधनों में पुराण-श्रवण, ललित-कीर्तन आदि मुख्य थे। पुराण-श्रवण की प्रथा सम्भवतः साधु-सन्तों के उदय-काल से महाराष्ट्र में प्रचलित हुई। मनोरंजन के साधन महाराष्ट्र में परदे की प्रथा विशेष कड़ी न होने के कारण स्त्री और पुरुष उसमें एक-सा भाग लेते रहे हैं। इससे अवकाश के समय का सदुपयोग होता, मनोरंजन होता, तथा ऐहिक और पारलौकिक उपदेश भी मिलता था। महाराष्ट्र में जिस ढंग से कीर्तन होता है, वह भी महाराष्ट्र की कुछ विशेषता ही है। यह भी साधु-सन्तों के उदय-काल से ही महाराष्ट्र में प्रचलित हुआ है। पुराण-श्रवण से होने

## मराठों की सामाजिक द्यवस्था•

चाले सारे लाभ इससे भी होते आये हैं। 'ललित' नाटक का बहुत प्राथमिक स्वरूप देख पड़ता है। इसमें भी धार्मिक भावों की पूर्ति के साथ-साथ मनोरञ्जन की मात्रा भी रहती थी।

---





## कला-कौशल्य और साहित्य

महाराष्ट्रियों ने दिग्विजय की ओर जितना ध्यान दिया, उतना कला की उन्नति पर नहीं। कारण स्पष्ट है। जिनका अधिकांश

कला-कौशल्य

जीवन युद्ध करते ही बीता, शान्ति बहुत ही कम प्राप्त हुई, और जहाँ पूर्व-काल से

सादगी बनी रही, वहाँ उत्तर-हिन्दुस्थान की मुसलमानी इमारतों जैसी शानदार इमारतें न बन सकीं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं।

मगर इसका यह भी मतलब नहीं कि महाराष्ट्रियों ने कला का प्रकाश बिलकुल देखा ही नहीं। अलवत्ता, इतना अवश्य मानना

होगा कि, सरकारी ढंग से कला की चीजें बहुत कम बनीं; जो कुछ बनीं, वे लोगों के व्यक्तिगत प्रयत्न का ही फल था।

कला की चीजों में मन्दिरों की गणना पहले होनी चाहिए।

सरदारों, साहूकारों और अधिकारियों ने महाराष्ट्र के बहुतेरे मंदिर बनवाये। वाई में रास्तों ने, मीरज और

वास्तुकला

साँगली में पटवर्धनों ने, चन्द्रचूड़ में

नारोशंकर ने, नासिक में ओढेकर ने, कई स्थानों में नाना फड़न-

श्रीम ने और प्रसिद्ध अहिल्यावाड़ी ने लगभग सब बड़े-बड़े स्थानों में मन्दिर बनवाये हैं। व्यक्तिगत दृष्टि से पेशवों ने भी कई स्थानों में मन्दिर बनवाये। आवागमन की सुविधा के लिए नदियों पर पुल, धार्मिक और गैहिक कार्यों की सुविधा के लिए नदी-किनारों पर घाट, पानी की कमी दूर करने के लिए तालाब, आवपाशी आदि के लिए नदियों में बाँध, व्यापार की मरिडियों और तीर्थ-स्थानों तक सड़कों, राहगीरों के लिए धर्मशालायें और सरायें भी महाराष्ट्र में बनाई गई थीं। परन्तु इनके बनाने में भी बहुधा व्यक्तियों का ही हाथ था। इसका एक परिणाम यह हुआ कि इन मद राज्यों में बहुत अधिक विविधता दीख पड़ती है। इनके निर्माण में मितव्ययता में बहुत अधिक काम लिया जाता था। तथापि इनमें यह भी सिद्ध होता है कि मराठों में कला-कौशल्य के भाव थोड़े-बहुत अवश्य थे। हाँ, दिखाने की अपेक्षा उपयोगिता की ओर महाराष्ट्रियों का विशेष ध्यान रहता था। इस दृष्टि से मन्दिरों का भी उपयोग होता था। मन्दिर बहुधा ऐसे स्थानों में ही बनाये जाते, जहाँ पानी का अच्छा खासा प्रदन्व रहता और पूजा-आर्चा की सामग्री मिलती थी। मन्दिर में बहुधा कुछ कमरे पात्रियों के ठहरने के लिए बनाये जाते थे और उनके भोजनादि की पूर्ति भी वहाँ होती थी। पवित्र स्थान होने के कारण वह पार-सुन्दरों से मुक्त रहता था। वहीं पर गाँव के सामाजिक और धार्मिक कार्य सम्पन्न होते थे।

एतद् प्रार्थन काल के मन्दिर तो बेदल पत्थरों के बने रहते थे। बहुधा एक पर एकपत्थर रख कर उन्हें बनाते थे, इसलिए



शर्मा न थे, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि महाराष्ट्र में भी उनका पता न था। महाराष्ट्र-निवासी सदा से श्रृंगार की वस्तुयें प्राप्त करने के लिए राजमहल-जैसी कोई इमारत उन्होंने कभी न बनवाई। शोक्र की बातें उनके घरों में बहुत कम दीख पड़ती थीं, इसलिए उस समय के नक्शाशी के कामवाले घर महाराष्ट्र में इने-गिने ही दीख पड़ते हैं। जहाँ श्रृंगार की भावना बहुत कम थी, वहाँ श्रृंगार के नमूने देखने को कहाँ से मिलें ? मन्दिरों के श्रृंगार में ही उनकी यह भावना समाप्त हो जाती थी। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि शिवाजी, शाहू, महादर्जा शिन्दे, लुकाराम आदि की छत्रियाँ बहुत श्राद्धवती हैं। मृत-महापुरुषों की यादगार में बड़ी-बड़ी छत्रियाँ या मक़बरों बनाने की अपेक्षा लोग बहुधा मन्दिर ही बनवाया करते थे और कभी-कभी मन्दिर के नाम के साथ अपना नाम भी किसी प्रकार जोड़ देते थे। मन्दिरों में जिन मूर्तियों की स्थापना होती, उनमें से बहुतेरी महाराष्ट्र के बाहर से आती थीं। इतिहास ने पता चलता है कि उनमें भी कई गरडकी के पत्थर से बनी होती थीं।

महाराष्ट्रियों ने जल-प्रदब्ध भी भली-भाँति किया था। बहुधा गाँवों-गाँवों तो जलाशयों के पास ही बसते थे, पर आजकल के समान उस समय भी बड़े-बड़े शहरों में पानी का विशेष प्रदब्ध करना पड़ता था। आजकल के समान, पत्ता आदि में इस प्रदब्ध के जो अवशेष देख पड़ते हैं, वे सब इस प्रदब्ध की कुछ कल्पना हो सकती हैं। आजकल के समान ही समय घर-घर नल न थे, परन्तु स्थान-स्थान पर हौज

३२-३३

होगा कि महाराष्ट्र में कला ने बहुत कम उन्नति की। इसके कुछ कारण हम प्रारम्भ में बता ही चुके हैं। कारीगरों का अभाव कारीगरों की कमी के कारण भी कला की उन्नति महाराष्ट्र में बहुत कम हो सकी। नाना फड़नवीस जैसे एकाध पुरुष ने बाहर से भोजराज जैसे कारीगर को लाने का प्रयत्न किया था, पर अच्छे कारीगर सदैव कम होने के कारण उसके ये प्रयत्न सफल न हुए। उसने भिन्न-भिन्न स्थानों से अच्छे-अच्छे चित्र प्राप्त करने का प्रयत्न किया था, पर वह बहुत देरी से हुआ। इस समय उत्तर-हिन्दुस्थान में भी कला अवनत दशा पर पहुँच गई थी। एक ने स्पष्ट लिखा है कि अब दिल्ली का केवल नाम ही रह गया है, अच्छे कारीगर कहीं देखने को भी नहीं मिलते। यही बात एक दूसरे ने आगरा के सम्बन्ध में कही है। महादजी शिन्दे ने नाना फड़नवीस के लिए बहुत प्रयत्न के बाद जयपुर से सचित्र-भारतवर्ष की एक प्रति प्राप्त की। फिर नाना फड़नवीस ने वेल्स नामक एक विदेशी कलाविद् से उसकी नकल करने को कहा। महादजी शिन्दे भी चित्रों का शौकीन था। उसने भी वेल्स से अपना चित्र बनवाया था। जो भी हो, पर इससे यह बात अवश्य सिद्ध होती है कि महाराष्ट्र में कारीगरों की बहुत कमी थी। कहीं-कहीं घरों में दीवारों पर कुछ सादे चित्र बनाने की प्रथा अवश्य थी, पर उनमें कला बहुत कम देख पड़ती है।

अब हम मराठी-भाषा और साहित्य के इतिहास का वर्णन करेंगे।

हिन्दुस्थान में आजकल जो अनेक भाषायें प्रचलित हैं, उनमें

मराठी भाषा बड़ी महत्त्वपूर्ण है। यद्यपि उसके बोलनेवालों की संख्या हिन्दी या बंगला बोलनेवालों के मराठी-भाषा की उत्पत्ति बराबर नहीं है, तथापि साहित्य और भाष्य की दृष्टि में बंगला के बाद बड़ी अपना स्थान रखती है। हिन्दुस्थान की अन्य भाषायें जिस प्रकार उत्पन्न हुई, उसी प्रकार मराठी भी हुई। आजकल की देशी भाषाओं की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो मत प्रचलित हैं, वे मराठी-भाषा पर भी लागू होते हैं। एक पक्ष का कहना है कि आर्य लोग जब हिन्दुस्थान में आये तब वे संस्कृत बोलते थे, परन्तु यहाँ बहुत समय तक रहने पर उनकी भाषा से यहाँ के मूलनिवासियों की भाषा का मिश्रण होने लगा। स्थान-विशेष के अनुसार मिश्रण होने के कारण ये अपभ्रंश भाषायें 'शौरसेनी', 'मागधी', 'पैशाची' और 'महाराष्ट्री' नाम से प्रचलित हुई। इनके सिवा यहाँ के लोगों की निजी बोलियाँ थीं ही। कदाचिन् इन्हींको आर्य लोग प्राकृत कहते थे और स्थान-विशेष के अनुसार 'पाली' आदि उनके नाम थे। आगे चलकर 'शौरसेनी', 'मागधी', 'पैशाची' और 'महाराष्ट्री' वे भी अपभ्रंश हुए। इन्हींसे आजकल की प्रचलित भाषायें उत्पन्न हुई। इसी प्रकार 'महाराष्ट्री' से 'मराठी' का जन्म हुआ।

श्री राजवाड़े का मत है कि आर्य लोग जिस समय हिन्दु-भारत में आये उस समय 'वैदिक संस्कृत' तथा उसकी सहोदरा

'महाराष्ट्री' दोनों बोलते थे। उनमें जो विद्वान और सभ्य थे, वे पहली यानी वैदिक संस्कृत बोलते थे; परन्तु जो गैवार और वैश्य थे, वे मराठी बोलते थे। इन दोनों की मूल भाषा 'पूर्व-वैदिक' थी।

परन्तु जिस समय आर्य दण्डकाण्य में वसे उस समय 'पूर्व-वैदिक' नामशेष हो गई थी और उसके स्थान में 'वैदिक संस्कृत' तथा 'महाराष्ट्री' प्रचलित हुई थीं। इसी 'महाराष्ट्री' से मराठी-भाषा उत्पन्न हुई।

इस सम्बन्ध में एक तीसरा मत और है। वह यह कि यहाँ के मूलनिवासियों की कुछ निजी सभ्यता और बोलियाँ थीं।

आर्यों ने जब उन्हें जीता तब उनपर एक अन्य मत आर्यों की भाषा और सभ्यता का असर पड़ा। साथ ही, भाग-विशेष के अनुसार आर्यों की भाषा से 'शोरसेनी', 'मागधी' आदि भाषायें प्रचलित हुईं; और आर्यों की संगति से एक नई भाषा उत्पन्न हुई। इसीका 'प्रकट' किंवा 'पात्रड़ी' या 'पात्रली' अथवा 'पाली' नाम हुआ। इस भाषा की उत्पत्ति आजकल की उर्दू के समान हुई और उसे आर्य तथा अनार्य दोनों बोल व समझ सकते थे। बुद्ध ने इसी भाषा में अपना धर्म-प्रचार किया और वह धीरे-धीरे सारे देश में प्रचलित हो गई। मराठी का मूल भी इसी भाषा में है। इस पक्ष का यह भी कहना है कि आर्यों की मूल भाषा संस्कृत न थी। यह 'संस्कृत' भाषा पूर्व-भाषा का संस्कृत यानी संस्कार किया हुआ रूप है। इस नई भाषा का अथवा उसके अपभ्रष्ट रूप का यहाँ के महाराष्ट्र की भाषा से संसर्ग होने पर मराठी की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर पहले 'रट्ट' नाम के राजा राज्य करते थे। 'रट्ट' का ही संस्कृत रूप 'राष्ट्र' बना। इनके राज्य का 'महाराष्ट्र' नाम हुआ। इस राष्ट्र की मूल भाषा 'महाराष्ट्री' हुई। आर्यों की भाषा के प्रभाव में आने पर इसीसे मराठी उत्पन्न हुई। अपने

इस मत के समर्थन में इस पक्ष के लोग कहते हैं कि मराठी में कई शब्द ऐसे हैं कि जिनका मूल रूप संस्कृत में नहीं है। वे मूल में यहाँ के हैं, उनका सम्बन्ध संस्कृत से नहीं जोड़ा जा सकता।

इतनी मत-भिन्नता के होते हुए यह बतलाना कठिन है कि मराठी की उत्पत्ति वास्तव में किन प्रकार हुई। यह तो स्पष्ट है कि आज की भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति आर्यों और अनार्यों की भाषाओं के संसर्ग से हुई है। जबतक हमारे नामने भाषा-प्रवाह में भिन्न-भिन्न रूप नहीं आते तबतक यह निश्चय रूप से नहीं कहा सकता कि इसका उद्गम संस्कृत से हुआ या यहाँ के मूलनिवासियों की बोली से हुआ। हमारी भाषा में उपर्युक्त तीसरा मत ही विशेष ठीक मालूम पड़ता है। बहुत-से शब्दों और रूपों के अस्तित्व को अन्यथा समझाना वास्तव में कठिन है। तथापि यह तो गानना ही होगा कि संस्कृत से मिलने-जुलने वाली भाषाओं का मराठी पर कुछ कम प्रभाव नहीं पड़ा है। हमारी भाषा में चली बात अन्य भारतीय भाषाओं पर भी लागू होती है।

मराठी का परिवर्तन होते-होते उसका मराठी रूप बढ़ हुआ, पर एतलाना कठिन है। तथापि अनुमान ऐसा होता है कि उसका भाषित रूप तीसरी या चौथी सदी में बना। इस अनुमान का यह मतलब नहीं है कि इस समय इस भाषा में प्रत्यक्ष-रचना होने लगी, अथवा मध्य यौगिक रूपों को बनाने लगे। इन विषय में कुछ भी निश्चिन



तौर से नहीं कहा जा सकता; क्योंकि इस समय का कोई भी लेख उपलब्ध नहीं है। हाँ, कुछ शिलालेखों से यह अच्छी तरह कहा जा सकता है कि बारहवीं सदी में आजकल के बम्बई-प्रान्त के बहुतेरे भाग में लिखने और बोलने में इस भाषा का आमतौर पर उपयोग होता था। दसवीं सदी का एक वाक्य मराठी में मिला है। इससे यह कह सकते हैं कि मराठी भाषा बोलने और लिखने वाले दसवीं सदी में भी काफ़ी थे। बात यह है कि उत्पत्ति के प्रारम्भ से बोलने और लिखने के उपयोग में आने के लिए पाँच-सात सौ वर्ष इसमें अवश्य लगे। ग्यारहवीं सदी में चालुक्य-वंश के सोमेश्वर राजा का एक ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ में स्थान-स्थान पर मराठी रूप और शब्द आये हैं और अन्त में कुछ पद्य भी हैं। इसके बाद के कुछ लेखों से ऊपर बताये अनुसार यह कह सकते हैं कि जन-साधारण की भाषा बारहवीं सदी तक मराठी हो गई थी, यद्यपि कुछ सभ्य लोग लिखने में संस्कृत भाषा का उपयोग अब भी करते थे। प्रसिद्ध भास्कराचार्य के पोते चाँगदेव ने अपने बाबा के ग्रंथ के पठन-पाठन के लिए एक मठ की स्थापना की थी। यादवराजा के माण्डलिक निकुम्भ-वंश के राजा सोइदेव और हेमाद्रिदेव ने चाँगदेव के मठ को जो दानपत्र दिया, वह अच्छी मराठी में है।<sup>1</sup> इसी प्रकार अथवा इससे अधिक महत्व का बारहवीं सदी का एक दान-लेख मिला है। उसमें यादव-वंश के मुख्य प्रधान हेमाद्रि उर्फ हेमाडपन्त के नाम का भी उल्लेख है। ऐसा अन्दाज़ है कि इसके कुछ ही वर्ष बाद ज्ञानेश्वर उर्फ ज्ञानदेव ने गीता-ग्रन्थ की प्रसिद्ध टीका लिखी, जिसका वास्तविक नाम भावार्थ-दीपिका है पर लेखक के नाम से उसका सर्व-प्रचलित नाम ज्ञानेश्वर हो गया।

हैं। ज्ञानेश्वर अपने को ज्ञानदेव और अपने ग्रन्थ को ज्ञानदेवी कहते हैं। सारांश यह है कि बारहवीं सदी में बोलने-लिखने में इस भाषा का महाराष्ट्र-भर में उपयोग होने लग गया था।

सम्भवतः पहला मराठी ग्रन्थ बारहवीं सदी में श्रीपति का बना था। उसने रत्नमाला नाम का जो ज्योतिष-ग्रन्थ संस्कृत में लिखा है, उसकी मध्य उर्ध्वानि मराठी में मराठी के निर्माण-काल का साहित्य टीका भी लिखी। परन्तु खेद है कि उसकी भाषा का निर्जो रूप अब न रह गया, वह बदल कर आधुनिक हो गई है। इसलिये कुछ लोगों का ऐसा अनुमान है कि इस टीका को श्रीपति के बाद अन्य किसी ने लिखा। परन्तु इसके बाद के कवि सुयुन्दराज के मराठी ग्रन्थों की यह दशा नहीं हुई। इस कवि ने संस्कृत में 'परमार्थ-तत्त्वशेखर' अथवा 'महाभाष्य' नामक ग्रंथ लिखा है और मराठी में 'विवेक-सिन्धु' 'पवन विजय' 'मूलान्तम्भ' 'परमानन्द' और 'पञ्ची-शतिका' नामक पाँच ग्रंथ लिखे कहे जाते हैं। उनमें से 'मूलान्तम्भ' को साधु और पर दूसरे किसी का समझा जाता है, और 'परमानन्द' के विषय में भी यही शंका है। इस कवि का 'विवेक-सिन्धु' ग्रन्थ विशेष प्रसिद्ध है। इस ग्रन्थ में इनके अपनी गुरु-परम्परा बताई है। यह कवि कहीं हुआ, इसके विषय में एक मत नहीं है, पर्याप्त साक्ष्य बातों से ऐसा कह सकते हैं कि यह कवि नागपुर, बरगवान, शिववाड़ा या वैकुण्ठ जिले में कहीं हुआ। इस कवि का एक बारहवीं सदी का उत्तरार्ध जान पड़ता है। इसके बाद के मराठी लेखकों में तुसादि और चण्देव के नाम उल्लेखनीय हैं।

यह पहले बता ही चुके हैं कि यह यादव-वंश के महादेव और रामदेव का मुख्य प्रधान था। इसके धर्म-सम्बन्धी कार्यों का वर्णन हम पहले कर चुके हैं। इसीको मोड़ी-लिपि के प्रचार का श्रेय देते हैं। इसने कई ग्रंथ लिखे या लिखवाये, उनमें से 'लेखन-कल्पतरु' नाम का ग्रन्थ मराठी में विशेष प्रसिद्ध है। इसमें यह बताया है कि किसे किस प्रकार कैसे लिखना चाहिए। लेखन के अनेक नमूने भी दिये गये हैं। जिस पुरुष ने 'चतुर्वर्ग-चिन्तामणि' नामक ग्रन्थ तैयार किया उसने 'लेखन-कल्पतरु' नामक ग्रन्थ लिखा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। परन्तु खेद है कि हेमाद्रि का असली ग्रंथ अब मिलता नहीं। तथापि यह कई बातों से स्पष्ट है कि हेमाद्रि के ग्रन्थ का दूसरों ने उपयोग किया है। हेमाद्रि का काल तेरहवीं सदी का उत्तरार्ध है। वोपदेव नाम का प्रसिद्ध विद्वान उसका सहयोगी था। इसके बाद के ग्रन्थों में 'मानभाव' पंथ के ग्रंथों का उल्लेख हो सकता है। इस पंथ का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। इसके ग्रंथ साङ्केतिक ढंग से लिखे गये थे। सम्भवतः वे तेरहवीं सदी में बने थे। इसलिए उस समय की भाषा और स्थिति के निदर्शन की दृष्टि से उनका बड़ा महत्व है। उनकी भाषा में मुसलमानी प्रभाव बहुत कम देख पड़ता है और उनके शब्दों के रूप ज्ञानेश्वरी के काल अथवा उसके पहले के काल के जान पड़ते हैं। इसलिए भाषा का इतिहास जानने के लिए वे बड़े उपयोगी हैं। क्योंकि उनमें शब्दों के प्राचीन रूप, प्राचीन सर्वनाम, प्राचीन विभक्ति, प्रत्यय आदि बहुत भरे पड़े हैं।

तेरहवीं सदी के उत्तरार्ध में ज्ञानेश्वर उर्फ ज्ञानदेव नाम का जो साधु पुरुष हुआ, जिसने गीता पर 'भावार्थदीपिका' उर्फ

'ज्ञानेश्वरी' या 'ज्ञानदेवी' नामक टीका लिखी, उसका उल्लेख ऊपर कर ही चुके हैं। इसका जन्म ज्ञानेश्वर उर्फ ज्ञानदेव सन् १२७५ में, आलंदी नामक स्थान में, हुआ। इसकी माता का नाम रत्नभावाई और पिता का नाम विठ्ठलपन्त था। विठ्ठलपन्त ने विवाह होने पर संन्यास-दीक्षा लेनी थी, पर बाद में फिर से गृहस्थाश्रम स्वीकार किया। इसके तीन लड़के और एक लड़की हुई। उनके नाम ये हैं - निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, गोपानदेव और मुक्तादाई। ये सब बाल्यपन से ही श्रद्धा, विठ्ठलभक्त और धार्मी थे। ब्राह्मणों ने इन्हें संन्यासी के वस्त्र पहनाने का विचार जातिव्युत्पन्न कर दिया था और लड़कों के मनबन्धन किया था। परन्तु पैठण में ज्ञानेश्वर ने अद्भुत चमत्कार दिखा-नाये, उनके चारण्य ब्राह्मणों का विश्वास तो गया कि ये लड़के साधारण न होकर देवों अंगों से पूर्ण हैं। इसलिए उन्होंने इन्हें शक्ति-पत्र दिया और क्षमा माँगी। ज्ञानेश्वर ने थोड़े ही काल में 'ज्ञानेश्वरी', 'अमृतानुभव', 'स्वात्मानुभव', 'भक्तमाल', 'योगवाशिष्ठ', 'पंचावतारण', 'पासष्टो' आदि अनेक ग्रंथ तथा भक्तिपूर्ण, वैगन्ध्य-पूर्ण और ज्ञानपूर्ण उत्तम अर्थों लिखे हैं। इस कवि की भाषा सरल है और उपमा, रूपक, तत्प्राप्त आदि अलंकारों ने परिपूर्ण हैं। कविने शैली इतनी उत्तम है कि बड़े विषय का अर्थ पाठकों को स्पष्ट के न्यायने मूर्तिमान देस पड़ता है। इस कवि का ग्रंथ 'ज्ञानेश्वरी' इसके सब ग्रंथों में बहुत अधिक प्रसिद्ध है। गीता को या टीका मराठी ने अपने तंग की अच्छी है। एक विवेचक ने लिखा है कि 'लिख विषय का आकलन केवल मन से हो सकता है, उसका वर्णन इस कवि ने शब्दों ने मूर्तिमान कर दिया है।



उसके चारों पहियों की चक्कियाँ टूट चुककर जो आनंद होता है  
 वही इसके अभंगों से होता है। चौदह-पंद्रह वर्ष की लड़की की  
 रचना देखकर मन आश्चर्य से मुग्ध हो जाता है। यह भी अपने  
 भावों के समान छोटी ही उम्र में इस जगत् से चल बसी।  
 निष्कृतिनाथ ने २६ वें साल में और ज्ञानदेव ने २२ वें साल में  
 मसाधि की, गोपानंद की २० वें साल में और मुक्ताबाई  
 की १८ वें साल में मृत्यु हुई। इनकी छोटी उम्र में इन भाई-  
 बहनों ने अपूर्व साहित्य-रचना की और आध्यात्म-ज्ञान का सतत  
 योग साधना में बाँटा दिया।



प्रश्न में वर्णन किया है। नामदेव के समय के अन्य भगवद्भक्तों में विद्योदा खेचर, परित्ता भागवत, माल्या रसाल, कान्हो पाठक, सौवना माली, जगमैत्र नागा, नरहरि सोनार, शामा शानार, मोरा कुम्हार, वंकामहार, चौधामेला, काशिवा गुरव, जोगा परमानंद, सुदेव काईत आदि प्रसिद्ध हैं। इन सबने कविता की है। यह ध्यान में रखने की बात है कि इनमें से कुछ कुछ जाति के थे। इनकी बहुत कम रचनाएँ प्राप्य हैं; और जो प्राप्य हैं, उनमें भाषा के हरेफरे बहुत हो गये हैं। परन्तु इन कवियों की रचनाओं का स्वरूप, इनका भाषा-माधुर्य और विचार-शीली का स्पष्ट पता चल सकता है। ये





ग्रंथ में वर्णन किया है। नामदेव के समय के अन्य भगवद्भक्तों में विसोत्रा खेचर, परिसा भागवन, सात्या रसाल, कान्हो पाठक, साँवना माली, जगमैत्र नागा, नरहरि सोनार, शामा कासार, गोरा कुम्हार, वंकामहार, चोखामेला, काशिवा गुरव, जोगा परमानंद, सुदेव काईत आदि प्रसिद्ध हैं। इन सबने कविता की है। यह ध्यान में रखने की बात है कि इनमें से कुछ शूद्र जाति के थे। इनकी बहुत कम रचनायें प्राप्य हैं; और जो प्राप्य हैं, उनमें भाषा के हेरफेर बहुत हो गये हैं। परन्तु इन कवियों की रचनाओं का स्वरूप, इनका भाषा-साधुर्य और विचार-शैली का स्पष्ट पता चल सकता है। ये सब रचनायें भक्ति-भाव से परिपूर्ण हैं और इनकी भाषा मीठी तथा कोमल है। इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं, क्योंकि ये सब कवि अत्यन्त सात्विक मनोवृत्ति के तथा अच्छे ऊँचे दर्जे के भगवद्भक्त थे। इनकी रचनायें हृदय से निकलती थीं। उनमें प्रेम परिपूर्ण था। ये अपने वाणी से अमृत-सिंचन करते तथा द्वैत-भाव नष्ट करते थे। ये कट्टर वैष्णव वीर प्रतिवर्ष पंढरपुर की यात्रा करते, हरि-नाम का घोष करते तथा सन्तोष-वृत्ति से रहते थे; और यही उपदेश ये दूसरों को दिया करते थे। लोभ, मत्सरादि विकार इन्हें छू भी न गये थे। वर्णसंकर करने को ये न कहते, पर जाति-भेद पर जोर न देते थे। ये यही मानते थे कि देव के पास भाव का ही महत्व है, जाति का नहीं। "जाकी रती भावना जैसी, प्रभु-मूर्ति देखी तिन तैसी" का भाव इनमें खूब भरा था; इसका कारण वह इनके समस्त उद्गारों में स्पष्ट पड़ता है। इन्हीं जैसे लोगों ने महाराष्ट्र में भागवत-धर्म



ज्ञानेश्वर की कविता के समान जान पड़ती है। इसी काल के लेखकों में पातालकाण्ड लिखने वाले कान्हों विमलदास, भागवत-कं दशमस्कन्ध पर ओंवीबद्ध टीका लिखने वाले भास्कर, तथा शैल्य व स्वर्गारोहण पर्व पर विचित्र कथायुक्त रचना लिखने वाले नवरसनारायण का उल्लेख करना आवश्यक है।

चौदहवीं सदी तक मुसलमानों का विशेष प्रभाव मराठी भाषा पर न हो सका। पर इस सदी में दक्षिण में मुसलमानों के राज्य

स्थापित हुए, उससे मराठी में मुसलमानों

भाषा-परिवर्तन

की फ़ारसी आदि भाषाओं के शब्द

मिलने लगे। इस संसर्ग के पहले ही मराठी से हिन्दी और

कानड़ी का संसर्ग हो चुका था और इन भाषाओं के शब्द

मराठी में शामिल होने लगे थे मुसलमानों के संसर्ग का परि-

णाम बहुत अधिक हुआ। इसका यह मतलब नहीं कि इस संसर्ग

के पहले अथवा हिन्दी या कानड़ी के संसर्ग के परिणामों के सिवा

मराठी में परिवर्तन न हुए या न होते थे। भाषा वास्तव में नदी

के समान है। वह धीरे-धीरे आपही आप बदलती जाती है।

तथापि वह किम् स्थान पर बदली, यह बतलाना बहुधा कठिन

होता है। हाँ, कहीं-कहीं पर इतना परिवर्तन हो जाता है कि

परिवर्तन को स्पष्टतया देख सकते हैं। पहले का परिवर्तन स्वाभा-

विक था—यह किसी संसर्ग-विशेष का परिणाम न था; पर मुस-

लमानों की भाषा का प्रभाव बहुत कुछ विशिष्ट प्रकार का हुआ।

मुसलमानों प्रभाव का एक परिणाम यह भी हुआ कि साहित्य के

विकास और वृद्धि की गति बहुत-कुछ रुक गई। मुसलमानों की

विध्वंसकृति का परिचय सारे भारतवर्ष को एकसाही मिला है।



पत्र, दरवारी पत्र-व्यवहार और लेख तथा 'सभ्यों' के पत्र-व्यवहार को छोड़कर अन्य व्यवहारों में फ़ारसी का प्रभाव न पड़ा। घरू बातों में तथा धर्म-ग्रन्थों में मराठी बहुत-कुछ अपने मूलरूप में व्यवहृत होती थी। पन्द्रहवीं सदी के उत्तरार्ध में विठ्ठल गलांडू नामक वैद्य ने 'रसरत्नदीप' नामक ग्रन्थ अंग्रेजी श्रृंग तथा गद्य में लिखा। यह ग्रन्थ शुद्ध मराठी में है। इस प्रकार मुसलमानी प्रभाव महाराष्ट्र में फिर से मराठा-राज्य स्थापित होने तक बना रहा। तथापि संख्या की कमी के कारण पहले बतलाये अनुसार सरकारी और दरवारी बातों में तथा सभ्य-व्यवहार में फ़ारसी का स्थान धीरे-धीरे मराठी का लेना मुसलमानी काल में ही शुरू हो गया था। हिन्दुओं की संख्या, सभ्यता तथा धर्मभ्रष्ट हिन्दुओं का प्रभाव मुसलमानों पर खूब पड़ा। इस कारण धीरे-धीरे मुसलमानों की निजी भाषा में मराठी के शब्दादि घुस पड़े।

पन्द्रहवीं सदी के अन्त में अपने ज्ञान और कर्तव्य के बल पर जो दो सत्पुरुष महाराष्ट्र में विशेष प्रसिद्ध हुए, वे नृसिंह सरस्वती और जनार्दन स्वामी हैं। नृसिंह सरस्वती की कोई रचना अभी तक उपलब्ध नहीं हुई। तथापि इनके एक शिष्य ने 'गुरु-चरित्र' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा है। इस ग्रन्थ के लेखक का नाम सरस्वती गंगाधर है। यह ग्रन्थ रचना की दृष्टि से अच्छे उच्च दर्जे का नहीं है, तथापि दत्त-भक्तों के लिए इसके सिवा कोई अन्य ग्रन्थ न होने के कारण यह महाराष्ट्र में बहुत पज्य सम्भा जाता है। इसी कारण यह अजरामर भी हो गया है, और इसका संस्कृत में भी अनुवाद हो चुका है। नृसिंह सरस्वती



अबतक वह वैसा ही लोकप्रिय है। भागवत के बाद एकनाथ ने 'कर्मिणी स्वयंवर' लिखा। इस ग्रंथ में भी लेखक ने वेदांत को गूँध डाला है। इसने जो दूसरे पौराणिक कथात्मक छोटे-छोटे ग्रंथ लिखे वे 'बाल क्रोड़ा,' 'प्रह्लाद चरित्र' तथा 'शुकाष्टक' हैं। 'स्वात्मसुख' नामक छोटा ग्रन्थ शुकाष्टक के आधार पर लिखा। तदनन्तर 'आनंद-लहरी,' 'अनुभवानंद,' शङ्कराचार्य के हस्तामलक पर टीका, 'चिरंजीवपद,' 'गीतासार,' 'मुद्राप्रकाशक' आदि वेदांतपूर्ण अद्वैत मत-प्रधान ग्रन्थ लिखे हैं। इनके सिवा इस कवि के कई पद्य, चुटकले, अभङ्ग आदि भी हैं। परन्तु इसने एक और जो भारी काम किया, वह 'ज्ञानेश्वरी' का सम्पादन है। अनेक प्रतियाँ प्राप्त कर उसने यह काम किया। इस कवि ने अपने अंतिम काल में 'भावार्थ रामायण' नामक ग्रंथ लिखने का प्रयत्न शुरू किया, पर उसे यह पूर्ण न कर सका। उसे पूर्ण करने का काम इसके शिष्य गावत्रा ने किया। वह भी अपने गुरु-के समान विद्वान था। इसी कारण उससे यह काम अच्छी तरह हो सका।

एकनाथ के समकालीन और अत्यंत सहवास में रहने वाले चार साधु प्रसिद्ध हैं। उनके नाम हैं—( १ ) विठारेणुकानंदन, ( २ ) जनीजनार्दन, ( ३ ) रामाजनार्दन, और ( ४ ) दासोपन्त। इनमें से विठारेणुकानंदन देवी-भक्त था। इसके अलावा पद्य मिले हैं। जनीजनार्दन वास्तव में जनता का जनार्दन था। इसने बीजापुर की नौकरी में रहते समय अकाल पड़ने पर नगरवासी द्रव्य लोगों को बाँट दिया। इसने 'महावाक्य विवरण' और 'निर्विकल्प ग्रन्थ' नामक दो पुस्तकें लिखी हैं। दोनों ग्रन्थों





पाँचवाँ पुरुष रामा जनार्दन है। इसकी रचनायें बहुत थोड़ी मिली हैं। उनमें कुछ 'आरतियाँ' मुख्य हैं।

एकनाथ के समय में कुछ और कवि भी हुए हैं। उनमें से विष्णुदास, भोजलिंग, मृत्युञ्जय स्वामी, विट्टलनन्दन, माधवदास,

माधवदास उर्फ त्र्यम्बकराज, कृष्णदास,

एकनाथ-काल के  
अन्य कवि

सिद्धपाल केसरी, कृष्ण याज्ञवल्की, रंगनाथ

मेरु कवि, निरंजन, विट्टल आदि नाम

सहेख योग्य हैं। विष्णुदास नाम का कवि सोलहवीं सदी के अखीर में हुआ। इसने संपूर्ण महाभारत की रचना की है।

मराठी में पूरे अठारह पर्व महाभारत लिखनेवाला यह पहला ही कवि था। इसकी वर्णन-शैली सरस और मधुर है। इसके कुछ पद्य भी हैं, पर ज्ञानेश्वर-कालीन नामदेव के पद्यों से इतने मिल गये हैं कि उनको अलग करना कठिन काम है, क्योंकि यह भी अपने को 'नामा' अथवा नामा विष्णुदास लिखा करता था।

भोजलिंग ने 'महात्मसार' नामक ग्रन्थ लिखा है। मृत्युञ्जय स्वामी संभवतः पहले मुसलमान और वेदर के राजघराने का था। इसकी रचनायें बहुत हैं। उनमें से (१) अनुभवसार, (२) गुरुलीला,

(३) अमृतसार, (४) अद्वैत प्रकाश, (५) सीता-बोध,

(६) पंचीकरण, (७) स्वरूप समाधान और (८) सिद्धान्त-

संकेत प्रबन्ध उपलब्ध हुए हैं। इनके सिवा कुछ अभंग आदि भी हैं। विट्टलनन्दन एकनाथ से कुछ बड़ा था। इसने 'सप्तसती-

चरिहका' नामक ग्रन्थ लिखा। देवीभक्तों में यह ग्रंथ बहुत लोकप्रिय हुआ है। माधवदास अच्छे ऊँचे दर्जे का कवि था।

इसने अनेक ग्रंथ लिखे, पर अभी दो ही मिले हैं। वे हैं भग-

बद्धगीता की टीका और योगवासिष्ठसार । त्र्यम्बकराज ने अध्यात्म विषय को सरल ढंग से बनाने के विचार से 'बालबोध' नामक ग्रन्थ रचा; और वास्तव में यथासंभव इस विषय को उसने सरल और मनोरंजक बनाने का प्रयत्न किया है । सिद्धपाल केसरी ने 'महारी-माहात्म्य' नामक ग्रंथ रचा । इसका समकालीन कृष्णदास नामक कवि महाराष्ट्र में विशेष प्रसिद्ध था । इसने रामायण का युद्धकाण्ड मराठी भाषा में लिखा है । इसी कवि को संभवतः कृष्णदास मुद्गल भी कहते हैं । यह हम पहले ही बता चुके हैं कि 'महाराष्ट्र के किलों में इसके युद्धकाण्ड का पारायण बहुत होता था । इसी कवि के समय एक और कृष्णदास था । इस कृष्णदास ने महाभारत की कथाओं के आधार पर कई छोटे-छोटे ग्रंथ लिखे हैं । संभवतः इसका वास्तविक नाम 'विश्वनाथ' था । उसके अभिमन्यु-विवाह नामक ग्रंथ में इसीका उल्लेख है । इन दो कृष्णदासों के सिवा एक और कृष्णदास इनके कुछ ही बाद हुआ । उसने 'बालक्रीड़ा' रची । इन तीन कृष्णदासों के सिवा कृष्ण नामक एक कवि महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध है । इसे 'कृष्ण याज्ञवल्की' कहते थे । इसने 'देवीमाहात्म्य' और 'कथा-कल्पतरु' नामक ग्रंथ लिखे । इन ग्रंथों के विषय उनके नामों से ज्ञात हो सकते हैं । रंगनाथ ने गीता पर 'चित्सदानंद लहरी' नामक टीका लिखी । इसके सिवा 'योगवासिष्ठ' और 'पंचरत्न' नामक ग्रन्थ भी इसने रचे । इसके पुत्र के शिष्य विश्वनाथ ने 'उपदेश रहस्य' लिखा । मेरु कवि ने अवधूत गीता पर टीका लिखी और निरंजन नामक साधु पुरुष ने गणेश गीता पर टीका लिखी । यह याद रहे कि रामदास-कालीन निरंजन स्वामी से उपर्युक्त निरंजन भिन्न

पुरुष था। विट्ठल-कवि की रचना 'रास क्रीड़ा' है। यह संस्कृत के अक्षर छन्दों में हैं। इससे यह स्पष्ट है कि प्रसिद्ध वामन परिचित के बहुत पहले संस्कृत के छन्दों का उपयोग मराठी में होने लग गया था।

एकनाथ के समकालीन कवियों के सम्बन्ध में लिखने के पहले उसके नाती मुक्तेश्वर के सम्बन्ध में लिखना आवश्यक है।

मुक्तेश्वर

क्योंकि यह उन अन्य कवियों से बहुत श्रेष्ठ दर्जे का कवि था। मुक्तेश्वर एकनाथ

की लड़की का पुत्र था, और अपने नाना से ही विद्या और ग्रंथ-रचना का प्रेम उसने पाया था। लोगों का ऐसा खयाल है कि मुक्तेश्वर ने बहुत-सा लेखन-कार्य किया होगा, पर खेद है कि उसमें से बहुत थोड़ा अब तक मिल सका है। उसने ज्ञानेश्वर, एकनाथ आदि की आरतियाँ तुलसी, पांडुरंग, दत्तात्रय आदि के स्तोत्र और उसी प्रकार कुछ अभंग और पद रचे हैं और इन छोटी-छोटी रचनाओं में भी उसकी कुशलता और शैली देख पड़ती है। हमें यह बतलाना कठिन है कि उसकी कौनसी रचना पहले की है और कौनसी बाद की। तथापि उसके रामायण नामक ग्रन्थ को पढ़ने से ऐसा मालूम पड़ता है कि यह ग्रन्थ उसने कदाचित्त पहले-पहल रचा होगा। इस ग्रंथ की कविता विलकुल साधारण है। मुक्तेश्वर की वास्तविक प्रतिभा उसके महाभारत नामक ग्रन्थ में देख पड़ती है। मुक्तेश्वर के मृष्टि-सौन्दर्य के वर्णन और किसी के मनोविकार का हावभाव सहित वर्णन बहुत ही आकर्षक है। उसकी वाणी ऐसी मोहक है कि उसे मुनकर श्रोता वर्णित विषय या दृष्य ने आत्मरूप हो जाता है। उसे ऐसा मालूम

होने लगता है कि मैं वर्णित विषय का प्रत्यक्ष अनुभव पारहा हूँ। और मजा यह कि कवि एकवार एक ही मनोविकार का वर्णन नहीं करता, किन्तु वह अपने वर्णनों में अनेक रसों का मिश्रण करके पाठकों के मन में अनेक विकार उत्पन्न कर देता है। इसके सुग्ध-श्रंगार के वर्णनों का तो कहना ही नहीं। तथापि काल विपरियास का दोष उसके काव्यों में कहीं-कहीं घुस गया है। उदाहरणार्थ, भास्कराचार्य के लीलावती नामक गणित की सहायता से ऋतुपर्ण के द्वारा उसने पेड़ों के पत्तों की गणना करवाई है। इसका कारण यह हो सकता है कि जो-जो कल्पनायें उसके दिमाग में पैदा हुईं उनको ज्यों का त्यों अपने वर्णन में उसने चित्रित कर दिया है। खेद है कि उसके महाभारत के केवल चार ही पर्व अबतक उपलब्ध हो सके हैं। हाँ, रामायण अवश्य सम्पूर्ण ग्रन्थ है। इन ग्रंथों के सिवाय—गरुड़गर्व परिहाराख्यान, रम्भा-शुक-संवाद, मूर्खों के लक्षण, पद्यगीता, विश्रामित्र भोजन आदि और भी छोटी-छोटी रचनायें हैं। इस कवि का आत्मविश्वास बहुत बड़ा-चढ़ा था। महाराष्ट्र के अनेक साधु-संतों में से उसने केवल दो कवियों—ज्ञानेश्वर और नामदेव—को अपने ग्रन्थ में नमन किया है। उसे अपनी ग्रन्थ-रचना का बड़ा अभिमान था। उसने अपने महाभारत को महाराष्ट्र का काव्य-गुरु कहा है और आदिपर्व पढ़ने पर इस कथन की सत्यता भरपूर प्रतीत होती है। परन्तु शेष पर्व उत्तरोत्तर नीचे दर्जे के होते गये हैं।

लोगों की ऐसी धारणा है कि मुक्तेश्वर ने भागवत की टीका लिखी है, पर वह अबतक उपलब्ध नहीं हुई है। हाँ, मुक्तेश्वर के

समय के कुछ साधु पुरुषों ने इस ग्रन्थ की टीकायें अवश्य सत्रहवीं सदी के कुछ लिखी हैं। इन साधु पुरुषों में से अन्य कवि रमावल्लभदास और शिव-कल्याण उल्लेखनीय विद्वान हो गये हैं। दोनों ने कई ग्रंथ रचे हैं। रमावल्लभदास ने दशकनिर्धार में भागवत के दशमस्कंध के आधार पर कृष्ण-जन्म-कथा का वर्णन किया है। सम्भवतः यह ग्रन्थ उसने १६३३ में लिखा, परन्तु रमावल्लभदास का मुख्य और प्रसिद्ध ग्रन्थ भी शंकराचार्य के 'बृहत्त वाक्य वृत्ति' नामक ग्रन्थ की 'वाक्य वृत्ति' नामक विस्तृत टीका है। उसने गीता की भी एक टीका लिखी है। उपर्युक्त रचनाओं के सिवाय वैश्वरङ्गीत आदि अन्य कुछ ग्रन्थ और अनेक पद्य तथा अभंग उसने लिखे हैं।

रमावल्लभदास की अपेक्षा शिवकल्याण की भागवत की टीका अधिक विस्तृत और अच्छी है। दशमस्कंध में मुख्यतया कृष्ण-लीलाओं का वर्णन है। परन्तु उनका भी उसने परमार्थिक अर्थ किया है। उसकी इस टीका में श्रीवी नामक छन्द के एक लाख छन्द हैं। शिवकल्याण को यह टीका पढ़ते समय ज्ञानेश्वर की भाषा का स्मरण हुए बिना नहीं रहता। इसका मुख्य कारण यह है कि उसने ज्ञानेश्वर के ग्रन्थों का अच्छा अध्ययन किया था और उसके अमृतानुभव नामक ग्रन्थ की एक बहुत अच्छी टीका भी लिखी है।

शिवकल्याण का समकालीन और उसीके समान भागवत के दशमस्कन्ध की टीका लिखनेवाला एक और ग्रंथकार हो गया है। इसका नाम लोलिम्ब राज था। यह प्रसिद्ध साधु पुरुष था।

सम्भवतः यह अपनी तरफ अवस्था में बहुत विषयी था। 'लोलिम्ब राज आख्यान' नामक काव्य से ऐसा जान पड़ता है कि इसने किसी मुसलमान युवती से विवाह किया था। समस्त मराठी साहित्य में उपर्युक्त आख्यान के समान वीभत्स ग्रन्थ अन्य कोई नहीं है; परन्तु अपनी स्त्री के मरने पर उसने अपनी पुरानी सब बातें छोड़ दीं और महाराष्ट्र में प्रसिद्ध साधु हो गया।

इसी समय श्यामाराध्य नामक एक और कवि हो गया है। यह बड़ा विद्वान और उद्योगी पुरुष था। इसने सब प्रकार की रचनायें लिखी हैं। भारत, भागवत, रामायण आदि कोई ग्रन्थ उसने नहीं छोड़े। ज्ञानेश्वर से कठिन शब्दों के अर्थों का कोष उसने पद्यमाला के नाम से तैयार किया है। आश्वलापन प्रश्न-माला, नित्यानित्य विचार, ज्ञानोदय सिन्धु आदि वेदान्त ग्रंथ भी उसने लिखे हैं। गीता की उसकी एक टीका भी है और ऐसा जान पड़ता है कि कुछ उपनिषदों का भाष्य उसने मराठी में लिखा था। इससे स्पष्ट है कि उसने बहुत लेखन-कार्य किया, परन्तु उसकी भाषा तथा रचना-शैली साधारण ही है।

इस काल का सबसे प्रसिद्ध कवि तुकाराम हो गया है। यह जाति का शूद्र था, परन्तु उसके घराने में सब व्यापार का धंधा करते आये थे। तुकाराम बाल्य से ही तुकाराम सुख में पला था परन्तु गृहस्थाश्रम में पड़ने पर उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती गई और शीघ्र ही वह अकिंचन होगया। इस कारण कुछ काल तक वह बहुत निराश चला रहता था। इसी कारण उसने अपना चित्त सांसारिक बातों से निकाल कर हरिकीर्तन में लगाया। इससे उसे कुछ सुख मिलने

लगा । अंत में उसने घर के तमाम क्रायाज-पत्र नदी में  
 बहा दिये और एकांतवास कर परमेश्वर-कीर्तन करने  
 लगा । इसी समय उसने ज्ञानदेव, एकनाथ आदि साधु  
 कवियों के ग्रंथों का मनन किया । इससे वह शीघ्र ही  
 थोड़ा बहुत विद्वान् हो गया और कविता की स्फूर्ति उसके मन  
 में पैदा हुई । अब वह उठते-बैठते सब समय भजन और कीर्तन  
 किया करता था । उसके ये भजन स्वाभाविक स्फूर्ति से कविता  
 में हुआ करते थे । इसी प्रकार उसकी तमाम कविता बनी । यह  
 तमाम कविता मराठी के अभंग नामक छंद में है । तुकाराम कोई  
 बड़ा भारी संस्कृतज्ञ अथवा विद्वान् न था । परन्तु उसकी बुद्धि  
 तीक्ष्ण थी और उसकी भाषा बहुत अच्छी थी । इस कारण जो  
 काम श्रुति-स्मृति से न हो सकते वे उसने अपनी प्रेमपूर्ण वाणी  
 से सिद्ध किये । उसके उपदेश से हलके दर्जे के हिन्दू लोग ही  
 नहीं किंतु शूद्र, अति शूद्र और मुसलमान लोग भी अभंग-रचना  
 करते और पंढरपुर की यात्रा किया करते थे । उसने अपनी  
 वाणी से छोटे-बड़े, उच्च-नीच, का भाव लोगों के खयाल से दूर  
 कर दिया । और सब वैष्णव वीर एक दूसरे को भाई-भाई सम-  
 नाने लगे; तुकाराम की भाषा में प्रसाद बहुत अधिक है और  
 बोल-सादा होने पर भी मनोहर और परिणामकारक है । उसके  
 शब्द सीधे हृदय में जा चुभते हैं । उसने कोई बड़ा भारी ग्रन्थ  
 नहीं लिखा, परन्तु उसकी अभंग-रचना बहुत अधिक है । तुका-  
 राम की मृत्यु इंद्रायणी नदी के किनारे देहू नामक ग्राम के पास  
 वर्ष १६४९ में हुई ।

उपर हम बताही चुके हैं कि तुकाराम की संगति के कारण



उच्च और नीच, छोटे और बड़े, अनेक लोगों को काव्य-रचना की स्फूर्ति उत्पन्न हुई। उनमें से कई तो मुकराराम से प्रभावान्वित कवि हिन्दू थे, पर शेख मुजतान, शेख फरीद आदि कुछ मुसलमान भी विद्वलभक्त हो गये थे और काव्य-रचना किया करते थे। इनमें से शेख मुहम्मद का नाम उल्लेखनीय है। इसने 'पवन-विजय' 'निष्कलंक-प्रबोध,' 'योग-संग्राम' और 'ज्ञानसागर' नामक चार ग्रन्थ लिखे हैं। इनमें से 'योग-संग्राम' सबसे बड़ा है। यह ओवी छंद में है और इसकी छंद संख्या करीब २५०० है। शेख मुहम्मद जाति से मुसलमान होने के कारण मूर्ति-पूजा को ठीक न समझता था। भगवद्भक्ति और पंढरी की यात्रा से उसका यह तिरस्कार बहुत कुछ कम हो गया था, परन्तु वह समूल नष्ट न हुआ। मूर्तिपूजा को वह अधिक से अधिक धर्म की प्रथम सीढ़ी समझता था। वह हिन्दू और मुसलमान का भेद न जानता था।

रामदास इस काल का बड़ा प्रभावशाली कवि हो गया है। इसका जन्म सन् १६०८ में हुआ। इसका वास्तविक नाम नारायण था। यह बालपन ही में घर-द्वार छोड़कर चला गया। इसके बाद इसने बहुत-सा समय गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी नामक स्थान के पास भजन-पूजन में बिताया। ऐसा जान पड़ता है कि इसे बालपन से लोकहित का ध्यान रहता था। मुसलमानों के कारण धर्म और देश को जो हानि पहुँची थी उसका इसे भरपूर ज्ञान था। इस बात को इसने अपनी कविता में स्थान-स्थान पर व्यक्त किया है। यही कारण है कि उस समय विरक्ति की जो लहर

इ कवियों ने देश में फैला रक्खी थी उसके यह विरुद्ध था। वह इस बात को अच्छी तरह समझता था कि देश की स्थिति का बिना सुधार किये धर्म की स्थिति नहीं सुधर सकती और न धर्मरक्षा हो सकती है। इसलिए इसने सारे देश में पर्यटन किया और सैकड़ों मठ स्थान-स्थान पर स्थापित किये। रामदास के कार्यों का वर्णन हम पहले कर ही चुके हैं, इसलिए अब उसके विषय में अधिक कहने की कुछ आवश्यकता नहीं है। रामदास को रचना में से दासबोध नामक ग्रन्थ प्रसिद्ध ही है। इसके सिवा उसने बहुत-से पुस्तक अभंग, पद्य आदि भी बनाये हैं। इसके 'मनाचें श्लोक' बहुत प्रसिद्ध हैं। रामदास की कविता का मुख्य गुण उसका राष्ट्रीय भाव है। इसने जो कुछ लिखा है वह सब अनुभव के आधार पर और प्रत्यक्ष सांसारिक जीवन के लिए। इसलिए इसके उपदेशों का परिणाम बहुत अधिक होता है।

जिस प्रकार तुकाराम की संगति से अनेक लोगों को काव्य-रचना की स्फूर्ति उत्पन्न हुई, उसी प्रकार रामदास स्वामी की संगति से अनेक साधु-संतों को काव्य-रचना की स्फूर्ति पैदा हुई। इनमें से बड़गाँव के जयराम स्वामी, निगड़ी के रंगनाथ स्वामी, ब्रह्मनाद के आनंदमूर्ति और गालानगर के केशव स्वामी प्रसिद्ध हैं। रामदास स्वामी सहित ये साधु राम, पंचायतन' कहलाते हैं। ये सनपुरुष, श्रेष्ठ साधु और अच्छे विद्वान् ग्रंथकार थे। जयराम स्वामी ने जो ग्रन्थ बनाये उनमें भागवत राम स्वप्न की टीका, रुक्मिणी-स्वयंवर, सीता-स्वयंवर और अप-गोचर-हनुमान् मुख्य हैं। वेदान्त जैसे कठिन विषय को सरल ढंग से समझाने की तथा अपनी कथा को मनोहर करने की शैली जयराम

स्वामी को भरपूर सिद्ध थी। रघुनाथ स्वामी ने 'गजेन्द्र-मोक्ष', 'गुरु-गीता', 'सुदामा चरित्र', 'शुक-रंभा-संवाद', 'पंचीकरण', 'भानुदास चरित्र' और 'योगवाशिष्ठ-सार' नामक कई ग्रन्थ लिखे हैं। 'गजेन्द्र मोक्ष' छोटा-सा होने पर भी बहुत मनोहर है। रंगनाथ स्वामी की माया बहुत जोरदार है। दास-पंचायतन के शेष दो पुरुषों के ग्रंथ नहीं मिले हैं। हाँ, दोनों के बहुत-से स्फुट छंद प्राप्त हुए हैं। आनंदमूर्ति की भाषा बड़ी सरस है। उपर्युक्त पुरुषों के शिष्य वर्गों में से कई लोगों ने कविता की है।

रामदास स्वामी के शिष्यवर्ग में अनेक स्त्रियाँ भी थीं। उनमें से वेणाबाई बहुत प्रसिद्ध हैं। वेणाबाई के पद्य, अभंग और कई ग्रंथ हैं। इनमें से 'सीता स्वयंवर' बहुत ही उत्तम है। इसका वर्णन बहुत मनोहर और सरस है। पुरुष लोग भले ही पुरुषों

के मनोविकारों का वर्णन अच्छी तरह कर सकें, पर स्त्रियों के मनोविकारों का वर्णन स्त्रियाँ ही कर सकती हैं। यह बात वेणाबाई ने अपने ग्रंथ में सिद्ध कर दी है। वेणाबाई के शिष्यवर्ग में बयाबाई नामक एक स्त्री प्रसिद्ध है। इस स्त्री ने भी कुछ काव्य-रचना की है। इसकी कुछ रचना आर्या छंद में है और वह अच्छी है। इसकी रचना स्त्री-स्वभाव के अनुसार कोमल न होकर ठसकदार है। इसने हिन्दी में भी कुछ रचना की है और वह मराठी की अपेक्षा अधिक ही ठसकदार है।

रामदास स्वामी के समान तुकाराम महाराज के भी कुछ शिष्यायें थीं। इनमें वहिणाबाई का नाम प्रसिद्ध है। इसकी रचना बहुत ही प्रेमपूर्ण है। इसके शब्द सादे परंतु मोहक हैं।

बहिणाबाई के समान प्रभाबाई नामक स्त्री की रचना भी बड़ी मीठी है। यह कृष्णभक्त थी। इसके कुछ पद्य महाराष्ट्र में सर्वप्रसिद्ध हैं।

सत्रहवीं सदी के कवियों में वामन पंडित का नाम बहुत ऊँचा है। इसने काशी में विद्याभ्यास किया था और यह बड़ा विद्वान था। कहते हैं कि प्रारंभिक जीवन में यह इतना अभिमानी था कि अपने ग्रंथ

वामन पंडित

अपने साथ लेकर स्थान-स्थान घूमा और शास्त्रार्थ किया करता था। परंतु एक यति की कृपा से इसका यह गर्व दूर हो गया और वह बड़ा धार्मिक पुरुष बन गया। इसका प्रथम ग्रंथ 'निगमसार' है। यह वेदान्त ग्रंथ है। इसके बाद पसने 'कर्मतत्त्व' 'समश्लोकी' आदि ग्रंथ आध्यात्मिक ज्ञान सिखाने के लिए लिखे। उसके बाद इसने 'सिद्धांत विजय' और 'अनुभूतिश्लेष' नामक संस्कृत ग्रंथ रचे। 'समश्लोकी' भगवद्गीता की समश्लोकी टीका है। इसके विषय में एक ग्रंथकार ने यह कहा है कि भगवद्गीता में भरा हुआ ज्ञान इसके द्वारा वामन पंडित ने महाराष्ट्र के लोगों को प्राप्त करा दिया है। यह टीका वास्तव में बहुत अच्छी बनी है। स्वयं वामन पंडित को इस टीका से अपना जीवन सफल जान पड़ा। परंतु कुछ काल के बाद इतनी रचना से उसका संतोष न होने के कारण 'गीतार्णव सुधा' 'चरण गुरु मंजरी' 'उपादान' आदि ग्रंथ लिखने पर गीता की 'यथार्थ दीपिका' नामक एक टीका और लिखी। इस टीका में उसने अंधभक्ति को निकृष्ट बतलाया और ज्ञानयुक्त सगुण भक्ति को सर्वश्रेष्ठ और मोक्ष-साधन का उत्तम मार्ग बतलाया है। यह 'यथार्थ दीपिका' ओवी छंद में है

## मराठी का उत्थान और पतन

और उसकी छंद-संख्या २२००० से ऊपर है। यह एक विद्वत्ता-पूर्ण व्याख्यान ही है, इस कारण इसमें काव्य-कल्पना बहुत थोड़ी है। परन्तु उसकी भाषा जोरदार और वकीली ढंग की है। उसके अध्यात्म ग्रंथों में 'प्रेमसरी', 'योगवाशिष्ठ', आदि ग्रंथ भी उल्लेखनीय हैं। इन अध्यात्म ग्रंथों के सिवाय उसने कई आख्यानात्मक ग्रंथ भी लिखे हैं। इनका मुख्य उद्देश परमेश्वर-चरित्र-वर्णन है। ये वर्णन हृदयभेदक, सतेज तथा मधुर हैं। इनमें से बहुतेरे संस्कृत के अक्षर छंदों यानी श्लोकों में हैं। इसी कारण वामन पंडित महाराष्ट्र में विशेष प्रसिद्ध हैं। इस कवि के अनेक श्लोक महाराष्ट्र के लोगों को कंठस्थ रहते हैं। एक ग्रन्थकार ने कहा है कि यह मानवी कवि नहीं था किन्तु परमेश्वर का प्रेमा शुक ही था। कविता धेनु के मधुर गोरस में कभी भक्ति-रस का, कभी वात्सल्य-रस का, कभी करुण श्रृंगार का तो कभी अद्भुत रस का उत्कृष्ट मिश्रण तैयार कर और उसमें वेदांत का मसाला डालकर अच्छी मिठाई बनाकर खिलाने वाला ब्रजवासी गोपाल का यह हलवाई ही था। वामन पंडित की शब्द रचना और वर्णन-शैली दोनों बहुत मार्मिक हैं। अर्थ तथा वर्णन-प्रसंग के उचित ही छंदों की रचना कर वह अपने काव्य को बहुत ही मोहक बना डालता है। वामन पंडित ने जगन्नाथ पंडित के काव्य 'गंगालहरी' और भर्तृहरि के 'शतकत्रय' का अनुवाद मराठी भाषा में इतना अच्छा किया है कि वे मूल से किसी प्रकार कम नहीं हैं। मूल के समान ही शतकत्रय के मराठी छन्द महाराष्ट्र में लोग कंठस्थ किया करते हैं। सारांश में यह कह सकते हैं कि सरस्वती उसे परिपूर्ण सिद्ध थी।

शामन पंडित के समकालीन और उसीके समान श्लोकबद्ध कविता करने वाले दो कवि प्रसिद्ध हैं। एक का नाम नागेश है और दूसरे का विट्टल। नागेश जोशी था, परंतु उसमें विद्वत्ता न थी। विट्टल व्यापारी था, परन्तु संस्कृतज्ञ था। नागेश

शामन पंडित ने प्रभावान्वित कवि

की रफ़्ति स्वाभाविक थी, परन्तु विट्टल की रचना श्रमपूर्ण थी। नागेश की रचना में देहातियों की बातें देख पड़ती हैं, परन्तु विट्टल सभ्य और मर्यादाशील है। दोनों को अंत्यानुप्रास का विशेष शौक है। नागेश की 'चंद्रावली' नामक रचना विशेष प्रसिद्ध है। इसके सिवा इसने 'सीता स्वयंवर' 'रुक्मिणी स्वयंवर' 'रस-मंजरी' और 'शारदा विनोद' नामक काव्य और लिखे हैं। किसी समय इसके श्लोक महाराष्ट्र में लोग बहुधा कंठस्थ किया करते थे। उसके छंद विनोदपूर्ण होने के कारण छोटे बच्चे से कहा करते हैं। विट्टल के ग्रन्थों में 'रुक्मिणी स्वयंवर' 'पांचाली-स्तवन' 'सीता स्वयंवर' 'रस मंजरी' 'द्रौपदी-वस्त्र-हरण' 'विद्वज्जीवन' और 'विलक्षण-चरित्र' प्रसिद्ध हैं। हम ऊपर बतला ही चुके हैं कि विट्टल के काव्य में स्वाभाविकता कम और विद्वत्ता अधिक है। इनमें कई चित्र-काव्य भी बताने हैं। हाँ, 'रस-मंजरी' और 'विलक्षण-चरित्र' में उत्तम चित्र-रचना का विचार छोड़ दिया है, जिसमें इनमें स्वाभाविकता अधिक है और ये सरस भी हुए हैं।

गणनाथ स्वामी का शिष्य-समुदाय बड़ा भारी था और वह उनके देश में फैला हुआ था। उनकी शिक्षा-दीक्षा बहुत अच्छी

तरह होती थी । इस कारण उनमें से कई विद्वान और रामदास स्वामी से प्रभावित बुद्धिमान निकले । इन लोगों ने संस्कृत वाचनित कविता की यथेष्ट सेवा की । परन्तु उनकी तमाम रचना एक ढंग की है । उसमें स्वतंत्रता और विशिष्टता कुछ नहीं देख पड़ती । इस शिष्य-समुदाय में से देवीदास की कविता कुछ जोरदार है । इसने 'गजेन्द्र-मोक्ष' नाम का एक छोटा-सा काव्य संस्कृत के प्रमाणिका छन्द में लिखा है । वह बच्चों के गाने लायक और सरस है । शब्द-रचना सादी और मीठी है । रामदास स्वामी के शिष्यों में से एक दूसरा देवीदास महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है । इसका कुल-देव व्यंकटेश था, इसलिए इसने 'व्यंकटेश-स्तोत्र' नामक एक मधुर काव्य लिखा है; और वह महाराष्ट्र भर में सर्वत्र पढ़ा जाता है । इसी देवीदास का 'सन्त-मालिका' नामक एक काव्य और है । श्री समर्थ रामदास स्वामी के शिष्य निरंजन, बालकराम, सीताराम, प्रदोषमहात्म-कर्त्ता राम कवि, संदेहहरण ग्रन्थ का कर्त्ता रावव, श्रीखण्ड-चरित्र आदि का कर्त्ता प्रभुनन्दन, कानडी ग्रन्थ से मराठी में उद्योगपर्व लिखने वाला चन्द्रात्मजरुद्र त्र्यम्बक अंकोलकर, मुकुन्द वगैरा बहुत कुछ समकालीन हो गये हैं । इन सबसे अवचितसुत काशी नामक कवि की रचना बहुत अधिक है । इसने 'द्रौपदी-स्वयंवर' पर दो ग्रन्थ लिखे हैं । उनमें से एक श्लोक-बद्ध है और दूसरा ओवीबद्ध । यह कवि मानभाव-पंथ का अनुयायी था, इसलिए इसके ग्रन्थ इसी पंथ के लोगों में विशेष प्रचलित हैं । रामदास के शिष्य-समुदाय में जयराम बाबा नामक एक कवि होगया है । इसने अनेक श्लोक, पद्य, अभंग आदि रचे हैं । इस कवि की वाणी मनोहर

और सादी है। इसीका समकालीन पंडित नामक एक कवि हो गया है। इसकी रचना में शब्द-चमत्कार बहुत है। इसके रचे हुए बहुत-से पद्य मिलते हैं। इन सब कवियों का समकालीन अथवा कुछ पूर्व-कालीन कवि शिवराम था। वह बड़ा भारी ग्रन्थ-कर्ता हो गया है। उसने अनेक ग्रन्थ रचे हैं। उनमें से कुछ ओवी-छन्द में, कुछ अन्य छन्दों में, और कुछ गद्य में हैं। शिवराम के गुरुबन्धु निरंजन ने भी कई ग्रंथ लिखे हैं। इसी समय मचकुन्द और कोकिल नाम के दो कवि और हुए। मचकुन्द की कविता के सम्बन्ध में एक विद्वान ने कहा है, वह इतनी सरस है कि वह मुक्तेश्वर की कविता की बराबरी कर सकती है। इसने 'श्री भार्गव-चरित्र' लिखा है। यह वीररस-प्रधान है। कोकिल की रचना बहुतांश में पद्यमय है।

अब तक हमने केवल महाराष्ट्र के कवियों का वर्णन किया, इसलिए अब महाराष्ट्र के शेष कवियों का वर्णन करने के पहले महाराष्ट्र से बाहर के मराठी कवियों का वर्णन करेंगे। शाहजी के समय से कर्नाटक-प्रान्त में तंजोर आदि स्थानों के आस-

कर्नाटक के कवि

पास मराठे जाकर बसे, इसलिए मराठी भाषा ने उधर भी कुछ कवियों का जन्म दिया। शिवाजी महाराज के साथ रामदास स्वामी का शिष्य भीमस्वामी गया था। इसने कुछ रचना की हैं, जिसमें रामदास स्वामी का एक छोटा-सा चरित्र भी है। भीमस्वामी के समान आनन्दस्वामी और राधास्वामी नामक दो शिष्य और गये थे। आनन्दस्वामी का शिष्य नेहस्वामी अच्छा ग्रंथकार था। उसने 'भीमोपदेश', 'स्वानन्दलहरी', 'अनुभवसार' वगैरा ग्रंथ लिखे हैं। राधास्वामी का नाथव नामक एक शिष्य था।



कर्नाटक-प्रान्त के कवियों में इसीने सबसे अधिक ग्रन्थ लिखे हैं। इसका एक ग्रन्थ श्लोकवद्ध रामायण है और दूसरा श्रीवीरवद्ध रामायण। इनके सिवाय 'योग-त्राशिष्ट', 'गणेशपुराण', 'विष्णुपुराण', 'अश्वमेध' वगैरा ग्रन्थ भी इसने लिखे हैं, परन्तु इन सबसे इसका महाभारत नामक ग्रन्थ बहुत बड़ा है। महाभारत का टीका-ग्रन्थ मराठी में इतना बड़ा अन्य कोई नहीं है। कर्नाटक में माधव के समान अनेक ग्रन्थ लिखने वाला दूसरा कवि रंगनाथ हो गया है। इसकी बहुतेरी रचना पौराणिक है। इसीने 'कावेरी महात्म' नामक एक बड़ा भारी ग्रन्थ लिखा है। कावेरी नदी के किनारे और श्रीरंगपट्टन के आसपास रंगनाथ के समान कई अन्य मराठी कवि होगये और उन्होंने कई काव्य रचे। इनमें से दासानुदास ने श्री शंकराचार्य के ज्ञान-संन्यास नामक ग्रन्थ की टीका लिखी है। इस ग्रन्थ के अलावा 'सिद्धानुभव', 'काया जीवलग्न', 'ज्ञानामृत', 'ज्ञानसागर' आदि कई अन्य ग्रन्थ लिखे हैं। कर्नाटक भाग के ग्रन्थकारों के सम्बन्ध में कुछ बातें ध्यान में रखने लायक हैं। इन्होंने अनेक छन्दों में काव्य-रचना की, परन्तु पोवाड़ा और लावणी नामक कविता उधर न वनी। सम्भवतः इस प्रकार की कविता के लिए वहाँ अनुकूल परिस्थिति भी न थी। परन्तु एक प्रकार की रचना उधर यथेष्ट देख पड़ती है। तंजोर के सरस्वती-महल में अनेक पौराणिक नाटक रक्खे हैं। ये सब वहाँ के राजा शाहू महाराज के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह तो कह नहीं सकते कि वास्तव में वे किसके रचे हैं, परन्तु उनसे हमें यह ज्ञात हो सकता है कि इस समय के नाटक किस प्रकार के होते थे। ये नाटक विलकुल साधारण ही हैं। इसके साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इन नाटकों में

कालिदास; भवभूति आदि उत्तम नाटककर्ताओं के नाटकों का अनुवाद नहीं मिलता। रामदास के शिष्यों में अनन्त नामक एक शिष्य भी कर्नाटक गया था। अनन्त नाम के कई कवि हो गये हैं, परन्तु जिस अनन्त का हमने यहाँ देखे किया है वह विट्टल-भक्त था और पण्डरी की यात्रा किया करता था। इसने 'सुलोचना-गद्दिवर' और 'सुलोचना-आख्यात' नामक काव्य लिखे हैं। इस समय का आनन्दतनय नाम का कवि प्रसिद्ध है। वह अनन्त की बराबरी का कवि था। दोनों की भाषा-कथा का चुनाव, कल्पना, शैली आदि सब बहुत-कुछ एकसे हैं। दोनों संस्कृत तथा हिन्दी से परिचित थे और दोनों को छन्द-साहित्य पढ़ने का शौक था। इन दोनों कवियों का मान ग्रियों और लड़कों में विशेष है, क्योंकि इनका-दर्शन बहुधा सर्व-परिचित होता है और इनकी भाषा सरल तथा मधुर है। परन्तु दोनों ने शब्दों की खींचातान की है। दोनों को अनुप्रास का शौक है और इस कारण दुर्बोधता का दोष दोनों में देख पड़ता है। आनन्दतनय से इसका सम्यन्धी खुनाथ परिचित बहुत श्रेष्ठ दर्जे का कवि हो गया है। इसकी रचना तथा कल्पना-चातुर्य केवल अप्रतिम है। इसकी रचा हुआ 'नल-दामयन्ती-आख्यात' सर्व-प्रसिद्ध है। इसी एक ग्रन्थ से इसकी महाराष्ट्र-भर में प्रसिद्धि है। यह ग्रंथ इसने संस्कृत काव्य-शास्त्र के नियमों से अनुसार ठीक पंचमहाकाव्य के ढंग पर लिखा है। खुनाथ परिचित की कविता अन्तःस्फूर्ति से बनी हुई नहीं देख पड़ती। इसकी रचना स्वानाधिक न होकर पश्चिमजन्म है। उसमें इसने बहुत सावधानी दिखाई है। अपनी सब चातुरी इसने उसमें बजा दी है। इसलिए इसकी रचना कुशल कारीगर की रचना के

समान देख पड़ती है। पद्य-लालित्य, वचन-माधुर्य, उपमा-चातुर्य आदि अलंकारों से इसने अपनी सरस्वती को सजाया है। रघुनाथ पंडित का 'गजेन्द्र मोक्ष' भी प्रसिद्ध काव्य है। रघुनाथ पंडित का समकालीन गोसावीनन्दन नामक एक कवि हो गया है। इसका 'ज्ञानमोक्ष' नामक ग्रन्थ प्रसिद्ध है। इसके सिवा इसने 'सीता-स्वयंवर' नामक एक काव्य लिखा है। इन दो ग्रन्थों के सिवाय इसकी कुछ फुटकर रचनायें भी हैं। इसकी रचना सादा और मधुर है। इन तमाम कवियों के ग्रंथों में अश्लीलता तो है ही नहीं, किंतु अनावश्यक शृंगार भी नहीं है।

शाहू महाराज के समय अठारहवीं सदी में महाराष्ट्र में जो कवि हो गये, उनमें कचेश्वर और निरंजन माधव विशेष प्रसिद्ध

हैं। कचेश्वर सदैव भजन-कीर्तन में लगा

शाहू महाराज के समकालीन कवि

रहता था, इसीसे उसे कवित्व-स्फूर्ति हुई।

कचेश्वर के अनेक भजन उसके शिष्य

समुदाय में प्रसिद्ध हैं। उसके ग्रंथों में 'सुदामा-चरित्र' और

'गजेन्द्र मोक्ष' मुख्य हैं। उसने संस्कृत छन्दों का विशेष उपयोग

किया है और वे मधुर भी हैं। उसकी शब्द-रचना विल

कुल घरेलू है। उदाहरण, उपमा आदि भी सर्व-साधारण हैं, इस

लिए उसकी रचना समझने में कोई कठिनाई नहीं। 'द्रौपदी-वस्त्र

हरण' नामक एक काव्य उसीका माना जाता है, परन्तु वह

वास्तव में शायद रामसुतात्मज का है। यह कचेश्वर का समकालीन

था। दोनों की रचनाओं में बहुत समानता होने के कारण

उपर्युक्त भ्रान्ति पैदा हो गई है। रामसुतात्मज कवि ने 'गोपीचंद्र

आख्यान' नाम का एक काव्य और लिखा है। रामसुतात्मज

के समान ही रचना करने वाला वैखलिंग नामक एक कवि सत्र-  
हवीं सदी के उत्तरार्ध में हो गया है। इसने 'भामाविलास' 'उमा-  
महेश-संवाद', 'गज-गौरी-वृत्त' आदि काव्य लिखे हैं। इसकी कविता  
साधारण है। इस समय के अन्य कवियों में 'स्वरूप-निर्णय' के  
लेखक अमृतानन्द, और कपिल गीता पर टीका लिखने वाले अवधूत  
निरंजन उल्लेखनीय हैं। निरंजन माधव उपर्युक्त सब कवियों से  
विशेष श्रेष्ठ था। वह विद्वान्, नीतिमान, आचारवान, प्रेमी और  
बहुगुणी था। गायन-त्रादन में भी वह निपुण था। उसकी  
धाव्य-रचना-शैली कुछ ऐसी अलौकिक थी कि उसके कारण  
उसके गुरु ने उसे 'लक्ष्मोदर कालिदास' नाम दिया था। यह  
वार्जाराव पेशवा के आश्रय में रहता था। इसने 'साम्प्रदाय-परि-  
मल', 'दृष्णानन्द-सिन्धु', 'चिद्बोध रामायण', 'राम-कर्णामृत' 'मंत्र-  
रामचरित्र' और 'निर्वोष्ट राघव-चरित्र' लिखे हैं। अन्तिम दो  
काव्य चित्र-काव्य हैं। इसने 'वृत्तावतंस' और 'वृत्त मुक्तावली'  
नामक छंदःशास्त्र के भी दो ग्रंथ लिखे हैं। इनके सिवा इसके  
कर्म भजन, स्तोत्र इत्यादि प्रसिद्ध हैं। इसने हिन्दुस्थान भर का  
प्रधान तथा तीर्थ-यात्रा की थी और अपना प्रवास-वर्णन लिख  
रक्खा है। निरंजन माधव के समान ही अनेकविध रचना करने  
वाला सामराज नामक एक कवि उस समय हो गया है। इसके  
नाम के नगधन्ध में कुछ गड़बड़ बनी है। इसने कोकशास्त्र से  
लगाकर भागवत की टीका तक अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे हैं।  
इसका लिखा हुआ रुक्मिणी-दरशण सरस और काशी बड़ा  
प्रसिद्ध है।

सत्रहवीं सदी के अन्तिम काल में दृष्ण-दयार्णव और श्रीधर

नामक दो प्रसिद्ध कवि होगये हैं । कृष्णदयारणव हमेशा अपना

कृष्णदयारणव और  
श्रीधर

समय भजन-पूजन में बिताया करता था ।

इसका एक कारण यह था कि उसे अपने गृहस्थाश्रम में अनेक कष्ट सहने पड़े । उसने

५४ वर्ष की आयु होने पर ग्रंथ-रचना के कार्य में हाथ लगाया और भागवत के दशमस्कन्ध की टीका लिखी । इसमें उसे करीब ७ साल लग गये । यह ग्रंथ बहुत अच्छा बना है । विद्वत्ता-पूर्ण तथा सरस है । ग्रंथ की छंद-संख्या लगभग ४२,००० है । इसके सिवाय कृष्णदयारणव का 'तनभयानन्द-बोध' नामक एक छोटा-सा ग्रन्थ और है । इससे अधिक विद्वान, प्रतिभा-सम्पन्न और रसिक ग्रंथकार श्रीधर स्वामी था । यह महाराष्ट्रीय कवि ऐसा है कि महाराष्ट्र भर में इसके ग्रन्थ छोटे से बड़े तक सब पढ़ते हैं । इसकी भाषा मधुर है । इसके ग्रन्थों ने महाराष्ट्र में धार्मिकता का परिपोषण बहुत किया है । स्त्रियों में भी यदि किसी कवि के ग्रन्थ अधिक पढ़े जाते हैं तो वे इसी के । इसके बहुतेरे ग्रंथ ओंवी-बद्ध हैं और संस्कृत के पौराणिक ग्रन्थों के आधार पर लिखे गये हैं । भावुक लोग श्रीधर स्वामी के ग्रंथों को श्रद्धा से पढ़ते हैं । इसके काव्यों में सभी रसों का वर्णन हुआ है, परन्तु उनमें कठिन या बड़े शब्दों का उपयोग बहुत कम हुआ है । इसके ग्रन्थों की भाषा शुद्ध, शैली सुबोध और विषय-रचना चित्ताकर्षक होने के कारण इसके ग्रन्थ पढ़ने में सरल मालूम होते हैं । इसके ग्रन्थों के पढ़ने से महाराष्ट्र की स्त्रियाँ और बच्चे भी अच्छी भाषा सीख सकते हैं । इसका सब वर्णन प्रसंगानुसार और उचित मनोविकारों के अनुकूल हुआ है । इसके 'हरि-विजय,'

‘राम-विजय,’ ‘वेदान्त सूर्य,’ ‘पारण्डव प्रताप,’ और ‘शिवलीलामृत,’ ‘लैमिनी-अश्रमेध,’ ‘श्री पण्डरी महात्म,’ ‘मल्हारी विजय’ आदि ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। इसके घराने में अन्य लोगों ने भी ग्रन्थ-रचना का कार्य किया था। इसकी मृत्यु सन् १७२९ के लगभग हुई। श्रीधर का समकालीन कवि गिरधरस्वामी हो गया है। उसने ‘श्रद्धा रामायण,’ ‘मङ्गल रामायण,’ ‘छन्दो रामायण,’ ‘सुन्दर रामायण’ और ‘संकेत रामायण’ नामक पाँच रामायण लिखी हैं। ‘श्री करुणा राम’ में उसने राम की करुणा की भिन्ना मांगी है। ‘करुणा रुद्र’ में हनुमान के चित्र का वर्णन किया है और ‘समर्थ करुणा’ में रामदास स्वामी की स्तुति की है। ‘कृष्णकथा तरंग’ तथा ‘हरिलीला’ में कृष्ण-चरित्र का वर्णन है। ‘निवृत्तिराम’ में उसने यह दिखलाया है कि किस प्रकार धीरे-धीरे मुझे निवृत्ति प्राप्त हुई। यह ग्रन्थ बहुत अच्छा बना है। इस वर्णन से यह स्पष्ट है कि निरंजन नाथ के समान उसकी भी रचना अनेक प्रकार की थी। भीमस्वामी का एक शिष्य नरहरि नामक हो गया है। उसे लोग वचाजी कहते थे। वह बहुश्रुत और अध्ययनशील मनुष्य था। उसने महाराष्ट्र के कुछ पर्वों पर टीका लिखी है। उसकी भाषा अच्छी और रचनाशैली मजेदार है।

ज्ञानेश्वर के शिष्य-समुदाय में सत्रहवीं सदी में मत्यामलनाथ नामक एक कवि हो गया है। उसने ‘सिद्धान्त-रहस्य’ उर्फ ‘ललित-प्रबन्ध’ नामक ग्रन्थ लिखा है, जो सत्रहवीं सदी का ज्ञानेश्वर-शिष्य-समुदाय अधिकांश में अभंग छंद में है। इसमें वेदान्त का विवेचन बहुत अच्छी रीति से किया है। यह किसी ग्रन्थ की टीका न होकर स्वतंत्र ग्रन्थ है।

इसी कवि के शिष्यों में गुप्ताथ नामक एक कवयित्री हो गई है। उसका वास्तविक नाम गंगाबाई था। वह बाल-विधवा थी। बूढ़ी होने पर उसने सारा समय भजन-कीर्तन में बिताया था। वह ज्ञानेश्वर के ग्रन्थों का विवेचन किया करती थी। उसका विवेचन बहुत अच्छा होता था और सैकड़ों लोग उसे सुनने आया करते थे। इस गुप्ताथ का शिष्य उद्गोप-नाथ हुआ। उसने अनेक भजन आदि रचे हैं। उसके शिष्यों में केसरीनाथ ने 'सिद्धान्त-सार' नामक एक ग्रन्थ सन् १७१६ में लिखा है। केसरीनाथ का शिष्य शिवदिनाथ एक अच्छा कवि हो गया है। उसने 'विवेक दर्पण', 'ज्ञानप्रदीप' आदि ग्रंथ लिखे हैं। उसकी मृत्यु सन् १७७४ में हुई। उसके शिष्यों में महिपति नामक एक प्रसिद्ध कवि हो गया है। इसके अनेक भजन, अभंग, कटाव, लावनियाँ प्रसिद्ध हैं।

मराठा-राज्य के उत्कर्ष-काल में स्वतंत्र काव्य-ग्रन्थ लिखने की ओर मराठे कवियों की प्रवृत्ति हो रही थी। अबतक अनेक आध्यात्मिक ग्रन्थ लिखे जा चुके थे, अब ऐहिक विषयों की ओर लोगों का झुकाव हो चला था। जगन्नाथ नामक एक कवि ने इसी प्रकार का शशिसेना-काव्य लिखा है। वह काव्य साधारण ही है और उसमें अनुचित शृंगार भी देख पड़ता है, परन्तु ऐहिक विषयों पर स्वतंत्र कल्पना की उपज होने के कारण वह आदर्श हुआ है। इसने 'बोध-वैभव', 'ज्ञान-वत्तीसी' इत्यादि छोटी-छोटी पुस्तकें तथा 'वाक्यसुधा' और भगवत् गीता पर टीकाएँ लिखी हैं। 'बोध-वैभव' की रचना का काल सन् १७४७

है, यानी यह कवि आठरहवीं सदी के मध्यकाल में हुआ। इसी समय का जीवन नामक एक कवि हुआ है। उसने 'अनुभव-लहरी' नामक ग्रन्थ लिखा है। उसमें भी सांसारिक जीवन के अनुभवों का वर्णन है। अनाम कवि नामक पुरुष ने 'सावकार-आख्यान' नामक मजेदार ग्रन्थ लिखा है। इस प्रकार के कथा-वर्णनों में मध्वनाथ का "धनेश्वर-चरित्र" उर्फ चोल राजा की कथा विशेष प्रसिद्ध है। मराठी में मध्वमुनि कवि और साधु पुरुष विशेष प्रसिद्ध हो गया है। इसका जन्म-काल तो मालूम नहीं, परन्तु मृत्यु-काल १७२४ है। इसकी भाषा वास्तव में मधुर्भवणी है। इसने 'धनेश्वर की कथा' अर्भंग छन्द में लिखी है। इसके भजन बड़े मीठे लगते हैं। मध्वमुनि का प्रसिद्ध शिष्य अमृतराय था। इसका जन्म सन् १६९८ में हुआ। वह कोई बड़ा भारी पण्डित या विद्वान न था, परन्तु उसकी वाणी बड़ी सरल थी। उसकी अधिकांश कविता कटाव में है। उसकी रचना प्रौढ़ होकर उसमें हिन्दी और संस्कृत शब्दों का मिश्रण बड़ी चतुराई से होने के कारण बहुत चमत्कार-पूर्ण हो गई है। उसके कटावों में प्रसाद लज्जालव भरा देख पड़ता है। जिस प्रकार कोई चतुर चित्रकार अपनी कूँची किसी भी प्रकार फेरे तब भी उसका रङ्ग अच्छा सुलता है, वही बात उसके कटावों की है। बहुत साधारण बातें उसने बहुत चतुरता-पूर्वक मनोरंजक ढंग से बतलाई हैं। उसकी कविता में आत्मानुप्रास इतना अधिक है कि केवल उन्हा ही बिना किसीके चित्त को आकर्षित कर सकता है। बालाजी उर्फ बानासाहब पेशवा भी उसका कीर्तन सुनकर खुश हुआ करता था। अमृतराय ने कटाव-छन्द मराठी भाषा में तथा ही गुरु किया।



अमृतराय हिन्दी भी जानता था। हिन्दी में उसने एक आशीर्वादात्मक पद्य लिखा है। उसकी हिन्दी भाषा का उदाहरण देने के लिए उसे हम यहाँ देते हैं—

‘तुम चिरंजीव कल्याण रहो, हरिकथा सुगुण पात्रो ॥

हरिकीर्तन के साथी सजन, बहुत बरस जीवो ॥ तुम चिरंजीव ० ॥

उच्च मन्दिर मेहेल सुनेरी; महल भुलख बस्ती।

पुत्र पौत्र धन, सुंदर कामिनी; सुगुण रूप हस्ती ॥ १ ॥

सस्ता दाना पाणी निर्मल, गङ्गाजल गेहरा ।

रंग राग घर वाग बगीचे; रुपये होन मोहरा ॥ २ ॥

अमृतराय के अमृत वचन, तुम सदा सुखी रहियो ।

सबल पुष्ट अरोग्य अनामय, आनन्द सो रहियो ॥ ३ ॥

अमृतराय के कटाव्यों का रंग-ढंग देखकर महाराष्ट्र के अन्य कवि भी कटाव रचने लगे। कथा-कीर्तन में श्रोताओं का मन रिक्ताने के लिए उनका उपयोग होने लगा और लोगों को उनका बड़ा शौक हो गया। अमृतराय के माधव, शंकर आदि शिष्य भी कटाव रचने लगे। इनके शिष्यों में बन्हगिरि की ‘दाभाजी की रसद’ नामक रचना विशेष प्रसिद्ध है।

अब हम ऐसे कवियों का वर्णन करेंगे कि जिन्होंने चरित्र-लेखन का काम किया है। जैसे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, दासोपंत, जनी जनार्दन, रामदास, चरित्र-लेखक कवि तुकाराम आदि सन्तों के चरित्र भिन्न-भिन्न लेखकों ने लिख रखे हैं। निरञ्जन, माधव, कचेश्वर आदि ने तो आत्म-चरित्र भी लिखे हैं। बहुधा ग्रन्थकार अपना थोड़ा-बहुत वर्णन अपने ग्रन्थ के आरम्भ अथवा अन्त में दे ही देते हैं, परन्तु इतने से उन लेखकों के चरित्रों का भरपूर वर्णन

नहीं हो जाता । केवल सूची के समान नाम गिनाने वाले सेंट-मालिका नामक ग्रन्थ कई हैं, परन्तु विस्तार-पूर्वक चरित्र वर्णन करनेवाले लेखक बहुत कम हो गये हैं । नाभाजी की हिन्दी भक्तमाल उत्तर-हिन्दुस्तान में प्रसिद्ध ही है । इस भक्तमाला का उपयोग महाराष्ट्र के चरित्र-लेखकों ने यथेष्ट किया है । इस भक्तमाला पर प्रियादास ने भक्तिरसबोधिनी नामक टीका और उसपर श्री मार्तण्ड बाबा ने भक्ति-प्रेमामृत नामकी टीका लिखी है । इसीको मराठी में भक्तमाला कहते हैं । इसके बाद उद्धव चिद्घन ने नागनाथ और उसके शिष्य हेगराज तथा बहिरभट्ट, मृत्युञ्जय, गौरा कुम्हार आदि सन्तों के चरित्र लिखे । इन चरित्रों की अपेक्षा अपने भक्तकथामृतसार नामक ग्रंथ के कारण वह विशेष प्रसिद्ध है । परन्तु खेद की बात है कि उसका यह ग्रंथ अबतक उपलब्ध न हो सका । उद्धवचिद्घन ने इन ग्रन्थों के सिवाय 'अनुभवशतक' और 'गीतार्थमञ्जरी' नाम के ग्रन्थ लिखे हैं । कहते हैं कि इसने 'शतमालन' नामक ग्रन्थ और लिखा था, परन्तु इस ग्रन्थ के बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं है । इसके बाद दासोदिगम्बर ने चरित्र-वर्णनात्मक 'सन्त-विजय' नामक ग्रन्थ लिखा । यह ग्रन्थ उपलब्ध है । इसमें ३४ परिच्छेद हैं और लेखक ने साफ कहा है कि मैंने नाभाजी के ग्रन्थ का अपने ग्रन्थ के लिए यथेष्ट उपयोग किया है । दासोदिगम्बर के सम्बन्ध में हमें बहुत कुछ मालूम है । उसने अपना ग्रन्थ लिखते समय अच्छी ध्यान-रक्षा की, ऐसा नहीं जान पड़ता । परन्तु इन सबके बढ़कर तादगा-बाद के महिपति बाबा चरित्र-वर्णनात्मक ग्रंथ के लेखक की दृष्टि में प्रसिद्ध है । उन्होंने नाभाजी तथा उद्धव चिद्घन के ग्रंथों का उपयोग

सुराओं का उत्थान और पतन

किया सा जान पड़ता है । उनके 'भक्तविजय' 'सन्तलीलामृत' और 'भक्तलीलामृत' नामक चरित्रात्मक ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं । संत-लीलामृत किसी एक खास ग्रन्थ के आधार पर नहीं लिखा है । उसमें लेखक ने भिन्न-भिन्न ग्रन्थों का तथा सुनी हुई बातों का उपयोग किया है । 'भक्त-विजय' के लिखने में नाभाजी तथा 'उद्धव-चिद्घन' के ग्रन्थों का, इसी प्रकार नामदेव के 'तीर्यावली' नामक ग्रन्थ का, उपयोग विशेष किया है । परन्तु इनके अलावा कई अन्य ग्रन्थों का भी उपयोग हुआ है । सन्त-विजय अपूर्ण ग्रन्थ है । उसमें केवल रामदास स्वामी और बाबाजी गोसाईं के चरित्र हैं । यह ग्रन्थ इसने ६० वर्ष की अवस्था के बाद आरम्भ किया था । इन ग्रन्थों के सिवा इस कवि ने 'तुलसी-माहात्म्य,' 'गणेश-पुराण,' 'दत्तात्रय-चरित्र,' मुक्ताभरण,' 'ऋषि पंचमी,' 'पांडुरंग-स्तोत्र' 'अनन्त चतुर्दशी' नामक कई छोटी-छोटी पुस्तकें लिखी हैं । इनके बाद लिखे हुए दो चरित्रात्मक ग्रन्थ विशेष प्रसिद्ध हैं, जिनमें एक भीमस्वामी कृत 'भक्तलीलामृत' है और दूसरा राजाराम प्रासादी कृत 'भक्तमंजरी,' है । 'भक्तलीलामृत' में पहले श्री रामदास स्वामी का चरित्र देकर फिर ३७ भक्तों का चरित्र लिखा है । भक्तों के चुनाव में कोई विशेष विचार नहीं देख पड़ता । चरित्र-वर्णन में भी ज्ञान-बीन का अभाव है । 'भक्त मंजरी' 'भक्त लीलामृत' की अपेक्षा बहुत बड़ा और अच्छी तरह लिखा हुआ ग्रन्थ है । उसमें १०९ अध्याय हैं । अष्टोत्तर शत अध्यायों की मणिमाल की कल्पना करके १०९ वें अध्याय को मेरुमणि कहा है । इस अंतिम अध्याय में श्री रामदास स्वामी का चरित्र बताया है । वैसे तो आरम्भ के

न्याय अथवा अध्यायों में रामदास स्वामी का चरित्र आया ही है। शेष १७ अध्यायों में लगभग सवासौ संतों का वर्णन है। कवि का दृश्य यह जान पड़ता है कि जिन संतों का वर्णन महिपति बाबा ने नहीं किया उन्हींका वर्णन करे। इस लेखक ने अपना वर्णन बहुत छान-चीन के बाद लिखा है। इसके बाद नरहरि धुण्डी-गल भांडू ने 'भक्तकथामृत' नामक चरित्रात्मक ग्रन्थ लिखा। इसमें ६४ अध्याय हैं और उनमें अनेक साधु पुरुषों के चरित्र आये हैं। मराठी में इसके समान कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। लेखक ने प्रत्येक संत के सन्वन्ध की प्रत्येक बात देने का प्रयत्न किया है, इस कारण उसने कई बार अपनी स्वतंत्र कल्पना का भी उपयोग किया है।

अठारहवीं सदी के कवियों में मयूर पण्डित उर्फ मयूरेश्वर अथवा मोरोपन्त सर्वश्रेष्ठ कवि हो गया है। इसका जन्म सन १७२९ में हुआ। मोरोपन्त के सन्वन्ध में मयूर पण्डित उर्फ मयूरेश्वर महाराष्ट्र में दो मत हैं। कुछ तो उसको केवल भाषान्तर-कर्ता और तुकबंदी करने वाला समझते हैं; परंतु अन्य कुछ उसे महाराष्ट्र-कविवर कहते हैं। यह तो मानना होगा कि मोरोपन्त की कविता स्वाभाविक मूर्ति की नहीं है। उसमें पाण्डित्य है, विचार है और भक्ति का प्रवाह है। परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि मोरोपन्त ने केवल पाण्डित्य दिखलाने के लिए अपने बड़े-बड़े ग्रन्थ लिखे। उसकी कविता तो गृहस्थाश्रमियों के लिए है। इसीलिए शृंगार, हास्य आदि की मात्रा बहुत विचार-पूर्वक और परिमित सीमा में अपनी कविता में इस कवि ने रखी है। कविता लिखते समय वह

अपने पीठकों और श्रोताओं को कभी नहीं भूला। इसलिए पारिडंत्य का उपयोग भी यथास्थान हुआ है। सारांश में यह कह सकते हैं कि यह कवि विशालबुद्धि, बहुत परिश्रमी, सकल शास्त्र-पारंगत और चतुर था और इसने अपने ग्रन्थ सांसारिक लोगों के लिए लिखे। इसका पहला ग्रंथ 'ब्रह्मोत्तर-खण्ड' है। इसमें श्री शंकर की स्तुति है। यह आर्यावृत में लिखा है। इसके बाद इसने 'भस्मासुर-आख्यान' श्लोकों में लिखा। इन ग्रंथों की अपेक्षा इसके बाद के 'सीतागीत' और 'लवांकुश-आख्यान' विशेष अच्छे हुए हैं। ये लड़कियों के गाने लायक ग्रंथ हैं। इसी प्रकार 'रुक्मिणी गीत' भी है। इनके बाद कवि ने 'हरिश्चन्द्र-आख्यान', 'देवी महात्म्य', 'प्रह्लाद विजय', 'अंबरीश-चरित्र' जैसे छोटे-छोटे आख्यानात्मक ग्रंथ लिखे। ये सब रचनायें साधारण दर्जे की ही हैं। हाँ, इनमें 'हरिश्चन्द्र आख्यान' और बाद में लिखा हुआ 'मदालसा आख्यान' कुछ विशेष अच्छे हुए हैं। बड़े ग्रन्थों में 'कृष्ण-विजय' पहले लिखा जान पड़ता है। इसकी रचना बहुत कुछ छिष्ट है। पहले ५४ अध्याय तो आर्या छन्द में लिखे हैं, परन्तु शेष अध्यायों में लेखक ने अनेक छन्दों का उपयोग किया है। इसके उत्तरार्ध के ११ अध्याय बहुत अच्छे हुए हैं। यह ग्रन्थ कवि ने भागवत के दशमस्कन्ध के आधार पर लिखा है। इसके बाद मयूरपन्त ने 'मंत्रभागवत' नामक ग्रन्थ लिखा। इसमें उसने आद्याक्षरों के संयोग से 'नमो भगवते वासुदेवाय' मन्त्र सारे ग्रन्थ में भर दिया है। इसीलिए इसे 'मंत्र भागवत' कहते हैं। इसके बाद का इसका ग्रन्थ 'हरिवंश' है। यह ग्रन्थ जैसा चाहिए उतना अच्छा

नीं हुआ। हाँ, यहाँ-वहाँ कुछ वर्णन बहुत अच्छा है। मोरोपंत का महाभारत बड़ा भारी ग्रन्थ है। इसकी रचना में कवि ने इस साल लगाये और ५३ वर्ष की अवस्था में इसे समाप्त किया। इस ग्रंथ में सब प्रकार के रस आये हैं। कवि ने अपनी सुन्दर भाषा से अनेक प्रकार की सुन्दर कल्पनाओं को सजाया है। इस प्रकार यह ग्रन्थ स्वतंत्र ग्रन्थ के समान उत्तम बना है। 'मन्त्र-भागवत' के सम्बन्ध में बतलाये अनुसार मोरोपन्त को अपने काव्यों में अक्षर-चमत्कार दिखलाने की बड़ी भारी इच्छा होती थी। यद्यपि सारे महाभारत में मोरोपन्त ने यह अक्षर-चमत्कार नहीं दिखाया है तथापि प्रारम्भिक १८ पर्वों में आद्याक्षरों से उसने 'श्रीपाण्डवसहायोभगवानर विदाक्षो जयति' नामक ६८ अक्षरों का मन्त्र सिद्ध किया है। इस अक्षर-चमत्कार के पीछे पड़ने के कारण कहीं-कहीं छिष्टता और रस-हानि का दोष देखा पड़ता है। कहते हैं कि मोरोपन्त ने करीब १०८ रामायण लिखीं। उनमें से १०६ रामायणों का पता हमें मिलता है। मन्त्र-रामायण में उसने 'श्रीराम जय राम जय जय राम' नामक मंत्र आद्याक्षरों से अथवा अन्य ढंग से सिद्ध किया है। इसी प्रकार 'मन्त्रगर्भ-रामायण' और 'बालमन्त्र रामायण' हैं। यही बात थोड़े बहुत भाग में उसकी अन्य रामायणों की है। कुछ रामायणों के नाम तो बहुत ही विचित्र हैं; जैसे 'परन्तु रामायण', 'धन्य रामायण', 'हूँ रामायण' आदि। इस प्रकार की अनेक रामायण उसने लिखीं, परन्तु सभी अच्छी न बन सकीं; तथापि किसी को भी शक नहीं है कि यदि के हाथ में भाषा केवल चरित्र के अभाव में और वह उसे किसी भी प्रकार नचा सकता था।

बुढ़ापे के ग्रन्थों में काशीजोन पर 'गङ्गा प्रार्थना', 'गङ्गा विद्महि', 'गङ्गा वकीली', 'विष्णुपद वकीली', 'गङ्गास्तव', 'काशी स्तुति', 'विश्वेश स्तुति' आदि छोटे-छोटे काव्य सम्मिलित हैं। इसी प्रकार तुलजाभवानि, जंजुरी का खण्डोवा, गिरी का व्यंदेश, कोल्हापुर की अम्बा, विष्णुहर्ता विनायक आदि अनेक देवताओं के स्तोत्र इसी कवि ने रचे। 'पाण्डुरङ्ग दरडक', 'पाण्डरी माहात्म्य', 'विट्ठल प्रणिधि', 'विट्ठल स्तुति' और 'विट्ठल विज्ञापना' उनमें से कुछ अच्छे सधे हैं। सब स्तोत्रों में 'मुरलीपञ्चक' बहुत छोटा है। वह छिष्ट तो है, परन्तु सरस है। कवि के अन्य ग्रन्थों के नाम: 'बृहद्दशम', 'प्रल्हाद विजय', 'केकावली' और 'संशय रत्नावली' हैं। 'केकावली' महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध है। इसमें पृथ्वी-छन्द के १२१ छन्द हैं। यह काव्य कवि ने विलकुल बुढ़ापे में लिखा। इसमें उसने अपने लिए परमेश्वर की तल्लीनता-पूर्वक स्तुति की है। इसके बाद सन् १७९४ में इस कवि की मृत्यु हुई। मोरोपन्त ने अपनी कविता में आर्याछन्द का विशेष उपयोग किया है और इस छन्द की रचना में यह कवि महाराष्ट्र के कवियों में अद्वितीय है।

मोरोपन्त ने आर्याछन्द रचकर जो नवीन मार्ग महाराष्ट्र को बतलाया, उसका अनुसरण जाने-अनजाने इस कवि के समकालीन कवियों ने करने का बहुत प्रयत्न किया। मयूर कवि का अनुसरण करनेवाले कवि इन अनुकरणकारों में से एक घुण्डीराजा-त्मज मोरेश्वर था। उसने 'चन्द्रावलि' नामक काव्य लिखा है। शृङ्गार और नीति की दृष्टि से यह रस-तिरस्कार के योग्य है, परन्तु उसके आर्याछन्द मयूर परिद्धत के

द्वन्द्वों के समान ही सरल और सादे हैं। इसी प्रकार जनार्दन-  
 कृष्णानन्द निमग्न, विट्ठल केरिकर आदि लोगों ने मोरोपन्त की  
 नकल करने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार के अनुकरणशील  
 कवियों में नारायण कवि भी एक है। इसका 'कविराख्यान' कुछ  
 श्रद्धा बना है। इस कवि ने मोरोपन्त की रचना का यथेष्ट  
 उपयोग किया है, परन्तु उसका उपकार इसने कहीं भी नहीं माना।  
 चिन्तामणि नामक कवि ने पन्त की कविता का उपयोग कर  
 उनके नाम का अपने ग्रन्थ में उल्लेख किया है। इसने 'गोपीचन्द्र-  
 न्याय' और 'सीता-स्वयंवर' आर्याछन्द में लिखे हैं। महाराष्ट्र में  
 सर्वप्रसिद्ध ध्रुवाख्यान इसीकी रचना समझी जाती है। मोरोपन्त  
 के चित्र-काव्य की भी कई लोगों ने नकल करने का प्रयत्न किया।  
 एक ने ध्रुवचरित्र में 'नमोभगवते वासुदेवाय' नामक मन्त्र आद्या-  
 चरों में सिद्ध किया है। इसी प्रकार नरहरि कवि ने अपने  
 'रामजन्म' नामक काव्य में मयूरपन्त का प्रिय मन्त्र 'श्रीराम  
 जयराम जयजयराम' सिद्ध किया है। 'चतुरमन्त्र रामायण' के  
 शर्ता ने तो मयूरपन्त को भी नात कर दिया है। उसने अपने  
 इस ग्रंथ के भिन्न-भिन्न कारणों में भिन्न-भिन्न रङ्गों से 'श्रीराम  
 जयराम जयजयराम' नामक मंत्र रख दिया है। मोरोपन्त का  
 जयराम जयजयराम नामक मंत्र एक और बात में भी हुआ। अनेक कवियों ने मोरोपन्त  
 के समाप्त अपनी-अपनी कल्पना के अनुसार महाभारत लिखने  
 का प्रयत्न किया, परन्तु उनकी ये रचनाएँ विशेष प्रसिद्ध होने  
 के कारण उनके ग्रन्थों का उल्लेख हम यहाँ नहीं करते।

उपरोक्त सभी में मोरोपन्त के समाप्त भिन्न-भिन्न विषयों पर



ग्रन्थ लिखने वाले कई कवि हो गये हैं। उनमें से सोहिरोचानाथ अंची, ज्योतिपन्त दादा महाभागवत, हरि-  
 मयूरकालोन अन्य कवि वावा आदि विशेष प्रसिद्ध हैं। सोहिरो-  
 चानाथ के अनेक अभंग भजन वगैरा तो हैं ही, परन्तु 'अक्षयबोध',  
 'पूर्णाक्षरी', 'अद्वयानन्द' जैसे छोटे-छोटे ग्रन्थ और 'सिद्धान्त-  
 संहिता', 'महादनुभवेश्वर' जैसे बड़े-बड़े ग्रन्थ भी हैं। इस कवि ने  
 अपने बहुतेरे ग्रन्थ निजी अनुभव से लिखे हैं और उनमें ज्ञान,  
 वैराग्य, नीति, योगाभ्यास आदि का विशेष विवेचन है, परन्तु  
 काव्य की दृष्टि से वे हलके दर्जे के हैं। ज्योतिपन्त दादा ने पूरे  
 भागवत पर मराठी में विस्तृत टीका लिखी है। पूरे भागवत पर  
 जिन दो-तीन कवियों ने टीका लिखी है, उनमें इस कवि की गणना  
 है। ज्योतिपन्त दादा के समय हरि अथवा हरिदास नामक एक-दो  
 कवि महाराष्ट्र में हुए। उनमें से एक ने 'योगवाशिष्ठ' नामक ग्रन्थ  
 लिखा है। इसकी छन्द-संख्या १६००० है। योगवाशिष्ठ पर ही  
 दूसरा एक ग्रन्थ लिखने वाला एक दूसरा हरिदास हो गया है।  
 उसने 'कपिल गीता' वगैरा कुछ ग्रंथ और लिखे हैं। इन दोनों से  
 भिन्न हरिबाबा नामक एक ग्रन्थकार हो गया है। उसका 'ज्ञान-  
 सागर' नामक बृहत् ग्रन्थ प्रसिद्ध है। उसीने 'हरिवोध' नामक एक  
 वेदान्तात्मक ग्रन्थ और लिखा है। उसके रचे हुए बहुत-से अभंग  
 हैं। इसी प्रकार १८ वीं सदी के अंत में एक-दो छोटे-छोटे कवि  
 और हो गये हैं। उनमें से काशी कवि का नाम उल्लेखनीय है।  
 उसने मोरोपन्त की कविता का उपयोग कर 'पद्यमणिमाला'  
 नामक ग्रन्थ तैयार किया। पन्त की विद्वत्ता इसमें नहीं देख पड़ती,  
 परन्तु शब्द-योजना की दृष्टि से उसने पन्त को भी मात कर दिया

है। उसकी कविता में मृदुता तथा मोहकता बहुत भरी है। इसकी ऐसी सारी रचना है कि रसभंग नाम को न होते हुए, कान पर शब्द पड़ते ही, उनका अर्थ समझ में आ जाता है।

अब तक हमने शिष्टजनोपयोगी कविता लिखने वाले कवियों का ही वर्णन किया है। परन्तु कुछ कवि ऐसे भी होते हैं कि

जिनकी कविता हलके दर्जे के समाज के लिए होती है। तत्त्व की दृष्टि से इनकी

महाराष्ट्र के शाहिर

रचनायें भी साहित्य में सम्मिलित हैं। प्रत्येक भाषा में इस प्रकार की कविता बनती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं की मराठी भाषा में उसकी यथेष्ट मात्रा देख पड़ती है। मराठी की इस प्रकार की कविता में पोंवाड़े और लावनियाँ उल्लेखनीय हैं। पोंवाड़े में वीर-रसात्मक वर्णन बहुत अच्छा होता है, परन्तु लावनियाँ शृंगार-रस के लिए ही उपयुक्त हैं। सबसे पुराना पोंवाड़ा आग्निदास नामक कवि का है। उनमें अफजलखानों के वध का वर्णन है। कहते हैं कि यह पोंवाड़ा जीजाबाई, शिवाजी और उसके मराठे सरदारों के सामने ही कहा गया था। इसके बाद दूसरा प्रसिद्ध पोंवाड़ा तुलसीदास नामक शाहिर का है। आग्निदास की तड़प तुलसीदास में नहीं देख पड़ती, परन्तु इसमें काव्य उससे अधिक है। इस पोंवाड़े में प्रसिद्ध तानाजी मालसुरे का वर्णन है। यह भी शिवाजी के समय रचा गया था। इसी काल का तीसरा एक पोंवाड़ा पराजी नामक शाहिर का है। इसने बाजी पासलकर की एक कविता का वर्णन है। इसके बाद बहुत काल तक, यानी खाम शर्मापत की पनघोर लड़ाई तक, कोई पोंवाड़ा न रचा गया। इन पोंवाड़ों के वर्णनात्मक तीन-चार पोंवाड़े हैं। उनमें 'जंगमहा'

नाम का उर्दू पोंवाड़ा कादर नामक किसी शाहिर ने उर्दू में सबसे पहले लिखा था। ऐसा जान पड़ता है कि उसने आँखों-देखी बातों का वर्णन किया है। इसी युद्ध के वर्णनात्मक पोंवाड़े पिपल-गाँव कर शिवराम, रामासटवाजी, रंगराय वगैरा शाहिरों के हैं। शिवराम की रचना साधारण ही है, परन्तु रामासटवाजी का वर्णन कहीं-कहीं बहुत अच्छा हुआ है। रंगराय ने सृष्टि-सौन्दर्य का वर्णन अच्छा किया है। रंगराय के समान गोपीनाथ और माधवसुत नामक शाहिर अनेक प्रकार की कविता करते थे। गोपीनाथ की लावनियाँ ही विशेष देख पड़ती हैं और वे वैराग्यात्मक हैं। माधव-सुत ने सवाई माधवराव पर एक लावनी बनाई है। माधव-सुत, लहरी, मुकुन्द, खण्डे सांड, जनार्दन आदि शाहिर पेशवाई के उत्कर्ष-काल में हुए। इनमें से किसी ने माधवराव पर, किसीने महासाध्वी रमावाई पर, और किसीने नारायणराव पर कवितायें की हैं। लहरी का नारायणराव की मृत्यु का पोंवाड़ा बहुत प्रसिद्ध है। इस सदी के अन्य शाहिरों में होनाजी वाला, अनंत फन्दी, रामजोशी प्रभाकर, सगन भाऊ, रामचन्द्र, परशराम विशेष प्रसिद्ध हैं। इन लोगों ने उस समय की स्थिति, हलचल आदि का वर्णन अपनी कविताओं में किया है। परन्तु इसके अलावा पूर्ण ऐहिक विषयों का भी वर्णन इन्होंने अपनी कविताओं में किया है। इनकी कविताओं में गृहस्थाश्रम के भिन्न-भिन्न प्रसंगों के चित्र देख पड़ते हैं। वे खांग वगैरा रच कर तमाशा करते और अपनी कवितायें लोगों को सुनाते थे। पहले-पहल तो हलके दर्जे के लोग ही इस कार्य को किया करते थे। परन्तु लोगों की उसकी ओर इतनी रुचि हो गई कि ब्राह्मण लोग भी

यह पेशा करने लगे। लावनियाँ और पोंवाड़े रचनेवाले कवियों में नामजोशी बहुत ही प्रसिद्ध हो गया है। यह पुरुष तीव्र बुद्धि का अच्छी विद्वत्ता वाला और लहरी स्वभाव का था। साथ ही यह बड़ा भारी प्रतिभावान था। इसकी लावनियाँ महाराष्ट्र में इतनी प्रसिद्ध थीं कि छोटे और बड़े, ऊँच और नीच, सभी उन्हें सुनने जाया करते थे। यहाँ तक कि मयूरपन्त जैसे कवि भी उसकी लावनियाँ सुनने के शौकीन हो गये थे। इसी प्रकार अनन्तफन्दी भी प्रसिद्ध शाहिर हो गया है। इसने अनेक प्रकार की रचनाएँ की हैं, परन्तु इसकी लावनियाँ और फटका नामक रचना महाराष्ट्र में विशेष प्रसिद्ध हैं। इसकी रचनाएँ सुनने के लिए हजारों लोग दौड़ पड़ते थे। जिस प्रकार मदारी साँप को नचावे उसी प्रकार यह अपनी कविता-द्वारा लोगों को आकर्षित करता था। इसकी लावनियाँ सुनने के लिए हजारों लोग शाम से मधेरे तक एकसाथ बैठे रहते थे। आजकल अनन्तफन्दी की लावनियाँ की अपेक्षा उसके 'फटके' ही विशेष सुनाई पड़ते हैं। इनमें व्यावहारिक नीति अच्छी तरह भरी है, इसलिए वे शिक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। अहिल्याबाई होलकर के कहने से अनन्तफन्दी ने तमाशा करने का और लावनियाँ कहने का धन्धा छोड़ दिया, और वह हरिकीर्तन करने लगा। इसमें भी उसने इतनी कुशलता प्राप्त की कि हजारों लोग उसका कीर्तन सुनने आया करते थे। फिर उसका अनुकरण कई लोगों ने करता शुरू किया। अन्तिम बालीराव के वर्णन का इसका पोंवाड़ा बहुत ही प्रसिद्ध है। बन्दी बाबा ने 'श्रीसाधव मन्थ' नामक सुनाई साधव के वर्णन-बाल का वर्णनात्मक मन्थ लिखा है, परन्तु उसके केवल

प्रथम ६ अध्याय उपलब्ध हैं। इसका छठवाँ अध्याय प्रचिन्त जान पड़ता है। अनन्तफन्दी की मृत्यु सन् १८२१ में हुई। अन्तिम पेशवा के कार्य-काल का वर्णन प्रभाकर नामक शाहिर ने किया है। यह बहुत ही हृदयद्रावक हुआ है। इसके सिवाय प्रभाकर ने सवाई माधवराव का जन्म, खड़ी की लड़ाई वगैरा विषयों पर भी कविता रची है। इनके अलावा उसकी पौराणिक वर्णनात्मक और शृंगारिक रचनायें भी हैं और वे बहुत ही चित्ताकर्षक हैं। प्रभाकर की कविता कुछ प्रतिष्ठित ढंग की है। अन्य शाहिरों में होनाजी बहुत गुणी पुरुष था। उसकी वाणी में प्रसाद था और उसकी कविताशक्ति बहुत बढ़ी-चढ़ी थी। इसका कारण कदाचित् यह था कि शाहिरी का धन्धा उसके घराने में पीढ़ी-दर-पीढ़ी चला जाता था। पौराणिक आख्यान गाते समय वह मुक्तेश्वर और श्रीधर की कल्पनाओं को अप्रत्यक्ष रूपसे अपनी कविता में जोड़ देता था। वैसे तो उसने अनेक देवताओं पर लावनियाँ बनाईं, पर श्रीकृष्ण की लावनियाँ बहुत ही ठसकदार बनी हैं। इस समय महाराष्ट्र का उत्कर्ष-काल था और लोग विलास की ओर मुक्त चुके थे, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि इस समय की लावनियों में शृंगार-रस भरपूर भरा है। होनाजी की सब कविताओं में प्रभात-काल की भूपाली सारे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। होनाजी की बंरावरी का दूसरा एक शाहिर सगनभाऊ था। यह जाति का मुसलमान था। इसकी लावनियों की चाल, तान, ठेका वगैरा बहुत कठिन है। नवसिख तमाशागीर उन्हें नहीं गा सकता, परन्तु वे मार्मिक और भेदक हैं। सगनभाऊ के समान विठोवा, ज्योतिवा, गंगहैववी, उषामाली वगैरा अन्य शाहिर हो गये हैं, परन्तु वे

एकके दर्जे के हैं। हों, गोविन्दराव नामक शाहिर अच्छा प्रसिद्ध देख पड़ता है। इसकी लावनियों जुन्नर के आसपास विशेष प्रसिद्ध हैं। इसने बहुत-सी कविता की थी। परशुराम की प्रसिद्धि नासिक के आसपास विशेष है। यह हरि-विजय, राम-विजय आदि पौराणिक ग्रन्थ और ज्ञानेश्वरी जैसे आध्यात्मिक ग्रन्थ विशेष पढ़ा करता था, इसलिए उनकी छाया इसकी लावनियों में देख पड़ती है। यह तमाशागीर का धन्धा करता तो था, पर उससे पैसा न कमाता था।

अवतक हमने काव्य और कविता का ही इतिहास बताया है। प्राचीनकाल में सारे भारतवर्ष में प्रत्येक बात बहुधा पद्य में ही लिखी जाती थी। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि किराँती भी हिन्दुस्थानी भाषा के इतिहास में काव्यों का ही विवेचन विशेष करना पड़ता है। इसका यह मतलब नहीं कि गद्य का उपयोग होता ही नहीं था। हिन्दुस्थानी भाषाओं का स्वरूप निश्चित होने पर उनका गद्य में भी उपयोग होने लगा था। उपर्युक्त सब विधान मराठी पर भी लागू होते हैं। मराठी भाषा के प्राथमिक गद्य-ग्रन्थ महाभारत-पद्य के धर्म-ग्रन्थ हैं।

ग्रन्थों के आधार पर 'सूत्र-पाठ' नामक गद्य-ग्रन्थ मराठी में लिखा। इसके 'लापनिक' और 'मूर्तिज्ञान' नामक दो गद्य-ग्रन्थ और हैं। केशवराव व्यास के भाई गोपाल परिडत ने कई पद्य-ग्रन्थ तो लिखे ही, परन्तु 'दृष्टान्त लक्षण' और 'दृष्टान्त-व्याख्या' नामक दो गद्य-ग्रन्थ भी लिखे। गोपाल परिडत की मृत्यु १३४० में हुई। इसके समकालीन भावे देववास नामक ग्रन्थकार ने कई गद्य-ग्रन्थ लिखे। इसके बाद नागम्बा नाम की स्त्री अपने लेखनकार्य से बहुत प्रसिद्ध हुई। 'सूत्र-मालिका', 'शय्यापालन' 'दृष्टान्तव्याख्या', 'दुर्भगाप्रमय' और 'उद्धरणपट नामक' चार गद्य-ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। इसके गुरु कवीश्वर ने कई गद्य-चरित्र लिखे हैं। तबसे अबतक इस पंथ के ग्रन्थकारों ने अनेक ग्रन्थ मराठी भाषा में लिखे। मराठी भाषा का प्रथम व्याकरण तथा कोष रचने का मान इसी पंथ के लोगों को है। इस काल में पंचतन्त्र के अनेक अनुवाद भी हुए। इन ग्रन्थों का बहुतसा भाग गद्य में है। इनके बाद 'वेतालपच्चीसी', 'विक्रम वत्तीसी' जैसे गद्य-ग्रन्थ मराठी में लिखे गये। रामदेवराय की बखरें भी लिखी गईं। विंशस्थान उर्फ थाना की बखर तेरहवीं सदी की लिखी जान पड़ती है, परन्तु उसके खूबों के स्थान में अर्वाचीन रूप बहुतसे घुस गये हैं। गद्य-ग्रन्थ की रचना को मुसलमानों के आने से एक दृष्टि से बहुत उत्तेजना मिली। मुसलमानों में तवारीखें लिखने की रीति थी। इस रीति का अनुकरण मराठों ने यथेष्ट किया; और ऐतिहासिक घटनाओं के वर्णन बखर आदि रूप से लिखे जाने लगे। सन् १५६५ में तालीकोट उर्फ राक्षसतागड़ी को जो लड़ाई हुई, उसका वर्णन एक बखर में मिलता है। इस काल के कामशास्त्र, मन्त्रशास्त्र,

ग्यायनशास्त्र आदि विषयों पर लिखे हुए ग्रन्थ उपलब्ध हैं।  
 सोनहरवीं सदी के अन्त में दासोपन्थ नाम का जो कवि हो गया,  
 उसने 'दास्य-वृत्ति' नामक प्रश्नोत्तर गद्य-ग्रन्थ लिखा है। सत्रहवीं  
 सदी के प्रारम्भ में गोवा-प्रान्त में 'खिम्त्र पुराण' नाम का एक  
 गद्य-ग्रन्थ लिखा गया। उसकी प्रस्तावना गद्य में है। आजकल जो  
 ऐतिहासिक वक्त्रों प्रसिद्ध हैं, उनमें 'छयानवें कलमी वक्त्र' सबसे  
 पुरानी हैं। इससे पुरानी शिवाजी के काल की कोई वक्त्र  
 उपलब्ध नहीं है। हाँ, उस समय के वृत्तान्त-वर्णन, चिट्ठियाँ और  
 मगदों अवश्य उपलब्ध हैं। शिवाजी के चरित्र का वर्णन अनेक  
 वक्त्रों में लिखा गया है, परन्तु उनमें से बहुतों शिवाजी के कई  
 वर्षों बाद लिखी हुई जान पड़ती हैं। कृष्णजी आनन्द मन्भाजी  
 ने अपनी वक्त्र राजाराम महाराज के कहने पर सन १६९४ में  
 लिखा। इसके बाद कुछ सालों तक महाराष्ट्र में सङ्घट के बदल  
 बने रहे। इसलिए इस समय विशेष ग्रन्थ-रचना न हुई। आगे  
 बाबाजी विश्वनाथ के कार्यों का वर्णन एक वक्त्र में लिखा गया।  
 इसका कुछ भाग उपलब्ध हुआ है। इसी समय निरञ्जन माधव ने  
 'शान्तिधर-विजय' नामक गद्य-ग्रन्थ लिखा। इसने शंकराचार्य के  
 ग्रन्थों पर गद्य-टीकाएँ लिखीं। करहाड़कर निरञ्जन महाराज  
 का एक गद्य-चरित्र उसके पोते भगवान पाठक ने लिखा। शाहू  
 महाराज के समय लिखे हुए नाटकों का उल्लेख हम पहले कर  
 चुके हैं। नाटकों के मसान उपन्यास लिखने का उपक्रम किसी  
 ने इस समय न किया, परन्तु छोटी-छोटी कहानियाँ लिखने का  
 प्रवृत्ति उन समय शुरुआत हुआ। संस्कृत-भाषा से मराठी में गद्या-  
 लिपि करने की प्रवृत्ति बहुत पहले से थी। सन १७६० में पानी-



पत में जो घमासान युद्ध हुआ, उसका वर्णन कई लोगों ने गद्य में लिख रक्खा है। इनमें से भाऊसाहब की वखर बहुत अच्छी है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नाना फड़नवीस ने अपना आत्म-चरित्र लिख रक्खा है। इस काल में राजकीय घटनाओं का वर्णन कभी-कभी इतना विस्तार से लिखा गया है कि उन्हें स्वतन्त्र ग्रन्थ भी कह सकते हैं। नाना फड़नवीस ने सवाई माधवराव के लिए बालाजी गणेश के हाथ से एक वखर लिखवाई। यह वखर सन् १७८२ में तैयार हुई। सवाई माधवराव की शिक्षा-दीक्षा के लिए नाना फड़नवीस ने कई ग्रन्थ लिखवाये। उनमें से 'नारायण-व्यवहार-दीक्षा' महाराष्ट्र में कुछ समय तक सर्वत्र प्रसिद्ध थी। सन् १७८९ के बाद के कई गद्य-ग्रन्थ उपलब्ध हैं। उनके विषय भी भिन्न-भिन्न हैं। यहाँ तक कि बुद्धिबल उर्फ शतरंज खेलना सिखाने के लिए एक पुरुष ने एक ग्रन्थ तैयार किया। मल्हारराव चिटणीस ने सन् १७९३ में अपनी वखर लिखी। फिर चित्रगुप्त की वखर तैयार हुई। इसी काल का 'राजनीति' नामक ग्रन्थ उपलब्ध है, वह संस्कृत-ग्रन्थों के आधार पर लिखा गया है। अठारहवीं सदी के उत्तरार्ध में वखर लिखने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई थी, इसलिए कई वखर-ग्रन्थ लिखे गये। इनमें मराठा-साम्राज्य की छोटी वखर और 'पेशवों की वखर' उल्लेखनीय हैं। हमें यह मालूम नहीं कि 'मराठा-साम्राज्य की छोटी वखर' किसने लिखी, परन्तु यह स्पष्ट देख पड़ता है कि उसका लेखक कोई चतुर पुरुष था। यह वखर सन् १८१७ में समाप्त हुई। पेशवों के वखर का कर्ता कृष्णाजी विनायक सोहनी है। वास्तव में यह वखर सोहनी ने स्वयं नहीं लिखी, किन्तु उसने अपने मुख से वर्णन किया और

श्रमों ने उन्हें लिख रक्खा; इसलिए बहुत-सी सुनी हुई बातें भी उन्हें भरी हैं। इन बखरों के सिवाय छोटी-छोटी अनेक बखरें सागाड़ में लिखी गईं। मराठा-राज्य के पतन के बाद अन्य भाषाओं के समान मराठी ने भी सैकड़ों गद्य-ग्रन्थों को जन्म दिया है।

अन्त में पेशवाई के अन्तिम काल के कवियों का वर्णन करना अनुचित न होगा। उस समय के जो प्रसिद्ध कवि हुए, उनमें देवनाथ महाराज का नाम विशेष उल्लेखयोग्य है। इनका जन्म सन् १७-५४ में हुआ। यह साधु पुरुष थे और

पेशवाई के बाद के  
बृहत् कवि

व्याकीर्तन करते हुए श्रमा-फिरा करते थे। इनके भजन विशेष प्रसिद्ध हैं। इनकी वाणी में प्रसाद अन्ध्रा है। 'श्रावणाख्यान', 'शक्तिगीति-आख्यान', 'कृष्णजन्म' आदि आख्यान और अनेक गुरु-कथाएँ इनोंने रचे। ये वास्तव में आहु-कवि थे और चाहे उस समय अपनी कविता करके सुना देते थे। इसी समय

शक्ति-गीति नामक एक सुसलमान भक्त की कविता प्रसिद्ध है। जो 'विरहान्त बोध' नामक एक पचास अध्याय का ग्रन्थ लिखा। इस सुसलमान ने हिन्दू-धर्म की दीक्षा लेकर यह ग्रंथ लिखा, किन्तु वह बौद्धिकान्तर है; परन्तु उसमें कोई विशेष बात नहीं है। यह ग्रंथ वातों की खिचड़ी है, और वह भी नीरस है। पेशवाई के बाद के कवियों में रामचन्द्र और विठ्ठलनाथ की कविताएँ प्रसिद्ध हैं। विठ्ठलनाथ का कृष्ण-नादिका का वर्णन बहुत ही सुन्दर है। उसमें शृंगारिक कल्पनाएँ उस काल के अनुसार बहुत ही सुन्दर हैं और भी कई कवि हुए, परन्तु वे इतने प्रसिद्ध

सराओं का उत्थान और पतन

नहीं हैं कि हम यहाँ उनके ग्रंथों का वर्णन करें। उनकी रचनाओं के सम्बन्ध में यह सर्व-साधारण बात ध्यान में रखने लायक है कि उनमें पारलौकिक प्रवृत्ति की अपेक्षा ऐहिक प्रवृत्ति ही अधिक देख पड़ती है। यहाँ तक कि एक कवि ने तो भोजन के पदार्थों पर भी कविता की है। उनकी इन कविताओं से समाज की दशा की कल्पना अच्छी तरह हो सकती है।

---



### मराठी सत्ता का विनाश : उनके कारण

मनुष्य के शरीर का विनाश या तो भीखी बीमारियों में होता है, या संक्रामक रोग उसे नष्ट करते हैं, अथवा कभी-कभी दुर्दैवी घटनाओं के कारण उनका अन्त हो जाता है। शरीर-विनाश के कारणों का यह वर्ग-भेद राजकीय सत्ता के विनाश पर भी बहुत कुछ लागू हो सकता है। इसलिए हम मराठी सत्ता के विनाश के कारणों का विवेचन अधोलिखित इसी क्रम में

विनाश के कारणों का वर्गीकरण

यह था कि मराठा-राज्य की सत्ता उसके समय में एक व्यक्ति के हाथ में केन्द्रीभूत थी। उसके ऐसा होने में शिवाजी का कोई दोष न था। बहुत प्राचीन काल से उस समय तक और उसके बाद भी कुछ समय तक राज्य-सत्ता एकतंत्री होने की प्रथा ही थी। जबतक राज्य का शासक योग्य पुरुष होता तबतक शासन बहुत अच्छी तरह चलता और राज्य की नींव मजबूत रहती, पर उसके अयोग्य होते ही सब बातें विगड़ जाती थीं। कई लोग पेशवों पर इस बात का दोष लगाते हैं कि पेशवों ने राजा की सत्ता अपने हाथ में ले ली और उन्हें निःसत्त्व बना डाला। इसी कारण मराठी सत्ता के विनाश का पहले-पहल बीज बोया गया। पर अबतक हमने जो वर्णन किया है, उससे यह स्पष्ट हो जायगा कि पेशवे राजा को निःसत्त्व करने के लिए बहुत ही कम जिम्मेदार हैं। हम यह देख चुके हैं कि शाहू महाराज ने अपनी पूर्ण इच्छा से अपने बहुतेरे अधिकार वालाजी विश्वनाथ, बाजीराव तथा वालाजी बाजीराव के हाथ में सौंप दिये और वह स्वयं विलास और मृगया में अपना समय विताया करता था। शाहू ने अपने अन्त समय में वालाजी बाजीराव को मराठा-राज्य के शासनाधिकार की जो सनद लिख दी, उसके विषय में भले ही कोई यह कहले कि पेशवा ने राजा से उसकी भ्रमावस्था में लिखवा लिया; परन्तु रामराजा ने जो सारे शासनाधिकार उसके हाथ में सौंप दिये और स्वयं निश्चेष्ट बना रहा, वह तो भ्रम की अवस्था की बात नहीं हो सकती। राजा जब निःसत्त्व और अयोग्य होते हैं, तो उनकी शक्ति का उपयोग बहुधा प्रधान मंत्री किया करते हैं। इस ऐतिहासिक सत्य के विषय में कुछ भी आशंका करने के लिए

स्थान नहीं है। यदि सत्तारक्षकों के राजा लोग शिवाजी के समान सत्ता प्राप्त करने चाहते, तो पेशवों को सर्व-सत्ताधीश होने का अवसर ही न मिलता। इसलिए राजाओं को शून्यत्व करने का अभियोग पेशवों पर नहीं लगा सकते। परन्तु हमारे इस कथन का यह मतलब नहीं है कि इस परिवर्तन ने कोई बुराई नहीं की। राजा की सत्ता पेशवों के हाथ में आने से जो अन्य परिवर्तन हुए और जो अनेक बुराईयों हुई, उनका दिग्दर्शन हम समय-समय पर कर ही चुके हैं। हम यह बताना चाहते हैं कि पेशवों के सर्व-सत्ताधीश होने पर अराजक-प्रधान-सम्राज्य के अन्य प्रधान नाचीस हो गये और इस प्रकार पेशवों की सत्ता एक दृष्टि से शिवाजी की सत्ता से भी बढ़कर हो गई। जो काम पहले नौ-बस की सत्ता से होता था, वह फेरल एवम् फेरल में होने लगा। इस परिवर्तन से एक बुराई यह और देख पड़ी कि पेशवा की सत्ता को पुगने जागीरदार अपनी तत्परता से न मानते थे कि जितनी तत्परता से शिवाजी के प्रधान उनकी आज्ञा मानते थे। आगे हम यह तो देखेंगे ही कि जागीरदारी की प्रथा से अनेक बुराईयों पैदा हुई और इस प्रकार की बुराईयों सभी इतिहास में देख पड़ती हैं। पर यह सबको मानना होगा कि राजा के सर्व-सत्ताधीश होते यदि जागीरदारी की प्रथा बत निवृत्त होती तो पहले जितनी बुराईयों होती, उतने ही अधिक पेशवा के सर्व-सत्ताधीश होने पर जागीरदारी-प्रथा के प्रचलित होने से हुई। यह बात हमें मिला है कि शूजा भोंसले और दामोदर शिवाजी की सत्ता मानते थे, उतना जितनी पेशवा को न मानते थे। यही कारण है कि पेशवा और इन सरदारों के बीच बहुत अधिक

यह था कि मराठा-राज्य की सत्ता उसके समय में एक व्यक्ति के हाथ में केन्द्रीभूत थी। उसके ऐसा होने में शिवाजी का कोई दोष न था। बहुत प्राचीन काल से उस समय तक और उसके बाद भी कुछ समय तक राज्य-सत्ता एकतंत्री होने की प्रथा ही थी। जबतक राज्य का शासक योग्य पुरुष होता तबतक शासन बहुत अच्छी तरह चलता और राज्य की नींव मजबूत रहती, पर उसके अयोग्य होते ही सब बातें विगड़ जाती थीं। कई लोग पेशवों पर इस बात का दोष लगाते हैं कि पेशवों ने राजा की सत्ता अपने हाथ में ले ली और उन्हें निःसत्त्व बना डाला। इसी कारण मराठी सत्ता के विनाश का पहले-पहल बीज बोया गया। पर अबतक हमने जो वर्णन किया है, उससे यह स्पष्ट हो जायगा कि पेशवे राजा को निःसत्त्व करने के लिए बहुत ही कम जिम्मेदार हैं। हम यह देख चुके हैं कि शाहू महाराज ने अपनी पूर्ण इच्छा से अपने बहुतेरे अधिकार वालाजी विश्वनाथ, बाजीराव तथा वालाजी बाजीराव के हाथ में सौंप दिये और वह स्वयं विलास और मृगया में अपना समय बिताया करता था। शाहू ने अपने अन्त समय में वालाजी बाजीराव को मराठा-राज्य के शासनाधिकार की जो सनद लिख दी, उसके विषय में भले ही कोई यह कहले कि पेशवा ने राजा से उसकी भ्रमावस्था में लिखवा लिया; परन्तु रामराजा ने जो सारे शासनाधिकार उसके हाथ में सौंप दिये और स्वयं निश्चेष्ट बना रहा, वह तो भ्रम की अवस्था की बात नहीं हो सकती। राजा जब निःसत्त्व और अयोग्य होते हैं, तो उनकी शक्ति का उपयोग बहुधा प्रधान मंत्री किया करते हैं। इस ऐतिहासिक सत्य के विषय में कुछ भी आशंका करने के लिए

स्थान नहीं है। यदि सातारा के राजा लोग शिवाजी के समान सारा शासन स्वयं करते, तो पेशवों को सर्व-सत्ताधीश होने का अवसर ही न मिलता ! इसलिए राजाओं को शून्यवत् करने का अभियोग पेशवों पर नहीं लगा सकते। परन्तु हमारे इस कथन का यह मतलब नहीं है कि इस परिवर्तन से कोई बुराई नहीं हुई। राजा की सत्ता पेशवों के हाथ में आने से जो अन्य परिवर्तन हुए और जो अनेक बुराइयाँ हुईं, उनका दिग्दर्शन हम समय-समय पर कर ही चुके हैं। हम यह बताही चुके हैं कि पेशवों के सर्व-सत्ताधारी होने पर अष्ट-प्रधान-मराडल के अन्य प्रधान नाचीज हो गये और इस प्रकार पेशवों की सत्ता एक दृष्टि से शिवाजी की सत्ता से भी बढ़कर हो गई। जो काम पहले नौ-दस की सलाह से होता था, वह फेवल एक के मत से होने लगा। इस परिवर्तन से एक बुराई यह और देख पड़ी कि पेशवा की सत्ता को पुराने जागीरदार जितनी तत्परता से न मानते थे कि जितनी तत्परता से शिवाजी के प्रधान उसकी आज्ञा मानते थे। आगे हम यह तो देखेंगे ही कि जागीरदारी की प्रथा से अनेक बुराइयाँ पैदा हुईं और इस प्रकार की बुराइयाँ सभी इतिहास में देख पड़ती हैं। पर यह सबको मानना होगा कि राजा के सर्व-सत्ताधारी रहते यदि जागीरदारी की प्रथा चल निकली होती तो उससे जितनी बुराइयाँ होतीं, उससे कहीं अधिक पेशवा के सर्व-सत्ताधारी होने पर जागीरदारी-प्रथा के प्रचलित होने से हुईं। यह बात इसीसे सिद्ध है कि रघुजी भोंसले और दामाड़े शाह को जितना मानते थे, उतना किसी पेशवा को न मानते थे। यही कारण है कि पेशवा और इन सरदारों के बीच बहुत अधिक



लड़ाई-भगड़े होते थे। इन लड़ाई-भगड़ों में मराठी सत्ता की जो सर्व-शक्ति नष्ट हुई वह यदि मराठी सत्ता के प्रसार या व्यवस्था में लगी होती, तो वह बहुत सुदृढ़ हो जाती; पर जागीरदारी-प्रथा को अमल में लाने पर मराठी सत्ता का यह रोग अनिवार्य हो गया था।

मराठी सत्ता में जो परिवर्तन और बुराइयाँ सातारा के राजाओं के निकम्मे होने पर पेशवों के हाथ में सर्व सत्ता के केन्द्रीभूत होने

से हुई, वही आगे पेशवों के निकम्मे होने पर परिवर्तित रूप में देख पड़ीं। पेशवा पेशवों के निकम्मे होने से बुराइयाँ

की सत्ता तो बहुत-से सरदार कम-अधिक प्रमाण में मानते ही थे, पर उनके अयोग्य निकलने पर उनके कारवारी की आज्ञाओं को पेशवों के सरदार भी बहुत कम तत्परता से मानते थे। नाना फड़नवीस के स्थान में स्वयं कारवारी होने की महादजी की इच्छा ने महाराष्ट्र की कितनी शक्ति नष्ट की; इसका लेखा इतिहास भी नहीं बतला सकता। पेशवों के अयोग्य होने पर उनकी सत्ता किसी अन्य के हाथ में चली जाना अनिवार्य था। भाग्य से नाना फड़नवीस जैसा चतुर पुरुष कारवार चलाने के लिए मिला गया, अन्यथा वह कारवार दूसरों के हाथ में पड़ने से मराठी सत्ता का अन्त कम से कम ४० वर्ष पहले हो जाता। जो बात हमने नाना फड़नवीस के सम्बन्ध में कही है, वही बात बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव और बालाजी बाजीराव के सम्बन्ध में लागू होती है। इन पेशवों में जो योग्यता थी वह यदि उनमें न होती, तो दक्षिण के सूबेदार निजामुलमुल्क ने और दिल्ली के बादशाह मुहम्मदशाह ने मराठी सत्ता को कभी

का प्रस डाला होता । इससे यह कहना ठीक नहीं कि पेशवों के सर्वसत्ताधारी होने से मराठी सत्ता का विनाश हुआ । उलटे यह कहना अधिक ठीक होगा कि पेशवों ने उसे बढ़ाया और उसे दीर्घायुषी बनाया । राजाओं के निःक्रमे होने पर जो परिवर्तन हुए और उन परिवर्तनों से जो घुराइयाँ पैदा हुईं, वे उपर्युक्त स्थिति के स्वाभाविक परिणाम हैं । जहाँ-जहाँ शासन-व्यवस्था व्यक्ति-प्रधान होती है, वहाँ-वहाँ ये दोष अनिवार्य होते हैं । संस्था-प्रधान राज्य बहुधा संस्थाओं पर अवलम्बित रहते हैं । उनमें व्यक्ति का महत्व कम रहता है और बहुधा अयोग्य व्यक्ति के हाथ में राजकीय सत्ता जाने की सम्भावना कम रहती है और इसलिए उसके विनाश की सम्भावना भी कम रहती है । शिवाजी की शासन-व्यवस्था कुछ ऋशों में तो संस्था-प्रधान थी, पर पेशवों के समय में मराठा शासन बिलकुल व्यक्ति-प्रधान था । उस समय किसीने उसे संस्था-प्रधान करने का प्रयत्न नहीं किया । इस स्थिति के जो परिणाम हुए, वह हम ऊपर बतला ही चुके हैं ।

शिवाजी की शासन-व्यवस्था में एक-दो बड़े भारी परिवर्तन और हुए । शिवाजी बहुधा किसीको जागोर न देता था । सम्भवतः इस प्रथा को घुराइयों को वह बहुत अच्छी तरह जानता था । इसलिए उसने नकद वेतन देन की रीति प्रचलित की । इस प्रकार शिवाजी के समय में वाप = वाद देते को वाप की नौकरी मिलना कोई आवश्यक बात न थी । नौकरियाँ बहुधा योग्यता के अनुसार दी जाती थीं । शिवाजी के ये दोनों नियम अपने-आप खत्म हो जाने लगे और पेशवों के समय में तो उनका

नियम न मानने से होने वाले दोष

इस प्रकार शिवाजी के समय में वाप = वाद देते को वाप की नौकरी मिलना कोई आवश्यक बात न थी । नौकरियाँ बहुधा योग्यता के अनुसार दी जाती थीं । शिवाजी के ये दोनों नियम अपने-आप खत्म हो जाने लगे और पेशवों के समय में तो उनका

कहीं नाम भी न रहा। जागीरदारी की प्रथा पहले-पहल राजाराम के समय अमल में आई। औरंगजेब ने महाराष्ट्र पर चढ़ाई करके उसकी जो दशा की और उससे महाराष्ट्रियों ने अपने देश की किस प्रकार रक्षा की, इन दोनों बातों का वर्णन हम यथास्थान कर चुके हैं। उससे यह प्रकट होगा कि जागीर का लोभ दिखलाये बिना महाराष्ट्र का उद्धार उस समय कदाचित न हुआ होता। केवल स्वदेशाभिमान से प्रेरित होकर बिना किसी स्वार्थ की आशा के अपनी जान और माल को जोखिम में डालने वाले पुरुष सब काल और देशों में थोड़े होते हैं। महाराष्ट्र में उस समय चारों ओर जो मुगल सेना फैली हुई थी, उसे दूर करने के लिए स्वार्थ का प्रलोभन अत्यावश्यक था। इसलिए शाहू जब महाराष्ट्र में आया तब उसे भी उस प्रचलित प्रथा को मानना ही पड़ा। इसलिए जागीरदारी की प्रथा पहले-पहल शुरू करने का दोष शाहू पर लगाना ऐतिहासिक दृष्टि से अनुचित है। संसार के इतिहास में यह देख पड़ता है कि ऐसे समय में जागीरदारी की प्रथा अवश्य प्रचार में आई है। इसलिए बाहरी आपत्ति से यदि कोई भीतरी दोष पैदा हो तो उसके लिए किसी को जवाबदार ठहराना अनुचित है। बालाजी विश्वनाथ ने पूर्व-प्रचलित प्रथा को मान्यता देकर उसे एक सत्ता के हाथ में संगठित करने का जो प्रयत्न किया, उसमें विशेष गुण-दोष निकालना सम्भव नहीं है। उसने इस समय जागीरदारों को एक सूत्र से बाँधने का जो प्रयत्न किया, वह उस समय में सर्वोत्तम था। जागीरदारी की प्रथा से जो बुराईयाँ हुईं, उनका मूल कुछ भिन्न ही बात में है। स्वराज्य के भीतर की जागीरदारी की प्रथा को बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव ने मुगलाई में जीते हुए

मुल्क में भी प्रचलित किया। यह अवश्य आक्षेपार्ह है; और उसे जिस ढंग से प्रचलित किया, वह तो बहुत ही अधिक आक्षेपार्ह है। ऊपर हम यह मान चुके हैं कि स्वराज्य के भीतर जागीरदारी की प्रथा जो प्रचलित हुई, शाहू अथवा बालाजी विश्वनाथ का उसे दालना सम्भव न था। पर मुगलार्ड के जीते हुए राज्य में उसी प्रथा को प्रचलित रखना उनना आवश्यक न था; और जिस ढंग से प्रचलित किया, वह तो अवश्य बुराई का बीज था। मुगलार्ड के जीते हुए राज्य में पेशवा यदि शिवाजी के ढंग की शासन-व्यवस्था स्थापित करते तो जागीरदारी की प्रथा से होने वाली बुराइयाँ मराठा-राज्य में बहुत कम दिखाई पड़तीं, परन्तु पेशवों के समय में भी जागीरदारी की प्रथा बहुत अधिक बढ़ी और वह बहुत ही हानिकारक ढंग से प्रचलित हुई। जो सरदार जो मुल्क जीतता, वह उसका जागीरदार बन बैठता था; और पेशवों ने उसपर कुछ भी आक्षेप न किया, इस कारण शिन्दे, भोंसले, होलकर, गायकवाड़ वगैरा पेशवा की कुछ भी परवाह न करके अपनी-अपनी जागीरों को बढ़ाने में लगे रहे। अन्ते जब उनकी बढ़ती प्रवृत्ति बाजीराव ने देखी तो उन्हें रोकने का प्रयत्न किया। पर यह प्रयत्न इतनी देर से हुआ कि उसे ये सरदार मानने को विलकुल तैयार न थे। इस कारण इन सरदारों और पेशवों के बीच कुछ घातें रहे। इस प्रकार जिस शक्ति का उपयोग मराठी सत्ता के पतन में और उसे हटाने में हुआ होता, वह आपसी कर्षण-भारत में ही पूरे एकलौ वर्ष तक नष्ट होती रही। मराठा-राज्य को अंग्रेजों में 'मराठा यान्त्रिकदरेजी' और हिन्दी या मराठी में मराठा-राज्य-समृद्ध कहते हैं। यह नामाभिधान कुछ ही अंश



मराठी सत्ता का विनाश हुआ, पर वे इस बात का खयाल नहीं करते कि यह निदान ठीक होने पर भी वह दूसरे एक कारण से उत्पन्न हुआ है। यदि पेशवों ने मुगलाई में जागीरदारी की प्रथा प्रमल में न लाई होती, अथवा यदि वे लाते ही, तो स्वराज्य के मुल्क के समान मुगलाई के जीते हुए मुल्क पर भी अपना कब्जा अच्छी तरह बनाये रखते और मध्यवर्ती सत्ता का अभाव भी न रहता; और तब फिर वे चुराइयाँ न होतीं, जो इतिहास में देख पड़ती हैं। हम कह ही चुके हैं कि जागीरदारी की प्रथा सर्वा देशों में देख पड़ी है; पर जिन देशों में मुख्य शासक ने जागीरदारों को अपने कब्जे में रख कर उनकी सत्ता को धीरे-धीरे नष्ट किया है, उन्हीं देशों के राज्य दीर्घस्थायी हुए हैं। महाराष्ट्र में पेशवों ने अपने सरदारों को अपनी आज्ञा मानने के लिए दवाना चाहा, पर जबतक उनकी सत्ता अक्षुण्ण बनी थी तबतक पेशवा से इन सरदारों का दवाना सम्भव न था। सत्ता और साधन के रहते कोई भी सरदार अपने राजा से नहीं दबते। इसीलिए पेशवों का अपने सरदारों को दवाने का प्रयत्न व्यथा हुआ। इतिहास में यह कहीं नहीं देख पड़ता कि पेशवों ने सरदारों की सत्ता निरिच्छत करने का प्रयत्न किया हो और यह धतलाया हो कि तुम अपनी जागीर में अमुक-अमुक काम कर सकते हो और अमुक नहीं। ये सरदार वास्तव में सरदार न होकर बहुत कुछ स्वतंत्र राजा थे और राजा के जितने अधिकार होते हैं उन सबका उपयोग वे लोग बिना रोक-टोक करते थे। फिर क्या आश्चर्य है कि वे अपनी राज्य-रूपी जागीर को चाहें जिन उपायों से बढ़ाते थे और पेशव यदि इनके इस कार्य में बाधा डालते तो उनसे भी

युद्ध छेड़ देते थे ? सारांश यह है कि मुग़ल-राज्य के जीते हुए मुल्क में जागीरदारी की प्रथा अमल में लाने का, उसे मनमाने ढंग से अमल में आने देने का और जागीरदारों को राजाओं के समान सारा शासन करने देने का दोष पेशवों के सिर पर अवश्य मढ़ा जा सकता है ।

इसीके साथ एक और दोष उत्पन्न हुआ, जिसका उद्देश्य हम कर चुके हैं और जो जागीरदारी की प्रथा को बढ़ाने में

आनुवंशिक नौकरी की  
प्रथा के दोष

बहुत अधिक सहायक हुआ है । यह यह है कि नौकरियाँ और सरदारियाँ आनुवंशिक हो गई थीं । यह तो सभी मानते

हैं कि योग्य वाप का लड़का सदैव योग्य ही होगा, यह सम्भव नहीं है । परन्तु इस बात का कुछ विचार न करके मराठा-राज्य में पेशवाई को पेशवे के वंश में, जागीरोंको जागीरदारों के वंश में और राज्य की अन्य नौकरियों को उन पदों पर रहने वाले नौकरों के वंश में सदैव के लिए जारी किया । अयोग्य लोगों के हाथ में शासन का रहना राज्य की भलाई के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता; और आनुवंशिक रीति से नौकरियों को चलने देने से राज्य का शासन अयोग्य हाथों में पड़े बिना नहीं रहता । बालाजी विश्वनाथ से प्रथम माधवराव तक पेशवे अच्छे योग्य हुए । प्रथम माधवराव के बाद यह बात न रही । पेशवों के अयोग्य होने के कारण उनका कारवार दूसरों को चलाना पड़ा । भाग्य से उस समय नाना फड़नवीस जैसा योग्य पुरुष मिल गया । वह यदि योग्य न होता तो मराठा-राज्य का शकट कभी का उलट जाता । जो बात हमने पेशवा के पद के सम्बन्ध में कही है, वही

बात अन्य सरकारी पदों के सम्बन्ध में लागू होती है। हिन्दी में 'नौकर के चाकर' वाली जो भद्दी कहावत प्रसिद्ध है, वह पेशवों के काल के शासन को पूरी तौर से लागू होती है। प्रतिनिधि का लड़का प्रतिनिधि अवश्य रहे, पर वह यदि अपना काम न कर सके तो वह एक मुतालिक नियत करले। यह मुतालिकी भी वंश-परम्परा से चले। स्मरण रखने की बात है कि दाभाड़े मराठा-राज्य के सरदार थे और गायकवाड़ उनके मुतालिक थे; और उनके वंश में वह मुतालिकी इतना पक्की हो गई कि आज दाभाड़े का तो कहीं नाम भी नहीं है, पर उनके मुतालिक गायकवाड़ का राज्य आज भी बना हुआ है। मुतालिकी की यह प्रथा मराठा शासन में सब जगह प्रचलित थी। इससे शासन निकम्मा और कमजोर हुए बिना न रहा। सभी लोगों का ध्यान किसी भी प्रकार धन-दौलत और जागीर कमाने की ओर था। राष्ट्र और राज्य की भलाई की ओर ध्यान देने वाले कोई भी न थे। यहाँ तक कि नाना फड़नवीस भी इस दृष्टि से बरी नहीं है। उसने भी राज्य की भलाई का भरपूर ध्यान न रख अपनी निजी जायदाद कमाने का प्रयत्न किया। उससे मराठा-राज्य को हानि पहुँचे बिना न रही और फिर सवाई भायकराव की मृत्यु के बाद शासन के सूत्र अपने हाथों में रखने के लिए जो-जो प्रयत्न किये, वे अत्यन्त गर्हणीय हैं। उसके इन प्रयत्नों से महाराष्ट्र के राज्य को जो हानि पहुँची, वह इतिहास में प्रकट है। आनुवंशिक पद्धति से जागीरदारी की प्रथा बहुत पक्की बन गई। यदि आनुवंशिक पद्धति अमल में न आई होती तो जागीरदारी की प्रथा को रोक रखना अथवा जागीरदारों के अधिकारों को कम



फरना पेशवों के लिए सम्भव था, पर एक बार आनुवंशिक पद्धति को अमल में लाने पर जागीरदारों को काबू में रखना पेशवों के लिए सरल न था। परन्तु पेशवों ने तो इस प्रकार का कोई प्रयत्न किया ही नहीं। उन्होंने तो सब पदाधिकार और जागीरें वंश-परम्परा से चलने दीं। यदि महाराष्ट्र का राज्य विशेष न बढ़ा होता तो जिस दैव-दुर्विलास में इसे पड़ना पड़ा, उससे वह सम्भवतः बच जाता। पर पेशवों ने शिवाजी के तत्त्वों को अमल में लाने का कुछ भी प्रयत्न न किया।

शायद कोई यह कहे कि शिवाजी के शासन-तत्त्वों को समय के कारण पेशवे अमल में न ला सके। पर एक बात तो बाला-

जी विश्वनाथ, बाजीराव आदि ने ऐसी  
 मनमाने ढंग से राज्य-  
 असार करने के दोष  
 की, जिसके लिए ये लोग पूरी तौर से  
 जिम्मेदार हैं। बालाजी विश्वनाथ से

लगाकर आगे सब पेशवे महाराष्ट्र का राज्य और सत्ता उत्तर की ओर ही बढ़ाते रहे और बाजीराव के समय से तो उनका लक्ष्य दिल्ली पर ही बना रहा। बाजीराव ने जिस नीति का प्रतिपादन किया, वह पढ़ने और सुनने में भले ही बहुत आकर्षक जान पड़े; पर व्यवहार में वह असम्भव होने के कारण मराठा-राज्य के लिए घातक रही। शिवाजी का उद्देश्य केवल मराठा-राज्य में स्वराज्य-स्थापना करने का था, अथवा वह सारे भारतवर्ष में भी हिन्दू स्वराज्य-स्थापना करना चाहता था, इसके विषय में भले ही थोड़ा-बहुत मतभेद हो, यह भी भले ही कहा जाय कि समय के अनुसार शिवाजी ने कदाचित अपना उद्देश्य बदला होता, तथापि एक बात तो स्पष्ट रीति से कही जा सकती है कि जिस

क्रम से बाजाजी विश्वनाथ और बाजीराव इत्यादि लोगों ने महाराष्ट्र के राज्य का प्रसार किया वह क्रम शिवाजी का न था और मराठी सत्ता के लिए अन्त में बड़ा घातक हुआ। घर के दरवाजे के पास प्रबल शत्रु बने रहने देना परन्तु दूर के मुल्कों पर चढ़ाई करके वहाँ अपनी सत्ता स्थापित करना, अथवा दिल्ली को अपने कब्जे में करके मराठा-राज्य का सुख-स्वप्न देखना, राजनीति के ही नहीं किन्तु सामान्य नीति के भी विरुद्ध जान पड़ता है। निजामुलमुल्क ने प्रारम्भ से ही मराठों की घरुवातों में दूर से ही जितना हस्तक्षेप किया, मराठों को आपस में लड़ाया और इस प्रकार अपना लाभ सिद्ध किया, यह किस प्रकार बाजीराव की दृष्टि में न आया, यह आश्चर्य की बात है। यह तो कह ही नहीं सकते कि निजामुलमुल्क इतना भारी शत्रु था कि बाजीराव उसे हरा नहीं सकता था। स्वयं बाजीराव ने निजाम को एक-दो बार अच्छी तरह परास्त किया। यदि वह मालवा और गुजरात जैसे दूर के प्रान्त जीत सकता था और इनकी विजय में बाधा करने पर निजामुलमुल्क को हरा सकता था, तो वह निजामुलमुल्क के राज्य को भी नष्ट करने की ताकत अवश्य रखता था। ऐसी स्थिति में निजामुलमुल्क को क्यों बचा दिया, यह बड़ा भारी प्रश्न है। नर्मदा-पार राज्य घटाने की अपेक्षा यदि मराठों ने उसके दक्षिण की ओर का सारा मुल्क अपने कब्जे में करने का प्रयत्न किया होता तो बहुत लाभदायक होता। इस मुल्क में इनका जो शासन स्थापित होता वह अधिक सुदृढ़ होता और उनकी सत्ता बहुत दलवर्ती होती। जागीरदारी की प्रथा और आनुवंशिक पद्धति भी अमल में आने पर उसकी शक्ति सन् १७६० के समय की शक्ति की

अपेक्षा बहुत अधिक रहती। इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र के इतिहास-संशोधक श्री वासुदेव वामन खरे ने जो कहा, वह बहुत कुछ ठीक है। वह कहते हैं कि “यदि सरंजाम (जागीर) मिलने की इच्छा से प्रदेशों के वाद प्रदेश जीतकर राज्य बढ़ाने को महत्वाकांक्षा सरदारों को न हुई होती, अथवा ऐसा करने के लिए छत्र-प्रति महाराज ने उत्तेजना न दी होती, और उसके बगले यह कहा होता कि जितना राज्य है उसकी व्यवस्था पहले कर लो, उसके भीतरी झगड़े दूर करके क़ायदे-क़ानून का प्रचार करो और उसकी उन्नति करो, तो राज्य अवश्य न बढ़ता, परन्तु जितना था उतना बलवान और स्थायी हो गया होता। मनमानी चढ़ाई करने के और अपनी तलवार की वहादुरी प्रकट करने के फंदे में पड़कर मराठे सरदारों को लाहौर पर चढ़ाई करने का अवसर तो मिल गया, पर जो वालाघाट का प्रदेश साधु-सन्तों का जन्मभूमि और त्रास्तविक प्राचीन महाराष्ट्र कहा जा सकता है, वह तथा पैठण, औरंगाबाद, नांदेड़, जालना, बीड़ आदि प्रदेश अधिकृत करने का अवकाश मराठों को न मिला। शांति के समय में मराठों का राज्य सब ओर था, पर अशान्ति के समय में कहीं नहीं था। ऐसी दशा होने का कारण यही था कि मराठों के अधिकार में कोई भी प्रान्त पूर्णतया कभी नहीं आया। कोई-कोई कहते हैं कि मराठों का नाश होने का कारण यह है कि शाहू के समय से उनमें आपस में मेल या प्रेम नहीं देख पड़ता था और उनमें स्वदेशाभिमान नहीं रह गया था। महाराष्ट्रियों में ये दोष स्वाभाविक न थे; किन्तु जिस प्रकार मराठा-राज्य का प्रसार, शासन आदि हुआ, उससे ये दोष पैदा हुए थे। जहाँ कहीं आनुवंशिक जागी-

द्वारी की प्रथा उत्पन्न होती है वहाँ आपसी लड़ाई-झगड़े सर्वद्वैत बहुत अधिक होते हैं। इस कथन के प्रमाण के लिए बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं। १५ वीं शताब्दी में इंग्लैण्ड में 'बार्स आफ दी रोज़ेज़' नामक जो युद्ध हुए, वे इसके अच्छे प्रमाण हैं। बालाजी विश्वनाथ ने तो सब जागीरदारों के स्वार्थ को एक सूत्र में गूँथने का प्रयत्न किया था; पर बाजीराव के समय मराठी सत्ता का प्रसार जिस मनमाने ढंग से हुआ, उसमें प्रत्येक जागीरदार का स्वार्थ मुख्य सत्ता से अथवा दूसरे सरदारों के स्वार्थ ने सर्वद्वैत स्वतंत्र रहा। जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, ये सरदार अपनी-अपनी जागीरों में एक अच्छे बलवान राजा से किसी प्रकार कम न थे। स्वतंत्रता-पूर्वक अपनी सत्ता और राज्य बढ़ाने में और पेशवा या अन्य किसी मराठा सरदार की परवाह न करने में ही उनका स्वार्थ था। जब स्वार्थ बलवान हो जाता है तो उसका विरोधी स्वदेशाभिमान अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। पेशवों के समय में महाराष्ट्रियों में स्वदेशाभिमान नाम को न था, ऐसा प्रतिहान ने सिद्ध नहीं होता। पानीपत की लड़ाई में मराठा-सैन्य के लिए जो अनेक सरदार एकत्र हुए उनमें स्वदेशाभिमान को नामा न थी, ऐसा कहना उनके साथ अन्याय करना होगा। पर दुरुधा उनका स्वार्थ इतना बलवान होता था कि उसके सामने स्वदेशाभिमान की प्रवृत्ति की हुई भी नहीं चलती थी। यदि मराठों ने अपनी सत्ता का प्रसार मनमाने ढंग में न किया होता, यदि वे शिवाजी के उद्देश्य को एकदम न उलट देंते, तो मराठी सत्ता इतनी शीघ्र नष्ट न हुई होती। पर पेशवों ने तो मराठी सत्ता का प्रसार ऐसे स्थानों में किया कि जहाँ महारा-

राष्ट्रियों की संख्या नाम को न थी; और ऐसे ढग से किया कि शासित लोगों का उनके लिए किसी प्रकार का प्रेम न हो सका। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि उनसे केवल उत्तर-हिन्दुस्थान के मुसलमान ही नहीं किन्तु हिन्दू भी लड़ते थे; और आश्चर्य नहीं कि राजपूतों जैसे कट्टर शूरवीर और स्वदेशाभिमानी हिन्दुओं ने पानीपत की लड़ाई के समय मराठों को कुछ भी मदद न दी। इतिहास से यह नहीं देख पड़ता कि उत्तर-हिन्दुस्थान में जो मराठी सत्ता प्रस्थापित हुई, उसका स्वरूप मुसलमानी राज्य से बहुत भिन्न था। हम यह बतला ही चुके हैं कि मराठे सरदारों की सेनाओं में इस समय महाराष्ट्री तो बहुत कम थे, पर अरबी, पुराबये आदि लोग अधिक थे। इन लोगों में न तो महाराष्ट्र का अभिमान था और न भारतवर्ष का ही। वे तो केवल रुपये के लोभ से सैनिक चाकरी करते थे। उन्हें लोकहित का खयाल रहना सम्भव न था। उनके कारण मराठों का शासन मुसलमानों के शासन के समान जान पड़ता था। वे प्रजा को नाना प्रकार के कष्ट देते और लूट-मार करते थे। होलकर ने अपनी सेना के साथ पिण्डारियों को रहने देने की आज्ञा देकर अपने को भी लुटेरों में शामिल कर लिया था। ऐसे शासकों का शासन लाख प्रयत्न करने पर भी और हजारों साल रहने पर भी बहुत काल तक नहीं टिक सकता। सारांश में यह कह सकते हैं कि मराठों का राज्य लूट-मार करने वाली फौजी छावनी का ही राज्य था।

विचार करने की बात है कि जिस पद्धति का उपयोग शिवाजी ने अपने प्रारम्भिक काल में किया और राज्य के स्थापित होते ही उसके भीतर उसे उसने न चलने दिया, उसका उपयोग पेशवे लोग

अन्य सत्ता के प्रदेश में ही नहीं किन्तु स्वयं मराठी सत्ता के प्रदेश में और कभी-कभी स्वयं अपनी जागीर के अन्दर भी अन्त तक करते रहे।

लूटमार का दोष

जब इस पद्धति से पहला दोष जो उत्पन्न हुआ, वह यह था कि मराठों के विषय में महाराष्ट्र में और महाराष्ट्रेतर मुल्क में आत्मीयता का भाव न रह गया था। जिस पद्धति का उपयोग शिवाजी ने आवश्यकता के कारण किया उसका उपयोग पेशवे और उनके सरदार जब अन्त तक करते रहे तब स्वदेशाभिमान की भावना लोगों में बर्धोकर हो सकता था ? इस पद्धति का एक घुरा परिणाम यह भी हुआ कि मराठों के किसी कार्य में अच्छी व्यवस्था न रह गई थी। लूट-मार हा जहाँ सैनिकों का उद्देश्य होता वहाँ कौनसा कार्य सिद्ध हो सकता था !

उपर्युक्त सब दोषों के परिणाम-स्वरूप एक और दोष उत्पन्न हो गया था, जिसके बहुत घुरे परिणाम हुए। अनेक सरदारों में जागीरदारों की प्रथा का किसी बात की एकता होना सम्भव न था, और जब कभी वे एकत्र होते भी तब यह प्रश्न उपस्थित होता कि अनुवा कौन रहे। और यदि किसी प्रकार एक पुरुष नेता नियत हो भी जाता, तो उसकी आज्ञा दूसरे सरदारों की तौर से नहीं मानते थे। मराठों में बेल-जाल नहीं था, वे एक पुरुष की आज्ञा मानने को तैयार न थे, उनमें व्यवस्था न थी, इत्यादि बातें कई लोग कहा करते हैं; परन्तु वे लोग यह भूल जाते हैं कि आहुवंशिक जागीरदारी की प्रथा यदि अमल में न आती। यदि लूटमार की प्रथा को वे अपने प्रदेश में न चलाते तो उपर्युक्त दोष उनमें न देख पड़ते।

यदुनाथ सरकार ने मराठी सत्ता के विनाश का एक कारण यह बतलाया है कि मराठे लोग पेशवाई के समय छल-कपट का उपयोग अधिक करने लगे थे, उनके छल-कपट का अत्यधिक उपयोग वचनों का कोई ठौर-ठिकाना न रहा था और अपने स्वार्थ के लिए वे चाहे जिस समय चाहे जैसा आचरण करते थे। यह दोष तो सब को स्वीकार करना होगा, पर इसका यह मतलब नहीं कि मराठों का यह जाति-स्वभाव था। शिवाजी के नियमों का उल्लंघन करने पर जो ये दोष पैदा हुए और उनके जो-जो परिणाम हुए, उन्हींमें से यह भी एक था। स्वार्थ एक ऐसी वस्तु है कि वह मनुष्य से चाहे जो करा सकती है, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि जिस समय स्वार्थ का कलह महाराष्ट्र में सर्वत्र हो रहा था उस समय अपने स्वार्थ के रक्षण अथवा वर्धन के लिए लोग छल-कपट का बहुत अधिक उपयोग करते थे।

मराठी सत्ता के विनाश का दोष कुछ लोग हिन्दुओं की जाति-व्यवस्था अथवा हिन्दू-धर्म की पुरानी प्रवृत्ति पर मढ़ा करते हैं। ये दोनों कारण बहुत विवादास्पद हैं। श्री यदुनाथ सरकार अपने शिवाजी के चरित्र में कहते हैं कि शिवाजी और प्रथम बाजीराव की विजयों से हिन्दू-समाज और धर्म की पुरानी प्रवृत्तियों ने सिर उठाया और छोटे-बड़े, ऊँच-नीच लोगों के एकीकरण को एक न होने दिया। इस प्रकार उनकी विजयों में ही मराठी सत्ता के विनाश का बीज भी था। देश में शान्ति स्थापित होने पर वे मुसलमानी अत्याचारों की बातों को भूल गये और

एक वर्ग दूसरे वर्ग के विरुद्ध होने लगा। सह्याद्रि के पूर्व के ब्राह्मण उसके पश्चिम के ब्राह्मणों से और पर्वत के रहने वाले मैदान के रहने वालों से घृणा करते थे, क्योंकि अब कोई बाहरी दर न रह गया था। पेशवा के पूर्वज कोंकणस्थ ब्राह्मण किसी समय समाज में बहुत हीन वंशा के थे, इसलिए देशस्थ ब्राह्मण उनसे द्वेष करते थे। इस प्रकार चितपावन और देशस्थ ब्राह्मणों में सर्वदैव भगड़ा चला जाता था। इसी प्रकार ब्राह्मण सरदार और कायस्थ चिटनीस या कारकून सर्वदैव लड़ा-भगड़ा करते थे। इसी प्रकार मराठे जाति के लोगों में और ब्राह्मणों में लड़ाई-भगड़े जारी थे। ब्राह्मणों को कायस्थों की बुद्धि और सुन्यागिरी ने ईर्ष्या होती थी, इसलिए उन्होंने यह नियम कर दिया कि कायस्थ वेद-कर्म के अधिकारी नहीं हैं। जिस बालाजी आदजी ने अपने लड़के का जनेऊ कराया उसका उन्होंने सामाजिक बहिष्कार किया। इन बातों से यह स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में शिवाजी के समय में जाति-भेद अपना अस्तर दिखा रहा था और पेशवों के समय में तो इसने बहुत ही अधिक सिर उठाया। इससे लोगों में बहुत ज्यादा भेद-भाव पैदा हुए और उसका परिणाम राजकीय बातों पर होकर मराठी सत्ता मुड़क न हो सकी। ऊँची सरकार मराठाय के मत का जो मारांश हमने दिया है, उसमें बहुत-कुछ सच्चाई है। हम भी मानते हैं कि पेशवों के समय में जाति-भेद के परिणाम बहुत दिखाई देने लगे थे और उनमें सामाजिक एवं राजकीय बातों में भेद-भाव दीप्त पड़ने थे। पेशवों पर ब्राह्मणों



के साथ भी पक्षपात करने का दोष मढ़ा जाता है। सम्भवतः इस अभियोग में भी कुछ सच्चाई हो। पर इतना सब मानते हुए भी, हम यह नहीं मान सकते कि इसका मराठी सत्ता पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि वह उसके विनाश का एक महत्वपूर्ण कारण हो गया। पृथ्वी पर ऐसा कोई देश नहीं कि जहाँ किसी न किसी समय किसी न किसी प्रकार के वर्ग-भेद न रहे हों। जहाँ जाति-भेद की प्रथा नहीं थी, वहाँ भी लोगों में कुछ न कुछ भेद अवश्य दीख पड़ते थे। प्रमाण के लिए अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली के सुलतान पठानों के दरवारों में, फिर वहमनी-राज्य के दरवारों में, फिर मुगल बादशाहों के दरवारों में मुसमानों में जाति-भेद का अभाव होने पर भी देशी और परदेशी, ईरानी और अफगानी, मुगल और तुर्क, हवशी और दक्षिणी, शिया और सुन्नी जैसे भेद और उपभेद देख पड़ते थे; और इन भेदों और उपभेदों के अनुसार दरवारों में दलबन्धियाँ होती थीं। जिस दल के हाथ में राजसत्ता किसी प्रकार आ जाती वह उसका अपने विरोधियों को गिराने में अवश्य उपयोग करता था। जो बात हमें भारतवर्ष के मुसलमानी काल के इतिहास में दीख पड़ती है वही हमें इंग्लैण्ड जैसे किरस्तान देश के इतिहास में भी दीख पड़ती है। सार यह है कि समाज में वर्ग-भेद और पक्ष-भेद होना मानवी स्वभाव का ही दोष है। हमारा कहना यह नहीं है कि राज्य के आयुष्य पर इसके बुरे परिणाम नहीं होते। हमारा कहना केवल इतना ही है कि महाराष्ट्र के जाति-भेद की बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं कि हम यदुनाथ सरकार से सहमत हो सकें और मराठी सत्ता के अल्पायुषी होने का सब दोष उसीके मत्थे मढ़ें।

सकें। जिसे इस बात की सचाई की छानबीन करनी हो, वह इन बातों पर अवश्य ध्यान दे कि पेशवों ने जाति-भेद को अपने कार्यों में कहाँ तक उभाड़ा। इसके विरुद्ध एक ज्वलन्त प्रमाण बतलाया जा सकता है। नारायणराव पेशवा को मारने का दोष जिन ४९ पुरुषों पर लगाया गया है, उनमें से २४ इच्छिणी ब्राह्मण, २ सारखत, ३ परभु, ७ मराठे, ५ मुसलमान और ८ उत्तर-हिन्दु-स्थानी थे। इससे यह तो अवश्य सिद्ध होता है कि पेशवे जाति-भेद के पक्षपाती न थे। यही बात बाजीराव के सातारा के छत्रपति को लिखे हुए पत्र से सिद्ध होती है। उसमें यह साफ लिखा है कि जाति-भेद के कारण किसी प्रकार का पक्षपात न होना चाहिए; राज्य की जो अच्छी चाकरी करे, उसीकी वृद्धि की जाय। देशाथ और वीरगणस्थ, कन्हाड़े और परभु, शैखवी और मराठे, सब आपके सामने एकसे हैं। उनकी योग्यता का नाप उनकी जाति नहीं किन्तु चाकरी होनी चाहिए। ❀ जाति-भेद पर मराठी सत्ता के विनाश का सारा दोष मढ़ने वालों के लिए उपर्युक्त दो प्रमाण अच्छा उत्तर है।

श्री गोविन्द सखाराम सरदेसाई ने मराठी सत्ता के विनाश का यह दोष तरहवीं और चौदहवीं सदी की धार्मिक जागृति पर मढ़ा है। वह कहते हैं कि इस जागृति के कारण शास्त्र और कला की उन्नति रुक गई। हेनाद्रि को वह, इसके लिए, सबसे अधिक जिम्मेदार समनते हैं। हेनाद्रि ने पूर्वकालीन शास्त्र

१ श्री गोविन्द सखाराम सरदेसाई: 'टी मैन कॅण्ट ऑफ़ दी मराठी सिद्धी', पृ १८०।

और स्वकालीन आचार-विचार के आधार पर “चतुर्वर्ग-चिन्ता-मणि” नामक अपना बृहद्ग्रंथ बनाया और उसमें भिन्न-भिन्न प्रकार के लोगों के लिए दैनिक आचार की सैकड़ों बातें लिख डालीं। श्री सरदेसाई का कहना है कि इस ग्रंथ के आचारों से महाराष्ट्रियों का जीवन इतना जकड़ गया कि उन्हें अन्य किसी बात का विचार करने का अवकाश ही न रहा। रात-दिन धर्माचार के सिवा लोगों को और कुछ काम करने के लिए इस ग्रंथ ने अवकाश ही न रक्खा। उनके कथन की सत्यता को पूरी तरह मानना किसी भी इतिहासज्ञ के लिए कठिन है। एक बार यदि उनके तर्कों को मान भी लें, तो उनसे यही सिद्ध होगा कि जिस रामदेवराव श्यादव का हेमाद्रि प्रधान सेनापति था उसके विनाश के लिए कदाचित् वह जिम्मेदार हो। हेमाद्रि ने धार्मिक आचार-विचार की ओर अधिक और सैनिक व्यवस्था की ओर कम ध्यान दिया। इससे रामराव के राज्य का पतन बहुत शीघ्र हुआ। इन सब बातों को हम पहले ही मान चुके हैं। यह भी मानने में हमें विशेष कठिनाई नहीं कि हेमाद्रि के ग्रंथ का महाराष्ट्र के समाज पर खूब परिणाम हुआ है। परन्तु यह मानना वास्तव में कठिन है कि हेमाद्रि अथवा उसके जैसे अन्य धर्म-ग्रंथकार शिवाजी के बाद की महाराष्ट्र की सत्ता के विनाश के लिए किस प्रकार जिम्मेदार हो सकते हैं। यदि हेमाद्रि जैसे लोगों के विचारों का समाज के मन पर खूब पक्का बन्धन होता और उस बन्धन का परिणाम मराठी सत्ता पर बहुत बुरा हो सकता, तो शिवाजी के समय में मराठों का उदय ही न होता। हम यह दिखला चुके हैं कि समाज की तैयारी होने पर ही शिवाजी जैसे

पुरुष का जन्म हुआ और वह अपने कार्य में सफल हो सका। यदि समाज की तैयारी न होती, तो शिवाजी के हजार सिर पटकने पर भी उससे कुछ न बन पड़ता। फिर पेशवाई के समय में तो लोगों का बहुतेरा समय राजकीय बातों और सैनिक कार्यों में जाता था। उस समय का इतिहास इस बात का प्रमाण है। यदि महाराष्ट्रीय लोग धार्मिक आचार-विचार में ही लगे रहते, तो दिव्हा-दल की नाई सारे भारतवर्षमें आक्रमण करने को कहां समय कहां मिलता? इसलिए यह कहना कि लोग अपना सारा समय धार्मिक आचार-विचार में दिताने थे और इस कारण उन्होंने भौतिक उन्नति न की, इतिहास से निवृत्त नहीं होता। १७ वीं और १८वीं सदी में तो मराठे लोग राज्य-प्रसार में लगे हुए थे। भौतिक उन्नति की गति इसमें बहुत पहले, सम्भवतः १०वीं शताब्दी के पहले ही, बन्द हो चुकी थी।

यह तो हम मानते हैं कि हिन्दुस्थान में भौतिक प्रगति रुकी रही और यूरोप के देशों में १५वीं शताब्दी के बाद उसने बहुत अधिक विकास किया। जदनक मराठों का केवल मुसलमानों का सामना करना पड़ा, तबतक वे सदैव सफल होते रहे; पर अंग्रेजों का सामना करने पर, भौतिक शक्तों की उनकी कमी से, इन यूरोपियों के सामने उनकी कुछ गति नहीं रही। यूरोपियों के जहाज, बन्दूकें, तोप, बारूद, गैला आदि सब वस्तुयें मराठों की वस्तुओं से अच्छी होती थीं; और मराठों का इन वस्तुओं के लिए यूरोपियों पर ही अवलम्बित रहना पड़ता था। मराठों ने कभी यह जानने का प्रयत्न भी न

नी परिस्थिति के लिए आवश्यक ज्ञान, सामग्री और सेना का अभाव

किया कि नवीन युद्ध-सामग्री बनाने के लिए किस-किस ज्ञान की आवश्यकता है; फिर उस ज्ञान को प्राप्त करने की तो बात ही कहाँ ? मराठों ने बन्दूक, बारूद, गोला आदि बनाने के कारखाने खोले, उनके संचालन का काम उन्होंने यूरोपियनों के जिम्मे ही रक्खा और उस काम का ज्ञान अपने आदिमियों को सिखलाने का प्रयत्न न किया । इस बात के जो बुरे परिणाम हुए, उनका दिग्दर्शन हम पहले कर चुके हैं । इस दृष्टि से भौतिक-शास्त्रों की ओर, विशेष कर युद्ध-सामग्री की उत्पत्ति के ज्ञान की ओर, दुर्लक्ष्य करने का दोष मराठों के सिर अवश्य मढ़ा जा सकता है । इस दोष के कारण मराठों के सैनिक बल में अंग्रेजों के सैनिक बल के मुकाबले सदैव भारी कमी बनी रही । इस कमी के साथ-साथ मराठों की सैनिक व्यवस्था में भी बड़े भारी दोष बने रहे । अंग्रेजों से लड़ने के लिए जिस प्रकार की दक्ष सेना की आवश्यकता थी, उस प्रकार की फौज मराठों के पास न थी; और जो कुछ थोड़ी-बहुत दक्ष सेना शिन्दे जैसे एक-दो सरदारों ने तैयार की थी, वह अंग्रेजी फौज जैसी न थी । इसपर भी मराठों ने एक बुराई और की कि अपनी दक्ष सेनाओं के सेनापति उन्होंने सदैव यूरोपियन रक्खे और मराठे सेनापतियों को दक्ष सेना के सेनापति का काम न सिखाया । मराठों की सैनिक व्यवस्था का सविस्तर वर्णन हम अन्यत्र कर ही चुके हैं; और उसके दोषों के जो बुरे परिणाम हुए, उन्हें भी हम अच्छी तरह दिखा चुके हैं । मराठी सत्ता के विनाश के कारणों में से किसी एक को यदि प्रधानता देनी हो तो वह मराठी सैनिक व्यवस्था के दोषों को ही दी जा सकती है । हम यह दिखला ही चुके हैं कि शिवाजी के

मराठी सत्ता का विनाश शासन-नियमों को उलट देने से मराठा-राज्य में कई बड़े-बड़े आन्तरिक द्रोप पैदा हुए। उनके कारण राज्य की नींव काफ़ी ढीली हो चुकी थी। तब मराठों का अंग्रेज़ों की सुव्यस्थित सेना से सामना हुआ, इसलिए मराठा-राज्य की इमारत बहुत शीघ्र गिर पड़ी। इस विनाश के लिए अन्य कुछ कारण परिपोषक रूप में घतलाये जा सकते हैं, पर मुख्य कारण यही हैं। मराठों की निकरमी प्रौज पहले से ही निकरमा बनी हुई मराठी सत्ता को किसी प्रकार नहीं बचा सकती थी।

अब हम मराठी सत्ता के विनाश के कुछ परिपोषक कारणों का विवेचन करेंगे। इस प्रकार का एक पैना कारण हुआ कि दो पेशवों की अकाल मृत्यु हुई और प्रथम साधवराव के समय में द्वितीय बार्जा-

राज्य तक पेशवाई के लिए गृह-कलह होते रहे। इन बातों का मराठी सत्ता पर काफ़ी बुरा परिणाम हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफ़ेसर एफ़ ने जो यह लिखा है कि साधवराव पेशवा की अकाल-मृत्यु मराठों के लिए पानीपत के युद्ध के समान घातक हुई, सो बिल्कुल ही ठीक है; क्योंकि साधवराव पेशवा की मृत्यु के बाद राज्य में जो अव्यवस्था, सैनिक प्रबन्ध में टिंटाई और दुर्बलता शुरू हुई वह मराठा-साम्राज्य के अन्त तक नष्ट न हुई। सवाई साधवराव यदि प्रौढ़ावस्था का होता और साधवराव के समान ही विद्वान्-दृष्टि एवं साहसी होता, तो इस प्रकार की अव्यवस्था कभी न उत्पन्न होती। परन्तु सवाई साधवराव को वास्तव समझ, उनके मन में गृह-कलह का मूत्रपात होता हुआ और अंग्रेज़ों की सत्ता बढ़ने की कार्रवाई को देख कर, चारों ओर चिन्तनी

खड़े हुए। ये विद्रोही कोई भुखमर चोर नाथे। इनमें से कुछ तो राजा थे और उनके पास हजार-हजार पाँच-पाँच सौ सवार तथा किले थे। बारह भाइयों के द्वारा रघुनाथराव का उच्चाटन होने के समय से सालवाई की सन्धि होने तक, सात-आठ वर्षों के समय में, इन विद्रोहियों ने प्रजा में त्राहि-त्राहि मचा दी। कृष्णा नदी के उस ओर कोल्हापुर-राज्य के दंगे, कित्तर, शिरहट्टी और डम्बल में देसाइयों के दंगे, नासिक और खानदेश में भीलों के दंगे, पूर्व की ओर सुरापुर के वेरणों का दंगा, सातारा प्रान्त में रामोशियों का दंगा, पूना और जुन्नर प्रान्त में कोलियों के दंगे, एक नहीं किन्तु अनेक स्थान में होते थे। इन भगड़ों के वायु-मण्डल में पटवर्धन, रास्ते, विंचूरकर आदि सब सरदारों का सरंजाम फँसा पड़ा था, जिससे इन सरदारों की बहुत दुर्दशा हो गई थी। राज्य के कर की वसूली नहीं होती थी, पर सेना के लिए खर्च की आवश्यकता होती थी। ऐसी दशा में सरंजामी सरदार “किं कर्तव्य विमूढ” बन गये। अंग्रेजों से युद्ध करने के समय प्रत्येक सरंजामदार यही विचार करता था कि ‘यदि मैं अंग्रेजी सेना पर आक्रमण करूँगा, तो या तो वे मेरी सेना को काट डालेंगे, या वह पीछे भाग आवेगी; यदि इस घड़ी भर के खेल में मेरे ५०० घोड़े मारे गये, तो मैं क्या करूँगा? ५०० घोड़ों का मूल्य ३ लाख होता है। इस घड़ी भर के जुए के खेल में ३ लाख रुपये इस तरह लगा दूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा? सरकार तो मुझे देने से रही, क्योंकि खुद उसकी दशा शोचनीय हो रही है; और दंगे के कारण सरंजाम से कर वसूल नहीं होता। फिर यह मूल्य मैं कहाँ से चुका सकूँगा? कल यदि शिलेदार आकर मेरा दरवाजा खटखटायगा कि

या तां घोड़ा लाओ या उसके दाम दो, तो मैं कहीं से दूँगा ?  
 ऐसे समय प्राण ही देने पड़ेंगे । अतः यही अच्छा है कि साहस  
 बलवाने के भगड़े में मैं न पहुँ और पीछे ही पीछे बन्ता रहूँ । ११

वालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद कभी शासन-सूत्र अपने  
 हाथ में रखने के लिए, कभी आधी पेशवाई के लिए, और कभी  
 स्वयं पेशवा होने के लिए राघोबा ने

राघोबा रफ़ रघुनाथराव अनेक बार जो भगड़े किये, उनसे मराठी  
 सत्ता की इमारत बहुत-कुछ टिल गई । राघोबा स्वार्थ-सिद्धि के  
 लिए मराठी सत्ता के शत्रु निज़ाम ने कई बार निला और उससे  
 सन्धियाँ करके मराठा-राज्य और सत्ता पर उनसे बहुत भारी  
 हानि पहुँचाई । आपसी कलह मिटाने के लिए माधवराव पेशवा  
 ने राज्य का कारवार उसके हाथ में कई बार दिया । राघोबा ने इन  
 अवसरों से लाभ उठाकर अच्छे-अच्छे कर्मचारियों को अनेक  
 प्रकार के दण्ड दिये और उनके स्थान में अपने निकम्मे लोग  
 नियत किये । यह कोई भी जानता है कि अयोग्य कर्मचारियों  
 से राज्य-शासन में अनेक हुराहुरियाँ पैदा होती हैं । राघोबा के कार-  
 वार के समय वे सब देख पड़ीं । फिर सन् १७७५ में राघोबा ने  
 सूरत की जो सन्धि की और अंग्रेजों-मराठों का जो बड़ा भारी  
 अनादरयक युद्ध छिड़वा दिया, उससे मराठों की शक्ति बहुत कुछ  
 नष्ट हो गई । उसके बाद फिर उसके लड़के बाजीराव ने सन्  
 १८०० में दसई की सन्धि करके महाराष्ट्र की स्वतंत्रता सदा के



लिए नष्ट कर दी। प्रारम्भ में हमने विनाश के जो छः-सात कारण बतलाये हैं, उनसे यह तो स्पष्ट है कि मराठी सत्ता का पतन कभी न कभी अवश्य होता; मगर यह भी उतना ही सत्य है कि मराठी सत्ता के जर्जर शरीर का रघुनाथराव और उसके पुत्र वाजीराव ने बहुत शीघ्र विनाश कर डाला। इन्हीं पिता-पुत्रों के कारण मराठों को अंग्रेजों से लड़ना पड़ा था। यदि ये अंग्रेजों की शरण में न गये होते तो मराठों-अंग्रेजों के इतिहास-प्रसिद्ध तीन युद्ध १९ वीं सदी के मध्य तक अवश्य टल जाते और मराठों का राज्य किसी न किसी रूप में आज अवश्य बना रहता। कोई-कोई इसपर यह कहेंगे कि अंग्रेजों की सहायता लेने का दोष बेचारे रघुनाथराव और वाजीराव के मथे ही क्यों मढ़ा जाय ? इस दोष के दोषी इनसे पहले भी हुए हैं और नाना फड़नवीस जैसे चतुर पुरुषों ने भी अंग्रेजों से सहायता ली है तथा देशी राजाओं का उनकी सहायता से विनाश किया है। क्या बालाजी वाजीराव ने सन् १७५५ में यानी सूरत की सन्धि के २० वर्ष पहले अंग्रेजों की सहायता से अपने मराठे सरदार तुलाजी आंग्रे का विनाश नहीं किया ? क्या नाना फड़नवीस ने अंग्रेजों की सहायता करके टीपू को नष्ट नहीं किया ? क्या इन लोगों ने ये कार्य स्वदेशाभिमान की प्रेरणा से किये ? इन आक्षेपों का सीधा और सरल उत्तर यह है कि देशी सत्ता को नष्ट करने का कार्य विदेशी सत्ता की सहायता से चाहे बालाजी वाजीराव करे या रघुनाथ राव करे, चाहे नाना फड़नवीस करे या वाजीराव करे, चह गहर्णीय ही है। हम मानते हैं कि मनुष्य में स्वार्थ-बुद्धि स्वाभाविक ही होती है। वह स्वार्थ-बुद्धि रघुनाथराव और वाजी-

राव के समान केवल बालाजी बाजीराव में ही नहीं किन्तु नाना फड-  
नवीस में भी थोड़ी-बहुत श्री और उसकी प्रेरणा से पहले दो  
पुरुषों के नमान अन्तिम दो पुरुषों ने भी कार्य किये हैं। पर  
जिस प्रकार एक के बुरे कार्य करने से दूसरे को बुरे कार्य करने  
का आधार नहीं मिलता, उन्ही प्रकार बालाजी बाजीराव या नाना  
फडनवीस के अनुचित कार्यों से रघुनाथराव या बाजीराव के  
अनुचित कार्य उचित नहीं हो जाते। यह स्मरण रखना चाहिए  
कि दोष दोष ही होता है, फिर उसका करने वाला कोई भी  
क्यों न हो।

मराठों के विनाश के उपर्युक्त कारणों के अलावा देव भी  
उन्हे प्रतिशूल था। जिस समय अंग्रेजों और मराठों की मुठभेड़  
हुई, उस समय अंग्रेजों के पैर भारतवर्ष में  
द्वैत-दुर्विपाक  
अच्छे जम गये थे। प्रसिद्ध इतिहास-

लेखक सर आलफ्रेड लापल ने भी स्वीकार किया है कि यदि  
सन् १७७५ के कुछ पहले इन दोनों के बीच लड़ाई छिड़ी होती  
तो उसका परिणाम अंग्रेजों के लिए बहुत घातक होता। मराठों  
के पतन और अंग्रेजों के उदय का संक्रमण हुआ, इसमें  
अंग्रेजी सत्ता को घटने का अवसर मिला। इस समय अंग्रेजों में  
लड़ने की क्षमता मराठों से बहुत कम रह गई थी और १८ वीं  
शताब्दी के अन्तिम कुछ वर्षों के भीतर ही मराठों के योग्यतम लोग  
मर गये और उनके अधिकार अयोग्य लोगों को मिल गये।  
सन् १७९९ की १२ फरवरी को महादजी की मृत्यु हुई। चार  
माहों बाद हरिप्रसाद फडके भी चल बसे। सन् १७९७ में तुको-  
जी होलकर न रहा। दो वर्ष बाद पुरुषोत्तम भाऊ शिवरथन भी

उसी मार्ग का प्रवासी हुआ। और सन् १८०० के १३ मार्च को नाना फडनवीस की मृत्यु होने से शिवाजी के मराठा-राज्य का सूर्य सदैव के लिए अस्त हो गया। इस चतुर पुरुष की मृत्यु के बाद शासन के सूत्र पूरी तौर से द्वितीय बाजीराव और उसके मुँहलगे लोगों के हाथ में चले गये। उस समय का शासन राज्य-शासन न था। बाजीराव ने वसई की सन्धि के पहले से ही अपने हाथ-पैर अंग्रेजों के हाथों में दे दिये थे और अपनी स्वतंत्रता पूरी तौर से खो चुका था। नाना फडनवीस का बड़े परिश्रम से संचित किया हुआ खजाना उसने थोड़े ही वर्षों में फूँक दिया। फिर द्रव्य के लिए उसने पहले की जमावन्दी की प्रथा को पलट दिया। पहले जमावन्दी की वसूली प्रत्यक्ष सरकारी कर्मचारी करते थे। बाजीराव ने अब उसके स्थान में ठेकेदारी की प्रथा शुरू की। ठेकेदार लोग रैय्यतों पर मनमाना अत्याचार करते थे, इसलिए लोगों के मन में पेशवाई के लिए कुछ भी प्रेम न रह गया। इधर बाजीराव इस प्रकार पाया हुआ धन ब्राह्मण-भोजनों में उड़ाने लगा। दफ्तर की ओर उसका कुछ भी ध्यान न रहा, इसलिए वहाँ भी मनमानी होने लगी। सारांश यह है कि बाजीराव के समय में शासन का कुछ भी ठौर-ठिकाना न रहा। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि बाजीराव को प्रजा से बहुत कम मदद मिली और जब पेशवाई का अन्त हुआ तब सामान्य प्रजा को कुछ भी दुःख न हुआ। अपनी स्वतंत्रता खो देने पर ऐसी स्थिति में उसे फिर से प्राप्त करने का उपाय करना बाजीराव-जैसे मूर्ख-शिरोमणि का ही काम था और उसका उसे जो फल मिलना चाहिए था वही मिला। दो पेशवों की अकाल-

मृत्यु होना, अनुचित गृह-कलह के कारण एक का मारा जाना और बाजीराव जैसे अत्यन्त अयोग्य पुरुष के हाथ शासन-सूत्र का पड़ना केवल दैव-दुर्घिपाक है !

इन्हीं सब कारणों से एक समय वृद्धिगत होवा हुआ मराठों का साम्राज्य कालान्तर में विनाश को प्राप्त हो गया; और आज हमें उससे केवल अदृशोप दृष्टिगोचर होते हैं ।



परिशिष्ट



# वंशावलियां

भोंसले-वंशावलि  
 माणजे भोंसले

शाहजी ✓

समभाजी

शिवाजी महाराज ✓

छत्रोजी [तंजोर वाले]

समभाजी

शाह पच्छा

राजानाम पहगा [कोल्हापुर वाले]

शिवाजी दूसरा  
 १७००-१७१२

समभाजी दूसरा  
 १७१२-१७६०

समराजा

समराजा

सोद लिया  
 शिवाजी तीसरा  
 १७६०-१८१२

शाह दूसरा

प्रतापसिंह

शाहजी


समभूजी  
 १८१२-१८२१

शाहजी  
 १८१२-१८२७

शिवाजी  
 १८१७-१८६६  
 सोद लिया  
 राजानाम दूसरा  
 १८६६-१८७०  
 सोद लिया  
 शिवाजी [चिचम]  
 १८७०-१८८२




चिटणीस-वंशावलि



बहमनी राज्य-वंशावली

अहमदनगर—निज़ामशाही

- ( १ ) अहमद निज़ामशाह ( मृत्यु १५०८ )
- ( २ ) कुतुबान निज़ामशाह ( मृत्यु १५५३ )
- ( ३ ) हुसैन निज़ामशाह ( मृत्यु १५६५ )



बीजापुर—छात्रित्तनाही

गोलकुण्डा—कुतुबशाही

(१) सुल्तान कुली कुतुबशाह (मृत्यु २१ नवम्बर १५४३)

- (४) इब्राहीम कुतुबशाह (मृत्यु १५८०) (२) जमशेद कुतुबशाह (मृत्यु १५५०)
- (५) मुहम्मद कुतुबशाह (मृत्यु १६१२) (३) सुभान कुतुबशाह (मृत्यु १५५०)
- (६) मुहम्मद कुतुबशाह (मृत्यु १६३५)
- (७) अब्दुल कुतुबशाह (मृत्यु १६७२)
- (८) अब्रहसन कुतुबशाह (कैद हुआ १६८७)


बेदर—वरीदशाही

- ( १ ) कासिम बरीद ( मृत्यु १५०४ )
- ( २ ) अमीर बरीद ( ,, १५३९ )
- ( ३ ) अली बरीदशाह ( ,, १५८२ )
- ( ४ ) इब्राहीम बरीदशाह ( ,, १५८९ )
- ( ५ ) कासिम बरीदशाह पहला ( ,, १५९२ )
- ( ६ ) मिर्जा अली बरीदशाह (निकाला गया १५९९)
- ( ७ ) अमीर बरीदशाह दूसरा ( मृत्यु १६०९ )

चरार—इमादशाही

- (१) फ़तेउल्ला इमादशाह (इमादुलमुल्क) (मृत्यु १५०४)
- (२) अलाउद्दीन इमादशाह ( ,, १५२७ )
- (३) दरिया इमादशाह ( ,, १५६२ )
- (४) बुरहान इमादशाह (गद्दी से उतारा गया १५६८)
- (५) तुफ़ैलख़ाँ (कैद किया गया १५७५)

शिष्ट-वंशावलि



शिष्ट-वंशावलि

मोरी विनाय


नरुकी

वि. साठबाबा उपा  
अनाथ

उदित  
(१०००-१३)

१९०१-१९०२

पटवर्धन-वंशावलि



भद्र-राज्य-वंशावलि

विजयराज ( १३५९ )

राजचंद्रिण ( १४७७-१६१६ )

चिह्वा-देवराज ( १६७१-१७०६ )

वंशीराज ( १७०४-१७१६ )

दोदा कृष्णराज ( १७१६-१७३३ )

( गोद लिया ) चामराज ( १७३३-१७४४ )

( गोद लिया ) चिह्वा कृष्णराज ( १७४६-१७६६ )

भंजराज  
( १७६६-१७७९ )  
मारा गया

चामराज  
( १७७९-७६ )

चामराज  
( १७७६-१७९६ )  
चिह्वाजीने चढ़ी पर विद्याया

कृष्णराज तीसरा  
( १७९६-१८६८ )

अर्काट के नवाब की वंशावलि

चन्द्रसाहब

सआदतउल्लाखाँ ( १७१०-१७३२ )

दोस्तअलीखाँ (भतीजा) ( १७३२-१७४० )

सफदरअलीखाँ (मारा गया)

लड़की-हुसेनदोस्तखाना  
( चन्द्र साहब )

मुहम्मदसैयदखाना  
( १७४२-१७४३ )

मुहम्मदअली

अनवरुद्दीन [ १७४३-१७४९ ]


महफूजखान

मुहम्मदअली (१७४९-९५)

उम्दतुलउमर (१७९५-१८०६)

निजाम-हैदराबाद की वंशावलि

निजामुलमुल्क (१७१३-१७४८)



मीर आसदुल्ला  
(अलीजाह)

सिवाजुलजाह  
(१८०६-१८४८)

फारुजुलजाह और पति मद्रुके


शारजाहस्यो निजामुलमुल्क  
का लड़का

निजामुलमुल्क की लड़की

मुजफ्फरजंग (१७५८-१७५९)




नागपूरकर-भोंसले-वंशावलि




# शिन्दे-वंशावलि

## नमोजी सिंधिया (मृत्यु १७५०)




गायकवाड़-वंशावली




निम्बालकर-भाँसले का सम्बन्ध

(भाँसले) भाँग्योजी नाइक



निम्बालकर




भाँग्योजी भाँसले

भराठों का उल्यान और पतन

होलकर-वंशावलि

मल्हार खंडूजी होलकर सुवेदार—स्त्री गौनमावाई  
१६९३—१७६५





उपलब्ध न थे। यह कमी पूरी करने का श्रेय स्वर्गवासी गनपतराव खरे और श्री सदाशिवराव दिवेकर को है। खरे को 'शिवकालीन जंत्रों' तैयार होने के समय से जेधे-शकावलि की मितियाँ तत्कालीन यूरोपियन पत्रों और मुसलमानी लेखों में मिलने वाली तारीखों से मिलान करने का काम शक्य हुआ। इसके अलावा श्री दिवेकर ने 'शिव भारत' की प्रति की खोज की, इस से शिव-जन्म-तिथि के लिए उत्तम प्रकार का अभ्यन्तर प्रमाण भी मिल गया। इन सब साधनों का उपयोग कर जेधे-मिति ग्राह्य समझनी चाहिए, इस बात का प्रतिपादन करने का पहला श्रेय श्री वासुदेव शास्त्री खरे को है। इसके बाद उनके मत का समर्थन करने का काम सन् १९२१ में श्री चान्दोर करने किया। श्री ज० स० करन्दीकर ने २० मई १९२४ के "केसरी" में यह बात प्रकाशित कर यह सूचना की कि अबसे इसी तिथि को सच्ची मान कर उत्सव करना चाहिए।

इसके सिवा श्री डिस्कलकर ने बम्बई की रायल एशियाटिक सोसाइटी के फोर्ब्स कलेक्शन को देखकर उसमें की मिति इतिहास-संशोधक-मण्डल के सामने रखी। प्रसिद्ध ज्योतिर्विद् वें० वा० केतकर ने अनेक उल्लेखों के आधार पर साधारणतः शक १५५१ (सन् १६३०) के पक्ष से मिलने-जुलने वाला गणित मण्डल के सामने रखा। और श्री दत्तात्रय विष्णु आपटे ने जेधे-शकावलि के वाक्यों के अर्थ करते समय कौनसी पद्धति स्वीकार करना चाहिए और अनेक शंकाओं का किस प्रकार समाधान कर सकते हैं, उसका विचार उपस्थित किया। इस प्रकार भा० इ० स० मण्डल के सामने समय-समय पर आये हुए प्रमाण जिन-जिनको देखने को मिले, उन्हें जेधे-मिति की ग्राह्यता मान्य होगई। उसके अनुसार, श्री करन्दीकर की सूचना पर से, शिव-जन्म-तिथि का उत्सव फाल्गुन वदी तृतिया को करने की कल्पना श्री दिवेकर ने उपस्थित की। यह बात बहुतों को मान्य होगई और उसके अनुसार शिवनेरी में पहला उत्सव मनाया गया।

इस सम्बन्ध में कई आक्षेप उठ चुके हैं, परन्तु विश्वमानीयता और  
 गणित की दृष्टि से अन्न में यही निश्चिन्त मान्य सिद्ध हुई है। इसलिये यही  
 अब सर्वमान्य हो गई है।

---



## घटनावलि

सन	घटना
ईसा पूर्व ७०० तक	महाराष्ट्र में आर्यों का प्रवेश नहीं था ।
ईसा पूर्व ७०० से ईसा पूर्व ३५० तक	आर्यों का प्रवेश ।
ईसा पूर्व ३५० से ईसा पूर्व ७३ तक	महाराष्ट्र में आर्यों की वस्त्रियों और आंध्र- वंश ।
७३ से ईस्वी सन २१८ तक	आंध्रभृत्य अथवा शालिवाहन-वंश ।
२१८ से ५५० तक	अभीर राष्ट्रकूट वंश वगैरा ।
५५० से ७५३ तक	वादामी का चालुक्य वंश ।
७५३ से ९७३ तक	मान्यखेट का राष्ट्रकूट वंश ।
९७३ से ११९० तक	कल्याण का चालुक्य वंश ।
७९५ से ११९१ तक	चन्द्रादित्यपुर का यादव वंश ।
११९१ से १३२६ तक	होयसल यादव वंश ।
१३१८	देवगिरी के यादव राज्य की समाप्ति ।
१३१८ से १३४७ तक	दिल्ली के सुलतानों का शासन ।
१३४७ से १५५६ तक	वहमनी राज्य ।
१५२६ से १६५० तक	वहमनी राज्य की शाखायें ।
१६२०	शाहजी, लखुजी और मलिक अम्वर ने मिल- कर मुग़लों को हराया ।
१६२१	लखुजी जाधवराव मुग़लों से जा मिला ।
१६२२	शाहजी की रायगढ़ पर चढ़ाई ।

१६२३

१६२४

१६२५

१६२५—१६२७

१६२६

१६२७

शाहजी के प्रथम पुत्र सम्भाजी का जन्म ।  
 भानवर्षी का युद्ध और शाहजी का पराक्रम ।  
 शाहजी मलिक अम्वर से दगावकर आदिलशाह  
 से मिल गया और मरहठकर का  
 मित्रता पाया । मुसलम को मलिक अम्वर  
 ने अपने आश्रय में रखा ।  
 शाहजी बीजापुर—दखान में । वृत्त को जय-  
 रत्नगी मिला ।  
 मलिक अम्वर की मृत्यु ।  
 शाहजी का मरण ।

- शाहजी ने मुगलों को छोड़कर नासिक, जुन्नर, संगमेश्वर, पेमगढ़ में निजामशाही की स्थापना की।
- १६३३ महावतगढ़ों ने दौलताबाद लिया।
- १६३३-३६ निजामशाही बचाने के लिए मुगलों से शाहजी का युद्ध।
- १६३३-३४ शिवाजी माँ के साथ ननिहाल में (दौलताबाद)।
- १६३४ शिवाजी सहित जीजाबाई को मुगलों ने बीजापुर में पकड़ा, फिर छोड़ दिया।
- १६३६ माहुली का घेरा। शिवाजी और जीजाबाई। यहीं शाहजी आदिलशाह का नौकर बना। उसे पूना परगने का मोकासा आदिलशाही से मिला। कुतुबशाह और आदिलशाह ने मुगलों को कर देना स्वीकार किया। औरंगज़ेब दक्षिण का सूबेदार बना और सन् १६४४ तक रहा।
- १६३९ देशमुखों का बन्दोबस्त।
- १६४२ } शिवाजी कुछ दिन बीजापुर में, एक बार बंग-  
१६४३ } लोर में।
- १६४४ बेलसर की लड़ाई।
- १६४५ दाजी नरस प्रभु को बीजापुर से डाट की चिट्ठी आई।
- १६४६ शिवाजी ने राजगढ़ किला बनाया (?)। छत्रपति की पदवी धारण की (?)।



की ओर आया। मराठों ने वासोटागढ़ क़िला लिया। शिवाजी पन्हाले से खेलना उर्फ़ विशालगढ़ गया। यहाँ बाजी प्रभु का पराक्रम। शिवाजी खेलना से राजगढ़ गया। मुग़लों ने चाकण लिया और शाइस्ताख़ी पूना आया। पन्हाला देकर शिवाजी ने बीजापुर वालों से संधि की। शाइस्ताख़ी के पास शिवाजी का दूत सोनोपंत गया और वापस आया। उमरखेड़ के युद्ध में मराठों ने कारतलख़ी का पराभव किया। दाभोल और प्रभावली लेकर राजापुर की लड़ाई की।

- १६६१ शृंगारपुर लिया। सावन्त का शिवाजी द्वारा पराज।।
- १६६२ शिवाजी का शाइस्ताख़ी पर हमला। मुग़लों ने कात्रज की घाटी में धोखा खाया। शाइस्ताख़ी की बंगाल में बदली।
- १६६४ शिवाजी ने सूरत को लूटा। शाहजी की मृत्यु। मिर्जा राजा जयसिंह की दक्षिण में रवानगी। शिवाजी का खवासख़ी और बाजी घोरपड़े से युद्ध। घोरपड़े मारा गया।
- १६६५ जयसिंह की भेंट। मुग़लों से सन्धि।
- १६६६ शिवाजी औरंगज़ेब की भेंट को गया।
- १६६७ स्वराज्य में आगमन। औरंगज़ेब से सन्धि। आदिलशाह से सन्धि।
- १६६९ राजाराम का जन्म।



## मराठों का उत्थान और पतन

- १६९३ जुलफिकारख़ाँ ने जिंजी का घेरा उठा लिया ।
- १६९४ जिंजी को फिर से जुलफिकारख़ाँ ने घेरा ।
- १६९७ सन्ताजी घोरपड़े का वध ।
- १६९८ जुलफिकारख़ाँ ने जिंजी को ले लिया ।
- १६९९ राजाराम जिंजी से खेलना को गया । गदग के पास शाहजादे से लड़ाई हुई ।
- १७०० औरंगज़ेब ने सतारा को घेरा डाला । राजाराम राजगढ़ गया और उसकी मृत्यु हुई । उसका ५ वर्ष का लड़का शिवाजी राजा हुआ । मान नदी में औरंगज़ेब की सेना बह गई ।
- १७०१ औरंगज़ेब ने पन्हाला, समानगढ़, वर्धनगढ़, कलानिधी लिये । खेलना का उसने घेरा डाला । कोंडाणा घूस देकर लिया ।
- १७०२ औरंगज़ेब ने खेलना घूस देकर लिया ।
- १७०३ औरंगज़ेब ने कोंडाणा घूस देकर लिया । मराठे नर्मदा पार कर सिरांज लूट भ्रमे ।
- १७०४ तोरणा लिया । सर्जाख़ाँ से मराठों की लड़ाई । मराठों ने नर्मदा पार कर देश लूटा ।
- १७०५ मराठों ने लोहगढ़ ले लिया । औरंगज़ेब ने बाघ नगर का घेरा डाला और ले लिया । मराठों ने कोंडाणा ले लिया ।
- १७०६ धनाजी जाधव ने शाही फ़ौज से लड़ाई की । जुलफिकारख़ाँ ने घूस देकर कोंडाणा फिर से ले लिया ।
- १७०७ अहमदनगर में औरंगज़ेब की मृत्यु । आजम बाद





- १६९३ जुलफिकारख़ा ने जिंजी का घेरा उठा लिया ।
- १६९४ जिंजी को फिर से जुलफिकारख़ा ने घेरा ।
- १६९७ सन्तार्जी वोरपड़े का वध ।
- १६९८ जुलफिकारख़ा ने जिंजी को ले लिया ।
- १६९९ राजाराम जिंजी से खेलना को गया । गदग के पास शाहज़ादे से लड़ाई हुई ।
- १७०० औरंगज़ेब ने सतारा को घेरा डाला । राजाराम राजगढ़ गया और उसकी मृत्यु हुई । उसका ५ वर्ष का लड़का शिवाजी राजा हुआ । मान नदी में औरंगज़ेब की सेना बह गई ।
- १७०१ औरंगज़ेब ने पन्हाला, समानगढ़, वर्धनगढ़, कलानिधी लिये । खेलना का उसने घेरा डाला । कोंडाणा घूस देकर लिया ।
- १७०२ औरंगज़ेब ने खेलना घूस देकर लिया ।
- १७०३ औरंगज़ेब ने कोंडाणा घूस देकर लिया । मराठे नर्मदा पार कर सिरोंज लूट आये ।
- १७०४ तोरणा लिया । सर्जाख़ा से मराठों की लड़ाई । मराठों ने नर्मदा पार कर देश लूटा ।
- १७०५ मराठों ने लोहगढ़ ले लिया । औरंगज़ेब ने वाघ नगर का घेरा डाला और ले लिया । मराठों ने कोंडाणा ले लिया ।
- १७०६ धनाजी जाधव ने शाही फ़ौज से लड़ाई की । जुलफिकारख़ा ने घूस देकर कोडाण फिर से ले लिया ।
- १७०७ अहमदनगर में औरंगज़ेब की मृत्यु । आजम बाद

- शाह बन बैठा। फिर वह दिल्ली को चला गया। शाहू की मुक्ति।
- १७११ बालाजी सेनाप्रति हुआ।
- १७१२ बालाजी को पेशवा-पद प्राप्त हुआ।
- १७१९ छः सूबों की चौथाई की सनद और देशमुखी की सनद।
- १७२० बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु। बाजीराव पेशवा हुआ।
- १७२१ बालाजी बाजीराव का जन्म।
- १७२४ साखरखेड़े की लड़ाई।
- १७२८ पालखेड़ की लड़ाई।
- १७२९ जैतपुर की लड़ाई।
- १७३० सदाशिवराव भाऊ का जन्म।
- १७३१ शाहू व सम्भाजी की जखिणवाड़ी में मुलाकात। ठभई की लड़ाई।
- १७३४ राघोबा का जन्म।
- १७३७-१७३८ भोपाल का घेरा।
- १७३९ वसई का घेरा।
- १७४० मुंगी पेंचण की सन्धि। बाजीराव की मृत्यु। बालाजी बाजीराव को पेशवाई पद प्राप्त। चिमणाजी अप्पा की मृत्यु।
- १७४३ मालवा की सनद।
- १७४५ प्रथम भाधवराव का जन्म। राणोजी शिन्दे की मृत्यु। ब्रह्मेन्द्र स्वामी समाधिस्थ हुए।
- १७४८ निज़ामुलमुल्क की मृत्यु।
- १७४९ शाहू की मृत्यु।

## मराठों का उत्थान और पतन

- १७५० ताराचार्ड ने रामराजा को कैद किया ।
- १७५१ फर्रुखाबाद की चढ़ाई । कुकड़ी नदी की लड़ाई ।
- १७५२ रामदास पन्त भालकी में मारा गया ।
- १७५३ राघोबा ने अहमदाबाद जीत लिया ।
- १७५४ कुम्हेरी का घेरा ।
- १७५५ रघुजी भोंसले की मृत्यु । जयाजी शिंदे का खून ।
- १७५९ नगर का क़िला मराठों ने जीता । दूसरे आल्म-  
गीर का खून ।
- १७६० दत्ताजी शिंदे की मृत्यु । उदगीर की लड़ाई ।
- १७६१ पानीपत की तीसरी लड़ाई । बालाजी बाजीराव  
की मृत्यु । माधवराव को पेशवाई पद  
प्राप्त । ताराचार्ड की मृत्यु ।
- १७६२ घोड़ नदी की चढ़ाई ।
- १७६३ निज़ाम ने पूना प्रान्त लूटा । राक्षसमुवन की  
लड़ाई ।
- १७६४ रटेहली की लड़ाई । धारवाड़ का घेरा । अनवड़ी  
की लड़ाई ।
- १७६६ मल्हारराव होलकर की मृत्यु ।
- १७६८ धोड़प की चढ़ाई ।
- १७६९ कनकापुर की सन्धि ।
- १७७१ मोतीतालाव की चढ़ाई । शाह आलम को दिल्ली  
ले जाकर मराठों ने गद्दी पर बैठाया ।
- १७७२ जानोजी भोंसले की मृत्यु । माधवराव की मृत्यु ।
- १७७३ नारायणराव का खून ।
- १७७४ सवाई माधवराव का जन्म ।
- १७७५ सूरत की सन्धि । सावाजी भोंसले का खून ।

- १७७६ पुरन्दर की सन्धि । झूठे भाऊसाहब का खून ।
- १७७७ गंगाघाई का मृत्यु ।
- १७७९ बड़गाँव की सन्धि ।
- १७८१ सखाराम चापू की रायगढ़ में मृत्यु ।
- १७८२ हैदरअली की मृत्यु ।
- १७८३ सालघाई की सन्धि । रावोवा की मृत्यु ।
- १७८४-१७८५ दिल्ली में महादजी का ज़ोर फिरसे स्थापित हुआ ।  
चादशाह ने पेशवा के नाम वकील-इ-मुतालिक की और शिन्दे के नाम पेशवा के 'नायब' की सनदें शिन्दे के हाथ अर्पण कीं ( १७८५-१७८५ ) ।
- १७८७ लालसोट की चढ़ाई । दिल्ली में महादजी का ज़ोर एकदम कम हो गया ।
- १७८८ गोपिकाघाई की मृत्यु ( पंचवटी में ) । दिल्ली में महादजी ने फिरसे अपना ज़ोर स्थापित किया ।
- १७८९ रामशास्त्री प्रभुणं की मृत्यु । गुलामकादर का वध ।
- १७९० पाटन की लड़ाई । परशुराम भाऊ ने धारवाड़ को घेरा । मेड़ते की लड़ाई ।
- १७९१ घासीराम कोतवाल को प्राण-दण्ड ।
- १७९२ महादजी शिन्दे पृना आया । पेशवा को वकील-इ-मुतालिक की पदवी दी गई ।  
लखेरी की लड़ाई ।
- १७९३ महादजी शिन्दे की मृत्यु । हरिपन्त फड़के का स्वर्गवास ।

## मराठों का उत्थान और पतन

- १७९५ खर्डा की लड़ाई । अहिल्याबाई की मृत्यु । सवाई  
माधवराव का स्वर्गवास ।
- १७९६ चिमाजो पेशवा हुआ । दूसरा बाजीराव पेशवा  
हुआ ।
- १७९७ तुकोजी होलकर की मृत्यु । नाना फड़नवीस  
कैद हुआ ।
- १७९८ द्वायगे ने पूना के लोगों को तकलीफ़ दी ।
- १७९९ टीपू सुलतान की मृत्यु । परशुराम भाऊ की  
मृत्यु ।
- १८०० नाना फड़नवीस की मृत्यु ।
- १८०२ बसई की सन्धि ।
- १८०३ असई की लड़ाई । लासवाड़ी की लड़ाई । देव-  
गाँव की सन्धि ।
- १८०४ सुरजी अंजनगाँव की सन्धि । होलकर से अंग्रेज़ों  
की लड़ाई ।
- १८११ यशवन्तराव होलकर की मृत्यु ।
- १८१५ गंगाधर शास्त्री का खून ।
- १८१७ शनिवारवाड़े पर अंग्रेज़ों का झंडा ।
- १८१८ कोरेगाँव की लड़ाई । अष्टी की लड़ाई । बापू  
गोखले मारा गया । बाजीराव अंग्रेज़ों के  
अधीन हुआ ।
- १८५१ दूसरे बाजीराव की ब्रह्मावर्त उर्फ़ विठूर में मृत्यु ।
- १८५८ झाँसी की रानी की मृत्यु । दूसरे नानासाहब  
की नेपाल में मृत्यु ।

# अशुद्धि-संशोधन

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१४	१	दिल्ली	आगरा
१७	२१	शुजाउद्दौला	सिराजुद्दौला
२५	६	शूपरिक	शूपारिक
२७	२०	शसशर्ता	ससशती
२८	२३	अभरि	अभीरळ
२९	२१	मानन्य	मानव्य
३४	१	तैलव	तैलपळ
७१	२२	पिंपद्रनेर	पिंपलनेर
७६	१२	उन्हें	मुझे
७७	२३	कयति	कर्यात
८७	११	भागों	भागों
९३	६	अवधे	अवधे
९७		अध्याय नं०	
१०७	११	७	९
११५	२३	बीजापुर चढाई	बीजापुर पर चढाई
११९	७	१६६९	१६५९
१२०	४	भयो	भी
१२०	१०	चौर	और
१२१	२३	जुन्नार	जुन्नर
१२७	१६	भाऊसुरे	मालसुरे
१२८	३	खम्भाजी	सम्भाजी
१३६	१५	मदद न की	मदद की
		कञ्जमघाट	कञ्जनघाट

भारतों का उत्थान और पतन

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	सुद्ध
१४०	९	वाई	वाई
१४३	९	गुस्से	गुस्ता
१४४	१२	पड़ा	पड़े
१४५	१७	ज्येष्ठ	वह ज्येष्ठ
१६०	११	अंजनबेल	अंजनबेल
१६७	४	उचीर	डचीर
१७०	२०	पक्षकारों	पक्षकारों
१९८	१८	सामान	समान
१९९	११	सिद्धी	सिद्धी
२०४	२४	आपजी	आवजी
२०६	५	भयंकर	भयंकर
२०६	२४	खेदण्डा	खेदण्डा
२११	१०	छन्दोगा माल्य	छन्दोगामाल्य
२११	१२	इतिकन्वाँ	इतिकदवाँ
२३०	३	तीरणा	तोरण
२३०	९	त्रिम्यक	त्रिम्यक
२३४	७	कदमवाडे	कदम वाण्डे
२३४	७	परशोजी	परसोजी
२३९	२	शाहू	शाहू को
२३९	१२	खटाकर	खटाकर
२४३	२३	सासवड़	सासवड़
२५६	२२	गुकारत	गुजरात
२६०	२०	उभई	उभई
२६७	२	स्वामी रहता था। सिद्धी ने	सिद्धीने
२७६	१४	खेदण्डा	खेदण्डा
२३६			

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२८१	२४	गुत्ता	गुत्ती॥
३००	२२	वूसी	वूसी॥
३१०	१५	वज़ीरख़ाँ	नजीबख़ाँ
३१२	१३	वध	वन
३४४	२१	लड़ने लगा था	लड़ने में लगा था
३४७	२०-२१	शाह आलम ने	शाह आलम से
३४७	२२	मीरकासिम से	मीरकासिम ने
३७१	९	अमाद	अमोद
३७२	१४	अन्याय	अन्याय्य
३८८	९	देने	देने
३९४	२१	फौज	फौजें
४००	३	समय का	समय का जो
४०४	अध्याय नं०	२६	२८
४१४	१९	मुल्क का	मुल्क को
४१६	१३	निज़ाम ने	निज़ाम से
४२४	१७	उसकी	उसकी
४३८	१०	राज्य	राजा
४३९	२२-२३	दालाजी बाजीराव ने	दालाजी विश्वनाथ ने
४४४	१०	चरोतर	चरोखर
४८८	२०	होगये थे	होगया था
४४९	८	कुलकर्णीपरन	कुलकर्णीपन
४५०	६	समय	समान
४५१	२	वैतन	वतन
४५५	२१	न होती थी	होती थी
४५८	१६	जमावन्दी की वसूली	जमावन्दी का टंका



## मराठी का उत्थान और पतन

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
४६२	१७	है	रहे
४६४	७	बुरे हैं	बुरे हुए हैं
४६६	९	देश की मजलिस	देशक की मजलिस
४६७	५	साक्षीदार	साक्षी
४६९	३	हुए	गये
४७३	१६	सेनादार हजारी	सेना-दारह हजारी
४८७	११	करोड़ों	कन्हाड़ों
५०९	१६	सार्दा	सादी
५०९	१६	भी	की
५१४	१६	मापा	भापा
५१६	१९	वारहवीं	तेरहवीं
५१८	१	यह	हेमाद्रि
५१९	३	रखमावाड़ी	रखमावाड़ी
५२१	२४	बहुत ही परिश्रम करना पड़ता था	बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ता था
५२३	२	भागवन	भागवत
५२६	९	शक्ति-काल में	इसी काल में
५२७	१०	मराठी का लेना मुसल- मानी काल में ही शुरू हो गया था	मराठी भाषा मुसलमानी काल में ही लेने लग गई थी
५३१	९	अखीर	आखिर
५३३	२४	दृश्य	दृश्य
५३४	५-६	विपरियास	विपर्यास
५३५	१०	वैदवणगीत	वैष्णवगति
५३६	१०	ज्ञानेश्वर से	ज्ञानेश्वर के
६१६			

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
५३६	११	आश्वलापन	आश्वलायन
५४१	११	पसने	उसने
५४८	८	सादा	सादी
५५१	१७	महाराष्ट्र	महाभारत
५५५	१-२	सेतमालिका	संतमालिका
५५५	४	भक्तमाल	भक्तमाला
५५५	९	हेगराज	हेमराज
५५५	१०	गौरा	गौरा
५५५	१५	'शतमालन'	संतमाला
५५६	२२	मणिमाल	मणिमाला
५६०	१	काशीजोन	काशी जाने
५६०	४	व्यंदेश	व्यंकदेश
५६०	६	पाण्डरी	पाण्डरी

ये शब्द और जगह भी आये हैं, वहाँ भी ऐसे ही शुद्ध किये जायँ ।



## सस्ता-साहित्य-मण्डल अजमेर के

### प्रकाशन

- |                       |        |                       |       |
|-----------------------|--------|-----------------------|-------|
| १-दिव्य-जीवन          | 1=)    | १५-विजयी चारडोली      | २)    |
| २-जीवन-साहित्य        |        | १६-अनीति की राह पर    | ॥)    |
| (दोनों भाग)           | १=)    | १७-सोताजी की अग्नि-   |       |
| ३-तामिलवेद            | ॥॥)    | परीक्षा               | 1-)   |
| ४-जैतान की लकड़ी      | ॥॥=)   | १८-कन्या-शिक्षा       | 1)    |
| ५-सामाजिक कुरीतियाँ   | ॥॥=)   | १९-कर्मयोग            | 1=)   |
| ६-भारत के स्त्री-रत्न |        | २०-कलवार की करतूत     |       |
| (दोनों भाग)           | १॥॥1-) | (अप्राप्य)            | -)॥॥  |
| ७-अनोखा !             | १1=)   | २१-व्यावहारिक सभ्यता  | 1)॥   |
| ८-ग्रहचर्य-विज्ञान    | ॥॥1-)  | २२-अंधेरे में उजाला   | 1=)   |
| (दूसरी बार छप गया)    |        | २३-स्वामीजी का बलिदान |       |
| ९-यूरोप का इतिहास     |        | (हिंदू मुसलिम समस्या) | 1-)   |
| (तीनों भाग)           | २)     | २४-हमारे ज़माने की    |       |
| १०-समाज-विज्ञान       | १॥॥)   | गुलामी (अप्राप्य)     | 1)    |
| ११-खहर का सम्पत्ति-   |        | २५-छी और पुरप         | ॥)    |
| शास्त्र               | ॥॥=)   | २६-घरों की सफाई       | 1)    |
| १२-गोरों का प्रभुत्व  | ॥॥=)   | २७-दया करें ?         |       |
| १३-चीन की आवाज़       | 1-)    | (दोनों भाग)           | १॥॥=) |
| १४-दक्षिण आफ्रिका का  |        | २८-हाथ की कताई-       |       |
| सत्याग्रह             |        | हुनाई (अप्राप्य)      | ॥=)   |
| (दोनों भाग)           | १1)    |                       |       |

- २९-आत्मोपदेश (अप्राप्य) 1)
- ३०-यथार्थ आदर्श जीवन  
( अप्राप्य ) 11-)
- ३१-जय अंग्रेज नहीं  
आये थे— 1)
- ३२-गंगा गोविन्दसिंह 11=)
- ३३-श्रीरामचरित्र १1)
- ३४-आश्रम-हरिणी 1)
- ३५-हिन्दी-मराठी-कोष २)
- ३६-स्वाधीनता के सिद्धांत 11)
- ३७-महान् मातृत्व की  
ओर— 111=)
- ३८-शिवाजी की योग्यता 1=)
- ३९-तरंगित हृदय  
( अप्राप्य ) 11)
- ४०-नरमेध ! १11)
- ४१-दुखी दुनिया 11)
- ४२-ज़िन्दा लाश 11)
- ४३-आत्म-कथा (दोनोंखण्ड)  
अजिल्द २)  
सजिल्द २11)
- ४४-जय अंग्रेज आये  
( जून्त ) १1=)
- ४५-जीवन-विकास  
अजिल्द १11)  
सजिल्द २11)
- ४६-किसानों का विगुल =)
- ४७-फौसी ! 11)
- ४८-अनासक्तियोग  
( दूसरी बार छप गई )  
( म० गाँधी ) =)
- ४९-स्वर्ण-विहान  
( नाटिका ) 1=)
- ५०-मराठों का उत्थान  
और पतन २11)

सस्ता-साहित्य-मण्डल द्वारा प्रकाशित

कुछ

अनमोल और क्रांतिकारी प्रकाशन

१—जब अंग्रेज आये—

[ अजमेर-मेरवाड़ा की सरकार द्वारा जूथत ] १।=)

२—नरमेध ! [ स्वार्थानता का मार्ग-भ्रदर्शक ] १।।)

३—स्वार्थानता के सिद्धान्त ॥)

४—विजयी वारद्योर्वा २)

५—आत्मकथा [ दोनों ग्वंट ] सजिल्द २।।) अजिल्द २)

६—तामिल वेद ॥।।)

७—जीवन-साहित्य [ दोनों भाग ] १=)

८—धैतान की लकड़ी ॥।।=)

९—जीवन-विकास सजिल्द १।।) अजिल्द १।।)

१०—पाँसी ! ॥)

पता—

सस्ता-साहित्य-मण्डल, अजमेर ।



सस्ता-साहित्य-मण्डल से प्रकाशित  
होने वाले ग्रन्थ

- १—स्व-गत ( श्री हरिभाऊ उपाध्याय )
- २—शिक्षा का आधार
- ३—लोकनायक श्रीकृष्ण
- ४—विवाह-मीमांसा
- ५—सत्याग्रह का इतिहास
- ६—ग्राम-संगठन

